

आगमोदयसमिति तरफथी छपाएला पुस्तको.



अंगानि	उपागानि
× १. आचारांग	× १. उवाई
२. सूयगढांग	+ २. रायपसेणी
* ३. स्थानांग	× ३. पन्नवणा
× ४. समयायाग	४. सूर्यमङ्गलिः
* ५. भगवतोसूत्र	५. निरयावली
× ६. ज्ञाताधर्मकथा	मूलसूत्राणि
× ७. उपासकदशांग	× १. नदीसूत्र
× ८. अतकृद्दशांग	× २. आवश्यकसूत्र
× ९. अनुत्तरोपपातिक	३. ओषनिर्युक्तिः
× १०. प्रश्नव्याकरणं	
× ११. विपाकसूत्रं.	

हालमा छपाता पुस्तको.

अनुयोगद्वारद्वितीयावृत्तिः,

नदीसूत्रद्वितीयावृत्तिः

नदी. आव. विगेरे सातसूत्रोना सूत्रादिनी अकारादि-
अनुक्रमणिका.

विशेषावश्यकभाषान्तर, विशेषावश्यकगाथानी अकारादि,
विचारसारप्रकरणम्



× आ निशानीवाळा शिलकमा नथी

* आ निशानीवाळाना बीजा बीजा भाग शिलकमा थोडा छे

- आ निशानीवाळा थोडावखतमा छपाइ बहार पडशे

उपक्रमः



इह हि जगति अल्पीयसा परिश्रमेण भूरिधिपयाणामवबोधकरणाय प्रवर्तन्ते विद्याविलासिनः प्रेक्षावन्तः । अन्वेपन्ते च तादृशं ग्रन्थम् । तदर्थिना च भिन्नभिन्नप्रभृतविषयप्रतिपादकश्रीसिद्धान्तप्रवचनसारोद्दारादिशास्त्रदोहनरूपप्रकरणमिदमतीवोपयोगीति मत्वा परोपकारपरायणैरागमोद्धारकजाचनादायकाचार्यवर्यश्रीआनन्दसागरसूरिभिरस्य प्रकरणस्य सशोधनमुद्रापणादौ मूयान् प्रयासो व्यधायि । आशासेऽहं च परिश्रममेतं प्रस्तुतप्रकरणस्य जाचनाविचारणानुष्ठानेन सफलीकरिष्यन्ति विपश्चित इति ।

अस्य प्रकरणस्य च निर्मातारः श्रीप्रद्युम्नाचार्या एव । यद्यपि पतन्नामान अष्टौ सूरयः सजाताः, तथापि ये षादिचूडामणिश्रीधर्मघोषसूरिवरशिष्याचार्यदेवप्रभसूरिशिष्या त एव पतत्कर्तृत्वेन ज्ञेयाः । पतच्च प्रकृतप्रकरणस्य प्रारम्भभागावलोकनात् सुनिश्चितमेव ।

एषा सूरीणां सत्तासमयश्च विष्णुमार्कीयचतुर्दशतमशताब्देव । प्राचीनाश्चते सूरयः श्रीरत्नशेखरसूरिभिः श्राद्धविधौ अक्षतादेर्निर्मात्यत्रस्य केवलपूज्यनामभिरेव दर्शितत्वात् । आदौ चास्य पुस्तकस्यातिमहतो दुर्गमभाष्यमहोदधेरुद्धृत्य पाठ्या गाथा मुद्रिता या समग्रभाष्यस्य पठनेऽसमर्थानामवश्यं करिष्यन्त्युपकारमित्याशास्ते माणिक्यसागर १९७९ पौषशुक्लपूर्णिमा

मदसोर (मालवा)

वादिचूडामणिश्रीधर्मघोषसूरिशिष्यश्रीदेवमभसूरिशिष्य-
प्रद्युम्नसूरिसदृश्यस्य

श्रीविचारसारस्य विषयानुक्रमः

द्वाराङ्क.अ.गा.	विषय	द्वाराङ्क.अ.गा.	विषयः
१	९ मङ्गलपरम्परानि- देशाभिधेयादि	१५ ८९	॥ पितरः
		१६ ९०	॥ पितृणा गतिः
२	४० अवर्सापणीपडरक- दशकल्पवृक्ष कुलक- रपडरकनरायुपादि	१७ ९२	॥ मातरः
		१८ ९४	॥ मातृणा गतिः
		१९ ९५	चतुर्दश स्वमाः
३	४१ अकर्मभूमयः	२० ९७	षट्पञ्चाशदिक्रुमार्यः तत्कार्याणि च
४	४२ कर्मभूमयः		
५	४४ अनार्यदेशाः	२१-१०३	चतुष्पष्टिरिन्द्राजिना- भिवेकश्च
६	५० आर्यदेशास्तद्राजधा- न्यः		
७	५४ विंशतिः स्थानकानि	२२-१०५	जिनाना जन्मनक्षत्राणि
८	५६ अर्हज्जेदचतुष्कम्	२३-१०७	॥ जन्मराशयः
९	५९ भरते अतीतजिनाः	२४-१०९	॥ लाञ्छनानि
१०	६४ ॥ भविष्यजिनाः	२५ १११	॥ वर्णाः
११	॥ वर्तमानजिनाः	२६ ११३	॥ जन्मातिशयाः
१२	७९ वर्तमानजिनाना सम्यक्तवाद्भवाः	२७-११४	॥ देहमानम्
		२८-११८	॥ कुमारराज्यकालः
१३	८३ अर्हदादिपूर्वगतयः	२९-१२२	॥ चरवरिकादानम्
१४	८६ अर्हता जन्मनगराणि	३०-१२५	लोकान्तिका देवाः

- ३१-१२८ जिनानां व्रतपरिवारे
लिङ्गादि
- ३२- जिनानां व्रतशिविकाः
- ३३-१२९ ,, व्रतावस्था
- ३४-१३२ ,, व्रतस्थानम्
- ३५-१३३ ,, व्रततपः
- ३६-१३७ ,, प्रथमपारणकम्
- ३७-१४१ ,, ,, दातृनामानि
- ३८-१४४ ,, छद्मस्थकालः
- ३९-१४५ ,, ज्ञानतपः
- ४०-१४७ ,, ज्ञानोत्पत्तिका-
लस्थाने
- ४१-१५० ,, ज्ञानतरुनामानि
- ४२-१५८ जिनाना ज्ञानोत्पत्त्य-
तिशयाः
- ४३ १७० ,, समवसरणम्
- ४४-१७३ पारितोषिकदानम्
- ४५-१७६ जिनानामात्रगणभृ-
न्नामानि
- ४६-१७९ जिनाना गणभृन्मानम्
- ४७-१८२ जिनाना साधुमानम्
- ४८-१८४ ,, प्रवर्तिनीमानम्
- ४९-१८८ ,, साध्वीमानम्
- ५०-१९० ,, सर्वसाधुसा-
ध्वीमानम्
- ५१-१९३ प्राभातिककृत्यप्रति-
क्रमणे
- ५२-१९५ सा-वतिचाराः
- ५३- पण्मासीतपश्चिन्ता
- ५४-१९८ जिनकल्पिकानामुप
करणसंख्या
- ५५-२२० स्थविराणां ,, ,, दि
- ५६-२२३ साध्वीना ,,
- ५७-२२४ जिनकल्पिकसंख्यै-
कवसती
- ५८-२२६ युगप्रधानसंख्या
- ५९-२२९ द्रव्याचार्यसंख्या
- ६०-२४१ गुरुगुणाः गुरुवचस्त-
त्कुलवासमहिमा
- ६१-२४५ अशुद्धशुद्धैः प्रतिचर-
णम्
- ६२-२४६ साधुविहारस्वरूपम्
- ६३-२४७ त्रयोदश क्षेत्रगुणाः
- ६४-२४८ पञ्चावग्रहाः
- ६५-२५० दशधौघसामाचारी
- ६६-२५१ चक्रवालसामाचारी
- ६७-२५६ क्षेत्रातीतकालातीत-
मानातीतानि
- ६८-२५८ जलसचित्ताकालः
- ६९-२६० द्वाविंशतिः परीपहाः
- ७०-२६१ सप्त मण्डल्य.


७१-२६२ प्रायश्चित्तदशकम्	९४ जिनानां प्रथमश्रावकाः
७२-२६३ आलोचनादायफा- न्वेषणा	९५-३८१ ,, श्रावकसंख्या
७३-२६४ तीर्थतपः	९६-३८६ ,, श्राविकासंख्या
७४-२६६ उपधिप्रक्षालनकालः	९७ ३८९ श्रावकगुणाः
७५ २६९ वसतिशुद्धिः	९८-४०२ श्रावकधर्मः
७६-२७२ शय्यादानगुणाः	९९-४०६ श्रावकप्रताप्रतिचाराः
७७ २७८ पादोनप्रहरादिमानम्	१०० ४०९ ज्ञानदर्शनचारिणाचाराः
७८-२८९ चरणसप्ततिः	१०१ ४१० तपोवोर्यानिचाराः
७९-३०८ करणसप्ततिः	१०२-४११ सलेखनाऽतिचाराः
८०-३२२ प्रतिलेखना ग्रासैषणा च	१०३ ४२४ प्रतातिचाराः
८१-३२३ पिण्डपानैषणासप्तके	१०४-४२५ श्राद्धप्रतिमाः
८२-३२९ बस्त्रग्रहणविधानम्	१०५-४२९ साधर्मिकवात्सल्यम्
८३ ३३० यतिवस्त्रस्य मूल्यावधिः	१०६-६३१ जिनाना यक्षाः
८४-३३१ पात्रलक्षणम्	१०७ ४३३ ,, यक्षिण्यः
८५ ३३७ दण्डलक्षणम्	१०८, ४३४ ,, मोक्षतपः
८६ ३४१ क्षेत्रादिनाऽचित्तत्वम्	१०९-४३८ ,, साधवः
८७ ३४३ विनयभेदाः	११०-४४० ,, मोक्षस्थानानि
८८ ३५४ पञ्चचत्वारिंशदागमाः	१११ ४४४ ,, कल्याणकन क्षत्राणि
८९ ३६२ शीलाङ्गसहस्राष्टाद- शकम्	११२-४४६ ,, मोक्षसंस्थानानि
९० ३६४ उपश्रमश्रेणिः	११३ ४५० विहरज्जिनसंख्या
९१-३६६ क्षपकश्रेणिः	११४ ४५२ जिनानाकल्याणकतपः
९२-३७६ प्रतिक्रमण (५) सं- स्कारविधिः	११५-४५८ जिनानामन्तराणि
९३-३७७ निशाजागरणविधिः	११६ ४६० तीर्थविच्छेदकालः
	११७ ४६१ अष्टमहापातिहार्याणि
	११८ ४६३ अष्टादश दोषाः

- ११९-४६८ आश्वर्यदशकम्
 १२०-४७२ वीरतपः
 १२१-४७६ षकादश रुद्राः
 १२२-४७७ वीरे वद्धतीर्थाः
 १२३-४७८ वीरस्खलनाः
 १२४-४७९ वीरोपसर्गाणां ज-
 घन्यादि
 १२५ ४८१ दश परमश्राद्धाः
 १२६-४८२ चेटकमहाराजपुत्र्यः
 १२७-४८४ गौतमात्रा गणधराः
 १२८-४९१ कटादि, व्युच्छिन्ना-
 नि वस्तूनि
 १२९ अन्तकृद्भूमिः
 १३०-५१२ कल्किनन्दशककालादि
 १३१-५१३ शककालज्ञानम्
 १३२-५१४ विक्रमकालज्ञानम्
 १३३-५१९ निन्हवाः
 १३४-५२० दिगम्बरोत्पत्तिकालः
 १३५-५३५ स्थूलभद्रस्य भगिन्यः
 तत्स्खलना वज्रस्वामी आ-
 र्यसुहस्ती कालिकाचार्यो
 हरिभद्रसूरिः वप्पभट्टिसुरि-
 दुष्पसहादि
 १३६-५६१ चक्रिणा नगराणि
 पितरो मातरो नामानि वर्णः

- धयो देवनरपतियुवतिपदा-
 तिहयगजरथ संवाधखेटग्रा-
 माकरपुरद्रोणमुखमहम्बादि-
 संख्या उत्पत्तिकालो गतिश्च
 १३७-५८८ वासुदेवानां नागराणि
 पितरो मातरो बलदेवमातरो
 नामानि प्रतिवासुदेवाना
 च वर्णो देहमान गोत्रमायुः
 रत्नानि उत्पत्तिकालो ग-
 तिर्वलं कोटेशिलोत्पादन
 १३८-६१३ चैत्यप्रकाराः प्रतिमा-
 स्वरूपं पूजाऽष्टमङ्गलमारा-
 त्रिकं शाश्वत्यः स्वर्गीयाश्च
 प्रतिमाः
 १३९-६२० विरहे स्थापना
 १४०-६३२ जिनभवनकारणाधि-
 कारी दलं प्रतिष्ठा च
 १४१-६३३ प्रतिमालक्षणम्
 १४२-६३७ प्रतिष्ठा
 १४३-६३९ जिनगृहगमनम्
 १४४-६४३ पूजायाविधि प्रकाराश्च
 १४५-६५७ देवद्रव्यभक्षणादिफलम्
 १४६-७१७ चैत्यवन्दनविधिः
 २५५ द्वाराणि

- १४७ ७५० गुरुवन्दनविधिः प्र
तिलेखनाः (२५) आच-
र्यकानि (२५) आशा-
तनाः (३३) दोषाः (३२)
- १४८-७७८ प्रत्याख्यान तदाकां-
राः आहारभेदाः विकृतयः
शुद्धयः
- १४९-७९९ जीवस्वरूपभेदादिस-
मूर्च्छिममनुष्यस्थानम्
- १५० ८०१ चतुरशीतिर्लक्षणयोनयः
- १५१-८४८ अजीवपुण्यपापाश्रव-
सवरनिर्जराबन्ध (कर्ममू-
लोत्तरभेद) भाषाः
- १५२-८५० सिद्धभेदाः
- १५३-८५६ सिद्धाना स्थित्यादि
- १५४-८८१ आराधनाविधिः
- १५५-८९७ आज्ञागमाचरणाभि-
वर्त्तनम्
- १५६-८९९ प्रकरणफलम्
- १५७ ९०० उपसंहारः
इति विषयानुरूपः

। श्रीविशेषावश्यकभाष्यस्य विशेषोपयुक्ता गाथाः ।



पञ्चा सिक्खावयमत्यग्गहणं च अनिअओ वासो ।
 निप्फत्ती य विहारो सामायारी ठिई वेव ॥ ७ ॥
 पज्जायाऽणभिधेय ठिअमण्णत्थे तयत्थनिरवेक्खं ।
 जाइच्छिअं च नाम जाव दवं च पाएण ॥ २५ ॥
 जं पुण तयत्थमुत्तं तयभिप्पाएण तारिसागारं ।
 कीरइ व निरागारं इत्तरमियरं व सा ठवणा (२६)
 अहवा वत्थुऽभिहारं नामं ठवणा य जो तदागारो ।
 कारणया से दव्व कज्जावत्तं तय भावो ॥ (६०)
 जं वत्थुमत्थि लोए चउपज्जायं तय सवं । (७३)
 जं सामि-काल-कारण-विसय-परोक्खत्तणेहिं तुछाई ।
 तवभावे सेसाणि य तेणाईए मड-सुयाई ॥ (८५)
 काल-विवज्जय-सामित्त-लाभसाहम्मओऽवही ततो ।
 माणसमित्तो छउमत्थ-विसय-भावादिसामण्णा ॥ (८७)
 अन्ते केवलमुत्तमजइसामित्तावसाणलाभाओ । (८८)
 एगंतेण परोक्खं लिंगियमोहाइयं च पच्चक्खं ।
 इंदिय-मणीभवं जं त सववहारपच्चक्खं ॥ (९५)
 लक्खणमेआ हेऊफलभावओ मेय-इंदियविभागा ।
 वाग-क्खर-मूए-यरमेआ मेओ मइसुयाण ॥ (९७)
 सद-सदविसेसणाओ भवहेऊ जदिच्छिओवलम्भाओ ।
 नाणफलाभावाओ मिच्छिद्विद्विस्स अण्णाण ॥ (११५)

सौईदिओवलद्री होइ सुयं सेसयं तु मइनाणं ।
 मो ण दव्वसुयं अक्खरलंभो य सेसेसु ॥ (११७)
 पण्णवणिज्जा भावा अणंतभागो उ अणभिलप्पाण ।
 पण्णवणिज्जाण पुण अणतभागो सुयनिवद्धो ॥ (१४१)
 जं चोद्दसपुवधरा छट्टाणगया परोप्पर होंति । (१४२)
 पुव्व सुयपरिकम्मियमइस्स जं सपय सुयाईय ।
 तं निस्सियमियर पुण अणिस्सिय मइचउक्क त ॥ (१६९)
 सव्वत्ये—हा—वाया निच्चउयओ मोत्तुमाइसामण्ण ।
 सव्ववहारत्थ पुण सव्वत्याऽवग्गहोऽवाओ ॥ (२८५)
 एग जाण सव्व जाणइ सव्वं च जाणमेग ति ।
 इय सव्वमय सव्वं सम्मदिठ्ठिस्स ज वत्थु ॥ (३२०)
 वक्खणओ विसेसो न हि सदेहादलक्खणया । (३४७)
 सच्चा हिया सयामिह सतो मुणओ गुणा पयत्या वा ।
 तन्निवरीआ मोसा मीसा जा तदुभयसहावा ॥ (३७६)
 अणहिगया जा तीसु वि सद्धो च्चिय केवलो असच्चमुसा । (३७७)
 कत्थइ देसग्गहण कत्थइ घेप्पति निरवसेसाइ ।
 उक्कम—कमजुत्ताइ कारणवमओ निउत्ताइ ॥ (३८८)
 पइसमयकज्जकोडीनिरविकखो घट्टगयाहिलासोसि ।
 पइसमयकज्जकाल धूलमइ । घट्टम्मि लाएसि ॥ (४२३)
 दो वारे विजयाईसु गयस्स तिनऽच्चुए अहव ताइ ।
 अइरेग नरभविय नाणाजीवाण सव्वद्ध ॥ (४३६)
 एक्केक्कमइक्खर पुण स—परपज्जायभेयओ भिन्नं ।
 त सव्वदव्व—पज्जायरासिमाण मुणेयैव ॥ (४७७)

चाय-सपज्जायविसेसणाडणा तस्स जमुवउज्जति ।

सधणमिवासवद्ध भवति तो पज्जया तस्स ॥ (४८०)

जह दुव्वयणमवयणं कुच्चियसील असीलमसईए ।

भण्णइ तह नाणं पि हु मिच्छादिद्विस्स अण्णाणं ॥ (५२०)

पंचण्हमूहसण्णा हेऊसण्णाय विट्टियार्इणं ।

सुरनारय-गव्भुव्वभवजीवाण कालिगी सण्णा ॥ (५२३)

खीणम्मि उइण्णम्मि य अणुदिज्जते य सेसमिच्छत्ते ।

* अतोमुहुत्तमेत्तं उवसमसम्मं लहइ जीवो ॥ (५३०)

मिच्छत्त जमुइण्णं त खीण अणुइय च उवसंत ।

मीमीभावपरिणय वेइज्जत खओवसमं ॥ (५३२)

चोदस दस य अभिन्ने नियमा मम्मत्त सेसए भयणा ।

मड-ओहिविवज्जासेऽवि होइ मिच्छ न उण सेसे ॥ (५३४)

नाणमवाय-धिईओ दसणमिद्ध जहोग्गहे-हाओ ।

तह तत्तई सम्म रोइज्जइ जेण त नाणं ॥ (५३६)

मिच्छ-भवतर-केवल-गेलन्न-पमायमाइणा नासो । (५४०)

गणहर-थेरकय वा आएसा मुक्कवागरणओ वा ।

धुव-चलविसेसओ वा अगा-णगेषु नाणत्त ॥ (५५०)

तुच्छा गारववहुला चलिंदिया दुव्वला धिईए य ।

इय अइसेमऽज्जयणा भूयावाओ य नो त्यीण ॥ (५५२)

“ सुत्तत्यो खलु पढमो वीओ निज्जुत्तिमीसिओ भणिओ ।

तइओ य निरवसेसो एस विही होइ अणुओगे ॥ ” (५६६ नि०)

उदय-खय-खओवसमो-वसमा ज च कम्मणो भणिया ।

दव्व खित्तं काल भव च भाव च सपप्प ॥ (५७५)

- “ ओराल-विउता-हार-तेय-भासा-णपाण-मण-कम्मे ।
अह दववग्गणाण फमो त्रिवज्जासओ स्सेत्ते ॥ ” (६३१ नि.)
- एवमजोग्गा जोग्गा पुणो अजोग्गा य वग्गणाऽणंता ॥ (६३६)
- “ कम्मोवरिं धुवेयर-सुण्णेयरवग्गणा अणंताओ ।
चउधुवणंतरतणुवग्गणा य मीसो तहाऽचित्तो ” (६३८ नि.)
- “ ओरालिय-वेडव्विय-आहारग-तेय गुरुलहू दव्वा ।
कम्मग-मण-भासाइ एयाइ अगुरुलहुयाइं ॥ ” (६५८ नि.)
- “ तप्पागारे पल्लग-पढहग-ज्झल्लरि-मुइग-पुप्फ-जवे ।
तिरिय-मणुएसु ओही नाणाविहसठिओ भणिओ ॥ ” (७०६ नि.)
- नेरइय-भवण-वणयर-जोइस-कप्पालयाण-मोहिस्स ।
गेविज्जणुत्तराण य होतागिइओ जहासख ॥ (७०७)
- “ फट्ठा य असखेज्जा सखेज्जे यावि एगजीवस्स ।
एगप्फहुडुवओगे नियमा सव्वत्य उवउत्तो ” ॥ (७३८ नि.)
- “ आमोसहि विप्पोसहि खेलोसहि जल्लमोसही चेव ।
सभिन्नसोय उजुमइ सव्वोसहि चेव बोधवो ॥ ७७९ नि ॥
- चारण आसीविसा केवली य मणनाणिणो य पुव्वघरा ।
अरहत-चक्कवट्ठी बलदेवा वासुदेवा य ॥ ” (७८० नि)
- अणुयोजणमणुओगो सुयस्स नियएण जमभिहेएणं ।
वावारो वा जोगो जो अणुरूबोऽणुकूलो वा ॥ ८४१ ॥
- अहवा जमत्थओ थोव-पच्छभावेहिं सुयमणुं तस्स ।
अभिहेए वावारो जोगो तेणं व सबधो ॥ ८४२ ॥
- सिक्खियमत्तं नीय हिययम्मि ठिय जिय दुय एइ ।
संखियवण्णाइ मिय परिजियमेत्तुकमेणं पि ॥ ८५१ ॥

जह सिक्खियं सनामं तह तं पि तहा ठियाइ नामसमं ।
 गुरुभणियघोससरिसं गहियमुदत्तादओ ते य ॥ ८५२ ॥
 न विहीणक्खरमहियक्खर च वोच्चत्यरयणमाल व ।
 वाइद्धक्खरमेयं वच्चासियवण्णविण्णासं ॥ ८५३ ॥
 न खलियमुवलहल पिव अमिलियमसरूवधण्णमेल्ले व ।
 वोच्चत्यगत्यमहवा अमिलियपय-वक्कविच्छेयं ॥ ८५४ ॥
 न य विविहसत्यपल्लवविमिस्समट्ठाणच्छिन्नगहिय वा ।
 विच्चामेलिय कोलियपायसमिव भेरिकंय व ॥ ८५५ ॥
 मत्ताइनिययमाणं पडिपुण्ण छदसाऽहवत्येणं ।
 नाकर्खाइसदोसं पुण्णमुदत्ताइयोसेहिं ॥ ८५६ ॥
 कंठोट्टविप्पमुक्क नावत्तं चाल-मूयभणिय व ।
 गुरुवायणोवयात न चोरियं पोत्थयाओ वा ॥ ८५७ ॥
 उवउत्तस्स उ खलियाइय पि सुद्धस्स भावओ सुत्त ।
 साहइ तह किरियाओ सवाओ निज्जरफलाओ ॥ (८६०)
 समणेणं सावएण य अबस्सकायवय हवइ जम्हा ।
 अतोअहो-निसिस्स उ तम्हा आवस्सर्यं नाम ॥ (८७३)
 सुय-सुत्त-गंय-सिद्धंत-सासणे आण-वयण उवएसो ।
 पण्णवण आगमोऽवि य एगट्ठा पज्जया सुत्ते ॥ (८९४)
 सावज्जजोगविरई उक्किचण गुणवओ य पडिवत्ती ।
 खलियस्स निंदणा वणतिगिच्छ गुणधारणा चेव ॥ (९०२)
 संबधोवक्कमओ समीपमाणीय नत्यनिक्खेव ।
 सत्थं तओऽणुगम्मइ नएहिं नाणाविहाणेहिं ॥ (९१६)
 सीसो गुरुणो भाव जमुवक्कमए सुय पसत्यमणो ।

- “ ओराल-विउता-हार-तेय-भासा-णपाण-मण-कम्म ।
अह दव्वग्गणाण कम्मो विवजासओ खेत्ते ॥ ” (६३१ नि.)
- एवमजोग्गा जोग्गा पुणो अजोग्गा य वग्गणाऽणंता ॥ (६३६)
- “ कम्मोवरिं धुवेयर-सुण्णेयरवग्गणा अणंताओ ।
चउधुवणंतरतणुवग्गणा य मीसो तहाऽचित्तो ” (६३८ नि.)
- “ ओरालिय-वेउविय-आहारग-तेय गुरुलहू दव्वा ।
कम्मग-मण-भासाइ एयाइ अगुरुलहूयाइ ॥ ” (६५८ नि.)
- “ तप्पागारे पल्लग-पढहग-ज्झल्लरि-मुडंग-पुप्फ-जवे ।
तिरिय-मणुएसु ओही नाणाविहसठिओ भणिओ ॥ ” (७०६ नि.)
- नेरइय-भवण-वणयर-जोइस-कप्पालयाण-मोहिस्स ।
गेविज्जणुत्तराण य होंतागिइओ जहासखं ॥ (७०७)
- “ फट्ठा य असखेज्जा सखेज्जे यावि एगजीवस्स ।
एगप्फइडुवओगे नियमा सब्वत्थ उवउत्तो ” ॥ (७३८ नि.)
- “ आमोसहि विप्पोसहि खेलोसहि जल्लमोसही चेव ।
सभिन्नसोय उजुमइ सब्वोसहि चेव बोधवो ॥ ७७९ नि ॥
- चारण आसीविसा केवली य मणनाणिणो य पुव्वधरा ।
अरहत-चकवट्ठी बलदेवा वासुदेवा य ॥ ” (७८० नि)
- अणुयोजणमणुओगो सुयस्स नियएण जमभिहेएणं ।
वावारो वा जोगो जो अणुरूवोऽणुकूलो वा ॥ ८४१ ॥
- अहवा जमत्थओ थोव-पच्छभावेहिं सुयमणुं तस्स ।
अभिहेए वावारो जोगो तेणं व सबधो ॥ ८४२ ॥
- सिक्खियमर्त नीय हिययम्मि ठियं निय दुय एइ ।
संखियवण्णाइ मिय परिजियमेत्तुकमेणं पि ॥ ८५१ ॥

जह सिक्खियं सनामं तह तं पि तहा ठियाइ नामसमं ।
गुरुभणियघोससरिस गहियमुदत्तादओ ते य ॥ ८५२ ॥

न विहीणक्खरमहियक्खरं च वोच्चत्थरयणमाल व ।
वाइद्धक्खरमेयं वच्चासियवण्णविण्णासं ॥ ८५३ ॥

न खलियमुवलहल पिव अमिलियमत्तख्वधण्णमेत्थे व ।
वोच्चत्थगत्यमहवा अमिलियपय-वक्कविच्छेय ॥ ८५४ ॥

न य विविहसत्थपल्लवविमिस्समट्टाणच्छिन्नगहिय वा ।
विच्चाभेलिय कोलियपायसमिव भेरिकंध व ॥ ८५५ ॥

मत्ताइनिययमाण पडिपुण्ण छंदसाऽहवत्येण ।
नाकखाइसदोसं पुण्णमुदत्ताइयोसेहिं ॥ ८५६ ॥

कंठोद्विप्पमुक्कं नावत्तं बाल-भूयभणियं व ।
गुरुवायणोवयात न चोरियं पोत्थयाओ वा ॥ ८५७ ॥

उवउत्तस्स उ खलियाइय पि सुद्धस्स भावओ सुत्त ।
साहइ तह किरियाओ सवाओ निज्जरफलाओ ॥ (८६०)

समणेण सावण्ण य अबस्सकायव्वय हवइ जम्हा ।
अतोअहो-निसिस्स उ तम्हा आवस्सर्यं नाम ॥ (८७३)

सुय-सुत्त-गंय-सिद्धंत-सासणे आण-वयण उवएसो ।
पण्णवण आगमोऽवि य एगट्ठा पज्जया सुत्ते ॥ (८९४)

सावज्जजोगविरई उक्कित्तण गुणवओ य पडिवत्ती ।
खलियस्स निंदणा वणतिगिच्छ गुणधारणा चेव ॥ (९०२)

संधधोवक्कमओ समीपमाणीय नत्थनिकखेवं ।
सत्थ तओऽणुगम्मइ नएहिं नाणाविहाणेहिं ॥ (९१६)

सीसो गुरुणो भाव जम्भवक्कमए सुय पत्तत्यमणो ।

सहियत्थ न पसत्था उह भावोवक्कमोऽहिगओ ॥ (९२०)

गुरुचित्तायत्ताई उक्खाणगाइ जेण मवाइ ।

तो जेण सुप्पसन्न होइ तय तं तहा कच्चं ॥ (९३१)

आगारिगियकुमल जड सेय वायस वए पुजा ।

तहपि य सिं न रिहडे विरहम्मि य कारण पुच्छे ॥ ९३३ ॥

एगादेगुत्तरया छगच्छगया परोप्परन्भत्या ।

पुरिमतिमदुगहोणा परिमाणमणाणुपृवीण ॥ (९४०)

पुवाणुपुविहेट्ठा समयाभेएण कुण जहाजेट्ठ ।

उवरिमतुल्ले पुरओ नसेज्ज पुवक्कमो सेतो ॥ (९४३)

ज वत्थुणोऽभिहाण पज्जयभेयाणुसारि त नाम ।

पइभेय जं नमए पइभेय जाइ जं भणिय ॥ (९४४)

मिच्छत्तमयसमूह सम्मत्त जं च तदुवगारम्मि ।

वट्टइ परसिद्धतो तो तस्स तओ ससिद्धतो ॥ ९५४)

“ उहेसे निहेसे य निग्गमे खेत्त काल पुरिसे य ।

कारण पच्चय लक्खण नए समोयारणाणुमए ॥ (९७३ नि.)

किं कइविह कस्स कहिं केसु कह केच्चिर हवइ काल ।

कइ सतरमविरहिय भवा-गरिस-फोसण-निरुत्ती ॥” (९१४ नि)

अप्पगय-महत्थ वत्तीसादोसविरहिय जं च ।

लक्खणजुत्त सुत्त अट्टहि य गुणेहि उववेय ॥ (९९९)

सुत्त पय पयत्थो सभवओ धिग्गहो वियारो य ।

दूसियसिद्धी नयमयवित्सेसओ नेयमणुसुत्त ॥ (१००२)

पयमत्थवायग जोयग च त नामियाइ पञ्चविह ।

कारग-समास-तद्धिय-निरुत्तवच्चो वि य पयत्थो ॥ (१००३)

- होइ कयत्यो वोत्तु संपयच्छेय सुय सुयाणुगमो ।
 सुत्तालावन्नासो नामाइन्नासविणिओगं ॥ (१००९)
- सुत्तप्फासियनिज्जुत्तिनिओगो सेसओ पयत्थाई ।
 पायं सो च्चिय नेगमनयाइमयगोयरो होइ ॥ (१०१०)
- भावे तित्थं सधो सुयविहिय तारओ तहि साहू ।
 नाणाइतिय तरणं तरियवं भवसमुद्दोऽयं ॥ (१०३२)
- इस्सरिय-रूव-सिरि-जस-धम्म-पयत्ता मया भगाभिक्ष्वा ।
 ते तैसिमसामण्णा सति जओ तेण भगवंते ॥ (१०४८)
- हेऊ अणुगम--वडरेगलरूखणो सज्झवत्थुपज्जाओ ।
 आहरणं दिट्ठतो कारणमुववत्तिमेत्त तु ॥ (१०७७)
- नणु अत्थोऽणभिलप्पो स कह भासेइ न सहरूवो सो १ ।
 सहम्मि तदुवयारो अत्थप्पच्चायणफलम्मि ॥ (११२०)
- “ सुवहु पि सुयमहीय किं काही चरणविप्पहीणस्स ।
 अंधस्स जह पलित्ता दीवसयसहस्सकोडीऽवि ” ॥ (११५२ नि०)
- “ अप्प पि सुयमहीयं पगासय होइ चरणजुत्तस्स ।
 एक्को वि जह पईवो सचरूखुअस्ता पयासेइ ॥ (११५५ नि०)
- “ हय नाण कियाहीण हया अन्नाणओ किया ।
 पासतो पगुलो दड्ढो धावमाणो य अधओ ” ॥ (११५९ नि०)
- वीसु न सबह च्चिय सिरुतातेहं व साहणाभावो ।
 देसोवगारिया जा सा समवायम्मि संपुण्णा ॥ (११६४)
- “ नाण पयासय सोहओ तवो सजमो य गुत्तिकरो ।
 तिण्ह पि समाओगे मोरूखो जिणसासणे भणिओ ” ॥ (११६९ नि०)
- गठि त्ति सुदुब्भेओ कवखडणरुढगूढगठि व । (११९०)

सहियत्थ न पसत्था उह भावोवक्कमोऽदिगओ ॥ (९२०)

गुरुचित्तायत्ताइं उरखाणगाइ जेण मवाइ ।

तो जेण सुप्पसन्न होइ तय तं तथा कम्मं ॥ (९३१)

आगारिगियकुमल जइ सेय वायस वए पुजा ।

तहवि य त्तिं न पिक्खडे विरहम्मि य कारण पुच्छे ॥ ९३३ ॥

एगादेगुत्तरया छगच्छगया परोप्परम्भत्या ।

पुरिमतिमदुगहीणा परिमाणमणाणुपूर्वीण ॥ (९४०)

पुवाणुपुविहेट्ठा समयाभेएण कुण जहाजेट्ठ ।

उवरिमत्तुल्ले पुरओ नसेज्ज पुवक्कमो सेतो ॥ (९४३)

ज वत्थुणोऽभिहाण पज्जयभेयाणुत्तारि त नाम ।

पइभेय ज नमए पइभेय जाइ जं भणिय ॥ (९४४)

मिच्छत्तमयसमूह सम्मत्तं जं च तदुवगारम्मि ।

वट्ठइ परसिद्धतो तो तस्स तओ ससिद्धतो ॥ ९५४)

“ उद्देसे निद्देसे य निग्गमे खेत्त काल पुरिसे य ।

कारण पच्चय लक्खण नए समोयारणाणुमए ॥ (९७३ नि.)

किं कइविह कस्स कहिं केसु कह कैच्चिर इवइ काल ।

कइ सतरमविरहिय भवा-गरिस-फोसण-निरुत्ती ॥” (९१४ नि)

अप्पगय-महत्थ वत्तीसादोसविरहिय जं च ।

लक्खणजुत्त सुत्त अट्ठहि य गुणेहि उववेय ॥ (९९९)

सुत्त पय पयत्थो सभवओ धिग्गहो वियारो य ।

दूसियसिद्धी नयमयविसेसओ नेयमणुसुत्त ॥ (१००२)

पयमत्थवायग जोयग च त नामियाइ पञ्चविह ।

कारग-समास-तद्धिय-निरुत्तवच्चो वि य पयत्थो ॥ (१००३)

परियायस्स य उओ जत्थोवट्ठावण वएसुं च ।

उओवट्ठावणमिह तमणड्यारे-यरं दुग्धि ॥ (१२६८)

“ अण-दस-नपुसि-त्थीवेय-उकं च पुरिसवेय च ।

दो दो एगतरिए सरिसे सरिस उवसमेइ ” ॥ (१२८४ नि.)

वेण्ड संतकम्म खओवसमिएसु नाणुभाव सो । (१२९३)

ज पुण पएसकम्म नियमा वेण्ड त सव्व । (१२९५)

वद्धाऊ पडिवन्नो सेट्ठिगओ वा पसतमोहो वा ।

जइ कुणइ कोइ काल वच्चड तोऽणुत्तरसुरेसु ॥ (१३०४)

“ उवसाम उवणीया गुणमहया जिणचरित्तसरिसपि ।

पडिवायति रुसाया किं पुण सेसे सरागत्ये ? ” ॥ (१३०६ नि.)

“ अणयोव वणथोव अग्गीथोवं कसायथोव च ।

न हु भे वीससियव थैवपि हु तं बहु होइ ॥ (१३१० नि.)

दासत्त देइ अण अइरा मरण वणो विसप्पतो ।

सव्वस्स दाहमग्गी दिंति कसाया भवमणत्तं ॥ (१३११)

“ अण-मिच्छ-मीस-सम्मं अट्ट नपुमित्थीवेयउकं च ।

पुमवेय च खवेइ कोहाईए य सजलणे ” ॥ (१३१३ नि.)

“ सुयधम्म तित्थ मग्गो पावयणं पवयणं च एगट्ठा ।

सुत्त तत्त गथो पाढो सत्थ च एगट्ठा ” ॥ (१३७८ नि.)

अणुओयणमणुओगो सुयस्स नियएण जमभिघेएणं ।

वावारो वा जोगो जो अणुरूवोऽणुकूलो वा ॥ (१३८६)

अहवा जमत्यओ थोव-पच्छभावेहिं सुयमणुं तस्स ।

अभिरेए वावारो जोगो तेण व सवधो ॥ (१३८७)

“ कस्म न होटी वेसो अणब्भुवगओ य निरुवगारी य ।

भिन्नस्मि तस्मि लाभो सम्मत्तार्हण मोक्खसद्देऊणं ।

सो य दुलहो परिस्सम-चित्तविग्गायाडविग्गेहिं ॥ (११९६)

कम्मट्ठिइ सुदीहा खविया जइ निग्गुणेण सेमं पि ।

स खवेउ निग्गुणो च्चिय किं पुणो दसणाईहिं ? ॥ (११९८)

तह पम्मट्ठिइखवणे परिमउउं मोक्खसाहणे गुरुइं ।

इह दंसणाइकिरिया दुलहा पाय सविग्गा य ॥ (१२००)

करण अहापवत्तं अपुव्वमनियट्ठियमेव भत्ताण ।

इयरेसिं पढमं चिय भन्नइ करण ति परिणामो ॥ (१२०२)

जा गठी ता पढम गठिं समइच्छओ अपुव्वं तु ।

अनियट्ठीकरण पुण सम्मत्तपुरकूखडे जीवे ॥ (१२०३)

“ पल्लग-गिरिसरिउवल-पिवीलिया-पुरिस-पह-जरमाहिया ।

कोइव-जल-वत्याणि य सामाइयलाभदिइत्ता ” ॥ (१२०४ नि.)

भग्गो ठिइपरिवुड्डी गहिओ पुण गठिओ गओ तइओ ।

सम्मत्तपुर एव जोएज्जा तिणिण करणाणि ॥ (१२१४)

सम्मत्तस्मि उ लद्धे पलियपुट्ठेण सावओ होज्जा ।

चरणो-वसम-खयाण सागर सखंतारा होति ॥ (१२२२)

कम्म कस भवो वा कसमाओ सिं जओ कसाया तो ।

कसमाययति व जओ गमयति कस कसाय च्चि ॥ (१२२८)

सम्मत्तसमेयाइ महवया-णुव्वयाइ मूलगुणा १ (१२३९)

निसिभत्तविरमण पि हु नणु मूलगुणो कह न गहिय तं-? ।

वयधारिणु च्चिय तय मूलगुणो सेसयस्सियरो ॥ (१२४०)

“ सत्वेऽवि य अइयारा सजलणाण तु उदयओ होंति ।

मूलच्छेज्ज पुण होइ बारसण्ह कसायाण ” ॥ (१२४९ नि.)

- परियायस्स य उँओ जत्थोवट्ठावण वएसुं च ।
 छेओवट्ठावणमिह तमणइयारे-यर दुविहं ॥ (१२६८)
- “ अण-दस-नपुसि-त्थीवेय-उक्कं च पुरिसवेय च ।
 दो ढी एगतरिए सरिसे सरिस उवसमेइ ” ॥ (१२८४ नि.)
- वेएट संतकम्म खओवसमिएसु नाणुभाव सो । (१२९३)
 ज पुण पएसकम्म नियमा वेएट त सबं । (१२९५)
- वद्धाऊ पडिवन्नो सेट्ठिगओ वा पसतमोहो वा ।
 जइ कुणइ कोइ काल वच्चइ तोऽणुत्तरसुरेसु ॥ (१३०४)
- “ उवसाम उवणीया गुणमहया जिणचरित्तसरिसपि ।
 पडिवायति रुसाया किं पुण सेसे सरागत्ये ? ” ॥ (१३०६ नि.)
- “ अणथोव वणथोव अग्गीथोवं कसायथोवं च ।
 न हु भै वीससियव थेवपि हु तं बहु होइ ॥ (१३१० नि.)
- दासत्त देइ अण अइरा मरण वणो विसप्पतो ।
 सबस्स दाहमग्गी दिंति कसाया भवमणंतं ॥ (१३११)
- “ अण-मिच्छ-मीस-सम्मं अट्ट नपुसित्थीवेयउक्क च ।
 पुमवेय च खवेइ कोहाईए य संजलणे ” ॥ (१३१३ नि.)
- “ सुयधम्म नित्थ मग्गो पावयणं पवयणं च एगट्ठा ।
 सुत्त त्त गथो पाढो सत्थ च एगट्ठा ” ॥ (१३७८ नि.)
- अणुओयणमणुओगो सुयस्स नियएण जमभिधेएण ।
 वावारो वा जोगो जो अणुरूवोऽणुकूलो वा ॥ (१३८६)
- अहवा जमत्थओ थोव-पच्छभावेहिं सुयमणुं तस्स ।
 अभिधेए वावारो जोगो तेण व सबधो ॥ (१३८७)
- “ कस्स न होही वेसो अणब्भुवगओ य निरुवगारी य ।

अप्पच्छंदमईओ पत्तियओ गतुकामो य ॥ (१४४७ नि.)

“ विणओणएहिं पजलियडेहिं छंदमणुयत्तमागेहिं ।

आराहिओ गुरुजणो सुय बहुविहं लहु देइ ॥ (१४५१ नि.)

“ सेलघण-कुडग-चालणि-परिपूणग-हस-महिस-मेसे य ।
मसग-जलग-त्रिराली जाहग-गो-मेरी आहेरी ॥ (१४५४ नि)

घुट्टेऽवि द्रोणमेहे न कण्हभोमाओ लोट्टए उदय ।

गहण-धरणासमत्ये इय देयमछित्तिकारिम्मि ॥ (१४५८)

“ उहेसे निहेसे य निग्गमे खेत्त-काल-पुरित्से य ।

कारण-पच्चय-लक्खण-नए-समोयारणा-णुमए १२ ॥ (१४८४) नि.)

“ किं कइविहं कस्स कहिं केसु कइं केचिर हवइ काल ।

कइ संतरमविरहिय भवा-गरिस-फोसण-निरुत्ती २६ ॥ (१४८५ नि.)

गुणपच्चक्खत्तणओ गुणीवि जीवो घडोव पच्चक्खो ।

घडओऽवि घेप्पइ गुणी गुणमेत्तगहणओ जम्हा ॥ (१५५८)

अत्थिदिय-विसयाणं आयाणादेयभावओऽवस्स ।

कम्मर इवादाया लोए सडास-लोहाण ॥ (१५६८)

भोत्ता देहाईण भोज्जत्तणओ नरोव भत्तस्स ।

सघायाइत्तणओ अत्थि य अत्थी घरस्सेव ॥ (१५६९)

जीवोत्ति सत्थयमिणं सुद्धत्तणओ घडाभिहाण व ।

जेणऽत्थेण सदत्थ सो जीवो, अह मई होज्ज ॥ (१५७२)

एगत्ते सब्बगयत्तओ न मोक्खादओ नभस्सेव ।

कत्ता भोत्ता मता न य ससारी जहागास ॥ (१५८४)

एगत्ते नत्थि सुही बह्वघाउत्ति देसिनिरुद्धि ।

बहुतरवद्धत्तणओ न य मुक्को देसमुक्को व ॥ (१५८५)

जीवो त्रष्टुमेत्तथो जह कुंभो तग्गुणोवलंभाओ ।
 अहवाऽणुवलंभाओ भिन्नम्मि घडे पडस्सेव ॥ (१५८६)
 तम्हा कत्ता भोत्ता वधो मोक्खो सुहं च दुक्खं च ।
 ससरणं च बहुत्ताऽसव्वगयत्ते सुजुत्ताइं ॥ (१५८७)
 जो तुल्लेसाहणाणं फले विसेसो न सो विणा हेउ ।
 कज्जत्तणओ गोयम । घडोव्व, हेऊ य सो कम्म ॥ (१६१३)
 मुत्तस्सामुत्तिमया जीवेण कहं ह्वेज्ज संवधो ? ।
 सोम्म ! घडस्सव नभसा जह वा दवस्स किरियाए ॥ (१६३५)
 सताणोऽणाई उ परोप्पर हेउहेउभावाओ ।
 देहस्स थ कम्मस्स य गोयम । वीय-कुराणं व ॥ (१६३९)
 भूइदिओवलद्धाऽणुसरणओ तेहिं भिन्नख्वस्स ।
 चेया पचगवक्खोवलद्धपुरिसस्स वा सरओ ॥ (१६५७)
 अत्थि सरीरविहाया पइनिययागारओ घडस्सेव ।
 अक्खाण च करणओ दंडाईणं कुलालो व ॥ (१६६७)
 अत्थिदिय-विसयाणं आयाणादेयभावओऽवस्सं ।
 कम्मार इवादाया लोए संढास-लोहाण ॥ (१६६८)
 भोत्ता देहाईण भोज्जत्तणओ नरो व भत्तस्स ।
 सघायाइत्तणओ अत्थि य अत्थी घरस्सेव ॥ (१६६९)
 न य सव्वहेव खणिअं नाणं पुव्वोवलद्धसरणाओ ।
 खणिओ न सरइ भूयं जह जम्माणतरविनट्ठो ॥ (१६७३)
 परभागाटरिसणओ सव्वाराभागसुहुमयाओ य ।
 उभयाणुवलभाओ सव्वाणुवलद्धिओ सुण्ण ॥ (१६९६)
 ज ससयादओ नाणपज्जया त च नेयसव्वद्धं ।

अप्पच्छन्दमईओ पत्तियओ गतुफामो य ॥ (१४४७ नि.)

“ विणओणएहिं पजलियडेहिं छंदमणुयत्तमाणेहिं ।

आराहिओ गुरुजणो म्पुय बहुविहे लहु देइ ” (१४५१ नि.)

“ सेलघण-कुडग-चालणि-परिपूणग-हस-महिस-मेसे य ।

मसग-जल्ल-विराली जाहग-गो-भैरी आहेरी ॥ (१४५४ नि)

बुट्टेऽवि द्रोणमेह न कण्हभोमाओ लोट्टए उदय ।

गहण-धरणासमत्थे इय देयमच्छित्तिकारिम्मि ॥ (१४५८)

“ उद्वेसे निद्वेसे य निग्गमे खेत्त-काल-पुरिसे य ।

कारण-पच्चय-लक्खण-नए-समोयारणा-णुमए १२ ” (१४८४ नि)

“ किं कइविह कस्स कहिं केसु कइं केच्चिह हवइ काल ।

कइ संतरमविरहिय भवा-गरिस-फोसण-निरुत्तीरइ ॥ (१४८५ नि.)

गुणपच्चक्खत्तणओ गुणीवि जीवो घडोव पच्चक्खो ।

घडओऽवि घेप्पइ गुणी गुणमेत्तगहणओ जम्हा ॥ (१५५८)

अत्थिदिय-विसयाणं आयाणादेयभावओऽवस्स ।

कम्मर इवादाया लोए सडास-लोहाण ॥ (१५६८)

भोत्ता देहाईण भोज्जत्तणओ नरोव भत्तस्स ।

संघायाइत्तणओ अत्थि य अत्थी घरस्सेव ॥ (१५६९)

जीवोत्ति सत्थयमिणं सुद्धत्तणओ घडाभिहाण व ।

जेणऽत्थेण सदत्थ सो जीवो, अह मई होज्ज ॥ (१५७२)

एगत्ते सब्बगयत्तओ न मोक्खादओ नभस्सेव ।

कत्ता भोत्ता मता न य ससारी जहागास ॥ (१५८४)

एगत्ते नत्थि सुही ब्रह्मघाउत्ति देसनिरुद्धि ।

बहुतरवद्धत्तणओ न य मुक्को देसमुक्को व ॥ (१५८६)

अहवा सर्वं वत्थु पइक्खणं चिय सुहम्म । धम्मैहिं ।
 सभवइ वेइ कैहिवि कैहिवि तदवत्थमच्चंतं ॥ (१७९४)
 को सब्वहेव सरिसो असरिसो वा इहभवे परभवे वा ? ।
 सरिसासरिसं सर्वं निच्चानिच्चाइरूव च ॥ (१७९५)
 जह वेह कचणो—वलसजोगोऽणाइसंतइगओ वि ।
 वोच्छिज्जइ सोवाय तह जोगो जीव—कम्माण ॥ (१८१९)
 ज चातीता—ऽणागयकाला तुल्ला जओ य संसिद्धो ।
 एको अणतभागो भवाणमईयकालेणं ॥ (१८२८)
 जह जोगम्मि वि टलिए सब्बम्मि न कीरणे पडिमा । (१८३४)
 लोगस्सऽत्थि विवक्खो सुद्धत्तणओ घटस्स अघटो व्व ।
 स घडाइ च्चिय मई न निसेहाओ तदणुरूवो ॥ (१८५१)
 तम्हा धम्माऽधम्मा लोयपरिच्छेयकारिणो जुत्ता ।
 इहराऽऽगासे तुल्ले लोगोऽलोगो त्ति को भेओ ? ॥ (१८५२)
 लोगविभागाभावे पडिघायाभावओऽणवत्याओ ।
 सब्वहाराभावो संबधाभावओ होज्जा ॥ (१८५३)
 परिमियदेसेऽणता—किह माया ? मुत्तिविरहियत्ताओ ।
 नेयम्मि च नाणाई दिट्ठीओ वेगरूवम्मि ॥ (१८६०)
 सकंतदिच्चपिम्मा विसयपसत्ताऽसमत्तकत्तवा ।
 अणहीणमणुयकज्जा नरभवमसुभं न एति सुरा ॥ (१८७५)
 नवरि जिणजम्म—दिवखा—केवल—निव्वाणमहनिओगेण ।
 भत्तीए सोम्म ! समयविच्छेयत्थ व एज्जहण्हा ॥ (१८७६ ॥
 पुव्वाणुरागओ वा समयनिपथा तवोगुणाओ वा ।
 नरगणपीडा—ऽणुग्गह—कंदप्पाईहिं, वा केई ॥ (१८७७)

सवधेयाभावे न ससभो तेण ते जुत्तो ॥ (१७००)
 अणुभूय-द्विष्ट-चितिय-मुय-पयइरियार-देरयाऽणूया ।
 सिमिणस्स निमित्ताइ पुण्ण पाय च नामाओ ॥ (१७०३)
 जम्म-जरा-जीवण-मरण-रोहणा-हार-टोहला-मयओ ।
 रोग-तिगिच्छाईहि य नारि व सत्रेयणा तरओ ॥ (१७०३)
 छिक्कपरोइया छिक्केत्त-सकोयओ कुलिंगो व ।
 आमयसंचाराओ वियत्त । रल्लीरियाणाइ ॥ (१७०४)
 सम्मादओ य साव-प्पघोह-सकोयणाइओऽभिमया ।
 वजलादओ य सद्दाऽविसयकालोवलंभाओ ॥ (१५७५)
 मसंकुरो व सामाणजाइख्वकुरोवलभाओ ।
 तरुण-विहुमलवणो-वलादओ सासयावत्या ॥ (१७५६)
 भूमिक्खयसाभावियसभवओ ढव्दुरो व जलमुत्त ।
 अहवा मच्छो व सभाववोमसभूयपायाओ ॥ (१७५७)
 अपरप्पेरियतिरियानियमियदिग्गमणओऽणिलो गो व ।
 अनलो आहाराओ विद्धिविगारोवलभाओ ॥ (१७५८)
 तणवोऽणब्भाइविगारमुत्तजाइत्तओऽणिलताइ ।
 सत्यासत्यहयाओ निज्जीव-सजीवरूवाओ ॥ (१७५९)
 अहणतोऽविहु हिंसो दुट्ठत्तणओ मओ अहिमरो व ।
 धार्हितो नवि हिंसो सुद्धत्तणओ जहा विज्जो ॥ (१७६४)
 पचसमिओ तिगुत्तो नाणी अविहिंसओ न विवरीओ ।
 होउ व सपत्ती से मा वा जीवोवरोहेण ॥ (१७६५)
 अमुभो जो परिणामो सा हिंसा सो उ बाहिरनिमित्त ।
 कोचि अवेक्खेज्ज नवा जम्हाऽणेगतिय वज्ज । (१७६६)

फासे आणापाणू सत्तविह भिज्जए आउ ॥ (२०४१ नि०)
 दढ-कस-सत्थ-रज्जू-अग्गी उदगपढण विस वाला ।
 सीउण्ह अरइ भयं खुहा पिवासा य वाही य ॥ (२०४२ नि०)
 मुत्त-पुरीस-निरोहे जिन्नाजिन्ने य भोयणे बहुसो ।
 घसण-घोलण-पीलण आउस्स उवक्कमा एए” ॥ (२०४३ नि०)
 कम्मोवक्कामिज्जइ अपत्तकालंपि जइ तओ पत्ता ।
 अकयागम-कयनासा मोक्खाणासासया दोमा ॥ (२०४७)
 नहि दीयकालियस्सवि नासो तस्साणुभूइओ खिप्प ।
 बहुकालाहारस्स व दुयमगियरोगिणो भोगो ॥ (२०४८)
 सव्वं च पएसतया भुज्जइ कम्ममणुभावओ भइय ।
 तेणावस्साणुभवे के कयनासादओ तस्स ? ॥ (२०४९)
 जह वा दीहा रज्जू डज्जइ कालेण पुजिया खिप्प ।
 वियओ पढो व सुस्सइ पिंडीभूओ य कालेण ॥ (२०६१)
 उक्कोस-जहण्णाणं जदतरालमिह पोरिसीण त ।
 तेसीयसयविभत्तं बुद्धिं ह्माणिं च जाणाहि ॥ (२०७२)
 “ दवा-ऽभिलाव-चिधे वेए धम्म-त्थ-भोग-भावे य ।
 भाउपुरिसो उ जीवो भावे पगयं तु भावेण ” ॥ (२०९० नि०)
 नत्थि पुढवीविसिट्ठो घढो त्ति ज तेण जुज्जइ अणत्तो ।
 ज पुण घढो त्ति पुव्व न आसि पुढवी तओ अत्तो ॥ (२१०४)
 अमिहाण-बुद्धि-लखणभिन्नाऽवि जहा सदत्थओऽणत्ते ।
 दिक्कालाइविसैसा तह दवाओ गुणाईआ ॥ (२११०)
 “ त च कह वेडज्जइ अगिलाए धम्मदेसणाईहिं ।
 वज्जइ त तु भगवओ तइयभवोसकइत्ता णं ” ॥ (२१२३ नि०)

मुत्ताइभायओ नोयलद्धिमतिदियाइं कुभो व्व ।
 उवलभद्धाराणि उ ताइ जीवो तदुवलद्धा ॥ (१८९३)
 पुण्णुकरिस्से सुभया तरतमजोगायगरिमओ हाणी ।
 तस्सेव खए मोक्खो पत्याहारोयमाणाओ ॥ (१९०९)
 पावुकरिस्सेऽहमया तरतमजोगायगरिसओ सुभया ।
 तस्सेव खए मोक्खो अपत्यभत्तोवमाणाओ ॥ (१९१०)
 साहारणवण्णादि व अह साहारणमहेगमत्ताए ।
 उकरिसा-वगरिसओ तस्सेव य पुण्णपायक्खा ॥ (१९११)
 एव चिय दो'भिन्नाइ होज्ज होज्ज व सभावओ चेव ।
 भवसभूर्इ, भण्णइ न सभावाओ जओऽभिमओ ॥ (१९१२)
 कम्म जोगनिमित्तं सुभोऽसुभो वा स एगसमयम्मि ।
 होज्जा न उ उभयरूवो कम्म पि तओ तयणुरूवं ॥ (१९१५)
 ज्ञाण सुभमसुभ वा न उ मीस ज च ज्ञाणविरमेऽवि ।
 लेसा सुभाऽसुभा वा सुभमसुभ वा तओ कम्म ॥ (१९३७)
 मोत्तूण आउय खलु दसणमोह चरित्तमोह च ।
 सेसाण पगईण उत्तरविहिसकमो भज्जो ॥ (१९३९)
 न य योगो सव्वगओ निक्किरिओ लक्खणाइभेआओ ।
 कुभादउ व्व बहवो पडिवज्ज तमिदभूर्इव्व ॥ (१९५७)
 पुण्णफल दुक्ख चिय कम्मोदयओ फल व पावस्स ।
 नणु पावफलेऽवि समं पच्चरूखविरोहिआ चेव ॥ (२००४)
 विसयसुह दुक्ख चिय दुक्खपडियारओ तिगिच्छव्व ।
 त सुहसुवयाराओ न उवयारो विणा तच्च ॥ (२००६)
 “ अज्झवसाण निमित्ते आहारै धेयणो पराघाए ।

फासे आणापाणू सत्तविह भिज्ण आउ ॥ (२०४१ नि०)
 दड-कस-सत्थ-रज्जू-अग्गी उदगपडणं विस वाला ।
 सीउण्ह अरइ भय खुहा पिवासा य वाही य ॥ (२०४२ नि०)
 मुत्त-पुरीस-निरोहे जिन्नाजिन्ने य भोयणे बहुसो ।
 घसण-घोलण-पीलण आउस्स उवक्कमा एए” ॥ (२०४३नि०)
 कम्मोवक्कामिज्जइ अपत्तकालपि जइ तओ पत्ता ।
 अकयागम-कयनासा मोक्खाणासासया दोसा ॥ (२०४७)
 नहि दीयकालियस्सवि नासो तस्साणुभूओ द्विप्प ।
 बहुकालाहारस्स व दुयमग्गियरोगिणो भोगो ॥ (२०४८)
 सव्वं च पएसतया भुज्जइ कम्ममणुभावओ भइय ।
 तेणावस्साणुभवे के कयनासादओ तस्स ? ॥ (२०४९)
 जह वा टीहा रज्जू डज्जइ कालेण पुजिया खिप्प ।
 वियओ पडो व सुस्सइ पिंठीभूओ य कालेण ॥ (२०६१)
 उक्कोस-जहण्णाण जदतरालमिह पोरिसीण त ।
 तेसीयसयविभत्त बुद्धिं हाणिं च जाणाहि ॥ (२०७२)
 “ दवा-ऽभिलाव-चिंघे वेए धम्म-त्य-भोग-भावे य ।
 भावपुरिसो उ जीवो भावे पगय तु भावेण ” ॥ (२०९० नि०)
 नत्थि पुढवीविसिद्धो घडो त्ति ज तेण जुज्जइ अणन्नो ।
 ज पुण घडो त्ति पुव्व न आसि पुढवी तओ अन्नो ॥ (२१०४)
 अमिहाण-बुद्धि-लक्खणभिन्नाऽवि जहा सदत्थओऽणन्ने ।
 दिक्कालाइविसेसा तह दवाओ गुणार्त्ता ॥ (२११०)
 “ त च कह वेडज्जइ अगिळाए धम्मदेसणार्त्तिं ।
 वज्जइ त तु भगवओ तइयभवोसक्कइत्ता णं ” ॥ (२१२३ नि०)

मुत्ताइभायओ नोअलद्धिमतिदियाइ कुभो व्व ।
 उवलभद्दाराणि उ ताइ जीवो तदुवल्लहा ॥ (१८९३)
 पुण्णुकरिस्से सुभया तरतमजोगायगरिस्सओ हाणी ।
 तस्सेव खए मोक्खो पत्याहारोयमाणाओ ॥ (१९०९)
 पावुद्धरिस्सेऽहमया तरतमजोगायगरिस्सओ सुभया ।
 तस्सेव खए मोक्खो अपत्थभत्तोवमाणाओ ॥ (१९१०)
 साहारणवण्णादि व अह साहारणमहेगमत्ताए ।
 उक्करिस्सा-वगरिस्सओ तस्सेव य पुण्णपावक्खा ॥ (१९११)
 एव चिय दो भिन्नाइ होज्ज होज्ज व सभावओ चेव ।
 भवसभूई, भण्णइ न सभावाओ जओऽभिमओ ॥ (१९१२)
 कम्म जोगनिमित्तं सुभोऽसुभो वा स एगसमयम्मि ।
 होज्जा न उ उभयरूवो कम्म पि तओ तयणुरूवं ॥ (१९३५)
 ज्ञाण सुभमसुभ वा न च मीस ज च ज्ञाणविरमेऽवि ।
 लेसा सुभाऽसुभा वा सुभमसुभ वा तओ कम्म ॥ (१९३७)
 मोत्तूण आउय खल्लु दसणमोह चरित्तमोह च ।
 सेसाण पगईण उत्तरविहिसकमो भज्जो ॥ (१९३९)
 न य योगो सव्वगओ निक्किरिओ लक्खणाइमेआओ ।
 कुभादउ व्व व्हवो पडिवज्ज तमिदभूइव्व ॥ (१९५७)
 पुण्णफल दुक्ख चिय कम्मोदयओ फल व पावस्स ।
 नणु पावफलेऽवि सम पच्चक्खविरोहिआ चेव ॥ (२००४)
 विसयसुह दुक्ख चिय दुक्खपडियारओ तिगिच्छव्व ।
 त सुहसुवयाराओ न उवयारो विणा तच्चं ॥ (२००६)
 “ अज्झवसाण निमित्ते आहारे वेयणा पराघाए ।

ते चैव य परसमया सम्मत्त समुदिया सवे ॥ (२२६५)
 न समेन्ति न य समेया सम्मत्तं नेव वत्युणो गमगा ।
 वत्युविप्रायाय नया विरोहओ वेरिणो चैव ॥ (२२६६)
 सव्वे समयति सम्म वेगवसाओ नया विरुद्धाऽवि ।
 निच्च-ववहारिणो इव राओदासीणवसवत्ती ॥ (२२६७)
 “ नत्थि नएहिं विहूण सुत्त अत्थो य जिणमए किंचि ।
 आसज्ज उ सोयार नए नयविसारओ वूया ” ॥ (२२७७ नि०)
 “ मूढनइय सुय कालिय तु न नया समोयरति इहं ।
 अपुहुत्ते समोयारो नत्थि पुहुत्ते समोयारो ” ॥ (२२७९ नि०)
 सविसयमसद्धता नयाण तम्मत्तय च गिण्हंता ।
 मण्णंता य विरोह अपरिणामाऽत्तिपरिणामा ॥ (२२९२)
 गच्छेज्ज मा हु मिच्छं परिणामा य सुहुमाइवहुभेए ।
 होज्जाऽसत्ते घेत्तु न कालिए तो नयविभागो ॥ (२२९३)
 जस्सेह कज्जमाण कय ति तेणेह विज्जमाणस्स ।
 करणकिरिया पव्वन्ना तथा य बहुदोसपडिच्चत्ती ॥ (२३०९)
 नारभे च्चिय दीसइ न सिवादद्धाए दीसइ तदत्ते ।
 तो नहि किरियाकाले जुत्त कज्ज तदत्तम्मि ॥ (२३१२)
 पइसमउप्पन्नाण परोप्परविलक्खणाण सुवहुआणं ।
 दीहो किरियाकालो जइ दीसइ किं त्य कुंभस्स ? ॥ (२३१५)
 पइसमयकज्जकोढीनिरवेक्खो घडगयाहिलासो सि ।
 पइसमयकज्जकाल थूलमई । घडम्मि लाएसि ॥ (२३१८)
 तेणेव कज्जमाण नियमेण कय कय तु भयणिज्जं ।
 किंचिदिह कज्जमाण उवरयकिरिय च हुज्जाहि ॥ (२३२०)

आया गुरवो सत्य ति पद्यया याऽऽदिमोचिय जिणस्स ।
 सपच्चवत्तणओ सेसाण उ तिप्पयारो पि ॥ (२१४१)
 “ नेगम संगह ववहार उज्जुसुए चेव होइ सोद्धव्वा ।
 सद्दे य समभिरुद्धे एवभूए य मूलनया ॥ (२१८१ नि.)
 णेगेहि माणेहिं मिणइत्ती णेगमस्स नेरुत्ती ।
 सेसाणपि नयाण लाखणमिणमो सुणह वोच्छ ॥ (२५८२ नि.)
 सगहियपिडियत्थ सगहवयण समासओ पिति ।
 वच्चइ विणिच्छियत्थ ववहारो सव्वदवेसु ॥ (२१८३ नि.)
 पच्चुप्पन्नगाही उज्जुसुओ नयविही मुणेअव्वो ।
 इच्छइ विसेसियतर पच्चुप्पन्न नओ सद्दो ॥ (२१८४ नि.)
 वत्थूओ सकमण होइ अवत्थू नए समभिरुद्धे ।
 वजण-अत्थ-तदुभए एवभूओ विसेसेइ ” ॥ (२१८५ नि०)
 दोहिवि नएहिं नीय सत्थमुल्लएण तहवि मिच्छत्त ।
 ज सविसयप्पहाणत्तणेण अन्नोन्ननिरवेक्खा ॥ (२१९५)
 पइवत्थु सामन्न जह तो णेग न यावि सामन्नं ।
 अह दव्वेसु तदेग तहऽवि सदेस न सामन्नं ॥ (२१९९)
 अह पइवत्थुमिहेग च तहवि त नत्थि खरविसाण व ।
 न य तदुवलक्खण त जुज्जइ सव्वगयत्तओ ख व ॥ (२२००)
 तम्हा वत्थुण चिय जो सरिसो पज्जवो स सामन्न ।
 जो विसरिसो विसेसो स मओऽणत्थतर तत्तो ॥ (२२०२)
 सन्भावा-सन्भावो-भयप्पिओ स-परपज्जओ-भयओ ।
 कुभाऽकुभा-ऽवत्तव्वोभयरूवाइमेओ सो ॥ (२२३२)
 जावन्तो वयणपहा^१तावन्तो वा नयाऽविसद्दाओ ।

ते चैव य परसमया सम्मत्त समुदिया सवे ॥ (२२६५)
 न समेन्ति न य समेया सम्मत्त नेव वत्युणो गमगा ।
 वत्युविधायाय नया विरोहओ वेरिणो चैव ॥ (२२६६)
 सव्वे समयति सम्म चेगवसाओ नया विरुद्धाऽवि ।
 निच्च-ववहारिणो इव राओदासीणवसवत्ती ॥ (२२६७)
 “ नत्थि नएहिं विहूणं सुत्त अत्थो य जिणमए किंचि ।
 आसज्ज उ सोयार नए नयविसारओ वूया ” ॥ (२२७७ नि०)
 “ भूढनइय सुय कालियं तु न नया समोयरति इहं ।
 अपुहुत्ते समोयारो नत्थि पुहुत्ते समोयारो ” ॥ (२२७९ नि०)
 सविसयमसद्दहता नयाण तम्मत्तय च गिण्हता ।
 मण्णंता य विरोहं अपरिणामाऽतिपरिणामा ॥ (२२९२)
 गच्छेज्ज मा हु मिच्छं परिणामा य सुहुमाइवहुभेए ।
 होज्जाऽसत्ते घेत्तु न कालिए तो नयविभागो ॥ (२२९३)
 जस्सेह कज्जमाण कयं ति तेणेह विज्जमाणस्स ।
 करणकिरिया पव्वन्ना तथा य बहुदोसपडिवत्ती ॥ (२३०९)
 नारभे च्चिय दीसइ न सिवादद्धाए दीसइ तदंते ।
 तो नहि किरियाकाले जुत्त कज्जं तदतम्मि ॥ (२३१२)
 पइसमउप्पन्नाणं परोप्परविलक्खणाण सुवहुआणं ।
 दीहो किरियाकालो जइ दीसइ किं त्य कुंभस्स ? ॥ (२३१५)
 पइसमयकज्जकोडीनिरवेक्खो घडगयाहिलासो सि ।
 पइसमयकज्जकाल थूलमई । घडम्मि लाएसि ॥ (२३१८)
 तेणेव कज्जमाण नियमेण कय कय तु भयणिज्ज ।
 किंचिदिह कज्जमाणं उवरयकिरिय च हुज्जाहि ॥ (२३२०)

आया गुरयो सत्यं ति पञ्चया याऽऽटिमोचिय जिणम्म ।
 सपचवखत्तणओ सेसाण उ तिप्पयारो पि ॥ (२१४१)
 “ नेगम सगह ववहार उज्जुमुए चैर होइ बोद्धव्वा ।
 सद्दे य समभिरुद्धे एवभूए य मूलनया ॥ (२१८१ नि.)
 णेगेहि माणेहिं पिणइत्ती णेगमस्स नेरुत्ती ।
 सेसाणपि नयाण लखणमिणमो मुणह वोच्छ ॥ (२५८२ नि.)
 सगहियपिण्डियत्थ सगहवयण समासओ विति ।
 वच्चइ विणिच्छियत्थं ववहारो सव्वदत्तेसु ॥ (२१८३ नि.)
 पच्चुप्पन्नगाही उज्जुमुओ नयविही मुणेअव्वो ।
 इच्छइ विसैसियतर पच्चुप्पन्न नओ सद्दो ॥ (२१८४ नि.)
 वत्थूओ सकमण होइ अवत्थू नए समभिरुद्धे ।
 वज्जण-अत्थ-तदुभए एवभूओ विसैसेइ ” ॥ (२१८५ नि०)
 दोहिवि नएहिं नीय सत्थमुल्लएण तहवि मिच्छत्त ।
 ज सविसयप्पहाणत्तणेण अन्नोन्ननिरवेक्खा ॥ (२१९५)
 पइवत्थु सामन्न जह तो णेग न यावि सामन्नं ।
 अह दव्वेसु तदेग तहइवि सदेस न सामन्न ॥ (२१९९)
 अह पइवत्थुमिहेग च तहवि त नत्थि खरविसाण व ।
 न य तदुवलक्खण त जुज्जइ सव्वगयत्तओ खं व ॥ (२२००)
 तम्हा वत्थूण चिय जो सरिसो पज्जवो स सामन्न ।
 जो विसरिसो विसेसो स मओऽणत्थतर तत्तो ॥ (२२०२)
 सन्भावा-सन्भावो-भयप्पिओ स-परपज्जओ-भयओ ।
 कुभाऽकुभा-ऽवत्तव्वोभयरूवाइमेओ सो ॥ (२२३२)
 जावन्तो वयणपहा तावन्तो वा नयाऽविसद्दाओ ।

अज्ज्ञयणं ज्ञाणं भावणा य का सवनासम्मि ? ॥ (२४०४)
 सुह-दुक्ख-बन्ध-मुक्खा उभयनयमयाणुवट्ठिणी जुत्ता ।
 एगयरपरिच्चाएँ सवववहारवोच्छिन्ती ॥ (२४१७)
 सुहुमासुचर चित्त इंदियदेसेण जेण ज कालं ।
 सवज्झइ तं तम्मत्तनाणहेउ त्ति नो तेण ॥ (२४२९)
 होज्ज न विलक्खणाई समय सामण्ण-भेयनाणाई । (२४४६)
 गज्झा मृत्तिगयाओ नागासे जहा पईवरस्सीओ ।
 तह जीवलक्खणाई देहे, न तदतरालम्मि ॥ (२४६५)
 पयविप्पट्ठिवत्तीएऽवि मिच्छत्त किं नु रासीसु ? । (२४८०)
 उवट्ठणमुक्केरो संथोभो खवणमणुभवो वाऽवि ।
 अणिकाइयम्मि कम्मे निकाए पायमणुभवंणं ॥ (२५१४)
 अह मोक्खसाहणमईएँ न भयहेऊऽवि ताणि ते गथो ।
 वत्थाई मोक्खसाहणमईएँ सुद्धं कह गयो ? ॥ (२५६९)
 सारक्खणाणुवंधो रोद्धज्झाण नि ते मई हुज्जा ।
 तुल्लमिय देहाऽसु पसत्यमिह त तहेहावि ॥ (२५७०)
 जे जत्तिया पगारा लोए भयहेअवो अविरयाणं ।
 ते चेव य विरयाण पसत्यभावाण मोक्खाय ॥ (२५७१)
 वत्थाई तेण ज ज सजमसाहणमराग-दोसस्स ।
 त तमपरिग्गहो च्चिय परिग्गहो ज तदुवघाई ॥ (२५७४)
 सीयत्ताण ताण जलण-तणगयाण सत्ताणं । (२५७५)
 तह निसि चाउकाल सज्झाय-ज्झाण-साहयमिसीण ।
 महि-महिया-वामी-सा-रयाडरखानिमित्त च ॥ (२५७६)
 मयसंबरुज्झणत्थ गिल्लाणपाणोवगारि वाऽभिमय ।

जं सवहा न गीसु सवेसुचि त न रेणुतेणं २
 सेसेसु असम्भूओ जीवो कइमतिमपएसे ? ॥ (२३४०)
 एवभूयनयमयं देस पएसा न वत्थुणो भिन्ना ।
 तेणावत्थुत्ति मया कसिणं चिय वत्थुमिदं से ॥ (२३४५)
 जह वा जिणिंदपडिम जिणगुणरहिय ति जाणमाणावि ।
 परिणामविसुद्धत्थ वदइ तह किं न साहुपि ? ॥ (२३६५)
 हुज्ज नवा साहुत्त जइरूने नत्थि चेव पडिमाए ।
 सा कीस वदणिज्जा जइरूने कीस पडिसेहो ? ॥ (२३६६)
 असजय-जइरूवे पावाणुमई मई न पडिमाए ।
 नणु देवाणुगयाए पडिमाएँऽवि हुज्ज सो दोसो ॥ (२३६७)
 अह पडिमाएँ न दोसो जिणबुद्धीएँ नमओ विसुद्धस्स ।
 तो जइरूव नमओ जइबुद्धीए कह दोसो ? ॥ (२३६८)
 जइ जिणमय पमाण मुणित्ति तो वज्झकरणपरिसुद्ध ।
 देवपि वन्दमाणो विसुद्धभावो विसुद्धोत्ति ॥ (२३७७)
 छउमत्थसमयचज्जा ववहारनयाणुसारिणी सवा ।
 त तह समायरंतो मुज्झइ सवो विसुद्धमणो ॥ (२३७९)
 सववहारोऽवि बली जमसुद्ध पि गहिय सुयविहीए ।
 कोवेइ न सवण्णू वदइ य कयाइ छउमत्थ ॥ (२३८०)
 जइ जिणमयं पवज्जह तो मा ववहारनयमय मुयह ।
 ववहारपरिच्चाए तित्थुच्छेओ जओऽवस्स ॥ (२३८२)
 नहि सवहा विणासो अद्धापज्जायमेत्तनासम्मि ।
 स-परपज्जायाणतधम्मणो वत्थुणो जुत्तो ॥ (२३९३)
 तिच्ची समो किलामो सारिक्ख-विवक्ख-पच्चयाईणि ।

- अज्झयणं ज्ञाणं भावणा य का सवनासम्मि ? ॥ (२४०४)
- सुह-दुक्ख-बन्ध-मुक्खा उभयनयमयाणुवट्ठिणो जुत्ता ।
एगयरपरिच्चाए सवववहारवोच्छिती ॥ (२४१७)
- सुहुमासुचर चित्तं इंदियदेसेण जेण ज कालं ।
सवज्झइ तं तम्मत्तनाणहेउ त्ति नो तेण ॥ (२४२९)
- होज्ज न विलक्खणाइं समयं सामण्ण-भेयनाणाडं । (२४४६)
- गज्झा मुत्तिगयाओ नागासे जहा पईवरस्सीओ ।
तह जीवलक्खणाइं देहे न तदंतरालम्मि ॥ (२४६५)
- पयविप्पडिवत्तीएऽवि मिच्छत्त किं नु रासीसु ? । (२४८०)
- उवट्ठणमुक्केरो सथोभो खवणमणुभवो वाऽवि ।
अणिकाइयम्मि कम्मे निकाडए पायमणुभवं ॥ (२५१४)
- अह मोक्खसाहणमईएँ न भयहेऊऽवि ताणि ते गथो ।
वत्थाइं मोक्खसाहणमईएँ सुद्ध कह गथो ? ॥ (२५६९)
- सारक्खणाणुवंधो रोद्धज्झाणं त्ति ते मई हुज्जा ।
तुल्लमिय देहाउसु पसत्यमिह त तहेहावि ॥ (२५७०)
- जे जत्तिया पगारा लोए भयहअवो अविरयाण ।
ते चेव य विरयाणं पसत्यभावाण मोक्खाय ॥ (२५७१)
- वत्थाइं तेण ज ज सजमसाहणमराग-दोसस्स ।
त तमपरिग्गहो चिय परिग्गहो ज तदुवघाई ॥ (२५७४)
- सीयत्ताण ताण जलण-तणगयाण सत्ताणं । (२५७५)
- तह निसि चाउकाल सज्झाय-ज्झाण-साहयमिसीण ।
महि-महिया-वासो-सा-रयाडरक्खानिमित्त च ॥ (२५७६)
- मयसवरुज्झणत्थ गिलाणपाणोवगारि वाऽभिमय ।

ज सवदा न गीसु सवेसुवि त न रेणुतेण्ड य
 सेसेसु असन्भूओ जीवो कहमतिमपएसे ? ॥ (२३४०)
 एवभूयनयमय देस पएसा न वत्थुणो भिन्ना ।
 तेणावत्थुत्ति मया कसिणं चिय वत्थुमिदं से ॥ (२३४५)
 जह वा जिणिंदपडिभं जिणगुणरहिय ति जाणमाणावि ।
 परिणामविसुद्धत्थ उदह तह किं न साहुपि ? ॥ (२३६५)
 हुज्ज नवा साहुत्त जइरूवे नत्थि चैव पडिमाए ।
 सा कीस वदणिज्जा जइरूवे कीस पडिसेहो ? ॥ (२३६६)
 असजय-जइरूवे पावाणुमई मई न पडिमाए ।
 नणु देवाणुगयाए पडिमाएँऽवि हुज्ज सो दोसो ॥ (२३६७)
 अह पडिमाएँ न दोसो जिणबुद्धीएँ नमओ विसुद्धस्स ।
 तो जइरूव नमओ जइबुद्धीए कह दोसो ? ॥ (२३६८)
 जइ जिणमय पमाण सुणित्ति तो वज्झकरणपरिसुद्ध ।
 देवपि वन्दमाणो विसुद्धभावो विसुद्धोत्ति ॥ (२३७७)
 छउमत्थसमयचज्जा ववहारनयाणुसारिणी सवा ।
 त तह समायरतो सुज्झइ सवो विसुद्धमणो ॥ (२३७९)
 सववहारोऽवि बली जमसुद्ध पि गहिय सुयविहीए ।
 कोवेइ न सवण्णू वदइ य कयाइ छउमत्थ ॥ (२३८०)
 जइ जिणमयं पवज्जह तो मा ववहारनयमय सुयह ।
 ववहारपरिच्चाए तित्थुच्चेओ जओऽवस्स ॥ (२३८२)
 नहि सवहा विणासो अद्धापज्जायमेत्तनासम्मि ।
 स-परपज्जायाणतधम्मणो वत्थुणो जुत्तो ॥ (२३९३)
 तिच्ची समो किलामो सारिक्ख-विवक्ख-पच्चयाईणि ।

- अज्ज्ञयणं ज्ञाण भावणा य का सवनासम्मि १ ॥ (२४०४)
- सुह-दुख-बन्ध-मुक्त्वा उभयनयमयाणुवट्टिणो जुत्ता ।
एगयरपरिच्चाए सवववहारवोच्छिती ॥ (२४१७)
- सुहुमासुचरं चित्तं इंदियदेसेण जेण ज कालं ।
सवज्झइ तं तम्मत्तनाणहेउ त्ति नो तेण ॥ (२४२९)
- होज्ज न विलक्खणाइं समयं सामण्ण-भेयनाणाइं । (२४४६)
- गज्झा मृत्तिगयाओ नागासे जहा पईवरस्सीओ ।
तह जीवलक्खणाइं देहे न तदंतरालम्मि ॥ (२४६५)
- पयविप्पडिवत्तीएऽवि मिच्छत्त किं नु रासीसु ? । (२४८०)
- उवट्टणमुक्केरो संथोभो खवणमणुभवो वाऽवि ।
अणिकाइयम्मि कम्मे निकाइए पायमणुभवरणं ॥ (२५१४)
- अह मोक्खसाहणमईएँ न भयहेऊऽवि ताणिते गथो ।
वत्थाइँ मोक्खसाहणमईएँ सुद्धं कह गयो १ ॥ (२५६९)
- सारक्खणाणुबंधो रोद्धज्झाणं त्रि ते मई हुज्जा ।
तुल्लमिय देहाऽसु पसत्थमिह त तहेहावि ॥ (२५७०)
- जे जत्तिया पगारा लोए भयहेअवो अविरयाण ।
ते चैव य विरयाणं पसत्थभावाण मोक्खाय ॥ (२५७१)
- वत्थाइँ तेण ज ज सजमसाहणपराग-दोसस्स ।
त तमपरिग्गहो च्चिय परिग्गहो ज तदुवचाई ॥ (२५७४)
- सीयत्ताण ताण जलण-तणगयाण सत्ताणं । (२५७५)
- तह निसि चाउकाल सज्झाय-ज्झाण-साहयमिसीण ।
महि-महिया-वासो-सा-रयाडरखानिमित्त च ॥ (२५७६)
- मयमंवरुज्झणत्थ गिल्लाणपाणोवगारि वाऽभिमयं ।

मृहपुत्तियाइ चैत्रं परुणिज्जं जहाजोग ॥ (२५७७)

संसत्तसत्त-गोरस-पाणयपाणीयपाणरवत्तथ ।

परिगलण-पाणघायण-पच्छाकम्माडयाण च ॥ (२५७८)

परिहारत्थ पत्त गिलाण-यालादुग्गहत्थ च ।

दाणमयधम्मसाहण समया चैत्र परुप्परओ ॥ (२५७९)

निरुपमधिइसत्रयणाचउनाणाइसयसत्तमपण्णा ।

अच्छिद्धपाणिपत्ता जिणा जियपरिसहा सव्वे ॥ (२५८१)

उत्तमधिइसययणा पुव्वविटोऽतिसइणो सयाकाल ।

जिणकप्पियाऽवि कप्प कयपरिकम्मा पयज्जति ॥ (२५९१)

मण-परमोहि-पुलाए आहारग-खवग-उवसमे कप्पे ।

सजमतिय-केवलि-सिज्झणा य जतुम्मि वुच्छिण्णा ॥ (२५९३)

जइ चेलभोगमेत्तादजिआचेलयपरीसहो तेण ।

अजियदिगिंछाइपरीसहोऽवि भत्ताइभोगाओ ॥ (२५९४)

परिसुद्धजुण्णकुच्छियथोवाऽनिययन्नभोगभोगेहिं ।

मुणओ मुच्छारहिया सतेहिं अचेलया होति ॥ (२५९९)

जह जलमवगाहतो बहुचेलो वि सिरवेठियकडिल्लो ।

भण्णइ नरो अचेलो तह मुणओ सतचेलवि ॥ २६०० ॥

तह थोव-जुन्न-कुच्छियचेलेहिऽवि भन्नए अचेलो त्ति ।

जह तूर सालिय । लहु दे पात्तिं नग्गिया मो त्ति ॥ २६०१ ॥

“ तव सजमोऽणुमओ निग्गथ पवयण च ववहारो ।

सद्दुज्जुसुयाण पुण निवाण सजमो चैव ” (२६२१ नि.)

आया खल्ल सामइय पच्चक्खायतओ हवइ आया ।

त खल्ल पच्चक्खाण आवाए सव्वदवाण ” ॥ (२६३४ नि.)

“ पढमम्मि सव्वजीवा वीए चरिमे य सव्वदद्वाड ।

सेसा महव्वया खल्ल तदेगदेसेण द्वाणं ” (२६३७ नि.)

“ जीवो गुणपडिच्चत्तो नयस्स द्वाट्टियस्स सामइय ।

सो चेव पज्जवट्टियनयस्स जीवस्स एस गुणो ॥ (२६४३ नि.)

“ उप्पज्जंति वियंति य परिणमति य गुणा न द्वाइ ।

द्वप्पभवा न गुणा न गुणप्पभवाइ द्वाइं ॥ (२६४८ नि.)

उप्पाय—भगुराण पइक्खण जो गुणाण संताणो ।

द्वोवयारमेत्तो जइ कीरइ तम्मि तन्नाम ॥ (२६६१)

“ जं ज जे जे भावे परिणमइ पओग—वीससा द्व ।

त तह जाणाइ जिणो अपज्जवे जाणणा नत्थि ” ॥ (२६६७ नि.)

“ जस्स सामाणिओ अप्पा, सजमे नियमे तवे ।

तस्स सामाइय होइ, इइ केवलिभासिअं ॥ (२६७९ नि.)

जो समो सव्वभूएसुं, तसेसु थावरेसु य ।

तस्स सामाइयं होइ, इइ केवलिभासिय ॥ (२६८० नि.)

सावज्जजोगंपरिवज्जणट्ठा, सामाइय केवलिय पसत्थ ।

गिहत्यधम्मा परम ति नच्चा, कुज्जा बुहो आयहियं परत्था ॥

(२६८१ नि.)

“ सव्व ति भाणिऊणं विरई खल्ल जस्स सव्विया नत्थि ।

सो सव्वविरइवाइं चुक्कइ देस च सव्व च ” ॥ २६८४ नि.)

नणु तिविह तिविहेण पच्चक्खाणं सुयम्मि गिहिणोऽवि ॥

त धूलवहाईण न सव्वसावज्जजोगाण ॥ (२६८६)

जइ किंचिदप्पओयणमप्पप्प वा वित्तेसिय वत्थु ।

पच्चक्खेज्ज न दोसो सयभूरमणाइमच्छुव ॥ (२६८७)

मृहपुत्तियाइ चेरं परुणिजं जहाजोग ॥ (२५७७)

संसत्तसत्त-गौरम-पाणयपाणीयपाणरवत्तथ ।

परिगलण-पाणघायण-पच्छाकम्माइयाण च ॥ (२५७८)

परिहारत्थ पत्त गिलाण-वालादुग्गाहत्य च ।

दाणमयधम्मसाहण समया चेर परुपरशो ॥ (२५७९)

निरुपमधिइसत्रयणाचउनाणाइसयसत्तमपण्णा ।

अच्छिद्दपाणिपत्ता जिणा जियपरिसहा सत्ते ॥ (२५८१)

उत्तमधिइसययणा पुव्वविटोऽतिसइणो सयाकाल ।

जिणकप्पियाऽवि कप्प कयपरिकम्मा पयज्जति ॥ (२५९१)

मण-परमोहि-पुलाए आहारग-खवग-उवसमे कप्पे ।

सजमतिय-कैवलि-सिज्झणा य जजुम्मि वुच्छिण्णा ॥ (२५९३)

जइ चेलभोगमेत्तादजिआचेलयपरीसहो तेण ।

अजियदिगिंछाइपरीसहोऽवि भत्ताइभोगाओ ॥ (२५९४)

परिसुद्धजुण्णकुच्छियथोवाऽनिययन्नभोगभोगेहिं ।

मुणओ मुच्छारहिया सतेहिं अचेलया होति ॥ (२५९९)

जह जलमवगाहतो बहुचेलो वि सिरवेठियकडिल्लो ।

भण्णइ नरो अचेलो तह मुणओ सतचेलवि ॥ २६०० ॥

तह थोव-जुन्न-कुच्छियचेलेहिऽवि भन्नए अचेलो त्ति ।

जह तूर सालिय । लहु दे पात्तिं नग्गिया मो त्ति ॥ २६०१ ॥

“ तव सजमोऽणुमओ निग्गथ पवयण च ववहारो ।

सद्दुज्जुमुयाण पुण निवाण सजमो चेव ” (२६२१ नि.)

आया खल्ल सामइय पच्चक्खायतओ हवइ आया ।

त खल्ल पच्चक्खाण आवाए सवदवाण ” ॥ (२६३४ नि.)

- भावस्स य सकोओ मणसा सुद्धस्स विणिवेसो ॥ (२८५७)
- सव्वेसु सव्वघाइसु हएसु देसोवघाइयाण च ।
- भागेहिं मुच्चमाणो समए समए अणतेहिं ॥ (२८९६)
- “ मग्गो अविप्पणासो आयारे विणयया सहायत्तं ।
- पञ्चविहनमोकार करेमि एएहिं हेऊहिं ” ॥ (२९४४ नि.)
- “ अडवोए देसयत्तं तहेव निज्जामया समुद्धम्मि ।
- छक्कायरक्खणट्ठा महगोवा तेण वुच्चति ” ॥ (२९५९ नि)
- “ राग-द्वोस-कसाए य, इदियाणि य पंच वि ।
- परोसहे उवसग्गे, नामयता नमोऽरिहा ” ॥ (२८६० नि.)
- कुप्पवयणेसु पढमो विइओ सद्दाइएसु विसएसु ।
- विसयादनिमित्तोऽवि हु सिणेहराओ सुयाईसु ॥ (२९६५)
- कम्म कसो भवो वा कसमाओ सिं जओ कसाया तो ।
- कसमाययंति व जओ गमयति कस कसाय त्ति ॥ (२९७८)
- नाम ठवणा दविए उप्पत्ती पच्चए य आप्से ।
- रस-भाव-कसाएऽवि य पस्वणा तेसिमा होइ ॥ (२९८०)
- इदो जीवो सव्वोवलद्धिभोगपरमेसरत्तणओ ।
- सोत्ताइभेयमिदियमिह तल्लिगाइभावाओ ॥ (२९९३)
- विसयग्गहणसमत्थ उवगरणं इदियतर तपि ।
- ज नेह तदुवघाए गिण्हइ निवत्तिभावेऽवि ॥ (२९९६)
- लद्धुवओगा भाविदिय तु लद्धित्ति जो खओवसमो ।
- होइ तदावरणाण तल्लामे चेव सेसपि ॥ (२९९७)
- पंचेन्दिउव वउलो नरोव सव्वविसओवलभाओ ।
- तहवि न भण्णइ पचेदिउत्ति वज्जेदियाभावा ॥ (३००१)

जो वा निरखमिउमणो पटिमं पुत्ताइमनइनिमित्तं ।

पडिउज्जेज्ज तओ वा फरज्ज तिविहं पि तिविहणं ॥ (२६८८)

जो पुण पुद्धारद्दाणुज्झियसाउज्जकम्मसताणो ।

तदणुमइपरिणइ सो न तरइ सहसा नियत्तेउ ॥ (२६८९)

“ जो नवि वटइ रागे नपि दोसे दोण्ह मज्झयारम्मि ।

सो होइ उ मज्झत्यो सेसा सन्न अमज्झत्या ” ॥ (२६९१ नि.)

“ पुढवि-जल-जलण-याया मूला-सध-गग पोर-बीया य ।
वि-ति-चउ-पचिंदिय-तिरिय-नारग-देवसयाया” ॥ (२७०३ नि.)

“ समुच्छिम-कम्मा-ऽकम्मभूमगनरा तहतरहीवा ।

भावदिसा दिस्सइ ज ससारी निययमेयाहिं ” ॥ (२७०४ नि.)

ऊसरदेसं दड्ढिल्लय व विज्झाइ वणदवो पप्प ।

इय मिच्छस्स अणुदए उवसमसम्म मुणेयव ॥ (२७३४)

उवसामगसेदिगयस्स होइ उवसामगं तु सम्मत्त ।

जो वा अकयतिपुजो अखवियमिच्छो लहइ सम्म ॥ (२७३५)

“ सव्वगय सम्मत्त मुए चरित्ते न पज्जवा सव्वे ।

देसविरइ पडुच्चा दोण्हवि पडिसेहण कुज्जा ” ॥ (२७५१ नि.)

दो वारे विजयाइसु गयस्स तिण्णऽच्चुए य छावट्ठी ।

नरजम्मपुवकोढीपुहुत्तमुकोसओ अहिअं ॥ (२७६२)

सम्मत्त-चरणसहिया सब लोग फुसे निरवसेस ।

सत्त य चोहसभागा पच य सुयदेसविरईए ॥ (२७८२ नि.)

धणिरुप्पाई इदियगेज्जत्ताओ पयत्तजत्ताओ ।

पुगलसभूईओ पच्चयभेए य भेयाओ ॥ (२८२५)

पूयत्यमिण सा पुण सिर-कर-पायाइ दवसंकोओ ॥

- भावस्स य संकोओ मणसा सुद्धस्स विणिवेसो ॥ (२८५७)
- सन्वेसु सव्वघाइसु हएसु देसोवघाइयाणं च ।
- भागेहिं मुच्चमाणो समए समए अणतेहिं ॥ (२८९६)
- “ मग्गो अविप्पणासो आयारे विणयया सहायत्तं ।
- पञ्चविहनमोक्कार करेमि एएहिं हेऊहिं ” ॥ (२९४४ नि.)
- “ अडवोए देमयत्तं तहेव निज्जामया समुद्धम्मि ।
- छक्कायरक्खणद्धा महगोवा तेण वुच्चंति ” ॥ (२९५९ नि.)
- “ राग-द्वोस-कसाए य, इंदियाणि य पंच वि ।
- परीसहे उवसग्गे, नामयंता नमोऽरिहा ” ॥ (२८६० नि.)
- कुप्पवयणेसु पढमो विद्दओ सद्धाइएसु विसएसु ।
- विसयादनिमित्तोऽवि हु सिणेहराओ सुयाईसुं ॥ (२९६५)
- कम्म कसो भवो वा कसमाओ सिं जओ कसाया तो ।
- कसमाययंति व जओ गमयति कसं कसाय त्ति ॥ (२९७८)
- नाम ठवणा दविए उप्पत्ती पच्चए य आएसे ।
- रस-भाव-कमाएऽवि य परूवणा तेसिमा होइ ॥ (२९८०)
- इदो जीवो सव्वोवलद्धिभोगपरमेसरत्तणओ ।
- सोत्ताइभेयमिदियमिह तल्लिगाइभावाओ ॥ (२९९३)
- विसयगहणसमत्थ उवगरण इदियतर तपि ।
- ज नेह तदुवघाए गिण्हइ निवत्तिभावेऽवि ॥ (२९९६)
- लद्धुवओगा भाविदिय तु लद्धित्ति जो खओवसमो ।
- होइ तदावरणाणं तल्लामे वेव सेसपि ॥ (२९९७)
- पचेन्द्रिव वडलो नरोव्व सव्वविसओवलभाओ ।
- तहवि न भण्णइ पचेदिउत्ति वज्जेदियाभावा ॥ (३००१)

जो वा निरखमिउमणो पटिथं पुत्ताउसनइनिमित्तं ।

पटिवज्जेच्च तओ वा फरञ्ज तिविह पि तिप्रिणं ॥ (२६८८)

जो पुण पुवारद्वाणुज्झियसावज्जकम्मसनाणो ।

तदणुमइपरिणइ सो न तरइ सहसा नियत्तेउं ॥ (२६८९)

“ जो नवि वट्टइ रागे नवि दोसे टोण्ह मज्झयारम्मि ।

सो होइ उ मज्झत्यो सेसा सच्च अमज्झत्या ” ॥ (२६९१ नि.)

“ पुढवि-जल-जलण-याया मूला-रघ-ग पोर-बीया य ।
वि-ति-चउ-पचिदिय-तिरिय-नारग-देवसयाया” ॥ (२७०३ नि.)

“ समुच्छिम-कम्मा-ऽकम्मभूमगनरा तहतरहीवा ।

भावदिसा दिस्सइ ज सतारी निययमेयाहिं ” ॥ (२७०४ नि.)

ऊसरदेस दड्डिल्लय व विज्झाइ वणदवो पप्प ।

इय मिच्छस्स अणुदए उवसमसम्म मुणेयव ॥ (२७३४)

उवसामगसेढिगयस्स होइ उवसामग तु सम्मत्त ।

जो वा अकयतिपुजो अखवियमिच्छो लहइ सम्म ॥ (२७३५)

“ सव्वगय सम्मत्त सुए चरित्ते न पज्जवा सव्वे ।

देसविरइ पडुच्चा दोण्हवि पडिसेहण कुज्जा ” ॥ (२७५१ नि.)

दो वारे विजयाइसु गयस्स तिण्णऽच्चुए य छावट्ठी ।

नरजम्मपुवकोठीपुहुत्तमुक्कोसओ अहिअं ॥ (२७६२)

सम्मत्त-चरणसहिया सब लोग फुसे निरवसेस ।

सत्त य चोहसभागा पच य सुयदेसविरईए ॥ (२७८२ नि.)

धणिरुप्पाई इदियगेज्झत्ताओ पयत्तजत्ताओ ।

पुग्गलसभूईओ पच्चयमेए य भेयाओ ॥ (२८२५)

पूय-यमिण सा पुण सिर-कर-पायाइ दवसंकोओ ॥

भावस्स य संकोओ मणसा सुद्धस्स विणिवेसो ॥ (२८५७)
 सव्वेसु सव्वघाइसु हएसु देसोवघादयाण च ।
 भागेहिं मुच्चमाणो समए समए अणतेहिं ॥ (२८९६)
 “ मग्गो अविप्पणासो आयारे विणयया सहायत्तं ।
 पञ्चविहनमोकार करेमि एएहिं हेऊहिं ” ॥ (२९४४ नि.)
 “ अडवोए देसयत्तं तहेव निज्जामया समुद्धम्मि ।
 छकायरक्खणट्ठा महगोवा तेण बुच्चति ” ॥ (२९५९ नि)
 “ राग-दोस-कसाए य, इदियाणि य पंच वि ।
 परीसहे उवसग्गे, नामयता नमोऽरिहा ” ॥ (२८६० नि.)
 कुप्पवयणेसु पढमो विइओ सद्दाइएसु विसएसु ।
 विसयादनिमित्तोऽवि हु सिणेहराओ सुघार्इसु ॥ (२९६५)
 कम्म कसो भवो वा कसमाओ सिं जओ कसाया तो ।
 कसमाययंति व जओ गमयंति कस कसाय त्ति ॥ (२९७८)
 नामं ठवणा दविए उप्पत्ती पच्चए य आप्से ।
 रस-भाव-कसाएऽवि य परूवणा तेसिमा होइ ॥ (२९८०)
 इदो जीवो सव्वोवलद्धिभोगपरमेसरत्तणओ ।
 सोत्ताइभेयमिंदियमिह तल्लिगाइभावाओ ॥ (२९९३)
 विसयगगहणसमत्थ उवगरण इंदियतर तपि ।
 जं नेह तदुवघाए गिण्हइ निवत्तिभावेऽवि ॥ (२९९६)
 लद्धुवओगा भाविंदिय तु लद्धित्ति जो खओवसमो ।
 होइ तदावरणाणं तल्लामे चैव सेसपि ॥ (२९९७)
 पचेन्दिउव वउलो नरोव सव्वविसओवलंभाओ ।
 तहवि न भण्णइ पचेदिउत्ति वज्झेंदियाभावा ॥ (३००१)

जो वा निरखमिउमणो पढिमं पुत्ताइसतइनिमित्तं ।
 पढियज्जेज्ज तओ या फरज्ज तिरिह पि तिरिहणं ॥ (२६८८)
 जो पुण पुवारद्धाणुज्झियसावज्जकम्मसनाणो ।
 तदणुमइपरिणइ सो न तरइ सहसा नियत्तेउं ॥ (२६८९)
 “ जो नवि चट्टइ रागे नवि दोसे दोण्ह मज्झयारम्मि ।
 सो होइ उ मज्झत्यो सेसा सव्वे अमज्झत्या ” ॥ (२६९१ नि.)
 “ पुढवि-जल-जलण-वाया मूला-खध-ग पोर-वीया य ।
 वि-ति-चउ-पच्चिदिय-तिरिय-नारग-देवसघाया” ॥ (२७०३ नि.)
 “ समुच्छिउ-कम्मा-उकम्मभूमगनरा तहतरेदीवा ।
 भावदिसा दिस्सइ ज सतारी निययमेयाहिं ” ॥ (२७०४ नि.)
 ऊसरदेसं दड्ढिउय व त्रिज्जाइ वणदवो पप्प ।
 इय मिच्छस्स अणुदए उवसमसम्म मुणेयव ॥ (२७३४)
 उवसामगसेट्ठिगयस्स होइ उवसामगं तु सम्मत्त ।
 जो वा अकयतिपुजो अखवियमिच्छो लहइ सम्म ॥ (२७३५)
 “ सव्वगय सम्मत्त मुए चरित्ते न पज्जवा सव्वे ।
 देसविरइ पडुच्चा दोण्हवि पढिसेहण कुज्जा ” ॥ (२७५१ नि.)
 दो वारे विजयाइसु गयस्स तिण्णउच्चुए य छावट्ठी ।
 नरजम्मपुवकोठीपुहुत्तमुक्कोसओ अहिअं ॥ (२७६२)
 सम्मत्त-चरणसहिया सव्व लोगं फुसे निरवसेसं ।
 सत्त य चोइसभागा पच य सुयदेसविरइए ॥ (२७८२ नि.)
 धणिरुप्पाई इदियगेज्झत्ताओ पयत्तजत्ताओ ।
 पुगलसभईओ पच्चयभेए य भेयाओ ॥ (२८२५)
 पूयत्यमिण सा पुण सिर-कर-पायाइ दवसेकोओ ॥

होडं व असेलेसो सेलेसीहोट थिरयाए ॥ (३०६५)

अहवा सेलु च्च इसी सेलेसीहोइ सोऽतिथिरयाए ।

से व अलेसीहोई सेलेसीहोअलोवाओ ॥ (३०६६)

सीलं व समाहाणं निच्छयओ सव्वसंवरो सो य ।

तस्सेसो सीलेसो सेलेसी होड तदवत्या ॥ (३०६७)

ज्ञाणं मणोविसेसो तदभावे तस्स संभवो कत्तो ? ।

भण्णइ भणियं ज्ञाणं समए तिविहेऽवि करणंमि ॥ (३०७०)

“ जत्थ य एगो सिद्धो तत्थ अणंता भवक्खयविमुक्का ।

अन्नोऽन्नसमोगाढा पुट्ठा सव्वेऽवि लोगते ” ॥ (३१७६ नि.)

“ फुसइ अणते सिद्धे सव्वपएसेहिं नियमओ सिद्धो ।

तेऽवि असंखिज्जगुणा देसपएसेहिं जे पुट्ठा ” (३१७७ नि.)

मुत्तिमयामवि य समाणदेसया दीसए पईवाण ।

गम्मइ परमाणूण य मुत्तित्रिमुक्केसु का संका ? ॥ (३१८२)

“ इहलोए अत्य-कामा आरोग्ग-अभिरई य निष्फत्ती ।

सिद्धी य सग्ग-सुकुलपज्जायाई य परलोए ” ॥ (३२२३ नि०)

“ इहलोगम्मि त्तिदढी साट्ठिच्च माउल्लगवणमेव ।

परलोए चडपिंगल हुडियजक्खो य दिट्ठता ” ॥ (३२२४ नि.)

पूयाणुवगाराओ अपरिगहाओ विमुत्तिभावाओ ।

दूराइभावओ वा विफला सिद्धाइपूयत्ति ॥ (३२२९)

जिण-सिद्धा दिंति फल पूयाए केण वा पवण्णमिणं ।

धम्माऽयम्मनिमित्तं फलमिह जं सव्वजीवाण ॥ (३२३०)

त पुण्णं पावं वा ठियमत्तणि वज्झपच्चयाविकखं ।

कालंतरपागाओ देइ फल न परओ लब्धं ॥ (३२३८)

परिमोढवा जङ्घा मगात्रिचुइ-त्रिणिज्जराहेऊ ।
 जुत्ता परीसहा ते सुहादओ होनि नारीसं ॥ (३००४)
 हास-प्पओस-वीमंसओ विमायाएँ रा भरो द्विवो ।
 एव चिय माणुस्तो कुसीलपडिसेवणचवत्थे ॥ (३००६)
 तिरिओ भय-प्पओसा-हारावचाइरअणत्थ वा ।
 घट-त्थभण-पवहण-लेसणओ चाऽऽयसनेओ ॥ (३००७)
 अरहतागारवई ठवणा नाम मय नमोकारो ।
 भावेणति य भावो दव पुण कीरमाणो त्ति ॥ (३०१०)
 “ अरहतनमोकारो एव खलु वणिणओ महत्थो त्ति ।
 जो मरणम्मि उवग्गे अभिक्खण कीरई वहुसो ” ॥ (३०१५नि.)
 मोत्तुपि वारसंगं मरणाइभएसु कीरए जम्हा ।
 अरहतनमोकारो तम्हा सो वारसगत्यो ॥ (३०१७)
 एगम्मिवि जम्मि पए सवेगं कुणइ वीयरायमए ।
 सो तेण मोहजाल छिंदइ अज्झप्पओगेण ॥ (३०२१)
 “ कम्मे सिप्पे य विज्जाए, मते जोगे य आगमे ।
 अत्थ-जत्ता-अभिप्पाए, तवे कम्मक्खए इय ” ॥ (३०२८नि.)
 “ दीहकालरय जतुकम्म से-सियमट्टहा ।
 सिय धतति सिद्धस्स, सिद्धत्तमुवजायइ ” ॥ (३०२९ नि.)
 “ नाऊण वेयणिज्ज अइवहुय आउग च थोवाग ।
 गंतूण समुग्घाय खवेइ कम्म निरवसेस ” ॥ (३०३०)
 आवज्जणमुवओगो वावारो वा तदत्थमाईए ।
 अंतोमुहुत्तमेत्त काउ कुरुए समुग्घाय ॥ (३०५१)
 सेलेसो किल मेरू सेलेसी होइ जा तदच्चलया ।

तेण चिय ते पुज्जा नाणाइतियव मोक्खत्थं ॥ (३२७७)

मुत्तिमओऽवि न मुत्ती पृइज्जइ किन्तु जे गुणा तस्स ।

ते मुत्तिउत्ति चिय नणु सिद्धगुणाण तु सा नत्थि ॥ (३२७९)

पूया मुत्ति-गुणाणं संवंधे फलयतीह को हेऊ ? ।

अन्नो परिणामाओ तस्स य को केण संवंधो ? ॥ (३२८०)

निययत्थो परिणामो वज्झत्थालवणनिमित्तमिस्सागो ।

देइ फलं सव्वो चिय सिद्धगुणालवणो चैव ॥ (३२८१)

जह दूरत्थेऽवि धिई वधुम्मि सरीरपुट्ठिवलहेऊ ।

तणुदोव्वलाइफलो कत्थइ सोगाइसकण्णो ॥ (३२८२)

तह परिणामो सुद्धो धम्मफलो होइ दूरसथेऽवि ।

अविसुद्धो पावफलो दूरासन्न ति को भेओ ? ॥ (४२८३)

परिणामो वज्झालवणो सया चैव चित्तधम्मो त्ति ।

विण्णाणं पिव तम्हा सुहवज्झालवणपयत्तो ॥ (३२८६)

सुहपरिणामनिमित्तं होज्ज सुह जइ तओ सुहो होज्ज ।

उम्मत्तस्स व न उ सो सुहो विवज्जासभावाओ ॥ (३२९०)

“ पक्खतिहओ दुगुणिया दुरूवरहिया य सुक्कपक्खम्मि ।

सत्तहिए देवसियं त चिय रूवाहिय रत्ति ” ॥ (३३४९ नि.)

“ अणुरत्तो भत्तिगओ अमुई अणुअत्तओ विसेसन्नु ।

उज्जुत्तो अपरित्तो इच्छियमत्थ लहइ साहू ” ॥ (३४०२)

पुव्वाभिमुहो उत्तरमुहो व दिज्जाऽहवा पट्टिच्छेज्जा ।

जाए जिणादओ वा दिसाइ जिणवेइयाइ वा ॥ (३४०६)

चाउइसिं पण्णरसिं वज्जेज्ज अट्ठमिं च नवमिं च ।

छट्ठिं च अउत्थीं च धारसिं च सेमासु देज्जाहि ॥ (३४०७)

जह सो पत्ताणुगहपरिणामाओ फल मओ लहइ ।

तह गिण्हतोऽवि फलं तटणुगहओ सओ लहइ ॥ (३२४४)

हारी वि हरणपरिणामदूसिओ वज्जपच्चयाविसस ।

पावो पाव पावइ जं ततो से फल होइ ॥ (३२४५)

निययपरिणामउ चिय सिद्ध जिणमिद्धपूयाए । (३२४६)

कज्जा जिणाइपूया परिणामविष्ठुद्धिहेउओ निच्च । (३२४७)

जइ वीयरगदोस मुणिमक्कोमिज्ज कोइ दुट्ठप्पा ।

कोव-प्पसायरहिओ मुणि त्ति किं तस्स नाधम्मो ? ॥ (३२५७)

हिंसामि मुस भासे हरामि परदारमाविसामि त्ति ।

चित्तेज्ज कोइ न य चिंतियाण कोवाइसभूई ॥ (३२५९)

तहवि य धम्मा-ऽधम्मो दयाइसकप्पओ तहेहावि ।

वीयकसाए सवओऽधम्मो धम्मो य सधुणओ ॥ (३२६०)

सो य निययप्पसाओऽवस्स जिण-सिद्धपूयाणाउत्ति ।

जस्स फलमप्पमेय तेण तयत्यो पयत्तोऽय ॥ (३२६२)

नाणाइमयत्ते सइ पुज्जा कोव-प्पसाय-विरहाओ ।

निययप्पसायहेउं नाणाइतिय व जिण-सिद्धा ॥ (३३६३)

संतोऽवि जो कसाए निगिण्हइ सोऽवि तत्तुल्लो । (३२६५)

पूयारंभो नणु सपरिणामसुद्धत्यमक्खाओ । (३२६६)

न परपरिग्गहउ चिय धम्मो किंतु परिणामसुद्धीओ ।

पूयाअपरिग्गहम्मिऽवि सा य धुवा तो तदारभो ॥ (३२७२)

एवं जिणाइपूया सद्धासवेगसुद्धिहेउओ ।

अपरिग्गहा वि धम्मायु होइ सीलव्वयाइ व ॥ (३२७६)

ज चिय मुत्तिविउत्ता मुत्ता गुणरासओ विसेसेणं ।

तेण चिय ते पुज्जा नाणाइतियव भोक्खत्थं ॥ (३२७७)

मुत्तिमओऽवि न मुत्ती पूड्ज्जइ किन्तु जे गुणा तस्स ।

ते मुत्तिउत्ति चिय नणु सिद्धगुणाण तु सा नत्थि ॥ (३२७९)

पूया मुत्ति-गुणाण संवंधे फलयतीइ को हेऊ ? ।

अन्नो परिणामाओ तस्स य को केण संवंधो ? ॥ (३२८०)

निययत्थो परिणामो वज्झत्थालवणनिमित्तमिच्छागो ।

देइ फलं सब्बो चिय सिद्धगुणालवणो चेव ॥ (३२८१)

जह दूरत्येऽवि धिई वधुम्मि सरीरपुट्टिवलहेऊ ।

तणुदोव्वलाइफलो कत्यइ सोगाइसकप्पो ॥ (३२८२)

तह परिणामो सुद्धो धम्मफलो होइ दूरसय्येऽवि ।

अविसुद्धो पावफलो दूरासन्न ति को भेओ ? ॥ (४२८३)

परिणामो वज्झालवणो सया चेव चित्तधम्मो त्ति ।

विण्णाणं पिव तम्हा सुहवज्झालवणपयत्तो ॥ (३२८६)

सुहपरिणामनिमित्तं होज्ज सुह जइ तओ सुहो होज्ज ।

उम्मत्तस्स व न उ सो सुहो विवज्जासभावाओ ॥ (३२९०)

“ पक्खतिहओ दुगुणिया दुरूवरहिया य सुक्कपक्खम्मि ।

सत्तहिण्ण देवसियं तं चिय रुवाहिय रत्ति ” ॥ (३३४९ नि.)

“ अणुरत्तो भत्तिगओ अमुई अणुअत्तओ विसेसन्नु ।

उज्जुत्तो अपरित्ततो इच्छियमत्थं लहइ साहु ” ॥ (३४०२)

पुव्वाभिमुहो उत्तरमुहो व दिज्जाऽहवा पढिच्छेज्जा ।

जाए जिणादओ वा दिसाइ जिणचेइयाइ वा ॥ (३४०६)

चाउहसिं पण्णरसिं वज्जेज्ज अट्ठमिं च नवमिं च ।

छट्ठिं च चउत्थीं च धारसिं च सेसामु देज्जाहि ॥ (३४०७)

मियसिर अद्दा पुस्तो तिन्नि य पुवाइं मूलमम्मोसा ।

हृत्यो चित्ता य तथा दस विद्धिकराइं नाणस्स ॥ (३४०८)

पियधम्मो दग्धम्मो सविग्गोऽवज्जभीरु असदो य ।

खतो दंतो गुत्तो यिरवय जिईदिओ उज्जू ॥ (३४१०)

सव चिय पइसमयं उप्पज्जइ नामए य निच्च च ।

एवं चेव य सुह-दुक्ख-वध-भोक्खाइसग्भावो ॥ (३४३५)

भग्णइ गुरुकुलवासीवसगहत्य जहा गुणत्थीह ।

निच्च गुरुकुलवासी हविज्ज सीसो जओऽभिहिय ॥ (३४५८)

नाणस्स होइ भागी यिरतरओ दंसणे चरित्ते य ।

धम्मा आवकहाए गुरुकुलवासं न मुचंति ॥ (३४५९)

गीयावासो रई धम्मे, अणाययणवज्जण ।

निग्गहो य कसाँयाणं, एय धीराण सासणं ॥ (३४६०)

आवस्सयऽपि निच्च गुरुपामूलम्मि देसियं होइ ।

वीसुंऽपि हु सवसओ कारणओ जदभिसेज्जाए ॥ (३४६१)

क्खिक्खिक्खं गुरवो विदति विणयपडिवत्तिहेउ च ।

उस्सासाइ पमोत्तु तदणापुच्छाइ पडिसिद्ध ॥ (३४६४)

गुरुविरहम्मि य ठवणा गुरुवएसोवदसणत्थ च ।

जिणविरहम्मि व जिणबिबसेवणामतण सफल ॥ ३४६५)

रघ्नो व परोक्खस्स वि जह सेवा मंतदेवयाए वा ।

तह चेव परुक्खस्स वि गुरुणो सेवा विणयहेऊ ॥ (३४६६)

विणओ सासणे मूल, विणीओ सजओ भवे ।

विणयाउ विप्पमुक्खस्स, कओ धम्मो कओ तवो ? ॥ (३४६८)

विणओवयार माणस्स भजणा पूयणा गुरुजणस्स ।

तित्ययराण य आणा सुयधम्माऽऽराहणाऽकिरिया ॥ (३४६९)

कसिण दव सव्वं तद्देसो वा विवक्खयाभिमओ ।

दवे तद्देसम्मि य सव्वासवे चउब्भगो ॥ (३४८६)

आया चेव अहिंसा आया हिंसत्ति निच्छओ एस ।

जो होइ अप्पमत्तो अहिंसओ हिंसओ इयरो ॥ (३५३६)

पुत्ताइसंतइनिमित्तमित्तमेकारसिं पवण्णस्स ।

जंपति केइ गिहिणो दिक्खामिमुहस्स तिविह ति ॥ (३५४४)

“ नायम्मि गिण्हियवे अगिण्हियव्वम्मि चेव अत्यम्मि ।

जइयव्वमेव इइ जो उवएसो सो नओ नाम ” ॥ (३५९२ नि.)

“ सव्वेसिं पि नयाण बहुविहवत्तवय निसामित्ता ।

तं सव्वनयविमुद्ध जं चरण--गुणट्ठिओ साहू ॥ (३५९३ नि.)

मियसिर अहा पुस्ते तिन्नि य पुवाइं मूलमस्सेसा ।

हत्यो चित्ता य तथा दस विद्धिकराइं नाणस्स ॥ (३४०८)

पियधम्मो दग्धम्मो सविग्गोऽयन्नीरु असदो य ।

खतो दंतो गुत्तो यिरत्तय जिइंदिओ उज्जू ॥ (३४१०)

सव चिय पइसमयं उप्पज्जइ नामए य निच्च च ।

एवं चेव य सुहं-दुर्वखं-वधं-मोक्खाइसग्भावो ॥ (३४३५)

भण्णइ गुरुकुलवासोवसगहत्य जहा गुणत्पीह ।

निच्च गुरुकुलवासी हविज्जे सीसो जओऽभिहिय ॥ (३४५८)

नाणस्स होइ भागी यिरतरओ देसणे चरित्ते य ।

धम्मा आवकहाए गुरुकुलवास न मुंचंति ॥ (३४५९)

गीर्यावासो रई धम्मे, अणाययणवज्जण ।

निग्गहो य कसायाणं, एयं धीराण सासणं ॥ (३४६०)

आवस्सयऽपि निच्च गुरुपामूलम्मि देसिय होइ ।

वीमुंऽपि हु सवसओ कारणओ जदभिसेज्जाए ॥ (३४६१)

क्किच्चाक्किच्च गुरवो विदति विणयपडिवत्तिहेउ च ।

उस्सासाइं पमोत्तुं तदणापुच्छाइ पडिसिद्धं ॥ (३४६४)

गुरुविरहम्मि य ठवणा गुरुवएसोवदसणंत्य च ।

जिणविरहम्मि व जिणविंबसेवणामंतण सफल ॥ ३४६५ ॥

रक्षो व परोक्खस्स वि जह सेवा मंतदेवयाए वा ।

तह चेव परुक्खस्स वि गुरुणो सेवा विणयहेज्ज ॥ (३४६६)

विणओ सासणे मूल, विणीओ सजओ भवे ।

विणयाउ विप्पमुक्खस्स, कओ धम्मो कओ तवो ? ॥ (३४६८)

विणओबयार माणस्स भजणा पूयणा गुरुजणस्स ।

तित्ययराण य आणा सुयधम्माऽऽराहणाऽकिरिया ॥ (३४६९)
 कसिण दध सधं तद्देसो वा विवक्खयाभिमओ ।
 दधे तद्देसम्मि य सवासधे चउब्भगो ॥ (३४८६)
 आया चैव अहिंसा आया हिंसत्ति निच्छओ एस ।
 जो होइ अप्पमत्तो अहिंसओ हिंसओ इयरो ॥ (३५३६)
 पुत्ताइसतइनिमित्तमित्तमेक्कारसिं पवणस्स ।
 जंपंति केइ गिहिणो दिक्खामिसुहस्स तिविह ति ॥ (३५४४)
 “ नायम्मि गिण्हियधे अगिण्हियव्वम्मि चैव अत्यम्मि ।
 जइयव्वमेव इइ जो उवएसो सो नओ नाम ” ॥ (३५९२ नि.)
 “ सव्वेसिं पि नयाणं बहुविहवत्तधय निसामित्ता ।
 तं सव्वनयविसुद्ध ज चरण--गुणट्ठिओ साहू ॥ (३५९३ नि.)

इति श्रीविशेषावश्यकभाष्यस्य विशेषोपयुक्ताः गाथाः

मियसिर अद्दा पुस्से तिन्नि य पुवाइं मूलमस्सेमा ।

हत्यो चित्ता य तथा दस विद्धिकराइं नाणस्स ॥ (३४०८)

पियधम्मो दग्धम्मो सविग्गोऽयज्जभीरु असडो य ।

खतो दतो गुत्तो यिरत्तय जिइंदिओ उज्जू ॥ (३४१०)

सत्त चिय पइसमयं उप्पज्जइ नामए य निच्च च ।

एवं चेव य सुह-दुक्ख-वध-भोक्खाइसन्भावो ॥ (३४३५)

भण्णइ गुरुकुलवासोवसगहत्य जद्दा गुणत्पीइ ।

निच्च गुरुकुलवासी हविज्जे सीसो जओऽभिहिय ॥ (३४५८)

नाणस्स होइ भागी यिरत्तरओ देसणे चरित्ते य ।

धम्मा आवकहाए गुरुकुलवास न मुंचंति ॥ (३४५९)

गीयावासो रई धम्मे, अणाययणवज्जण ।

निग्गहो य कसायाणं, एय धीराण सासणं ॥ (३४६०)

आवस्सयऽपि निच्च गुरुपामूलम्मि देसियं होइ ।

वीमुंऽपि हु सवसओ कारणओ जदभिसेज्जाए ॥ (३४६१)

क्किच्चाक्किच्च गुरवो विदति विणयपडिवत्तिहेउ च ।

उस्सासाइं पमोत्तुं तदणापुच्छाइ पडिसिद्धं ॥ (३४६४)

गुरुविरहम्मि य ठवणा गुरुवएसोवदसणत्थ च ।

जिणविरहम्मि व जिणविंवसेवणामतण सफल ॥ ३४६५)

रत्तो व परोक्खस्स वि जह सेवा मतदेवयाए वा ।

तह चेव परुक्खस्स वि गुरुणो सेवा विणयहेऊ ॥ (३४६६)

विणओ सासणे मूलं, विणीओ सजओ भवे ।

विणयाउ विप्पभुक्खस्स, कओ धम्मो कओ तवो ? ॥ (३४६८)

विणओधयार माणस्स भजणा पूयणा गुरुजणस्स ॥

तित्ययराण य आणा सुयधम्माऽऽराहणाऽकिरिया ॥ (३४६९)

कसिण दव सधं तहेसो वा विवक्खयाभिपओ ।

दधे तहेसम्मि य सवासधे चउब्भगो ॥ (३४८६)

आया वेव अहिंसा आया हिंसत्ति निच्छओ एस ।

जो होइ अप्पमत्तो अहिंसओ हिंसओ इयरो ॥ (३५३६)

पुत्ताइसंतइनिमित्तमित्तमेकारसिं पवण्णस्स ।

जंपंति केइ गिहिणो दिक्खामिमुहस्स तिविह ति ॥ (३५४४)

“ नायम्मि गिण्हियधे अगिण्हियव्वम्मि वेव अत्यम्मि ।

जइयवमेव इइ जो उवएसो सो नओ नाम ” ॥ (३५९२ नि.)

“ सव्वेसिं पि नयाण बहुविहवत्तवय निसामित्ता ।

तं सवनयविसुद्धं जं चरण--गुणट्ठिओ साहू ॥ (३५९३ नि.)

॥ पैँनम ॥ ॐनम सिद्ध ॥

श्रीसर्वज्ञाय नमः ॥

॥ अथ श्रीविचारसारप्रकरणप्रारंभः ॥

पणयजणपूरियासो भ(ग)यद्वृतासो गुणाण आवासो । उवस-
गवगनासो जयउ जए जिणवरो पासो ॥ १ ॥ मुणिरायति-
लयभूओ अच्चब्भुयचरियकयचमुक्कारो । सिरिधम्मघोससूरी वदिय-
चूडामणी जयउ ॥ २ ॥ तस्स य सीसो गुणरयणजलान्ही लद्धि-
बुद्धिसजुत्तो । पढमो बुहजणनिलओ पडियपउमप्पहो जयउ ॥ ३ ॥
चारित्तचक्कवट्ठी खमऽमसहिओ सहाइ मियवयणो । सिरिदेवप्पह-
सूरी सुसिद्धहत्थो जए जयउ ॥ ४ ॥ पज्जुन्नसूरिलिहियं
वियारलेस जिणाण समयाओ । नमिउ देवं सुगुरुं सपरत्थ ताण
सीसेण ॥ ५ ॥ सुयसायरो अपारो आउ थोव वयं च दुम्मेहा ।
त किंपि सिक्खियव जं कज्जकर च थोव च ॥ ६ ॥ जिणसमय-

नत्था धीर जिनाधीश, सूरिं चा नन्दसागर ।

छाया विचारसारस्य विदधे सस्कृतामह ॥१॥

प्रणतजनपूरिताशो गताष्टत्रास गुणानामावास । उपसर्ग-
वर्गनाशको जयतु जगति जिनवर पार्श्व ॥ १ ॥ मुनिराजतिल-
कभूतोऽत्यद्भुतचरित्रकृतचमत्कार । श्रीधर्मघोषसूरिर्वहिकचू-
डामणिर्जयतु ॥२॥ तस्य च शिष्यो गुणरत्नजलनिधि लब्धिद्युद्धि
सयुक्त । प्रथमो बुधजननिलय पडित पद्मप्रभो जयतु ३ चारित्र
चक्रवर्ती क्षमादमसहित सहायी (सभायाम) मितवचन । श्रीदेव
प्रभसूरि सुसिद्धहस्तो जगति जयतु ॥४॥ प्रद्युम्नसूरि (भि) लिखित
(लम्बित) विचारलेश जिनाना समयात् नत्था देव सुगुरु स्यप-
रार्थं तेषां शिष्येण ॥५॥ श्रुतसागरोऽपार आयु स्तोत्र वयं च
दुर्मैधस । तत् किमपि शिक्षितव्यं यत् कार्यकर च स्तोत्र च ॥६॥

सय अट्टावीसं तु णेयवं ॥ १५ ॥ मूसमदूसम तइओ दुकोडिको-
 डीओ कालमाणेणं । गाउयउच्चा पलिओवमाउणो वज्जसघयणा
 ॥ १६ ॥ चउसट्ठीपिट्ठिकरंडयाण मणुयाण तेसिमाहारो । भत्तस्स
 चउत्त्यस्स य उणसीइ दिणाण पालणया ॥ १७ ॥ अरएसुवि एएसु
 तीसुं जुयलाइ हुति लोयाणं । दसविहकप्पद्दुमकयसमत्यभोगप्प-
 सिद्धा उ ॥ १८ ॥ मत्तगया य १ भिंगा २ तुडियगा ३ दीव ४
 जोइ ५ चित्तगा ६ । चित्तरसा ७ मणियगा ८ गेहागारा ९ अणि-
 गिणा य १० ॥ १९ ॥ मत्तगेसु य मज्ज १ सुहपिज्जं भायणाणि
 भिंगेसु २ । तुडियगेसु य तुडियाइ हुति बहुप्पयाराइ ३ ॥ २० ॥
 दीवसिहा ४ जोइसनामगा ५ य एए करंति उज्जोय ५ । चित्तगेसु
 य मल्ल ६ चित्तरसा भोयणट्ठाए ७ ॥ २१ ॥ मणियगेसु य भूसण-
 वराइ ८ भवणाइ भवणरूख्वेसु ९ तह अणिडणेसु वणियं वत्थाई
 बहुप्पयाराइ १० ॥ २२ ॥ ओसप्पिणी इमीसे तइये अरयमि पच्छिमे
 भागे । पलिओवमट्टभाए सेसमि उ कुलगरूपत्तो ॥ २३ ॥ पढमि-

धिक तु ज्ञातव्यम् ॥ १५ ॥ सुपमदुष्पम तृतीय द्विकोटिकोटिक काल-
 मानेन । गन्धूतोच्चा पल्योपमायुपो वज्जमहनना ॥ १६ ॥ चतु पट्टि
 पृष्ठकरडकाना मनुजाना तेषामाहार । भक्तस्य चतुर्थस्य (द्वितीये
 दिने) च एकोनाशीर्ति दिनान् पालना ॥ १७ ॥ अरकेष्वप्येतेषु त्रिपु
 युगलानि भवन्ति लोकानाम् । दशविधकल्पद्दुमकृतसमस्तभोग-
 प्रसिद्धानि तु ॥ १८ ॥ मत्तागकाश्च भृगा ऋटितागा द्वीपज्योतिश्चिन्ना
 गा । चित्ररस्ता मण्यगा गेहाकारा अनमकाश्च ॥ १९ ॥ मत्तागेषु च
 मद्य सुखपेय भाजनानि भगेषु । ऋटितागेषु च ऋटितानि भवन्ति
 ग्रहप्रकाराणि ॥ २० ॥ द्वीपशिखाज्योति सनामकाश्चैते कुर्वन्ति उद्यो
 तम् । चित्रागेषु च माल्य चित्ररस्ता भोजनायाय ॥ २१ ॥ मण्यगेषु च
 मूपणयराणि भवनानि भवनवृक्षेषु । तथा वाढ अनमेषु वस्त्राणि
 ग्रहप्रकाराणि ॥ २२ ॥ अथसप्पिण्या अस्या तृतीयेऽरवे पश्चिमे भागे ।
 पल्योपमाष्टमभागे शेषे तु कुल्करोपत्ति ॥ २३ ॥ प्रथमोऽत्र विमन्-

काण्णाओ सुमणं व त्रिणिस्तु मारमुत्तमम् । विरयामि जिणव
 (ई) मालव हियद्विया सम्मं ॥ ७ ॥ अवि मद्रपि नुञ्जिज्ज दद
 लावधणपि मीसेणं । न च नीखयवक्खाणं तीरड काऊण सु
 ॥ ८ ॥ सव्वनईण जा हुञ्ज वालुया सव्वउदहि ज उदयं । र
 अणतगुणिओ अत्यो एगस्स मुत्तस्स ॥ ९ ॥ अवसप्पिणि
 अवसप्पिणि अवसप्पिणी छहिं छहिं अरएहिं जति दो कमसो ।
 भरहेरवएसु विदेहपणगेवि नो हुति ॥ १० ॥ सूसमसूममअरओ प
 चउअयरकोडिकोडीओ । तत्य नर तिकोसउच्चा तिपलियाऊ
 लधम्मा ॥ ११ ॥ पिट्टिकरडसयाइ दो छप्पन्नाइ अवच्चपाल
 । अउणावन्न दिणाइ अट्टमभत्तस्स आहारो ॥ १२ ॥ सूसमसू
 भाव अणुहवमाणाण जुयलधम्मीण । तिरियाविय गयमाई ए
 नवरं छकोसुच्चा ॥ १३ ॥ सूसमअरओ वीओ तिकोडीउअय
 रिमाणो । दो पलिया दो कोसा परिमाणं जुयलदेहीण ॥ १४
 छठस्स य आहारो चउसट्ठि दिणाण पालणा तेसिं । पिट्टिकरड

जिनसमयकाननात् सुमन इषावचित्य सारमुपदेशम् । वि
 चयामि जिनवचासि मालेव हृदयस्थिता (हितार्थाय) सम्य
 ॥७॥ अपि मद्रमपि नूरयेद् हृदशिलावधनमपि शीर्षेण । न च नि
 श्शेष व्याख्यान शक्यते कर्तुं सूत्रस्य ॥८॥ सर्वनदीना या भवेत्
 र्वालुका सर्वोदधीना यदुदकम् ॥ तस्मादनन्तगुणितोऽर्थ एकस्
 सूत्रस्य ॥९॥ अवसप्पिणीति-अवसप्पिण्युत्सप्पिण्यौ षड्भिः षड्भिः उ
 रकैर्यातो द्वे क्रमशः दशभरतैरवतेषु विदेहपचकेऽपि न भवत् ॥१०
 सुषमसुषमोऽरक प्रथम चतुरतरकोटिकोटिक । तत्र नरा त्रिकं
 शोच्चा त्रिपल्यायुष युगलधर्माण ॥११॥ पृष्ठकरडकाणि शते द्वे षट्
 पचाशदधिके अपत्यपालना एकोनपचाशद्दिनान् अष्टमभक्ते
 (तुर्यदिने) आहार ॥१२॥ सुषमसुषमभावमनुभवता युगलधर्मिणा
 तिर्यञ्चोऽपि च गजादय ईदृशा नवर षट्कोशोच्चा ॥१३॥ सुषमोऽर
 को द्वितीय त्रिकोटिकोटिकातरपरिमाण । द्वे पत्ये, (आयु) द्वं
 क्रोशौ परिमाण युगलदेहिनाम् ॥१४॥ षष्ठस्य (तृतीयदिने) चाहार
 चतु षष्टि दिनान् पालना तेषाम् । पृष्ठकरडाना शत अष्टाविंशत्य

सय अष्टावीसं तु गेयव ॥ १५ ॥ सूसमदूसम तइओ दुकोडिको-
 डीओ कालमाणेणं । गाउयउच्चा पलिओवमाउणो वज्जसघयणा
 ॥ १६ ॥ चउसट्ठीपिठ्ठिकरडयाण मणुयाण तेसिमाहारो । भत्तस्स
 चउत्थस्सय उणसीइ दिणाण पालणया ॥ १७ ॥ अरणसुवि एएसु
 तीसुं जुयलाइ ह्ति लोयाण । दसविहकप्पहुमकयसमत्यभोगप्प-
 सिद्धा उ ॥ १८ ॥ मत्तगया य १ भिंगा २ तुडियगा ३ दीव ४
 जोइ ५ चित्तगा ६ । चित्तरसा ७ मणियगा ८ गेहागारा ९ अणि-
 गिणा य १० ॥ १९ ॥ मत्तगेसु य मज्ज १ सुहपिज्ज भायणाणि
 भिंगेसु २ । तुडियगेसु य तुडियाइं ह्ति बहुप्पयाराइं ३ ॥ २० ॥
 दीवसिहा ४ जोइसनामगा ५ य एए करेति उज्जोयं ५ । चित्तगेसु
 य मल्ल ६ चित्तरसा भोयणट्ठाए ७ ॥ २१ ॥ मणियगेसु य भ्रसण-
 वराइं ८ भवणाइ भवणरूक्खेसु ९ तह अणिङ्गणेसु घणिय वत्थाइं
 बहुप्पयाराइ १० ॥ २२ ॥ ओसप्पिणी इमीसे तइये अरयंमि पच्छिमे
 भागे । पलिओवमट्ठभाए सेसमि उ कुलगरूपत्ती ॥ २३ ॥ पढमि-

धिक तु ज्ञातव्यम् ॥ १५ ॥ सुसमदुष्पम तृतीय द्विकोटिकोटिक का-
 लमानेन । गव्यूतोच्चा पल्योपमायुषो वज्जमहनना ॥ १६ ॥ चतु पट्टि
 पृष्ठकरडकाना मनुजाना तेषामाहार । भक्तस्य चतुर्थस्य (द्वितीये
 दिने) च एकोनाशीति दिनान् पालना ॥ १७ ॥ अरण्येष्वप्येतेषु त्रिषु
 युगलानि भवन्ति लोकानाम् । दशविधकल्पद्रुमकृतसमस्तभोग-
 प्रसिद्धानि तु ॥ १८ ॥ मत्तागकाश्च भृगा वृटितागा द्वीपज्योतिश्चिन्ना
 गा । चित्ररसा मण्यगा गेहाकारा अनमकाश्च ॥ १९ ॥ मत्तागेषु च
 मद्य सुखपेय भाजनानि भोगेषु । वृटितागेषु च वृटितानि भवन्ति
 ग्रहप्रकाराणि ॥ २० ॥ द्वीपशिखाज्योति सनामकाश्चैते कुर्वन्ति उद्यो-
 तम् । चित्रागेषु च मातय चित्ररसा भोजनायाः ॥ २१ ॥ मण्यगेषु च
 मूषणयराणि भवनानि भवनवृक्षेषु । तथा बाढ अनमेषु वज्जाणि
 ग्रहप्रकाराणि ॥ २२ ॥ अयसपिण्या अस्या तृतीयेऽरवे पश्चिमे भागे ।
 पल्योपमाश्रमभागे शेषे तु कुल्करोत्पत्ति ॥ २३ ॥ प्रथमोऽत्र विमल-

त्थ त्रिमल्ल्याहण १ चक्रसुम २ जसमं ३ चतुर्थमभिचंद्रं ४ । ततो
 पसेणइ ५ पुण मरुदेव चैव ६ नापी य ७ ॥ २४ ॥ नत्र धनुसयाई
 पढमो १ अट्ट य २ सत्त ३ द्दसत्तमाई च ४ । छवेव ५ अट्टछट्टा
 ६ पचसया पचवीसा य ७ ॥ २५ ॥ चक्रसुम १ जसम च २ पसेणई
 य ३ एए पियगुवन्नाभा । अभिचंद्रो ससिगोरो ४ निम्मळ-
 कणगप्पभा सेसा ॥ २६ ॥ चंद्रजस १ चंद्रकंता २ सुत्त ३ पडि-
 रूव ४ चक्रसुमता य ५ । सिरिकता ६ मरुदेवी ७ कुलगरपत्तीण
 नामाइ ॥ २७ ॥ सघयण सटाण उच्चत्तं चैव कुलगरेहिं समं । बन्नेण
 एगवन्ना सत्ताउ पियगुवन्नाओ ॥ २८ ॥ उसभस्स निव्वुयस्स य
 उवरिया इगुणनवइ पक्खा य । कप्पतरुजुयल थका विवाहसिप्पाइ
 जायमओ ॥ २९ ॥ चउरासीपुवेहिं ऊणेहिं तइयअरयमज्झमि ।
 उप्पन्नो तह सिद्धो रिसहजिणो पढमतित्ययो ॥ ३० ॥ रिसहस-
 मआउमाण पचविदेहेसु उत्तमनराण । सेसाण पुवकोटी पचधणूस-
 यतणुच्चत्त ॥ ३१ ॥ पुवस्स य परिमाण सयरिं खलु हुति

घाहन चक्षुष्मान् यशस्वी चतुर्थाऽभिचन्द्र । तत प्रसेनजित् पुन
 मरुदेवश्चैव नाभिश्च ॥ २४ ॥ नव धनु शतानि प्रथम अष्ट च सप्त
 अर्धसप्त च । पदेव अर्द्धपट् पच शतानि पंचविंशतिश्च ॥ २५ ॥ चक्षु
 ष्मान् यशस्वी च प्रसेनजिच्च पते प्रियगुवर्णाभा । अभिचन्द्र
 शशिगौर निर्मलकनकप्रभा शेषा ॥ २६ ॥ चन्द्रयशा चन्द्रकान्ता
 सुरूपा प्रतिरूपा चक्षुष्मती च । श्रीकान्ता मरुदेवी कुलकरपत्नी
 ना नामानि ॥ २७ ॥ सहनन सस्थान उच्चत्थ कुलकरै सममेव ।
 धर्णेन पक्वर्णा सर्वा पियगुवर्णा ॥ २८ ॥ ऋषभे निर्धृत्ते चोद्धृता एको
 ननवति पक्षाश्च । कल्पतरुयुगलौ (धर्मौ) विरतौ विवाहशि
 ल्पादि जातमत ॥ २९ ॥ चतुरशीति (लक्ष) पूर्वेषु ऊनेषु तृतीयार
 कमध्ये । उत्पन्न तथा सिद्ध ऋषभजिन प्रथमतीर्थकर ॥ ३० ॥ ऋष
 भसममायुर्मान् पचसु विदेहेषु उत्तमनराणाम् । शेषाणा पूर्वकोटि
 पंचधनु शतानि तनूच्चत्वम् ॥ ३१ ॥ पूर्वस्य च परिमाण सप्तति खलु
 भवति कोटिलक्षा । षट्पचाशच्च सहस्राणि बोद्धव्यानि धर्षको

कोटि लक्खाओ । छप्पन्नं च सहस्सा बोद्धवा वासकोटीणं ॥
 ७०५६०००००००००००० ॥ ३२ ॥ दूसमसुसम चउत्थो इग कोटा-
 कोटि होइ किंचूणा । ऊणत्त पुण एयं वायाला वच्छरस्सहस्सेहिं
 ॥ ३३ ॥ इह पुव्वकोटिआउ उच्चत्तं धणुसयाइ पचेव । वासट्ठि महा-
 पुरिसा तह परलोयमि संपत्ता ॥ ३४ ॥ आउ देहपमाणं वलवि-
 रियं कमकमेण हीणयरं । कालाणुभावओ इह जायइ सवपि हीणयर
 ॥ ३५ ॥ अंतं वीरो सिद्धो गुणनवइपक्ख उवरियसेसे । दूसम पच-
 मअरओ इगवीसा वरससहसेहिं ॥ ३६ ॥ बुच्छिउन्नमि चरित्ते दूस-
 मदूसमअरो पुणो छट्ठो । उगवीसवरिससहसो विलवास नरा दुह-
 त्युच्चा ॥ ३७ ॥ वीसवरिसाउ मणुया इत्थी सोलस छांस गब्भ-
 धरा । ढसअयरकोटिकोटि उस्सप्पिणी इइ विवरीया ॥ ३८ ॥ ओ-
 सप्पिणुवसप्पिणी वारसअरगेसु होइ समत्तं । तियचउपचसु विरई
 अवसप्पुवसप्पि तिचउत्थे ॥ ३९ ॥ अवसप्पिणिअरछके आउप-
 माणाउ एवमाईए । खणि २ परिहाणिपरं वीए छक्कमि वड्ढति ॥ ४० ॥

टीनाम् ॥ ३२ ॥ दुष्पमसुपमश्चतुर्थं एका कोटाकोटि भवति किंचिदू-
 ना । ऊनत्वं पुनरेतद् द्वाचत्वारिंशता वत्सरसहस्रैः ॥ ३३ ॥ इह
 (तुयेंडरवे) पूर्वकोटि आयुरुच्चत्वं धनु शतानि पचैत्र । द्वापट्टि
 महापुरुषा तथा परलोके सप्राप्ता ॥ ३४ ॥ आयुर्दंष्ट्रप्रमाणं बलवीय
 क्रमेण क्रमेण हीनतरम् । कालानुभावत इह जायते सर्वमपि हीन-
 तरम् ॥ ३५ ॥ अन्ते वीर सिद्ध एकोनवतौ पक्षेपूढतशेषेषु । दुष्पम
 पचमोऽरक एकविंशत्या वर्षसहस्रैः ॥ ३६ ॥ व्युच्छिन्ने चारित्रे दुष्प
 मद्दुष्पमोऽरक पुन पष्ठ । एकविंशतियर्षसहस्रं विलवासिनो
 नरा द्विहस्तोच्चा ॥ ३७ ॥ विंशतिवपायुषो मनुजा स्त्रिय षोडश
 (वर्षायुष) षड्वर्षगर्भधरा । दशातरकोटाकोटी उत्सर्पिण्या
 विपरीता ॥ ३८ ॥ अवसर्पिण्युत्सर्पिण्योर्द्वादशसु अरवेषु भवति सम्य-
 क्तम् । तृतीयचतुर्थपचमेषु विरतिरवसर्पिण्या उत्सर्पिण्या तृतीय
 चतुर्थयो ॥ ३९ ॥ अवसर्पिण्यरकपदके आयु प्रमाणे पथमादौ । क्षणे क्षणे
 परिहाणिपरे द्वितीये पदके प्रद्वंते ॥ ४० ॥ अकर्मभूमय इति-हैमघनानि

त्थ त्रिमलाहण ? चक्रसुम २ जसमं ३ चउत्यमभिचंभे ४ । त
 पसेणइ ५ पुण मरुदेये चैय ६ नामी य ७ ॥ २४ ॥ नव षणुस
 पढमो ? अट्ट य २ सच ३ दसत्तमाइं च ४ । छेव ५ अद्ध
 ६ पचसया पचवीसा य ७ ॥ २५ ॥ चक्रसुम ? जसम च २ पसे
 य ३ एए पियगुवन्नाभा । अभिचंदो ससिगोरो ४ निम्म
 कणगप्पभा सेसा ॥ २६ ॥ चटजस ? चंद्रकंता २ सुस्त्र ३ पा
 रुव ४ चक्रसुमता य ५ । मिरिकता ६ मरुदेवी ७ कुलगरपत्ती
 नामाई ॥ २७ ॥ सद्यण सठाणं उच्चत्तं चैव कुलगरेहिं समं । बरे
 एगवन्ना सवाउ पियगुवन्नाओ ॥ २८ ॥ उसभस्स निव्वुयस्स
 उवरिया इगुणनवइ पक्खा य । कप्पतरुजुयल षका विगाहसिप्प
 जायमओ ॥ २९ ॥ चउरासीपुवेहिं ऊणेहिं तइयअरयमज्झंमि
 उप्पन्नो तह सिद्धो रिसहजिणो पढमतित्ययरो ॥ ३० ॥ रिसह
 मआउमाणं पचविदेहेसु उत्तमनराण । सेसाण पुवकोटी पचधणू
 यतणुच्चत्त ॥ ३१ ॥ पुवस्स य परिमाण सयरिं खलु हु

घाहन चक्षुष्मान् यशस्वी चतुर्थाऽभिचन्द्र । तत प्रसेनजित् पुन
 मरुदेवश्चैव नाभिश्च ॥ २४ ॥ नव धनु शतानि प्रथम अष्ट च स
 अर्धसप्त च । षडेव अर्द्धपद् पच शतानि पंचविंशतिश्च ॥ २५ ॥ चक्षु
 ष्मान् यशस्वी च प्रसेनजिच्च पते प्रियगुवर्णाभा । अभिचन्द्र
 शशिगौर निर्मलकनकप्रभा शेषा ॥ २६ ॥ चन्द्रयशा चन्द्रकान्त
 सुरूपा प्रतिरूपा चक्षुष्मती च । श्रीकान्ता मरुदेवी कुलकरपत्नी
 ना नामानि ॥ २७ ॥ सहनन सस्थानं उच्चत्व कुलकरै सममेव
 धर्णेन पकवर्णा सर्वा पियगुवर्णा ॥ २८ ॥ ऋषभे निर्वृत्ते चीडुता एको
 ननवति पक्षाश्च । कल्पतरुयुगलौ (धर्मौ) विरतौ विवाहशि
 ह्पादि जातमत ॥ २९ ॥ चतुरशीति (लक्ष) पूर्वेषु ऊनेषु तृतीयार
 क्रमधये । उत्पन्न तथा सिद्ध ऋषभजिन प्रथमतीर्थकर ॥ ३० ॥ ऋष
 भसममायुर्मानं पचसु विदेहेषु उत्तमनराणाम् । शेषाणा पूर्वकोटि
 पंचधनु शतानि तनूच्चत्वम् ॥ ३१ ॥ पूर्वस्य च परिमाण सतति खलु
 भवन्ति कोटिलक्षा । षट्पंचाशच्च सहस्राणि बोद्धव्यानि धर्षको

कोडि लक्खाओ । छप्पन्न च सहस्सा बोद्धवा वासकोडीणं ॥
 ७०५६०००००००००००० ॥ ३२ ॥ दूसमसुसम चउत्थो इग कोडा-
 कोडि होइ किंचूणा । ऊणत्त पुण एयं वायाला वच्चरस्सहस्सेहिं
 ॥ ३३ ॥ इह पुव्वकोडिआउं उच्चत्त धणुसयाइ पचेव । वासट्ठि महा-
 पुरिसा तह परलोयमि सपत्ता ॥ ३४ ॥ आउ देहपमाणं बलवि-
 रिय कमकमेण हीणयरं । कालाणुभावओ इह जायइ सव्वपि हीणयर
 ॥ ३५ ॥ अंतं वीरो सिद्धो गुणनवइपवत्त उवरियसेसे । दूसम पंच-
 मअरओ इगवीसा वरससहसेहि ॥ ३६ ॥ वुच्चिउन्नमि चरित्ते दूस-
 मदूसमअरो पुणो छट्ठो । उगवीसवरिससहसो विलवास नरा दुह-
 त्थुच्चा ॥ ३७ ॥ वीसवरिसाउ मणुया इत्थी सोलस छवास गम्भ-
 धरा । दसअयरकोडिकोडि उस्सप्पिणी इइ विवरीया ॥ ३८ ॥ ओ-
 सप्पिणुवसप्पिणी वारसअरगेसु होइ संमत्तं । तियचउपचसु विरई
 अवसप्पुवसप्पि तिचउत्थे ॥ ३९ ॥ अवसप्पिणिअरछक्के आउप-
 माणाउ एवमाइए । खणि २ परिहाणिपरं वीए छक्कंमि वडून्ति ॥ ४० ॥

टीनाम् ॥ ३२ ॥ दुष्पमसुपमश्चतुर्थे एका कोटाकोटि भवति किंचिदू-
 ना । ऊनत्व पुनरेतद् द्वाचत्वारिंशता वत्सरसहस्रै ॥ ३३ ॥ इह
 (तुर्येऽरके) पूर्वकोटि आयुरुच्चत्व धनु शतानि पचैव । द्वापट्टि
 महापुरुषा तथा परलोके सप्राप्ता ॥ ३४ ॥ आयुर्देहप्रमाण बलवीय
 क्रमेण क्रमेण हीनतरम् । कालानुभायत इह जायते सर्वमपि हीन
 तरम् ॥ ३५ ॥ अन्ते जीर सिद्ध एकीननवती पक्षेपूढतशेषेषु । दुष्पम
 पचमोऽरक एकविंशत्या वर्षसहस्रै ॥ ३६ ॥ व्युच्छिन्ने चारित्रे दुष्प
 मदुष्पमोऽरक पुन पष्ठ । एकविंशतिवर्षसहस्र विलवासिनो
 नरा द्विहस्तोद्या ॥ ३७ ॥ विंशतिवपायुषो मनुजा स्त्रिय षोडश
 (वर्षायुष) षड्वर्षगर्भधरा । दशातरकोडाकोटी उत्सर्पिण्या
 धिपरीता ॥ ३८ ॥ अधसर्पिण्युत्सर्पिण्योर्द्वादशसु अरकेषु भवति सम्य-
 क्त्य । तृतीयचतुर्थेपचमेषु चिरतिरवमर्पिण्या उत्सर्पिण्या तृतीय
 चतुर्थयो ॥ ३९ ॥ अवसर्पिण्यरकपद्के आयु प्रमाणे षड्मादौ । क्षणे क्षणे
 परिहाणिपरे द्वितीये पद्के श्रद्धेते ॥ ४० ॥ अकर्मभूमय इति-द्वैमयतानि

स्थापना(?)॥ अकम्मभूमीउत्ति-इमवय १ हरिसवास २ देवकुरु
 ३ तहयउत्तरकुरुवि ४। हेरम्मय ५ हरछत्रय ६ इय छ भूमीउ पचगुणा
 ॥ ४१ ॥ कम्मभूमीउत्ति-भरहाई ५ विदेहाइ ७ परवपाई ५ च
 पंच पत्तेय । भदंतति कम्मभूमीउ धम्मजणगा उ पन्नरस ॥ ४२ ॥
 देसा अणारियत्ति-सगजणसवर ५वर खसपारसहोणखासिया
 दमिला । हयकन्ना गयकन्ना अन्नेवि अणारिया बहवे ॥४३॥ पावा
 य चंडकम्मा अणारिया निग्घिणा निरणुतावा । धम्मत्तिअक्खराइ
 सुमिणेवि न नज्जण जेसु ॥४४॥ सट्ठपणवीसआयरि ५देसत्ति
 रायगिह मगह १ चंपा अंगा २ तह तामलित्ति वगा य ३ । कंचणपुर
 कलिंगा ४ वाणारसि चेत्र कासी य ५ ॥४५॥ साकेय कोसला ६
 गयपुर च कुरु ७ सोरिय कुसट्टा य ८ । कंपिल्ल पचाला ९ अहिछ-
 ता जंगला चेत्र १० ॥ ४६ ॥ वारवई य सुरट्टा ११ मिहिल विदेहा
 य १२ वच्छ कोसवी १३ नंदिपुरं सडिल्ला १४ भदिलपुरमेव
 मलया य ॥ १५ ॥ ४७ ॥ वइराड वच्छ १६ वरुणा अच्छा १७

हरिवर्षा देवकुरुव तथोत्तरकुरवोऽपि । रम्यक् द्वैरण्यवत चेति षट्
 भूमय पञ्चगुणा ॥४१॥ कर्मभूमय इति-भरतानि विदेहानि पेरवतानि
 च पच प्रत्येकम् । भण्यन्ते कर्मभूमयो धर्मजनन्य पञ्चदश ॥४२॥
 देशा अनार्या इति-शक्यघनशबरबर्बरखसपारसहोणखासियाद्र
 मिला । हयकर्णा गजकर्णा अन्येऽप्यनार्या बहव ॥४३॥ पापाश्च चंड
 कर्माण अनार्या निर्घृणा निरनुतापा । धर्म इत्यक्षराणि स्वप्नेऽपि
 न ज्ञायते चेपु ॥४४॥ सार्द्धपचविंशतिरार्यदेशा इति-मगधासु राज
 गृह १ अङ्गेषु चम्पा २ तथा यङ्गेषु ताम्रलिति ३ कलिङ्गेषु काञ्च-
 नपुर ४ घाराणसी काशीषु ५ ॥ ४५ ॥ कोशलसु साकेत ६
 कुरुषु गजपद ७ कुशावर्त्त शौर्यपुर ८ । पाञ्चालेषु काम्पील्य ९
 जङ्गलासु अहिच्छत्रा १० चैव ॥ ४६ ॥ सुराष्ट्रासु द्वारिकावती
 ११ विदेहेषु मिथिला १२ वत्से कौशाम्ब्यो १३ । शाण्डिल्ये
 नन्दीपुर १४ मलये च भदिलपुरम् १५ ॥ ४७ ॥ बैराटे घत्स १६

तह मित्तियावइ दसला १८ सुत्तियमई य वेई १९ वीयभय सिंधु-
 सोवीरा २० ॥ ४८ ॥ मथुरा य सूरसेणा २१ पावा भगीय २२
 मास पुरिवट्टा २३ । सावत्थी य कुणाला २४ कोठीवरिस च लाढा य
 ॥ ४९ ॥ सेयवियाविय नयरी केइयअद्धं च २५ ॥ आरिय भणियं ।
 जत्थुप्पत्ति जिणाणं चक्कीणं रामकण्हाणं ॥ ५० ॥ वीसत्तित्थय-
 रनामकम्मज्जणठाणत्ति-अरिहंत १ सिद्ध २ पवयण ३ गुरु ४
 थेर ५ बहुस्सुए ६ तवस्सीसु ७ । वच्छल्लया य एसिं अभिक्ख ना-
 णोवओगे य ८ ॥ ५१ ॥ दसण ९ विणए १० आवस्सए य ११
 सोलव्वए १२ निरइयारो । खणलव १३ तव १४ च्चियाए १५ वे-
 यावच्चे १६ समाही य १७ ॥ ५२ ॥ अप्पुव्वनाणगहणे १८ सुयभत्ती
 १९ पवयणे पभावणया २० । एएहिं कारणेहिं तित्थयरत्तं लहइ
 जीवो ॥ ५३ ॥ पढमेण पच्छिमेण य एए सवेवि फासिया ठाणा ।
 मज्झिमएहि जिणेहिं एग दो तिन्नि सवेवा ॥ ५४ ॥ चउमेया अ-
 रिहंतत्ति-भावजिणा तह केवल्लि १ दव्वजिणा भाविभूयजिणजीया
 २ । जिणनामा नामजिणा ३ ठवणजिणा हुत्ति पडिमाओ ४ ॥ ५५ ॥

अच्छे घरुणा १७ तथा दशार्णे मृत्तिकावती १८ । शुत्तिकावती
 चेया १९ धीतभय सिन्धुसौवीरेणु २० ॥ ४८ ॥ शूरसेने मथुरा
 २१ भङ्ग्या पापा २२ पुरीवर्त्तं मापा २३ । कुणालाया श्रावस्ती
 २४ लाढासु कोठीवर्ष च २५ ॥ ४९ ॥ श्वेताम्बिकाऽपि च नगरी
 कैकेय्यर्धे चार्यं भणितम् । यत्रोत्पत्तिर्जिनाना चक्रिणा रामकण्णा-
 नाम् ॥ ५० ॥ विंशतिस्तीर्थकरनामकर्मर्जनस्थानानि-अहंतस्ति
 द्वप्रथचनगुरस्यविरवहुश्रुततपस्विणु । वत्सलता चेपा अभीक्ष्ण
 ज्ञानोपयोगश्च ॥ ५१ ॥ दर्शने विनये आवश्यके च शीलव्रते
 निरतिचार क्षणलव तप त्यागो वैयावृत्त्य समाधिश्च ॥ ५२ ॥
 अपूर्वज्ञानग्रहण श्रुतभक्ति प्रथचने च प्रभावना । एतै कारणै
 तीर्थकरत्य लभते जीव ॥ ५३ ॥ प्रथमेन पश्चिमेन चैतानि
 मघाण्यपि स्पृष्टानि स्थानानि । मध्यमकैर्जिनै एक द्वे त्रीणि स-
 र्षाणि च ॥ ५४ ॥ चतुर्भेदा अहंत-भावजिना तथा केवल्लिनो

स्यापना(?)॥ अकम्मभूमीउत्ति-हमवय १ हरिसवास २ देवकुरु
 ३ तहयउत्तरकुरुवि ४। हेरम्मय ५ हरत्तयय ६ इय छ भूमीउ पचगुणा
 ॥ ४१ ॥ कम्मभूमीउत्ति-भरहाई ७ विदेहाई ७ परवयाई ५ च
 पंच पत्तेयं । भन्नति कम्मभूमीउ धम्मजणगा उ पन्नरस ॥ ४२ ॥
 देसा अणारियत्ति-सगजणसघर उवर रसपारसहोणखासिया
 दमिला । हयकन्ना गयकन्ना अन्नेवि अणारिया वह्णे ॥४३॥ पावा
 य चंडकम्मा अणारिया निग्गिणा निरणुताया । धम्मत्तिअक्खराइ
 मुमिणेवि न नज्जण जेसु ॥४४॥ सद्धपणवीसआयरि-देसत्ति
 रायगिह मगह १ चंपा अंगा २ तह तामलित्तिवगा य ३ । कंचणपुरं
 कलिंगा ४ वाणारसि चैव कासी य ५ ॥४५॥ साम्य कोसला ६
 गयपुर च कुरु ७ सोरिय कुसट्टा य ८ । कंपिल्ल पचाला ९ अहिछ-
 ता जंगला चैव १० ॥ ४६ ॥ वारवई य सुरट्टा ११ मिहिल विदेहा
 य १२ वच्छ कोसवी १३ नदिपुर सडिछा १४ भदिलपुरमेव
 मलया य ॥ १५ ॥ ४७ ॥ वइराड वच्छ १६ वरुणा अच्छा १७

हरिवर्षा देवकुरव तथोत्तरकुरवोऽपि । रम्यक् द्वैरण्यवत चेति षट्
 भूमय पञ्चगुणा ॥४१॥कर्मभूमय इति-भरतानि विदेहानि पेरवतानि
 च पच प्रत्येकम् । भण्यन्ते कर्मभूमयो धर्मजनन्य पञ्चदश ॥४२॥
 देशा अनार्या इति-शक्यवनशबरवर्बेरखसपारसहोणखासियाप्र-
 मिला । हयकर्णा गजकर्णा अन्येऽप्यनार्या बहव ॥४३॥ पापाश्च चड
 कर्माण अनार्या निर्घृणा निरनुतापा । धर्म इत्यक्षराणि स्वप्नेऽपि
 न ज्ञायते येषु ॥४४॥ सार्द्धपचविंशतिरायदेशा इति-मगधासु राज-
 गृह १ अङ्गेषु चम्या २ तथा वङ्गेषु ताम्रलिप्ति ३ कलिङ्गेषु काञ्च-
 नपुर ४ घाराणसी काशीपु ५ ॥ ४२ ॥ कोशलासु साकेत ६
 कुरुपु गजपद ७ कुशावर्णे शौर्यपुर ८ । पाञ्चालेषु काम्पील्य ९
 जङ्गलासु अहिच्छत्रा १० चैव ॥ ४६ ॥ सुराष्ट्रासु द्वारिकावती
 ११ विदेहेषु मिथिला १२ वत्से कौशाम्बी १३ । शाण्डिल्ये
 नन्दीपुर १४ मलये च भदिलपुरम् १५ ॥ ४७ ॥ वैराटे वत्स १६

क्विन्ति १० मुणिसुख्यनामो ११ । अममो १२ य निष्काओ १३
 चउदसमो निष्पुलाय जिणो १४ ॥ ६२ ॥ निम्ममजिणो य होही
 १५ सोलसमो चित्तगुत्ततित्थयरो १६ । तहय समाही १७ संवर १८
 जसोहरो १९ विजयनामो य २० ॥ ६३ ॥ होही मल्लीदेवो २१-
 ववायजिण २२ अणतविरिय २३ भद्दो य २४ । भरहम्मि भाविय-
 जिणे चउवीसं वंदिमो निच्च ॥ ६४ ॥ वट्टतनामजिणनामत्ति-
 उसह अजिय सभवमिच्चाइ । उसभाहजिणाण पुव्व भव्वत्ति-धण
 १ मिहुण २ सुर ३ महव्वल ४ ललियंगय ५ वडरजं ६ मिहुणे य
 ७ । सोहम्म ८ विज्ज ९ अच्चुय १० चक्की ११ सव्वट्ट १२ मुसमे य
 १३ ॥ ६५ ॥ अह विमलवाहणनिव १ अणुत्तरविजयत्त २ मजि-
 यजिणसामी ३ । तह विमलवाहण १ आणयमि २ संभवजिणं ३
 सरह ॥ ६६ ॥ महवलनरवड् १ विजया २ भिनदणे ३ पुरिससीह
 १ विजयते २ । सुमइजिणे ३ अवराइयनिव १ नवगेविज्ज २ पउ-
 मजिणे ३ ॥ ६७ ॥ निवनदिसेण १ छट्टयगेविज्ज २ सुपासतित्थ-

सुव्रतनामा । अममश्च निष्कपाय चतुर्दशो निष्पुलाको जिन
 ॥ ६२ ॥ निर्ममजिनश्च भविष्यति षोडश चित्रगुततीर्थकर ।
 तथा च समाधि सवरो यशोधरो विजयनामा च ॥ ६३ ॥
 भविष्यति मल्लीदेव उपपातजिन अनन्तधीर्या भद्रश्च । भरते
 भाविजिनान् चतुर्विंशति वन्द्यामहे नित्यम् ॥ ६४ ॥ वर्तमान-
 जिननामानि ऋषभ अजित सभय इत्यादि । ऋषभादिजि-
 नाना पूर्वभया-इति-धनो मिथुन सुरो महाबलो ललितागश्च
 धञ्जयो मिथुन । सौधर्मं वैद्य अच्युत चक्री सर्वायं ऋषभश्च
 ॥ ६५ ॥ अय विमलवाहननृपमनुत्तरविजयन्मजितजिनन्धा-
 मिनम् । तथा विमलवाहनमानते संभवजिन स्मरत ॥ ६६ ॥
 महावलनरपतिविजयाभिनन्दनान् पुरुषार्थिद्वैजयतसुमतिजि-
 नान् । अपराजितनृपनवमग्रैवेयकपद्मजिनान् ॥ ६७ ॥ नृपो नदि-
 पेण पठे च ग्रैवेयके सुपार्श्वतीर्थनाथ च । पद्मनृपवैजयतचंद्रमभ

भरहे अईयअरिह भावजिणे वंदिमो चउतीम । भरह भविस्मयजिणे
दवजिणे हियतओ वदे ॥ ५६ ॥ केवल्लिपमोकम्बअईयजिणत्ति-
केवल्लनाणी १ निव्वाणी २ सायरो ३ जिण महायमो ४ विमलो
५ । सवाणुभूई ६ सिरिहर ७ दत्तो ८ टामोयर ९ सुतेओ १० ॥
५७ ॥ सामिजिणो य ११ सिवामी १२ सुमई १३ सिवगड १४
जिणो य अन्नाहो १५ । नाहनमेसर १६ अनिलो १७ जसो-
हरो १८ जिणकयग्गो य १९ ॥ ५८ ॥ धम्मोसर २० सुद्धमई २१
सिवकरजिण २२ सदणो य २३ संपइ य २४ उत्सपिणिए भ-
रहे जिणेसरे भावओ वदे ॥ ५९ ॥ भरहे भविस्सदव्वजिणत्ति-
वीरवरस्स भयवओ वोलिय चुल्लसीइवरिससहसेहिं । पउमाई चउ-
वीसं जह हुति जिणा तहा भणिमो ॥ ६० ॥ पउमाभ १ सूरदेवो २
तह य सुपासो ३ सर्यपभो ४ पवरो । सवाणुभूइनामो ५ होही तह
देवगुत्तो य ६ ॥ ६१ ॥ उदयजिणो ७ पेढालो ८ पुट्टिल ९ सय-

द्रव्यजिना भाविभूतजिनजीधा । जिननामानि नामजिना स्या
पनाजिना भवन्ति प्रतिमा ॥ ५५ ॥ भरतेऽतीतानर्हतो भावजिनान्
वन्दामहे चतुर्विंशतिम् । भरते भविष्यतो जिनान् द्रव्यजिनान् ततो
वन्दे ॥ ५६ ॥ केवल्लिप्रमुखा अतीतजिना -केवल्लज्ञानी निर्वाणी
सागरो जिनो महायशा विमल । सर्वानुभूति श्रीधर दत्तो
दामोदर सुतेजा ॥ ५७ ॥ स्वामिजिनश्च शिवासी सुमति
शिषगति जिनश्चास्ताघ । नाथो नमीश्वरोऽनिलो यशोधरो जिन
कृतावर्धश्च ॥ ५८ ॥ धर्माश्वर शुद्धमति शिवकरो जिन स्पन्दन
श्च सप्रतिश्च । उत्सपिण्या भरते जिनेश्वरान् भावतो वन्दे ॥ ५९ ॥
भरते भविष्यद्रव्यजिना इति-वीरवराद् भगवतो व्यतिव्रम्य चतु-
रशीतिं वर्षसहस्राणि । पद्मादय चतुर्विंशति यथा भविष्यति
तथा भणाम ॥ ६० ॥ पद्माभ शूरदेव तथा च सुपाश्वं
स्वयप्रभ प्रवर । सर्वानुभूति नामा भविष्यति तथा देव
गुप्तश्च ॥ ६१ ॥ उदयजिन पेढाल, पुट्टिल, सत्यकीर्ति मुनि

किति १० मुणिसुवयनामो ११ । अममो १२ य निक्साओ १३
 चउदसमो निष्पुलाय जिणो १४ ॥ ६२ ॥ निम्ममजिणो य होही
 १५ सोलसमो चित्तगुत्तित्थयरो १६ । तहय समाही १७ सवर १८
 जसोहरो १९ विजयनामो य २० ॥ ६३ ॥ होही मल्लीदेवो २१-
 ववायजिण २२ अणतविरिय २३ भद्दो य २४ । भरहम्मि भाविय-
 जिणे चउवीसं वंदिमो निच्च ॥ ६४ ॥ वट्टतनामजिणनामत्ति-
 उसह अजिय सभवमिच्चाइ । उसभाइजिणाण पुव्वभव्वत्ति-धण
 १ मिहुण २ सुर ३ महव्वल ४ ललियंगय ५ वइरजव ६ मिहुणे य
 ७ । सोहम्म ८ विज्ज ९ अच्चुय १० चकी ११ सव्वट्ट १२ मुसमे य
 १३ ॥ ६५ ॥ अह विमलवाहणनिव १ अणुत्तरविजयत्त २ मजि-
 यजिणसामी ३ । तह विमलवाहण १ आणयमि २ सभवजिण ३
 सरह ॥ ६६ ॥ महवलनरवइ १ विजया २ भिनदणे ३ पुरिससीह
 १ विजयते २ । सुमइजिणे ३ अवराइयनिव १ नवगेविज्ज २ पउ-
 मजिणे ३ ॥ ६७ ॥ निवनदिसेण १ छट्ठयगेविज्ज २ सुपासतित्थ-

सुवतनामा । अममश्च निष्कपाय चतुर्दशो निष्पुलाको जिन
 ॥ ६२ ॥ निर्ममजिनश्च भविष्यति षोडश चित्रगुमतीर्थकर ।
 तथा च समाधि सवरो यशोधरो विजयनामा च ॥ ६३ ॥
 भविष्यति मल्लीदेव उपपातजिन अनन्तवीर्यो भद्रश्च । भरते
 भाविजिनान् चतुर्विंशति वन्दामहे नित्यम् ॥ ६४ ॥ वर्तमान-
 जिननामानि ऋषभ अजित सभव इत्यादि । ऋषभादिजि-
 नाना पूर्वभवा-इति-धनो मिथुन सुरो महाबलो ललितागश्च
 वज्रजघो मिथुन । सौधर्मे वैद्य अच्युत चक्री सर्वार्थ ऋषभश्च
 ॥ ६५ ॥ अथ विमलवाहननृपमनुत्तरविजयत्वमजितजितस्त्रा
 मिनम् । तथा विमलवाहनमानते सभवजिन स्मरत ॥ ६६ ॥
 महावलनरपतिविजयाभिनन्दनान् पुरुषार्मिहवैजयतसुमतिजि
 नान् । अपराजितनृपनयमग्रैवेयकपद्मजिनान् ॥ ६७ ॥ नृपो नदि
 पेण पष्ठे च ग्रैवेयके सुपार्श्वतीर्थनाथ च । पद्मनृपवैजयतचंद्रप्रभ

भरहे अईयअरिहे मायजिणे वंदिमो चउतीस । भरह भविम्मयजिणे
 दवजिणे हियतओ वंदे ॥ ५६ ॥ केवल्लिपमोक्खअईयजिणत्ति-
 केवल्लानाणी १ निवाणी २ सायरो ३ जिण महायमो ४ विमलो
 ५ । सवाणुभूर्इ ६ सिरिहर ७ दत्तो ८ दामोयर ९ सुतेओ १० ॥
 ५७ ॥ सामिजिणो य ११ सिरामी १२ सुमई १३ सिवगड १४
 जिणो य अच्छाहो १५ । नाहनमेसर १६ अनिलो १७ जसो-
 हरो १८ जिणकयग्गो य १९ ॥ ५८ ॥ धम्मोसर २० सुद्धमई २१
 सिवकरजिण २२ सदणो य २३ संपइ य २४ उस्सप्पिणिण भर-
 रहे जिणेसरे भावओ वदे ॥ ५९ ॥ भरहे भविस्सदव्वजिणत्ति-
 वीरवरस्स भयवओ वोलिय जुलसीइवरिससहसेहिं । पउमाई चउ-
 वीस जह हुति जिणा तहा भणिमो ॥ ६० ॥ पउमाभ १ सूरदेवो २
 तह य सुपासो ३ सयपभो ४ पवरो । सवाणुभूर्इनामो ५ होही तह
 देवगुत्तो य ६ ॥ ६१ ॥ उदयजिणो ७ पेढालो ८ पुट्टिल ९ सय-

द्रव्यजिना भाविभूतजिनजीवा । जिननामानि नामजिना स्था
 पनाजिना भवन्ति प्रतिमा ॥ ५५ ॥ भरतेऽतीतानर्हते भावजिनान्
 वन्दामहे चतुर्विंशतिम् । भरते भविष्यतो जिनान् द्रव्यजिनान् ततो
 वन्दे ॥ ५६ ॥ केवल्लिप्रमुखा अतीतजिना -केवल्लज्ञानी निर्वाणी
 सागरो जिनो महायशा विमल । सर्वानुभूति श्रीधर दत्तो
 दामोदर सुतेजा ॥ ५७ ॥ स्वामिजिनश्च शिवासी सुमति
 शिवगति जिनश्चास्ताथ । नाथो नमीश्वरोऽनिलो यशोधरो जिन
 कृतार्थश्च ॥ ५८ ॥ धर्माश्वर शुद्धमति शिवकरो जिन स्पन्दन
 च सप्रतिश्च । उत्सर्पिण्या भरते जिनेश्वरान् भावतो वन्दे ॥ ५९ ॥
 भरते भविष्यद्रव्यजिना इति-धीरवराद् भगवतो व्यतिक्रम्य चतु-
 रशीर्ति वर्षसहस्राणि । पद्मादय चतुर्विंशति यथा भविष्यन्ति
 तथा भणाम ॥ ६० ॥ पद्माभ शूरदेव तथा च सुपार्श्व
 स्वयप्रभ प्रघर । सर्वानुभूति नामा भविष्यति तथा देव
 गुप्तश्च ॥ ६१ ॥ उदयजिन पेढाल पुट्टिल मत्यकीर्ति मुनि

मरुभूर्ड १ गयनाहो २ सहसारे ३ किरणवेग ४ अच्युयए ५ । तह व-
 ज्जनाह ६ गेविज्ज ७ चक्कि ८ पाणयसुरे ९ पासे १० ॥ ७६ ॥
 गामाविक्रवग १ सोहम्म २ मरिइ ३ पण कप्प ४ कोसिय ५ सु-
 हम्मे ६ । मरिऊण पुस्समित्ते ७ सोहम्मे ८ गिज्जोय ९ ईसाणे
 १० ॥ ७७ ॥ अग्निभूर्ड ११ तियकप्पे १२ भारद्दाए १३ महिंद १४
 संसारे । थावरय १५ वभिभव १६ विस्सभूर्ड १७ सुके य १८ तेविडू
 १९ ॥ ७८ ॥ अपइट्ठाणे २० सीहे २१ नए २२ भमिऊण चक्कि पि-
 यमित्ते २३ सुके २४ नदण नरवइ २५ पाणयकप्पे २६ महावीरो २७ ॥ ७९ ॥
 अणंतर जओ चुयन्ति—बलदेवचक्रवट्टी देवद्वाणेसु हुति सवेसुं ।
 अरहत वासुदेवा विमाणवासीसु वोद्धवा ॥ ८० ॥ तिसु तित्थ चउ-
 त्थीए केवल पचमीए सामन्न । उट्ठीए विरइऽविरई सत्तमपुढवीए
 सम्मत्तं ॥ ८१ ॥ पढमाउ चक्रवट्टी वीआओ रामकेसवा हुति । तइया-
 ओ अरहंता अंतकिरिया चउत्थीओ ॥ ८२ ॥ अरहत चक्रवट्टी
 बलदेवा तहय वासुदेवा यान मणुयतिरिहंति अणतर चव जायति
 ॥ ८३ ॥ जम्मनगराइति—इक्खागभूमि १ उज्झा २ सावत्थि ३

तक । तथा वज्रनाभो ग्रैवेय चक्री प्राणतसुर पार्श्व ॥ ७६ ॥
 ग्रामवीक्षक सौधर्म मरीचि पचमकल्प कौशिक मौधर्म ।
 मृत्वा पुण्यमित्र सौधर्माऽग्निज्योति इशान ॥ ७७ ॥ अग्निमूति
 तृतीयकल्प भारद्वाजो माहेन्द्र ससार स्थावगश्च ब्रह्मदेव (भव)
 विश्वभूति शुके त्रिपृष्ठ ॥ ७८ ॥ अप्रतिष्ठान सिंहो नरके भ्रात्वा
 चक्री प्रियमित्र । शुके नन्दन नरपति प्राणतकल्पे महावीर
 ॥ ७९ ॥ अनतर यतश्च्युता इति—बलदेवचक्रवर्तिनो देवस्थाने
 भ्यो भवन्ति सर्वेभ्यः । अहंन्तो वासुदेवा विमानवासिभ्यो मोक्ष-
 व्या ॥ ८० ॥ तिसृभ्य तीर्थकरश्चतुर्थ्या केवली पचम्या आ
 मण्यम् । पृष्ठथा विरत्यविरति सत्तमपृथिव्या सम्यक्त्वम् ॥ ८१ ॥
 प्रथमाया चक्रवर्ती द्वितीयाया रामकेशधौ भवत । तृतीयाया
 अहंन्त अन्तप्रियाकरा चतुर्थ्या ॥ ८२ ॥ अहंश्चक्रवर्तिबलदेवा
 तथैव वासुदेवाश्च । नैव मनुजत्तियग्भ्या अनतर जायन्ते ॥ ८३ ॥

नाह य ३ ॥ पञ्चमनिय १ घनयन्त २ चन्द्रणह जिणर ३ जाण
 ॥६८॥ महपञ्चम १ येजयते २ सुविधी ३ पञ्चमुत्तरे १ दसमकण्ये २ ।
 सीयलजिणे य २ तह नल्लिणगुम्म निय १ सुफ २ सेयसे ३ ॥६९॥
 पञ्चमुत्तर १ पाणय २ वासुपुज्ज ३ महपञ्चमसेण १ सहसारे २ । वि-
 मलजिणे ३ पञ्चमरहे १ पाणयसुर २ णंतजिणनाहे ॥ ७० ॥ उज्जे
 (आई) भये दढरहे १ विइज्जे येजयतगे २ । नइज्जे य जिणे धम्मे
 ३ भवमत्तविबोहए ॥ ७१ ॥ सिरिसेण १ मिहुण २ सुर ३ अपि-
 यसेय ४ पाणय ५ वराइय ६ ऽच्चुयए ७ । वज्जाउह ८ गेविज्जे
 ९ मेहरहे १० पुत्तरे ११ मती १२ ॥ ७२ ॥ सिंहवहनिव १
 सब्बे २ कुथु ३ तित्येसर पणिवयामि ४ । घणवइ निव तव
 (उ) १ गेविज्ज २ अरजिणं सरह पइदियह ॥ ७३ ॥ मह-
 बल १ विजयाणुत्तर २ मल्ली ३ सुर सिद्धभूव १ पाणयगे २ । मुणि-
 सुवए य ३ सिद्धत्य पत्थिवे १ पुत्तरे य २ नमी ३ ॥ ७४ ॥ घण-
 नरवइ १ सोहम्मे २ चित्तगइ ३ महिंदसुर ४ अवराइयगे ५ । आ-
 रणइंदे ६ सखे ७ अवराइयतियस ८ जिणनेमी ९ ॥ ७५ ॥

जिनवरान् जानोहि ॥ ६८ ॥ महापद्मवैजयंतौ सुविधि पञ्चोत्तरो
 दशमकल्प । शीतलजिनश्च तथा नल्लिणगुल्मनृप शुक्ल श्रेयास
 ॥ ६९ ॥ पञ्चोत्तर प्राणत सुर वासुपुज्यो महापद्मसेन सह-
 सार । विमलजिन पद्मरथ प्राणतसुरोऽनन्तजिननाथ ॥ ७० ॥
 आदिभवे दृढरथो द्वितीये वैजयंतक । तृतीये च जिनो धर्मो भव्य
 सखधिवोधक ॥ ७१ ॥ श्रीषेणो मिथुन सुरोऽमितसेक प्राण
 तोऽपराजितोऽच्युत । वज्जायुधो प्रैवेयको मेघरथोऽनुत्तर शान्ति
 ॥ ७२ ॥ सिंहवहनृप सर्वार्थ कुथु तीर्थेश्वर प्रणिपतामि ।
 धनपतिनृपं ततो प्रैवेयकमरजिनं स्मरत प्रतिदिषसम् ॥ ७३ ॥
 महाबलो विजयानुत्तरो मल्ली सुर सिद्धभूप प्राणतको मुनिसुव्रतश्च
 सिद्धार्थपार्थिवोऽनुत्तरश्च नमि ॥ ७४ ॥ धनपति सौधर्म चि
 प्रमतिर्मेहेन्द्रसुरोऽपराजितक । आरणेन्द्र शंखोऽपराजितत्रिदशो
 जिननेमि ॥ ७५ ॥ मरुभूतिर्गजनाथ सहस्रार किरणवेगोऽच्यु

१२ सामा १३ ॥ ९१ ॥ सुजसा १४ सुवया १५ अइरा १६ सिरी
 १७ देवी १८ पभावड १९ पउमा २० । वप्पा २१ सिंहा २२
 वम्मा २३ तिसलादेवी य २४ जिणमाया ॥ ९२ ॥ मायरगइत्ति-
 अट्टहं जणणीओ तित्थयराण हवति सिद्धाओ । अट्ट य सणकुमारे
 माहिदे अट्ट बोद्धवा ॥ ९३ ॥ गुत्ताइंति—मुणिसुवओ य अरिहा
 अरिठ्ठनेमी य गोयमसगुत्ता । सेसा तित्थयरा खलु कासवगुत्ता मुणे-
 यवा ॥ ९४ ॥ चउदस सुमिणत्ति—गय १ वसह २ सीह ३
 अभिसेय ४ दाम ५ ससि ६ दिणयर ७ झय ८ कुम्भं ९ पउमसर १०
 सागर ११ विमाण भवण १२ रयणुच्चय १३ सिहिं च १४ ॥ ९५ ॥
 छप्पन्न दिक्कुमारीउत्ति—अहअट्ट ८ उद्धअट्ट य ८ चउदिसिरुय-
 गाओ अट्ट पत्तेय ३२ । मज्झिमग ८ विदिसिरुयगाउ ४ चउचउ
 छप्पन्न कुमरीओ ॥ ९६ ॥ सवट्ट ८ मेह ८ कयलीघर ८ आयंसा
 य ८ तालियंटा य ८ चामर ८ जोई ४ रक्ख ४ करिंति एय कु-
 मारीओ ॥ ९७ ॥ इद्विहियजिणणहणत्ति—भवणवईणं बोसा
 वतरवत्तीस दस य कप्पिंदा । ससिसूरजोइंसिंदा इय चउसठी सुरि-

पृथ्वी लक्ष्मणा रामानन्दा त्रिष्णु जया श्यामा ॥ ९१ ॥ सुयशा
 सुव्रताऽचिरा श्री देवी प्रभावती पद्मा । उमा सिंहा वामा
 त्रिशलादेवी च जिणमातर ॥ ९२ ॥ मातृगतिरिति—अष्टाना
 जनन्य तीर्थकराणा भवन्ति सिद्धा । अष्ट च सनत्कुमारे माहे-
 न्द्रेऽष्ट बोद्धव्या ॥ ९३ ॥ गोत्राणीति—मुनिसुव्रतश्चार्हन् अरिष्टने
 मिश्र गौतमसगोत्रौ । शेषा तीर्थकरा खलु काश्यपगोत्रा ज्ञातव्या
 ॥ ९४ ॥ चतुदश स्मृत्ता इति—गजो वृषभ सिंहोऽभिषेको
 दाम शशी दिनकर घ्नज कुम्भ । पद्मसर सागरो विमान-
 भवनं रत्नाञ्चय शिखी च ॥ ९५ ॥ षट्पचाशद् दिक्कुमाय
 इति—अधोऽष्ट ऊर्ध्वगा अष्ट च चतुर्दिग्बुचकात् अष्ट प्रत्येक ।
 मध्यमधिदिग्बुचकात् चतस्र चतस्र षट्पचाशत् कुमाय
 ॥ ९६ ॥ सवर्ता मेघ कदलीगृह चादशकश्च तालवृन्त च ।
 चामरो ज्योति रक्षा कुचन्ति पतत् कुमाय ॥ ९७ ॥ इन्द्रधि
 हितजिनस्नानमिति—भवनपतीना विंशतिव्यन्तगा द्वात्रिंशद् दश

विणोय ४ कासलपुर ५ । फांसवी ६ वाणारसि ७ चदाणण ८
 तहय फायदी ९ ॥ ८४ ॥ भहिलपुर १० सीहपुर ११ चंपा १२
 कंपिल्ल १३ उज्झ १४ रयणउर १५ । तिन्नेव गयपुरंमि ३१८मिहिला
 १९ तह नेव रायगिह २० ॥ ८५ ॥ मिहिला २१ सोरियनयरं २२
 वाणारसि २३ तहय होइ कुडपुरं २४ । उसभाइ जिणाणं (णिदाण)
 जम्मणभूमी जहासग्गं ॥ ८६ ॥ पियग्गत्ति—नाभी १ जियसत्तु य
 २, जियारी ३ संवरे इय ४ । मेहे ५ धरे ६ पइट्टे ७ य, महसेणे
 य खत्तिए ॥ ८७ ॥ सुग्गीवे ९ दढरहे १० विण्हू ११, वसुपुज्जे य
 १२ छत्तिए । कयवम्म १३ सीहसेणे य १४, भाणू १५ विससेणे इय
 १६ ॥ ८८ ॥ सूरे १७ सुदंसणे १८ कुमे १९, सुमिस्से २० विजये
 २१ समुद्धविजए य २२ । राया य अस्ससेणे २३, सिद्धत्थेविय २४
 खत्तिए ॥ ८९ ॥ पियरगइत्ति—नागेसु ऋषभपिया सेसाणं सत्त
 जंति ईसाणे । अट्ट य सणकुमारे माहिंदे अट्ट बोद्धवा ॥ ९० ॥ मा-
 यरुत्ति—मरुदेवि १ विजय २ सेणा ३ सिद्धत्था ४ मगला ५ सु-
 सीमा य ६ । पुहई ७ लक्खण ८ रामा ९ नदा १० विण्हू ११ जया

जन्मनगराणीति—इक्ष्वाकुभूमि अयोध्या श्रावस्ती विनीता कौ
 शलपुर च । कौशाधी वाणारसी चन्द्रानना तथा च काकदी
 ॥ ८४ ॥ भहिलपुर सिंहपुर चंपा कापिल्य अयोध्या रत्नपुरम् ।
 प्रय एव गजपुरे मिथिला तथैव राजगृहं ॥ ८५ ॥ मिथिला सौर्य-
 नगर वाणारसी तथा च भवति कुडपुरम् । ऋषभादिजिनेन्द्राणा
 जन्मभूमयो यथासंख्यम् ॥ ८६ ॥ पितर इति—नाभिर्जितशत्रुश्च
 जितारि सवर इति । मेघो धर प्रतिष्ठश्च महासेनश्च क्षत्रिय ॥ ८७ ॥
 सुग्गीवो दढरथो विष्णुवसुपूज्यश्च क्षत्रिय । कृतवर्मा सिंहसेनश्च
 भानु विश्वसेन इति ॥ ८८ ॥ सूर सुदशन कुम्भ सुमित्रो
 विजय समुद्रविजयश्च राजा वाश्वसेन सिद्धार्थोऽपि च क्षत्रिय
 ॥ ८९ ॥ पितृगतिरिति नागेषु ऋषभपिता शेषाणा सप्त यान्ति
 ईशाने । अष्ट च सनत्कुमारे माहेन्द्रे अष्ट बोद्धव्या ॥ ९० ॥
 मातर इति—मरुदेवी विजया सेना सिद्धार्थो मगला सुसीमा च ।

१२ सामा १३ ॥ ९१ ॥ सुजसा १४ सुवया १५ अइरा १६ सिरी
 १७ देवी १८ पभावड १९ पउमा २० । वप्पा २१ सिहा २२
 वम्मा २३ तिसलादेवी य २४ जिणमाया ॥ ९२ ॥ मायरगइत्ति-
 अट्टहं जणणीओ तित्थयराणं हवति सिद्धाओ । अट्ट य सणंकुमारे
 माहिंदे अट्ट बोद्धवा ॥ ९३ ॥ गुत्ताइत्ति—मुणिसुवओ य अरिहा
 अरिठ्ठनेमी य गोयमसगुत्ता । सेसा तित्थयरा खलु कासवगुत्ता मुणे-
 यवा ॥ ९४ ॥ चउदस सुमिणत्ति—गय १ वसह २ सीह ३
 अभिसेय ४ दाम ५ ससि ६ दिणयर ७ झय ८ कुर्भं ९ पउमसर १०
 सागर ११ विमाण भवण १२ रयणुच्चय १३ सिहिं च १४ ॥ ९५ ॥
 छप्पन्न दिक्कुमारीउत्ति—अहअट्ट ८ उद्धअट्ट य ८ चउदिसिरुय-
 गाओ अट्ट पत्तेय ३२ । मज्झिमग ४ विदिसिरुयगाउ ४ चउचउ
 छप्पन्न कुमरीओ ॥ ९६ ॥ सवट्ट ८ मेह ८ कयलीघर ८ आयसा
 य ८ तालियंटा य ८ चामर ८ जोई ४ रक्खं ४ करिंति एयं कु-
 मारीओ ॥ ९७ ॥ इदविहियजिणणहाणत्ति—भवणवईण बीसा
 वतरवत्तीस दस य कप्पिदा ॥ ससिसूरजोडसिदा इय चउसही मुरिं-

पृथ्वी लभणा रामानन्दा विष्णु जया श्यामा ॥९१॥ सुयशा
 सुव्रताऽचिरा श्री देवी प्रभावती पद्मा । वप्रा सिंहा वामा
 त्रिशलादेवी च जिनमातर ॥ ९२ ॥ मातृगतिरिति-अष्टाना
 जनन्य तीर्थकराणा भवन्ति सिद्धा । अष्ट च सनत्कुमारे माहे
 न्द्रेऽष्ट बोद्धव्या ॥ ९३ ॥ गोत्राणीति-मुनिसुव्रतश्चाहन् अरिष्टने
 मिश्र गोतमसगोत्रौ । शेषा तीर्थकरा खलु काश्यपगोत्रा ज्ञातव्या
 ॥ ९४ ॥ चतुर्दश स्वप्ना इति-गजो वृषभ सिंहोऽभिषेको
 दाम शशी दिनकर ध्वज कुम्भ । पद्मसर सागरो धिमान-
 भवनं रत्नाच्चय शिखी च ॥ ९५ ॥ पद्पचाशद् दिक्कुमाय
 इति-अधोऽष्ट ऊर्ध्वगा अष्ट च चतुर्दिग्रुचकात् अष्ट प्रत्येक ।
 मध्यमधिदिग्रुचकात् चतस्र चतस्र पटपंचाशत् कुमाय
 ॥ ९६ ॥ सप्तर्षि मेघ कदलीगृह चादशकश्च तालवृन्त च ।
 चामरो ज्योति रक्षा कुघन्ति पतत् कुमाय ॥ ९७ ॥ इन्द्रधि
 हितजिनस्नानमिति-भयनपतीना विंशतिर्व्यन्तग द्वात्रिंशद् दश

दाणं ॥ ९८ ॥ भक्तीभरनिभरमणारिर्मात्रमर्दनपुलङ्गयसरीरो ।
 सको य देवराया उपागओ पुणइ पण रुपं ॥ ९९ ॥ गहियजिणि-
 दो एको ? दुन्नि य पासमि चामराहत्या । गहियज्जलायवतो ४
 एको एवकुत्य ५ वज्जघरो ॥१००॥ भयणउड वाणमतर जोइसवासी
 विमाणवासी या सच्चिद्विण सपरिमा चउविहा आगया देवा ॥ १०१ ॥
 देवेहि सपरिबुहो देविदो गिण्हज्जण तित्ययर। नेऊणं मदरगिरिं
 अभिसेय तत्य से कासी ॥२॥ काऊण य अभिसेय देविदो देवदा-
 णवेहिं सम । जणणीए अप्पित्ता जम्मणमहिम च कासी य ॥ ३ ॥
 जिणाण नक्खत्तत्ति—उत्तरसाढा ? रोहिणि २ मियसीर ३
 पुणव्वसू ४ महा ५ चित्ता ६ उइसाह ७ पुराहा ८ मूल ९ पुव्व १०
 सवणो ११ सयभिसा य १२ ॥ ४ ॥ उत्तरभइव १३ रवइ १४
 पुस्त १५ भरणि १६ कित्तीया य १७ रेवइय १८ ॥ अस्सिणि १९
 सवणो २० अस्सिणि २१ चित्त २२ विसाहु २३ त्तरा २४ रिक्खा ॥५॥
 जिणाण रासीउत्ति—? धणगो २ मिहुणो ३ सीहो ४
 कन्ना ५ तूला ६ अली चेव । ७ ८ दोधणु ९-१० मयरो ११-१२

च कल्पेन्द्रा । शशिसूर्यो ज्योतिर्गिन्द्रो इति चतु षष्टि सुरेन्द्राणा
 ॥ ९८ ॥ भक्तिभरनिभरमनाहपवशातान्त पुलकितशरीर ।
 शक्रश्च देवराज उपागत करोति पच रूपाणि ॥ ९९ ॥ गृहीत
 जिनेन्द्र एको द्वौ च पार्श्वे चामरहस्तौ । गृहीतोऽज्ज्वलातपत्र
 एक एकोऽत्र वज्रधर ॥ १०० ॥ भवनपतयो व्यन्तरा ज्योतिष्का
 विमानवासिनश्च । सवर्ध्या सपरिद चतुर्विधा आगता देवा
 ॥ १०१ ॥ देवै मपरिवृतो देवेन्द्रो गृहीत्वा तीथकर । नीत्वा
 मदरगिरि अभिषेक तत्र सोऽकार्षीत् ॥ १०२ ॥ कृत्वा चाभिषेक
 देवेन्द्रो देवदानधै समम् । जनन्या अपयित्वा जन्ममहिमान
 चाकार्षीच्च ॥ १०३ ॥ जिनाना नक्षत्राणीति—उत्तराषाढा रोहिणी
 मृगशिर पुनवसू मघा चित्रा विशाखाऽनुराधा मूल पूर्वाश्रवण
 शतभिषक् ॥ १०४ ॥ उत्तराभाद्रपदा रेवती पुष्य भरणी कृत्तिका
 च रेवती च अश्विनी चित्रा विशाखा उत्तरा ऋक्षाणि ॥१०५॥

कुंभो १३-१४ मीणो य १५ ककडो १६ मेसो ॥ ६ ॥ १७ विस
 १८ मीण १९ मेस २० मयरे २१ मेसो २२ कन्ना २३ तुलो तथा
 २४ कन्ना । उसभाईण जिणाणं एयाओ हुति रासीओ ॥ ७ ॥
 लंछणत्ति—१ वसह २ गय ३ तुरय ४ वानर ५ कुंचो ६
 कमल ७ च सत्थिओ ८ चंदो । ९ मयर १० सिरिबच्छ ११ गडय
 १२ महिस १३ वराहो य १४ सेणो य ॥ ८ ॥ १५ वज्जं १६ हरि-
 णो १७ छगलो १८ नदावत्तो य १९ कलस २० कुम्भो य । २१
 नीलुप्पल २२ सख २३ फणी २४ सीहो य जिणाण चिंथाई ॥ ९ ॥
 वन्नत्ति—पडभावासुपुज्जा रत्ता ससिपुप्फटंत ससिगोरा । सु-
 वयनेमी काला पासो मल्ली पियंगुनिभा ॥ १० ॥ वरकणयतविय
 गोरा सोलस तित्थकरा मुणैयवा।एसो वन्नविभागो चउवीसाए जि-
 णवराणं ॥ ११ ॥ चउरो जम्मप्पभिह अहसयत्ति—देहं विमलसु-
 गंध आमयपस्सेयवज्जिय अरुयं ? । रुहिर गोखीराभ निविस्स
 पडुर मस २ ॥ १२ ॥ आहारानीहारा अदिस्सा मसचक्खुणो सय-
 य ३ । नीसासो ४ य सुगधो जम्मप्पभिई गुणा एए ॥ १३ ॥

जिनाना राशय इति—धनको मिथुन सिंह कन्या तुला अलिश्चैव ।
 द्वयोर्द्वयोर्धनुमकर कुभो मीनश्च ककटको मेष ॥ १०६ ॥ वृषो
 मीनो मेषो मकरो मेष कन्या तुला तथा कन्या । ऋषभादीना
 जिनाना मता भवन्ति राशय ॥ १०७ ॥ लाछनानीति—वृषभो
 गज तुरगो घानर ऋष कमल च स्वस्तिक चन्द्र । मकर
 श्रीवत्स गण्डवो महियो वराहश्च श्येनश्च ॥ १०८ ॥ वज्र हृग्णि
 छगलो नन्दावर्तश्च कलश कूमश्च । नीलोत्पल शख फणी सिंहश्च
 जिनाना चिन्हानि ॥ १०९ ॥ घर्णा इति—पद्माभवासुपूज्यो रत्ता चन्द्र
 प्रभुसुविधी शशिगौरौ । सुव्रतनेमी कालो पार्श्वमल्ली प्रियंगुनिभो
 ॥ ११० ॥ तप्तघनकनकगौरा पौडश तीर्थकरा ज्ञातव्या । एष घणविभाग
 चतुर्थिंशतेर्जिनवराणाम् ॥ १११ ॥ चत्वारो जन्मप्रभृत्यतिशया
 इति—देहो विमलसुगंध आमयप्रस्वेदजितोऽरोग । रुधिर गो
 क्षीराभ निविश्च पाडुर मासम् ॥ ११२ ॥ आहारनीहागधदृष्यो

दाणं ॥ ०८ ॥ भक्तीभरनिम्बरमणरिगत्रिसदृतपुलङ्गयसरीरो ।
 सको य देवराया उपागओ कुणइ षण स्य ॥ ०९ ॥ गहियत्रिणि-
 टो एको १ दुन्नि य पासमि चामगहत्या । गहियज्जलायवत्तो ४
 एको एवकुत्य ० षज्जधरो ॥१००॥ भरणउड वाणमंतर जोइसवासी
 विमाणवासी या सव्विहोए सपरिमा चउव्विहा आगया देवा ॥ १०१ ॥
 देवेहिं सपरिवुडो देविंदो गिण्हिऊण तित्ययरा । नेऊण मद्रगिरिं
 अभिसेय तत्य से कासी ॥२॥ काऊण य अभिसेय देविंदो देवदा-
 णवेहिं सम । जणणीए अप्पित्ता जम्मणमहिम च कासी य ॥ ३ ॥
 जिणाण नक्खत्तत्ति—उत्तरसाढा १ रोहिणि २ मियसीर ३
 पुणव्वसू ४ महा ५ चित्ता ६ वइसाह ७ णुराहा ८ मूल ९ पुष १०
 सवणो ११ सयभिसा य १२ ॥ ४ ॥ उत्तरभहव १३ रेवइ १४
 पुस्स १५ भरणि १६ किन्तीया य १७ रेवइय १८ ॥ अस्सिणि १९
 सवणो २० अस्सिणि २१ चित्त २२ विसाहु २३ त्तरा २४ रिक्खा ॥५॥
 जिणाण रासीउत्ति—१ धणगो २ मिहुणो ३ सीहो ४
 कन्ना ५ तूला ६ अली चैव । ७ ८ दोधणु ९-१० मयरो ११-१२

च कल्पन्द्रा । शशिसूर्यो ज्योतिर्निन्द्रौ इति चतु षष्टि सुरेन्द्राणा
 ॥ ९८ ॥ भक्तिभरनिर्भरमनोहृषयशातान्त पुलकितशरीर ।
 शकश्च देवराज उपागत करोति पंच रूपाणि ॥ ९९ ॥ गृहीत
 जिनेन्द्र एको द्वौ च पार्श्वे चामरहस्तौ । गृहीतोऽञ्जलातपत्र
 एक एकोऽत्र वज्रधर ॥ १०० ॥ भवनपतयो व्यन्तरा ज्योतिष्का
 विमानवामिनश्च । सवध्यां सपर्धद चतुर्विधा आगता देवा
 ॥ १०१ ॥ देवै सपरिवृतो देवेन्द्रो गृहीत्वा तीथकर । नीत्वा
 मद्रगिरिं अभिषेक तत्र सोऽकार्षीत् ॥ १०२ ॥ कृत्वा चाभिषेक
 देवेन्द्रो देवदानवै समम् । जनन्या अपथित्वा जन्ममहिमान
 चाकार्षीच्च ॥ १०३ ॥ जिनाना नक्षत्राणीति—उत्तराषाढा रोहिणी
 मृगशिर पुनवसू महा चित्रा विशाखाऽनुराधा मूल पूर्वा श्रवण
 शतभिषक् ॥ १०४ ॥ उत्तराभाद्रपदा रेवती पुष्य भरणी कृत्तिका
 च रेवती च अश्विनी चित्रा विशाखा उत्तम ऋक्षाणि ॥१०५॥

कुंभो १३-१४ मीणो य १५ ककडो १६ मेसो ॥ ६ ॥ १७ विस
 १८ मीण १९ मेस २० मयरे २१ मेसो २२ कन्ना २३ तुलो तथा
 २४ कन्ना । उसभाईण जिणाण एयाओ हुति रासीओ ॥ ७ ॥
 लंछणत्ति—१ वसह २ गय ३ तुरय ४ वानर ५ कुचो ६
 कमलं ७ च सत्थिओ ८ चदो । ९ मयर १० सिरिवच्छ ११ गंडय
 १२ महिस १३ वराहो य १४ सेणो य ॥ ८ ॥ १५ वज्जं १६ हरि-
 णो १७ छगलो १८ नदावत्तो य १९ कलस २० कुम्भो य । २१
 नीलुप्पल २२ संख २३ फणी २४ सीहो य जिणाण चिंथाई ॥ ९ ॥
 वन्नत्ति—पउमाभवासुपुज्जा रत्ता ससिपुप्फदत्त ससिगोरा । सु-
 वयनेमी काला पासो मल्ली पियगुनिभा ॥ १० ॥ वरकणयतविय
 गोरा सोलस तित्थकरा मुणेयवा।एसो वन्नविभागो चउवीसाए जि-
 णवराण ॥ ११ ॥ चउरो जम्मप्पभिह अहसयत्ति—देहं विमलसु-
 गध आमयपस्सेयवज्जिय अरुयं १ । रुहिर गोखीराभ निविस्स
 पंडुर मसं २ ॥ १२ ॥ आहारानीहारा अद्दिस्सा मसचक्खुणो सय-
 य ३ । नीसासो ४ य सुगरो जम्मप्पभिई गुणा एए ॥ १३ ॥

जिनाना राशय इति—धनको मिथुन सिंह कन्या तुला अलिश्चैव ।
 द्वयोर्द्वयोर्धनुर्मकर कुंभो मीनश्च ककटको मेष ॥ १०६ ॥ वृषो
 मीनो मेषो मकरो मेष कन्या तुला तथा कन्या । ऋषभादीना
 जिनाना षटा भवन्ति राशय ॥ १०७ ॥ लाछनानीति—वृषभो
 गज तुरगो धानर व्रौच कमल च स्वस्तिक चन्द्र । मकर
 श्रीवत्स गण्डको महिषो वराहश्च श्येनश्च ॥ १०८ ॥ वज्र हरिण
 छगलो नन्दावर्तश्च कलश कूमश्च । नीलोत्पल शश्व फणी सिंहश्च
 जिनाना चिन्हानि ॥ १०९ ॥ घणा इति—पद्माभवासुपूज्यौ रक्तो चन्द्र
 प्रभुसुत्रिधी शशिंगौरौ । सुवतनेमी कालौ पार्श्वमल्ली प्रियगुनिभौ
 ॥ ११० ॥ तप्तवरकनकगौरा षोडश तीथकरा ज्ञातव्या । पपघणविभाग
 चतुर्विंशतेर्जिनवराणाम् ॥ १११ ॥ चत्वारो जन्मप्रभृत्यतिशया
 इति—देहो विमलसुगध आमयप्रस्वेदयर्जितोऽरोग । रुधिर गो
 क्षीराभ निर्विध्र पांडुर मासम् ॥ ११२ ॥ आहारनीहारावद्दृश्या

देहमाणति—उसभो पंचधनुसण नत्र पामो सत्तरयणिओ वीगे ।
 सैसऽह २-९ पच १०-१४ अह १५-२२ य पच्चा ५० दस १०
 पंच ५ परिहीणा ॥ १४ ॥ कुमाररज्जकालृत्ति—वसुपुत्रमल्ली
 नेमी पासो वीगे कुमार पवइया । रज्जं फाउ संमा मल्ली नेमी अप-
 रिणीया ॥१५॥ कुमारराज्यप्रतकाला' स्थापनया प्रदश्यते (२) । स-
 वाउयन्ति—चउरासीइ १ विसत्तरि २ सट्ठी ३ पच्चास ४ मेव ल
 क्खाइ । चत्ता ५ तीसा ६ वोसा ७ दसऽदो ९ एगं १० च पुवाण
 ॥१६ ॥ चउरासी ११ वाउत्तरी य १२ सट्ठी य १३ हवइ वासाण।
 तीसा य १४ दस य १५ एग १६ एवमेए सयसहस्सा ॥ १७ ॥
 पचाणवइ सहस्सा १७ चउरासीई य १८ वाउत्तरी १० होइ । ती-
 सा य २० दस य २१ एग २२ सयं च २४ वाउत्तरी २४वेवा ॥१८॥
 वरवरियादाणति—संवच्छरेण होही अभिनिक्खमण तु जिण-
 वरिंदाणं । तो अत्थसपयाणं पवत्तई पुवसूरमि ॥ १९ ॥ एगा हि-
 रन्नकोडी अट्टेव अणूणगा सयसहस्सा । सूरुदयमाईय दिज्जइ जा

मामवक्षुपा सततम् । निश्वासश्च सुगन्ध जन्मप्रभृतेर्गुणा यते
 ॥ ११३ ॥ देहमानमिति—अपभ पच धनु शतानि नव पार्श्व
 सम रत्नयो वीर । शेषा अष्ट पच अष्ट च पचाशद्दशपच
 परिहीणा ॥ ११४ ॥ कुमारराज्यकाल इति—वासुपूज्यो मल्लि
 नेमि पार्श्वी वीर कुमारा प्रव्रजिता । राज्य कृत्वा शेषा मल्ली
 नेमिनो चापरिणीतो ॥ ११५ ॥ सर्वायुरिति—चतुरशीति द्वास
 तति पष्टि पचाशदेव लक्षाणि । चत्वारिंशत् त्रिंशद् विंशति
 दश द्वे एक पूर्वाणाम् ॥ ११६ ॥ चतुरशीति द्वासततिश्च षष्टिश्च
 भवति षषाणाम् । त्रिंशच्च दश चैक पचमेतानि शतसहस्राणि
 ॥ ११७ ॥ पचनवति सहस्राणि चतुरशीतिश्च द्वासतति भवति
 त्रिंशच्च दश चैक शत च द्वासततिरेव ॥ ११८ ॥ वरवरिकादा
 नमिति—सवत्सरेण भविष्यति अभिनिष्क्रमण तु जिनवरेन्द्राणाम् ।
 ततोऽथसप्रदान प्रवतत पूजसूरे ॥ ११९ ॥ एका हिरण्यकोटि

पायरासाओ ॥ २० ॥ वरवरिया घोसिज्जइ किमिच्छियं दिज्जए
 बहुविहोय । सुरअसुरदेवदानवनरिंदमहियाण निक्खमणे ॥ २१ ॥
 तिन्नेव य कोटिसया अट्टासीय च हुति कोडीओ। असिय च सय-
 सहस्स एय संवच्छरे दिन्न ॥ २२ ॥ लोगंतियदेवत्ति—अट्टेव
 सागराइ परमाउ हुंति सबदेवाण । एगावयारिणो खलु देवा लोग-
 तिया नेया ॥ २३ ॥ सारस्सय १ माइच्चा २ वण्ही ३ वरुणा य ४
 गदतोया ५ य । तुसिया ६ अवावाहा ७ अग्गिच्चा ८ चेव रिट्ठा य
 ९ ॥ २४ ॥ एए देवनिकाया भयव वोहिंति जिणवरिंद तु । सब-
 जगजीवहिय भयव । तित्थं पवत्तेहि ॥ २५ ॥ वयपरिवारुत्ति—
 एगो भयव वीरो पासो मल्ली यतिहिं तिहिं सएहि । भयवंपि वासु-
 पुज्जो छहिं पुरिससएहिं निक्खंतो ॥ २६ ॥ उग्गाण भोगाण रा-
 इन्नाण च खत्तियाण च । चउहिं सहस्सेहिं उसभो सेसा उ सहस्सप-
 रिवारा ॥ २७ ॥ नवि लेइ जिणा पिच्छीं नवि कुडीं वक्कल च कड-
 सार । दिक्खा धम्मकहाओ न करेति य जाव छउमत्था ॥ २८ ॥

अट्टैवानूनकानि शतसहस्राणि । सूर्यादयाटेदीयते यावत् प्रात-
 राश ॥ १२० ॥ वरवरिका घोष्यते किमीप्सित दीयते बहुवि-
 धिकम् । सुरासुरदेवदानवनरेन्द्रमहिताना निष्क्रमणे ॥ १२१ ॥
 श्रोण्येव च कोटिशतानि अष्टाशीतिश्च भवन्ति कोटय । अशी-
 तिश्च शतसहस्राणि पतत् सयत्सरे दत्तम् ॥ १२२ ॥ लोकान्तिक-
 देवा इति—अट्टैव सागराणि परमायु भवन्ति सर्वदेवानाम् ।
 पक्कावत्तारिण खलु देवा लोकान्तिका ज्ञेया ॥ १२३ ॥ सारस्वता
 दित्यो वन्द्यरुणो च गदतोयाश्च । तुपितोऽयात्राधा आग्नेयाश्चै-
 व रिष्ठाश्च ॥ १२४ ॥ पते देवनिकाया भगवन्त बोधयन्ति जि-
 न घरेन्द्र तु । सबजगज्जीवहित भगवन् । तोथ प्रवतय ॥ १२५ ॥ व्रत
 परिवार इति—पक्वो भगवान् वीर पार्था मल्लिश्च त्रिभि त्रिभि
 शते । भगवानपि वासुपूज्य पद्भि पुरुषशतैर्निष्क्रान्त ॥ १२६ ॥
 उग्गाणा भोगाना राजन्याना क्षत्रियाणा च । चतुर्भि महस्सं ऋपम
 शेषास्सु महस्सपरिवारा ॥ १२७ ॥ नापि लान्ति जिना पिच्छीं

देहमाणति-उसभो पंचधनुसए नव पामो सत्तरयणिओ वीरो ।
 सैसऽष्ट २-२ पंच १०-१४ अष्ट १५ २० य पन्ना ५० दस १०
 पच ५ परिहीणा ॥ १४ ॥ कुमाररज्जकालुत्ति-वसुपुज्जमल्ली
 नेमी पासो वीरो कुमार पवइया । रज्ज फाउ मेमा मल्ली नेमी अप-
 रिणीया ॥१५॥ कुमारराज्यप्रतकाला स्थापनया प्रदश्यते (२) । स-
 वाउयन्ति-चउरासीइ १ विसत्तरि २ सट्ठी ३ पन्नास ४ मेव ल-
 क्खाइ । चत्ता ५ तीसा ६ वोसा ७ दसऽदो ९ एग १० च पुवाण
 ॥१६ ॥ चउरासी ११ वावत्तरी य १२ सट्ठी य १३ हवइ वासाणां
 तीसा य १४ दस य १५ एग १६ एवमेए सयसहस्सा ॥ १७ ॥
 पचाणवइ सहस्सा १७ चउरासीई य १८ वावत्तरी १० होइ । ती-
 सा य २० दस य २१ एग २२ सय च २४ वावत्तरी २४वेव ॥१८॥
 चरवरिषादाणति-सवच्छरेण होही अभिनिक्खमण तु जिण-
 वरिंदाणं । तो अत्यसपयाण पवत्तई पुवसूरमि ॥ १९ ॥ एगा हि-
 रन्नकोठी अट्टेव अणुणगा सयसहस्सा । सूरुदयमाईय दिज्जइ जा

मासचक्षुषा सततम् । निश्वासश्च सुगन्ध जन्मप्रभृतेगुणा पते
 ॥ ११३ ॥ देहमानमिति-ऋषभ पच धनु शतानि नव पार्श्व
 सप्त रत्नयो वीर । शेषा अष्ट पच अष्ट च पचाशद्दशपच
 परिहीणा ॥ ११४ ॥ कुमारराज्यकाल इति-वासुपूज्यो मल्लि
 नेमि पार्श्वी वीर कुमारा प्रव्रजिता । राज्य कृत्वा शेषा मल्ली
 नेमिनो चापरिणीतो ॥ ११५ ॥ सर्वायुरिति-चतुरशीति द्वास
 तति षष्टि पचाशदेव लक्षाणि । चत्वारिंशत् त्रिंशद् विंशति
 दश द्वे एव पूर्वाणाम् ॥ ११६ ॥ चतुरशीति द्वासततिश्च षष्टिश्च
 भवति वर्षाणाम् । त्रिंशच्च दश चैक एवमेतानि शतसहस्राणि
 ॥ ११७ ॥ पचनघति सहस्राणि चतुरशीतिश्च द्वासतति भवति
 त्रिंशच्च दश चैक शत च द्वासततिरेव ॥ ११८ ॥ वरधरिकदा
 नमिति-सवत्सरेण भविष्यति अभिनिष्क्रमण तु जिनघरेन्द्राणाम् ।
 ततोऽथसप्रदान प्रवतते पुवसूरे ॥ ११९ ॥ एका हिरण्यकोटि

पायरासाओ ॥ २० ॥ वरवरिया गोसिज्जइ किमिच्छियं दिज्जए
 बहुविहोय । सुरअसुरदेवदानवनरिंदमहियाण निक्खमणे ॥ २१ ॥
 तिन्नेव य कोटिसया अठासीय च हुति कोडीओ। असिय च सय-
 सहस्स एय सवच्छरे दिन्न ॥ २२ ॥ लोगतियदेवत्ति—अट्टेव
 सागराइं परमाउ हुंति सबदेवाण । एगावयारिणो खलु देवा लोग-
 तिया नेया ॥ २३ ॥ सारस्सय १ माइच्चा २ वण्ही ३ वरुणा य ४
 गदतोया ५ य । तुसिया ६ अट्टावाहा ७ अग्गिच्चा ८ चेव रिट्ठा य
 ९ ॥ २४ ॥ एए देवनिकाया भयव बोहिंति जिणवरिंद तु । सब-
 जगजोवडियं भयव । तित्थं पवत्तेहि ॥ २५ ॥ वयपरिवारुत्ति—
 एगो भयव वीरो पासो मल्ली य तिहिं तिहिं सएहिं । भयवंपि वासु-
 पुज्जो छहिं पुरिससएहिं निक्खंतो ॥ २६ ॥ उग्गाणं भोगाण रा-
 इन्नाण च खत्तियाण च । चउहिं सहस्सेहिं उसभो सेसा उ सहस्सप-
 रिवारा ॥ २७ ॥ नवि लेइ जिणा पिंछीं नवि कुडीं वक्कल च कड-
 सार । दिक्खा यम्मकहाओ न करेति य जाव छउमत्था ॥ २८ ॥

अष्टैवानूनकानि शतसहस्राणि । सूर्यादियादेर्दीयते यावत् प्रात-
 राश ॥ १२० ॥ वरवरिका घोयते किमीप्सित दीयते बहुवि-
 धिकम् । सुरासुरदेवदानवनरेन्द्रमहिताना निष्क्रमणे ॥ १२१ ॥
 श्रीण्येव च कोटिशतानि अष्टाशीतिश्च भवन्ति कोटय । अशी-
 तिश्च शतसहस्राणि पतत् सयत्सरे दत्तम् ॥ १२२ ॥ लोकान्तिक-
 देवा इति—अष्टैव सागराणि परमायु भवन्ति सर्वदेवानाम् ।
 एकावतारिण खलु देवा लोकान्तिका ज्ञेया ॥ १२३ ॥ सारस्यता-
 दित्यो घन्दावणो च गदतोयाश्च । तुपितोऽयात्राया आग्नेयाश्चै-
 व रिष्टाश्च ॥ १२४ ॥ पते देवनिकाया भगवन्त बोधयन्ति जि-
 नघरेन्द्र तु । सर्वजगज्जीवहित भगवन् ! तीर्थ प्रवतय ॥ १२५ ॥ व्रत-
 परियार इति—एको भगवान् धीर पार्श्वा मल्लिश्च त्रिभि त्रिभि
 शतै । भगवानपि वासुपूज्य पद्भि पुरपशतैर्निष्क्रान्त ॥ १२६ ॥
 उग्राणा भोगाना राजन्याना क्षत्रियाणा च । घतुभि सहस्रं ऋषभ
 शेषास्तु सहस्रपरिवारा ॥ १२७ ॥ नापि शान्ति जिना पिच्छीं

देहमाणंति-उसभो पंचधनुसए नव पामो सत्तरयणिओ वीरो ।
 सेसऽह २-९ पंच १०-१४ अह १५ २२ य पन्ना ५० दस १०
 पच ७ परिहीणा ॥ १४ ॥ कुमाररज्जकालुत्ति-बसुपुज्जपत्ती
 नेमी पासो वीरो कुमार पवडया । रज्जं काउ सेमा मत्ती नेमी अप-
 रिणीया ॥१५॥ कुमारगज्यप्रतकाला स्थापनया प्रदर्श्यते (२) । स-
 वाउयन्ति-चउरासीड १ विसत्तरि २ सट्ठी ३ पन्नास ४ मेव ल
 क्खाइ । चत्ता ५ तीसा ६ वोसा ७ दसऽदो ९ एग १० च पुवाण
 ॥१६ ॥ चउरासी ११ वाउत्तरी य १२ सट्ठी य १३ इवइ वासाण।
 तीसा य १४ दस य १५ एग १६ एवमेए सयसहस्सा ॥ १७ ॥
 पचाणवइ सहस्सा १७ चउरासीई य १८ वाउत्तरी १० होइ । ती-
 सा य २० दस य २१ एग २२ सय च २४ वाउत्तरी २४वेव ॥१८॥
 वरवरियादाणति-सवच्छरेण होही अभिनिक्खमण तु जिण-
 वरिंदाणं । तो अत्यसपयाण पवत्तई पुवसूरमि ॥ १९ ॥ एगा हि-
 रन्नकोडी अट्टेव अणुणगा सयसहस्सा । सूरुदयमाईय दिज्जइ जा

भासचक्षुषा सततम् । निश्वासश्च सुगन्ध जन्मप्रभृतेगुणा पते
 ॥ ११३ ॥ देहमानमिति-ऋषभ पच धनु शतानि नव पार्श्व
 सप्त रत्नयो वीर । शेपा अष्ट पच अष्ट च पचाशद्दशपच
 परिहीणा ॥ ११४ ॥ कुमरराज्यकाल इति-वासुपज्यो महि
 नेमि पार्श्वा वीर कुमारा प्रवजिता । राज्य कृत्वा शेपा मल्ली
 नेमिनौ चापरिणीतौ ॥ ११५ ॥ सर्वायुरिति-चतुरशीति द्वास
 सति षष्टि पचाशदेष लक्षाणि । चत्वारिंशत् त्रिंशद् विंशति
 देश द्वे एव पषाणाम् ॥ ११६ ॥ चतुरशीति द्वाससतिश्च षष्टिश्च
 भवति र्पाणाम् । त्रिंशच्च दश चैक एषमेतानि शतसहस्राणि
 ॥ ११७ ॥ पचनवति सहस्राणि चतुरशीतिश्च द्वाससति भवति
 त्रिंशच्च दश चैक शत च द्वाससतिरेव ॥ ११८ ॥ वरवरिकादा
 नमिति-सवत्सरेण भविष्यति अभिनिष्क्रमण तु जिनघरेन्द्राणाम् ।
 ततोऽथसप्रदान प्रवतते पुत्रसूरे ॥ ११९ ॥ एका हिरण्यकोटि

पायरासाधो ॥ २० ॥ वरवरिया प्रोसिज्जड किमिच्छियं द्विज्जए
 बहुविहोय । सुरअसुरदेवदानवनरिंदमहियाण निक्खमणे ॥ २१ ॥
 तिन्नेव य कोडिसया अट्टासीय च हुति कोडीओ। असिय च सय-
 सहस्स एय संबच्छरे दिन्नं ॥ २२ ॥ लोगतियदेवत्ति—अट्टेव
 सागराई परमाड हुंति सब्बदेवाण । एगावयारिणो खलु देवा लोग-
 तिया नेया ॥ २३ ॥ सारस्सय १ माडच्चा २ वण्ही ३ वरुणा य ४
 गद्धतोया ५ य । तुसिया ६ अट्टावाहा ७ अग्निच्चा ८ चैव रिट्ठा य
 ९ ॥ २४ ॥ एए देवनिकाया भयव बोहिंति जिणवरिंद तु । सब-
 जगजीवहियं भयव । तित्थ पवत्तेहि ॥ २५ ॥ वयपरिवारुत्ति—
 एगो भयवं वीरो पासो मल्ली य तिहिं तिहिं सएहि । भयवपि वासु-
 पुज्जो छहिं पुरिससएहिं निक्खंतो ॥ २६ ॥ उग्गाणं भोगाणं रा-
 इन्नाण च खत्तियाण च । चउहिं सहस्सेहिं उसभो सेसा उ सहस्सप-
 रिवारा ॥ २७ ॥ नवि लेइ जिणा पिच्छीं नवि कुडीं वक्कल च कड-
 सारं । दिक्खा धम्मकहाओ न करंति य जाव छउमत्था ॥ २८ ॥

अष्टैवानूनकानि शतसहस्राणि । सूर्यादियादेर्दीयते यात्रत् प्रात-
 राश ॥ १२० ॥ वरवरिका घोष्यते किमीप्सित दीयते बहुवि
 धिकम् । सुरासुरदेवदानवनरेन्द्रमहिताना निष्क्रमणे ॥ १२१ ॥
 शीण्येव च कोटिशतानि अष्टाशीतिश्च भवन्ति कोटय । अशी
 तिश्च शतसहस्राणि पतत् सयत्सरे दत्तम् ॥ १२२ ॥ लोकान्तिक-
 देवा इति—अष्टैव सागराणि परमायु भवन्ति सर्वदेवानाम् ।
 एकायतारिण खलु देवा लोकान्तिका ज्ञेया ॥ १२३ ॥ सारस्वता
 क्षित्यौ चन्द्ररुणौ च गदनायाश्च । तृषितोऽयात्राथा आग्नेयाश्चै-
 व रिष्टाश्च ॥ १२४ ॥ पते देवनिकाया भगवन्त बोधयन्ति जिन
 घरेन्द्र तु । सबजगज्जीवहित भगवन् ! तीर्थ प्रवतय ॥ १२५ ॥ व्रत-
 परिवार इति—एको भगवान् घोर पार्श्वा महिश्च त्रिभि त्रिभि
 शतैः । भगवानपि वासुपूज्य पद्भि पुरुषशतैर्निष्क्रान्त ॥ १२६ ॥
 उग्राणा भोगाना राजन्याना क्षत्रियाणा च । चतुर्भि महस्सं क्रुपभ
 शेपास्तु सदस्सपरिवारा ॥ १२७ ॥ नापि शान्ति जिना पिच्छीं

देहमाणंति-उसभो पंचधनुसए नव पासो सत्तरयणिओ वीरो ।
 सेसऽह २-२ पंच १०-१४ अह १५ २० य पन्ना ५० दस १०
 पंच ५ परिहीणा ॥ १४ ॥ कुमाररज्जकाल्पुत्ति-वासुपुज्जमल्ली
 नेमी पासो वीरो कुमार पवडया । रत्तं फाउ सेमा मल्ली नेमी अप-
 रिणीया ॥१५॥ कुमारराज्यप्रतकाला स्थापनया प्रदर्यते (२) । स-
 वाउयन्ति--चउरासीड १ विसत्तरि २ सट्टी ३ पन्नास ४ मेव ल-
 क्खाइ । चत्ता ५ तीसा ६ वोसा ७ दसऽदो ९ एग १० च पुवाण
 ॥१६ ॥ चउरासी ११ वावत्तरी य १२ सट्टी य १३ हवइ वासाण।
 तीसा य १४ दस य १५ एग १६ एवमेए सयसहस्सा ॥ १७ ॥
 पंचाणवइ सहस्सा १७ चउरासीई य १८ वावत्तरी १० होइ । ती-
 सा य २० दस य २१ एग २२ सय च २४ वावत्तरी २४वेव ॥१८॥
 वरवरियादाणंति--सवच्छरेण होही अभिनिक्खमणं तु जिण-
 वरिंदाणं । तो अत्यसपयाण पवत्तई पुवसूरमि ॥ १९ ॥ एगा हि-
 रन्नकोढी अट्टेव अणुणगा सयसहस्सा । सूरुदयमाईय दिज्जइ जा

मासचक्षुपा सततम् । निश्वासश्च सुगन्ध जन्मप्रभृतेगुणा पते
 ॥ ११३ ॥ देहमानमिति-रूपभ पच धनु शतानि नव पाश्व
 सप्त रत्नयो वीर । शेषा अष्ट पच अष्ट च पचाशद्दशपच
 परिहीणा ॥ ११४ ॥ कुमारराज्यकाल इति-वासुपूज्यो मल्लि
 नेमि पाश्र्वा वीर कुमारा प्रव्रजिता । राज्य कृत्वा शेषा मल्ली
 नेमिनो चापरिणीतो ॥ ११५ ॥ सर्वायुरिति-चतुरशीति द्वाप्त
 सति षष्टि पचाशदेव लक्षाणि । चत्वारिंशत् त्रिंशद् विंशति
 द्दश द्वे एव पर्वाणाम् ॥ ११६ ॥ चतुरशीति द्वाप्तसतिश्च षष्टिश्च
 भवति वर्षाणाम् । त्रिंशच्च दश चैक एवमेतानि शतसहस्राणि
 ॥ ११७ ॥ पचनवति सहस्राणि चतुरशीतिश्च द्वाप्तसति भवति
 त्रिंशच्च दश चैक शत च द्वाप्तसतिरेव ॥ ११८ ॥ वरवरिकादा
 नमिति-सयत्नरेण भविष्यति अभिनिष्कमण तु जिनपरेन्द्राणाम् ।
 ततोऽधसप्रदान प्रवतते पूवसूरे ॥ ११९ ॥ एका हिरण्यकोदि

पायरासाओ ॥ २० ॥ वरवरिया घोसिज्जड किमिच्छियं दिज्जए
 बहुविहोय । सुरअसुरदेवदानवनरिंदमहियाण निक्खमणे ॥ २१ ॥
 तिन्नेव य कोडिसया अट्टासीयं च हुति कोडीओ। असिय च सय-
 सहस्स एय सबच्छरे दिन्न ॥ २२ ॥ लोगतियदेवत्ति—अट्टेव
 सागराइ परमाउ-हुंति सबदेवाण । एगावयारिणो खलु देवा लोग-
 तिया नेया ॥ २३ ॥ सारस्सय १ माइच्चा २ वण्ही ३ वरुणा य ४
 गद्धतोया ५ य । तुसिया ६ अट्टावाहा ७ अग्गिच्चा ८ चेव रिट्ठा य
 ९ ॥ २४ ॥ एए देवनिकाया भयव वोहिंति जिणवरिंद तु । सब-
 जगजीवहियं भयव । तित्थं पवत्तेहि ॥ २५ ॥ वयपरिवारुत्ति—
 एगो भयवं वीरो पासो मल्ली य तिहिं तिहिं सएहि । भयवंपि वासु-
 पुज्जो छहिं पुरिससएहिं निक्खंतो ॥ २६ ॥ उग्गाणं भोगाणं रा-
 इन्नाण च खत्तियाण च । चउहिं सहस्सेहिं उसभो सेसा उ सहस्सप-
 रिवारा ॥ २७ ॥ नवि लेड जिणा पिंछीं नवि कुडीं वक्कल च कड-
 सार । दिक्खा वम्मकहाओ न करंति य जाव छउमत्था ॥ २८ ॥

अष्टैवानूनकानि शतसहस्राणि । सूर्यादयादेदीयते यावत् प्रात-
 राश ॥ १२० ॥ वरवरिका घोष्यते किमीप्सित दीयते बहुवि-
 धिकम् । सुरासुरदेवदानवनरेन्द्रमहिताना निष्क्रमणे ॥ १२१ ॥
 त्रीण्येव च कोटिशतानि अष्टाशीतिश्च भवन्ति कोटय । अशी-
 तिश्च शतसहस्राणि पतत् सद्यत्सरे दत्तम् ॥ १२२ ॥ लोकान्तिक-
 देवा इति—अष्टैव सागराणि परमायु भवन्ति सर्वदेवानाम् ।
 एकावतारिण खलु देवा लोकान्तिका ज्ञेया ॥ १२३ ॥ सारस्वता
 दित्यो घन्धरुणो च गदतोयाश्च । तुपितोऽयावाधा आग्नेयाश्चै-
 व रिष्ठाश्च ॥ १२४ ॥ पते देवनिकाया भगवन्त बोधयन्ति जिन-
 घरेन्द्र तु । सर्वजगज्जीयहित भगवन् ! तीर्थ प्रवतय ॥ १२५ ॥ व्रत-
 परिवार इति—पद्मे भगवान् धीर पार्श्वं मल्लिश्च त्रिभि त्रिभि
 शते । भगवानपि वासुपूज्य पद्भि पुरुषशतैर्निष्क्रान्त ॥ १२६ ॥
 उग्गाणा भोगाना राजन्याना क्षत्रियाणा च । चतुर्भि महसं क्रुपभ
 शोपास्तु सहस्रपरिवारा ॥ १२७ ॥ नापि शान्ति जिना पिच्छीं

च १ सिध्दिगति—सुदसणा १ सुप्रभा २ मिद्वन्या ३ अभयकरा
 ४ निवृत्तकरा ५ मनोहरा ६ मनोरमा ७ सूरप्रभा ८ सुकप्रभा ९
 विमलप्रभा १० पृथ्वी ११ देवदिक्षा १२ सागरदत्ता १३
 नागदत्ता १४ सर्वदृष्टिदा १५ विजया १६ वैजयन्ती १७
 जयती १८ अपराजिता १९ देवकुरु २० उत्तरकुरु २१ वार-
 वर्डय २२ विसाला २३ चद्रप्रभा २४ ॥ अवत्यति—वीरो
 अरओ नेमी पासो मल्ली य वामपुजो य । पदमवए पवइया
 सेसा उण पच्छिमवयमि ॥ २० ॥ वयकालति—पासो अरिद्वनेमी
 सिज्जसो सुमइ मल्लिनामो य । पुवण्ह निक्खता सेसा उण पच्छिम-
 ण्हमि ॥ ३० ॥ वयटाणति—उसभो य विणीयाए वारवर्डए अ-
 रिद्वरनेमी । अवसेसा तित्ययरा निक्खता जम्मभूमिसुं ॥ ३१ ॥
 तिहिं नाणेहिं सम्मगा तित्ययरा जाव हुंति गिहिवासे । पडिवल्लं-
 मि चरित्ते चउनाणी जाव छउमत्या ॥ ३२ ॥ वयतवन्ति—सुमइत्य
 निच्चभत्तेण निग्गओ वासुपुज्जजिणो चउत्येण । पासो मल्लीवि य अ-

नापि कुंडिका वल्कल च कटसारम् । दीक्षा धमकथा न कुर्वन्ति
 च यावत् छद्मस्था ॥ १२८ ॥ व्रतशिविकेति—सुदर्शना सुप्रभा
 मिद्वार्याऽभयकरी निवृत्तिकरी मनोहरा मनोरमा सूरप्रभा शुकप्रभा
 विमलप्रभा पृथ्वी देवदत्ता नागदत्ता सर्वार्थसिद्धा विजया वैज-
 यन्ती जयती अपराजिता देवकुरु उत्तरकुरुश्च द्वारवती च विशा-
 ला चन्द्रप्रभा । अवस्थेति—वीरोऽरो नेमि पार्श्वो मल्ली च वासुपुज्य
 च । प्रथमवयसि प्रव्रजिता शेषा पुन पश्चिमे वयसि ॥ १२९ ॥
 व्रतकाल इति—पार्श्वोऽरिष्टनेमि श्रेयास सुमतिर्मल्लिनामा च ।
 पूर्वोण्हे निष्क्रान्ता शेषा पुन पश्चिमान्धऽपि ॥ १३० ॥ व्रत
 स्थानमिति ऋषभश्च विनीताया द्वारवत्यामरिष्टनेमिश्च । अव-
 शेषा तीर्थकरा निष्क्रान्ता जन्मभूमिषु ॥ १३१ ॥ त्रिभिर्ज्ञानै
 समग्रा तीर्थकरा यावद् भवन्ति गृहवासे । प्रतिपन्ने चारित्रे
 चतुर्ज्ञानिनो यावत् छद्मस्था ॥ १३२ ॥ व्रततप इति—सुमतिरत्र
 नित्यभक्तेन निगतो वासुपुज्यजिनश्चतुर्थेन । पार्श्वो मल्ल्यपि

द्वमेण सेसा उ छट्टेणं ॥ ३३ ॥ पढमपारणलाभत्ति—संवच्छरेण
 भिक्खा लद्धा उसमेण लोगनाहेण । सेसेहि वीयदिवसे लद्धाउ पढ-
 मभिक्खाओ ॥ ३४ ॥ उसभस्स उ पारणए इक्खुरसो आसि लो-
 गनाहस्स । सेसाणं परमान्नं अमयरसरसोवम आसी ॥३५॥ सत्वे-
 हिपि जिणेहिं जहिय लद्धाउ पढमभिक्खाओ । तहिय वसुहाराओ
 वुट्ठाओ पुप्फवुट्ठीओ॥३६॥अद्धत्तेरसकोडी उक्कोसा तत्थ होइ वसु-
 हारा॥अद्धत्तेरस लक्खा जहन्नया होइ वसुहारा॥३७॥पढमपारण-
 कदायारनामत्ति—१ सिज्जंस २ वभदत्तो ३ सुरिंदत्तो य ४ इद-
 दत्तो य । ५ पउमो य ६ सोमदेवो ७ महिंढ तह ८ सोमदत्तो य
 ॥ ३८ ॥ ९ पुस्से १० पुणवसू ११ पुण नेद १२ सुनदे १३ जए य
 १४ विजए य । तत्तो य १५ धम्मसीहे १६ सुमित्त तह १७ वग्घ-
 सीहे य ॥ ३९ ॥ १८ अवराइय १९ विससेणे २० वीसइमे होइ वभ-
 दत्ते य । २१ दिन्ने २२ वरदिन्ने उण २३ धन्ने २४ बहुले य वोद्धवे
 ॥ ४० ॥ जिणपढमभिक्खदाया तमि भवे केइ सिद्धिमणुपत्ता ।

चाष्टमेन शेषास्तु पष्ठेन ॥१३३॥ प्रथमपारणालाभ इति-सप्तत्सरेण
 भिक्षा लब्धा ऋषभेण लोकनाथेन । शेषैर्द्वितीयदिवसे लब्धा
 प्रथमभिक्षा ॥ १३४ ॥ ऋषभस्य तु पारणवे इक्षुरस आसील्लो-
 कनाथस्य । शेषाणां परमान्नममृतरसरसोपममासीत् ॥ १३५ ॥
 सर्वरपि जिनैर्यत्र लब्धा प्रथमभिक्षा । तत्र वसुधारा वृष्टा वृष्टा
 पुष्पवृष्टयश्च ॥ १३६ ॥ अर्धत्रयोदशकोटी उत्कृष्टा तत्र
 भवति वसुधारा । अधत्रयोदशलक्षा जघन्या भवति वसुधारा
 ॥ १३७ ॥ प्रथमपारणकदातूनामानीति-श्रेयासो ब्रह्मदत्त सुरेन्द्र
 दत्तश्चेन्द्रदत्तश्च । पद्मश्च सोमदेवा महैन्द्र तथा सोमदत्तश्च ॥१३८॥
 पुष्य पुनवसु पुन नद सुनदो जयश्च विजयश्च । ततश्च धर्मसिंह
 सुमित्र तथा व्याघ्रसिंहश्च ॥ १३९ ॥ अपराजितो विश्वसेनो
 विंशतितमो भवति ब्रह्मदत्तश्च । दत्तो वरदत्त पुनर्धन्यो बहुलश्च
 चोद्धव्य ॥ १४० ॥ जिनप्रथमभिक्षादातार तस्मिन् भवे चैचित्
 सिद्धिमनुप्राप्ता । कश्चित् तृतीयभगेन सुरसुखं भुक्त्वा मिद्धा

कैर्द तडपभयण मुरमुग्गव भुजिउ सिद्धा ॥ ४१ ॥ ऋतमत्यकालत्ति-
 वासमहस्स वारस चोद्दस अट्टार यीमपरिसाडं । मामा ऋग नव तिन्नि
 य चउ तिग दुग एक्कग दुग च ॥ ४२ ॥ ति दु एक्कग सोलसग वासा तिन्नि
 अ तहव ऽहोरत्ता । मासिवासरस नवग चउपत्तटिणा य चुठमोर्डे ॥ ४३ ॥
 तह वारस वासाइ जिणाण छउमत्यकालपरिमाण । उग्ग च तत्रोक्कम्म
 विसेमओ वद्धमाणस्स ॥ ४४ ॥ नाणतवत्ति-अट्टमभक्तवमाणे पासो-
 सभमल्लिरिद्धनेमीणं । वसुपुज्जस्स चउत्थेण छट्ठमत्तेण सेसाण ॥ ४५ ॥
 नाणुत्पत्तिकालत्ति-तैरीमाए नाण उप्पन्न जिणवराण पुव्वण्हु ।
 वीरस्स पन्डिमण्हे पमाणपत्ताए चरिमाए ॥ ४६ ॥ उसभस्स पुरि-
 मताले वीरस्सुजुयालियानर्डतोरे । सेसाण केवलाइ जेसुज्जाणेसु
 पवइया ॥ ४७ ॥ नाणतरुनामत्ति-१ नगोह २ सत्तिवन्ने ३
 साले ४ पियए ५ पियगु ६ छत्तोह । ७ सिरिसे य ८ नागरुक्खे
 ९ मल्ली य १० पिल्लिगुरुक्खे य ॥ ४८ ॥ ११ तिंदुग १२ पाडल-
 १३ जवू १४ आसुत्थेखलु तहव १५ दहिवन्ने १६ नदीरुक्खे १७

॥ १४१ ॥ छद्मस्थकाल इति-धपसहस्र द्वादश चतुर्दश अष्टादश
 विंशति वर्षाणि । मासा षट् नव त्रयश्च चत्वार त्रयो द्वौ एको
 द्वौ च ॥ १४२ ॥ त्रयो द्वौ एकक षोडश वर्षाणि त्रयश्च तथेवा
 होरात्रम् । मासा एकादश नव चतुष्पचाशद् दिनानि चतुरशीति
 ॥ १४३ ॥ तथा द्वादश वर्षाणि जिनानां छद्मस्थकालपरिमाणम् ।
 उग्र च तप कम विशेषतो वर्द्धमानस्य ॥ १४४ ॥ ज्ञानतप इति-
 अष्टमभक्तावसाने पार्श्वर्षभमल्लयरिष्ठनेमीनाम् । वासुपूज्यस्य
 चतुर्थेन पट्टभक्तेन शेषाणाम् ॥ १४५ ॥ ज्ञानोत्पत्तिकाल इति-
 त्रयोविंशतेज्ञानमुत्पन्न जिनवराणां पूर्वाण्हे । वीरस्य पश्चिमान्हि
 प्रमाणप्राप्ताया चरमायाम् ॥ १४६ ॥ ऋषभस्य पुरिमताले वीरस्य
 ऋजुवालुकानदीतीरे । शेषाणां कवलानि शेषूधानेषु प्रव्रजिता
 ॥ १४७ ॥ ज्ञानतरुनामानीति-न्यग्रोध मत्तपण शाल प्रियक
 प्रियगु छत्रोपग । श्रीशो नागवृक्षो मल्लिका प्लक्षवृक्षश्च ॥ १४८ ॥
 तिंदुक पाटलो जम्बू अश्वत्थ खलु तथैव दधिपण । नन्दीवृक्ष

तिलए १८ अवयस्कृत्वे १९ असोये य ॥ ४९ ॥ २० चपगस्कृत्वे
 २१ वडले २२ वेडसस्कृत्वे तहेव २३ धयस्कृत्वे २४ साले चउवीसइमे
 इय स्कृत्वा जिणवराणं तु ॥५०॥ नाणुप्पत्तिअइसयत्ति—खित्ते
 जोयणमित्ते जं जियकोढी सहस्ससो माणं।सव्वसभासाणुगय वयणं
 धम्माववोहयर २ ॥ ५१ ॥ पुब्बुप्पन्ना रोगा पसमती ३ ईइ ४ व-
 इर ५ मारीओ ६ । अइवुट्ठी ७ अणावुट्ठी ८ न होइ दुभिकख ० ड-
 मर वा १० ॥ ५२ ॥ देहाणुमगलग्ग ईसीभामडल टिणयराभ ११ ।
 एए कम्मकखइया सुरभत्तिकया इमे वड्ढे ॥ ५३ ॥ चक्र १ उत्त २
 रयणज्झओ य ३ सेयवरचामरा ४ पडमा ५।चउमुह ६ पायारतिय
 ७ सीहासण ८ दुदुहि ९ असोगे १० ॥ ५४ ॥ कटय हिट्ठाहुत्ता ठा-
 यन्ति ११ अवट्ठिय च नहरोम १२।पचेवइट्ठियत्था १३ मनोरमा हुति
 छप्पि रिऊ १४ ॥५५॥ गधोदय च वाम १५ वास कुसुमाण पंच-
 वन्नाण १६ । सउणा पयाहिणगटं १७ पवणऽणुक्कलो १८ नमन्ति दु-
 मा १९ ॥ ५६ ॥ भवणवइ वाणमतर जोइसवासी विमाणवासी य ।
 चिट्ठति समोसरणे जहन्नय कोडिमेत्तं तु ॥ ५७ ॥ चउरो जम्मप्पभिई

तिलक आम्रवृक्ष अशाकश्च ॥ १४९ ॥ चपक्वृक्षो वकुलो वेतस
 वृक्ष तथैव ध्रजवृक्ष । शाल चतुर्विंशतितम इति वृक्षा जिन
 वगणा ॥१५०॥ ज्ञानोत्पत्त्यतिशया इति-क्षेत्रे योजनमात्रे यद् जी
 यकोटिसहस्राणा मानम् । मज्ज्वभाषानुगत वचन धर्मावबोधकरम्
 ॥१५१॥ पूर्वोत्पन्ना रोगा प्रशान्यन्ति इतिवैरमार्य । अतिवृष्टिरना
 वृष्टिर्न भवति दुर्भिक्ष डमरो वा ॥१५२॥ इपहेहानुमागलग्न भामडलं
 दिनकराभम् । पते कर्मक्षयजा सुरभक्तिवृत्ता इमे वाऽन्ये ॥ १५३ ॥
 चक्र छत्र गन्धध्रजश्च श्वेतवरचामरी पद्मानि । चतुर्मुख प्राकार
 त्रिक सिंहासन दुदुभिग्जाक ॥ १५४ । कटका अधोमुखा ति
 ष्ठन्ति अवस्थित च नहरोम । पचेनेन्द्रियार्था मनोरमा भवन्ति
 पट्ट ऋतय ॥ १५५ ॥ गन्धोदकघण च यण कुसुमाना पचयर्णानाम् ।
 शकुना प्रदभिणगतय पवनोऽनुद्गो नमन्ति द्रुमा ॥ १५६ ॥
 भवनपतयो यन्तरा ज्योतिष्कघ्रासिनो विमानधामिनश्च । तिष्ठन्ति
 समघस्रणे जघन्यक काटिमात्र तु ॥ १५७ ॥ चतुरो जन्मप्रभते

रुई तडपभरण मुरमुत्तवं भुजिउ मिद्धा ॥४१॥ उउमत्यकालत्ति-
 रासमहस्स वारस चोद्दस अट्टार सीमपरिसाई। मासा उग नव तिन्नि
 य चउ तिग दुग एग्ग दुग च ॥४२॥ ति दु एग्ग सोलमग रामा तिन्नि
 अ तहवऽट्टोरत्ता। मासिधारस नगग चउपन्नदिणा य चुलमोई ॥४३॥
 तह वारस मासाइ जिणाण छउमत्यकालपरिमाण। उग्ग च तवोरुम्म
 विसेसओ उद्धमाणस्स ॥४४॥ नाणतवत्ति-अट्टमभक्तवसाने पासो-
 सभमल्लिरिद्धनेमीणं। वसुपुज्जस्स चउत्येण छट्टमत्तेण सेसाण ॥४५॥
 नाणुप्पत्तिकालत्ति-त्तेवीमाए नाण उप्पन्न जिणवराण पुव्वण्ह ॥
 वीरस्स पन्निउमण्हे पमाणपत्ताए चरिमाए ॥ ४६॥ उसभस्स पुरि-
 मताले वीरस्सुजुपालियानईतोरे । समाण केवलाइ जेसुज्जाणेसु
 पवइया ॥ ४७ ॥ नाणतरुनामत्ति-१ नगोह २ सत्तिवन्ने ३
 साले ४ पियए ५ पियगु ६ छत्तोह । ७ सिरिसे य ८ नागरुक्खे-
 ९ मल्ली य १० पिल्लिपुक्खे य ॥ ४८ ॥ ११ तिंदुग १२ पाडल-
 १३ जवू १४ आसुत्ये खलु तहेव १५ दहिवन्ने १६ नदीरुक्खे १७

॥ १४१ ॥ छद्मस्थकाल इति-घणमहस्र द्वादश चतुदश अष्टादश
 विंशति वर्षाणि । मासा षट् नव त्रयश्च चत्वार त्रयो द्वौ एको
 द्वौ च ॥ १४२ ॥ त्रयो द्वौ एकक षोडश वर्षाणि त्रयश्च तथैवा
 होरात्रम् । मासा एकादश नव चतुष्पचाशद् दिनानि चतुरशीति
 ॥ १४३ ॥ तथा द्वादश वर्षाणि जिनाता छद्मस्थकालपरिमाणम् ।
 उग्र च तप कम विशेषतो वर्द्धमानस्य ॥ १४४ ॥ ज्ञानतप इति-
 अष्टमभक्तावसाने पाश्वपभमल्लयरिष्टनेमीनाम् । वासुपूज्यस्य
 चतुर्थेन पट्टभक्तेन शेषाणाम् ॥ १४५ ॥ ज्ञानोत्पत्तिकाल इति-
 त्रयोविंशतेर्ज्ञानमुत्पन्न जिनवराणां पूर्वोण्हे । वीरस्य पश्चिमान्हि
 प्रमाणप्राप्ताया चरमायाम् ॥ १४६ ॥ ऋपभस्य पुरिमताले वीरस्य
 ऋजुवालुकानदीतीरे । शेषाणां कजलानि येषूद्यानेषु प्रव्रजिता
 ॥ १४७ ॥ ज्ञानतरुनामानीति-न्यग्रोध सप्तपण शाल प्रियक
 प्रियगु छत्रोपग । श्रीशो नागवृक्षो मल्लिका प्लक्षवृक्षश्च ॥१४८॥
 तिंदुक पाटलो जम्बू अश्वत्थ खलु तथैव दधिपण । नन्दीवृष

चित्तासु सुरनरतिरियाण जीवजाट्टेण । मवायमणुहवती स जयउ
वाणी जिणिंदस्स ॥ ६७ ॥ इंत महिद्धिय पणिवयति ठियमवि व-
यति पणमंता । नवि जतणा न विकहा न परुप्परमच्छरो न भयं
॥ ६८ ॥ विइयंमि ह्हुति तिरिया तइये पायारमंतरे याणा । पागार-
ज्जे तिरियावि ह्हुति पत्तेय मीसा व ॥ ६९ ॥ तित्थ चाउवन्नो सं-
घो सो पढमए समोसरणे । उप्पन्नो य जिणाण वीरजिणिंदस्स
वीयमि ॥ ७० ॥ पारितोमियटाणसंखत्ति-वित्ती उ सुवन्नस्सा
वारस अद्ध च सयसहस्साइ । तावइय चिय कोडी पीडदाण तु च-
क्किस्स ॥ ७१ ॥ एय चेव पमाण नवर रयय तु केमवा दिंति । मंड-
लियाण महस्सा पीईटाणं सयसहस्सा ॥ ७२ ॥ भत्तिविहवाणुख्व
अत्तेविहु दिंति इन्भमाट्टया । सोऊण जिणागमण निउत्तमणिओइए-
सुपि ॥ ७३ ॥ सब्वजिणआट्टमगणहरनामत्ति—सिरिउमह-
सेण १ पहुसीहसेण २ चारूर ३ वज्जनाहक्खा ४ । चमरो ५ सुज्जोय
६ वियब्भ ७ दिन्न ८ पहुणोवराहो य ९ ॥ ७४ ॥ पहुनद १०

भाषासु त्रिचित्रासु सुरनरतिरिश्वा जीवजातीनाम् । सवादमनुभवती
सा जयतु वाणी जिनेन्द्रस्या ॥ ६७ ॥ आयान्त महर्द्विक प्रणिपतन्ति स्थि-
तमपि व्रजन्ति प्रणमन्त । नैत्र यत्रणा न विकथा न परस्परमत्सरो
न भयम् ॥ ६८ ॥ द्वितीये भवन्ति तिर्यंच तृतीये प्राकारान्तरे या-
नानि । प्राकारत्यक्ते तिर्यञ्चोऽपि भवन्ति प्रत्येका मित्रा या ॥ ६९ ॥
तीर्थं चानुर्गण सघ न प्रथमके समवसरणे । उत्पन्नश्च जिनाना
वीरजिनेन्द्रस्य द्वितीयस्मिन् ॥ ७० ॥ पारितोपिकदानसरयेति-
वृत्तिस्तु सुघर्णानां द्वादश अर्द्धं च शतसहस्राणां । तावत्य एव
कोट्य प्रीतिदान तु चक्रवर्तिन ॥ ७१ ॥ एतदेव प्रमाणं वि-
शेषस्तु रजन केशवा ददति । माडलिकानां सहस्राणि प्रीतिदान
शतसहस्राणि ॥ ७२ ॥ भक्तिभिजानुरूपमन्येऽपि चैव ददति
इभ्यादय । श्रुत्या जिनागमन नियुक्तानियुक्तेभ्योऽपि ॥ ७३ ॥ सय
जिनादिमगणधरनामानीति-श्रीऋषभसेन प्रभु सिंहसेन चारु-
वज्जनाभाख्य चमर सूघोत विदर्भा दत्त प्रभुरनुपरोधश्च ॥ ७४ ॥

एधारत कमसरखण जाण । नत्र टग य देवजणिष चउतीसं अउसप
 वंदे ॥ ५८ ॥ समोसरणंति—भयणवइ राणमतर जोइसवासी
 विमाणसी य । सविद्धिण सपरिसा कासी नाणुप्पयामहिम ॥ ५९ ॥
 अंभतर मज्झ उहिं विमाणजोइसवणाहिवकयाओ । पायारा तिञ्चि
 भवे रयणे कणये य रयण य ॥ ६० ॥ मणिरयणदमयावि य कविसी-
 सा अरिय सवरयणमया । सवरयणामडच्चिय पडागधयतोरणविचिन्ता
 ॥ ६१ ॥ चेडयदुमपीठछदय आसण उत च चामराओ य । जंचउन्नं
 करणिज्ज करिति त राणमतारिया ॥ ६२ ॥ वत्तीस घणुयाड चेडय
 रुक्खो य वद्धमाणस्स । सेसाण तु जिणाण ससरीरा वारसगुणो य
 ॥ ६३ ॥ साहारण ओसरणे एं जत्थिद्धिमं तु ओसरइ । एको चि-
 य न सव करेड भयणा उ इयरेसु ॥ ६४ ॥ जे ते देवेहिं कया ति-
 दिंसिं पडिरूवगा जिणवरस्स । तेसिंपि तप्पभावा तयाणुरूव हवइ
 रूव ॥ ६५ ॥ मुणिवेमाणियसमणी सभवणवण जोइ देविदेवा य ।
 वेमाणिय नरनारी ठतिऽग्गेयाइविदिसासु ॥ ६६ ॥ भासासु वि-

एकादश कममक्षये जानीहि । नव दश च देवजनितान् चतु
 विंशतमतिशयान् उन्दे ॥ १५८ ॥ समघसरणमिति—भवनपति
 व्यन्तरो ज्योतिष्कवासी च । मवद्ध्या सपरिदु अकार्षीदु ज्ञानो
 त्पादमहिमानम् ॥ १५९ ॥ अभ्यन्तरे मध्ये बहिर्विमानज्योतिष्क
 भवनाधिपकृता प्राकारा त्रयो भवेयु रत्नस्य कनकस्य च रजतस्य
 च ॥ १६० ॥ मणिरत्नहेममयानि च कपिशीर्षकाणि अपिच सर्वैरत्नम
 या एव पताका ध्वजतोरणानि विचित्राणि ॥ १६१ ॥ चैत्यद्रुम पीठ
 छंदकमानन छत्र च चामरौ च । यच्चान्यत् करणीयं कुर्वन्ति
 तद् व्यन्तरा ॥ १६२ ॥ द्वात्रिंशद् धनुषि चैत्यवृक्षश्च वद्धमानस्य ।
 शेषाणा तु जिनाना स्वशरीराद् द्वादशगुणश्च ॥ १६३ ॥ साधारणे सम
 घसरणे एव यत्र ऋद्धिर्मास्तु समघसरति । एक एव तत् सव
 कराति भजना तु इतरेषु ॥ १६४ ॥ यानि तानि देवै कृतानि त्रिदिशि
 प्रतिरूपकाणि जिनवरस्य । तेषामपि तत्प्रभावात् तदनुरूपं भवति
 रूपम् ॥ १६५ ॥ मुनिवैमानिकश्रमण्य सभवनवनज्योतिष्कदेवी
 देवाश्च । वैमानिकनरनाय तिष्ठन्ति आग्न्येय्यादिविदिशु ॥ १६६ ॥

सेव २२ सोलस २३ चउद्दस २४ क्रमेण । एय साहुपमाण एत्तो
 अज्जाण साहेमि ॥ ८२ ॥ पवत्तिणीनामाइति—वभी १ फग्गू २
 सामा ३ अजिया ४ तह कासवी ५ रई ६ सोमा ७ । सुमणा ८ वा-
 रुणि ९ सुजसा १० धारणि ११ वरणो १२ वरा १३ पउमा १४
 ॥ ८३ ॥ अज्जा सिवा १५ सूई १६ दामणि १७ रक्खीय १८ व-
 धुमइ १९ नामा । पुप्फवई २० नीला २१ जक्खदिन्न २२ तह पु-
 प्फचूला य २३ चदणा २४ ॥ ८४ ॥ साट्ठणीसंखत्ति—तिन्नेव
 १ तिन्नि तीसा २ छत्तीसा तिन्नि ३ छच्च तिगसहिया ४ । पंच य
 तीसा ५ चउरो बीसा ६ चउरो य तीसहिया ७ ॥ ८५ ॥ तिन्नि य
 लक्खअसीया ८ वोसइ लक्खो ९ छउत्तरी लक्खो १० । लक्खो
 तिन्नि सहस्सा ११ । लक्खो १२ लक्खा य अट्ठसया १३ ॥ ८६ ॥
 वासट्ठी सहस्सा १४ चउसयाइ १५ इगसट्ठि सहस्स छच्च सया १६
 सट्ठी छच्चैव सया १७ सट्ठी १८ पणवन्न १९ पन्नासा २० ॥ ८७ ॥ इ-
 गुयाला २३ चालीसा २० अट्ठत्तीसा २३ तहेव छत्तीसा २४ ।

त्रिंशद् विंशतिरष्टादशैव षोडश चतुदश क्रमेण । एतन्मायुप्र-
 माण अत आर्याणा कथयामि ॥ १८२ ॥ प्रवर्तिनीनामानीति—त्रा
 ह्नी फल्लु श्यामाऽजिता तथा काश्यपी रति सोमा सुमना
 वारुणी सुयशा धारणी धरणी धरा पद्मा ॥ १८३ ॥ आर्या शिवा
 सूची दामनी रक्षा च बन्धुमतीनाम्नी पुष्पवती नीला यक्षदत्ता
 तथा पुष्पचूला च चन्दना ॥ १८४ ॥ साध्वीसरयेति—त्रोण्येष
 त्रीणि त्रिंशत्सहस्राणि षट्त्रिंशत्सहस्राणि त्रीणि षट् च त्रिंशत्सहस्र
 सहिता पच च त्रिंशत्सहस्राणि चत्वारो विंशतिसहस्राणि
 चत्वारश्च त्रिंशतिसहस्रसहिता ॥ १८५ ॥ त्रीणि च लक्षाणि
 अशीतिसहस्राणि विंशतिसहस्राणि लक्ष षडुत्तरो लक्ष लक्ष
 त्रीणि सहस्राणि लक्षो लक्षश्चाष्ट शतानि ॥ १८६ ॥ द्वापष्टि
 सहस्राणि चतु शताधिकानि एकपष्टि सहस्राणि षट् च शतानि ।
 षष्टि षडेव शतानि षष्टि पचपचाशत् पंचाशत् ॥ १८७ ॥ एक
 चत्वारिंशत् चत्वारिंशद् अष्टत्रिंशत् तथैव षट्त्रिंशत् । आयाणा तु

कुतुहाविय ११ सुभोम १२ मन्त्र १३ जमो १४ अरिष्टो य १५ । च-
 षाउध १६ मयो १७ कुभ १८ भिगय १९ मन्त्री य २० सुभो य २१
 ॥ ७७ ॥ वरदत्त २२ अजन्त्रि २३ महिदभूर्डे य २४ गणहरा
 पदमा । मिस्ता रिमहाईण हरंतु पावाडपणयाण ॥ ७६ ॥ ग-
 णहरप्रमाणंति—चुलसीई १ पचनउई २ विउत्तर ३ सोलमुत्तर
 ४ सय च ५ । सत्तुत्तर ६ पणनउई ७ तेणउई ८ अट्टमीई य ९ ॥ ७७ ॥
 एकासी १० छाउत्तरी ११ छावट्टी १३ सत्तयत्त १३ पत्ता य १४ ।
 तेयालीसा य १५ तहा छत्तीसा १६ चेय पणतीसा १७ ॥ ७८ ॥
 तिचीस १८ अट्टवीसा १९ अट्टारम २० चेय तह य मत्तरस २१ ।
 एकारस २२ दस २३ एकारसेव २४ इय गणहरप्रमाण ॥ ७९ ॥
 पत्तेयसाहुसखत्ति—चुलसीई सहस्साई १ इगलख २ दु ३ तिन्नि
 ४ तिन्नि लख्खाइ । वीसहिया ५ नीमहिया ६ तिन्नि य ७ अट्टाडय
 ८ दु ९ इक् १० ॥ ८० ॥ चउरासीई सहस्सा ११ विसत्तरी १२
 अट्टसट्टी १३ छावट्टी १४ । चउसट्टी १५ वासट्टी १६ सट्टी १७ प
 न्नास १८ चालीसा १९ ॥ ८१ ॥ तीसा २० वीसा २१ अट्टार-

प्रभुर्नन्द कोस्तुभोऽपि च सुभौमो मन्दरो यशा अरिष्ठश्च ।
 चक्रायुध शाम्ब कुम्भो भिषक् मल्लिश्च शुम्भश्च ॥ १७५ ॥ वरदत्त
 आयदत्तो महेंद्रमूर्तिश्च गणधरा प्रथमा । शिष्या ऋषभादीना
 हरतु पापानि प्रणतानाम् ॥ १७६ ॥ गणधरप्रमाणमिति—चतुरशीति
 पचनवति पचनवतिर्द्वयुत्तर च शत । सप्तोत्तर च पचनवति
 त्रिनवतिरष्टाशीतिश्च ॥ १७७ ॥ एकाशीति षट्सप्तति षट्षष्टि
 सप्तपंचाशत् पंचाशच्च । त्रिचत्वारिंशच्च तथा षट्त्रिंशच्चैव पचत्रिं
 शद् ॥ १७८ ॥ त्रयस्त्रिंशदष्टात्रिंशतिरष्टादश चैव तथा च समदश
 । एकादश दशैकादशैव इति गणधरप्रमाणम् ॥ १७९ ॥ प्रत्येक
 साधुसरयेति—चतुरशीति सहस्राणि एक लक्षं द्वे त्रीणि त्रीणि
 लक्षाणि । विंशतिसहस्राधिकानि विंशतिसहस्राधिकानि त्रीणि
 सार्धं द्वे द्वे च एक ॥ १८० ॥ चतुरशीति सहस्राणि द्वाप्ततिरष्टषष्टि
 षट्षष्टि । चतु षष्टिर्वापष्टि षष्टि पचाशच्चत्वारिंशद् ॥ १८१ ॥

सेव २२ सोलस २३ चउदस २४ क्रमेण । एय साहुपमाण एत्तो
 अज्जाण साहेमि ॥ ८० ॥ पवत्तिणीनामाइति—वभी १ फग्गू २
 सामा ३ अजिया ४ तह कासवी ५ रई ६ सोमा ७ । सुमणा ८ वा-
 रुणि ९ सुजसा १० धारणि ११ वरणो १२ धरा १३ पउमा १४
 ॥ ८३ ॥ अज्जा सिवा १५ मूई १६ दामणि १७ रक्खीय १८ व-
 धुमइ १९ नामा । पुप्फवई २० नीला २१ जक्खदिन्न २२ तह पु-
 प्फचूला य २३ चदणा २४ ॥ ८४ ॥ साहुणीसंखत्ति—तिन्नेव
 १ तिन्नि तीसा २ उत्तीसा तिन्नि ३ छच्च तिगसहिया ४ । पव य
 तीसा ५ चउरो वीसा ६ चउरो य तीसहिया ७ ॥ ८५ ॥ तिन्नि य
 लक्खअसीया ८ वोसइ लक्खो ९ छउत्तरी लक्खो १० । लक्खो
 तिन्नि सहस्सा ११ । लक्खो १२ लक्खा य अट्टसया १३ ॥ ८६ ॥
 वासट्ठी सहम्सा १४ चउसयाइ १५ इगसट्ठि सहस्स छच्च मया १६
 सट्ठी छच्चैव सया १७ सट्ठी १८ पणवन्न १९ पन्नासा २० ॥ ८७ ॥ इ-
 गुयाला २३ चालीसा २० अट्टत्तीसा २३ तहेव छत्तीसा २४ ।

त्रिंशद् विंशतिरष्टादशैव षोडश चतुर्दश क्रमेण । पतत्मायुप्र-
 माण अत आयाणा कथयामि ॥ १८२ ॥ प्रवर्तिनीनामानीति—त्रा
 ङ्गी फल्गु श्यामाऽजिता तथा काश्यपी रति सोमा सुमना
 वारुणी सुयशा धारणी धरणी धरा पद्मा ॥ १८३ ॥ आया शिया
 सूची दामनी रक्षा च ग्रन्धुमतीनाम्नी पुष्पवती नीला यक्षदत्ता
 तथा पुष्पचूला च चन्दना ॥ १८४ ॥ साध्वीसख्येति—श्रीण्येष
 श्रीणि त्रिंशत्सहस्राणि षट्त्रिंशत्सहस्राणि श्रीणि षट् च त्रिसहस्र
 सहिता पच च त्रिंशत्सहस्राणि चत्वारो विंशतिसहस्राणि
 चत्वारश्च त्रिंशतिसहस्रसहिता ॥ १८५ ॥ श्रीणि च लक्षाणि
 अशोतिसहस्राणि त्रिंशतिसहस्राणि लक्ष षडुत्तरो लक्ष लक्ष
 श्रीणि सहस्राणि लक्षो लक्षश्चाष्ट शतानि ॥ १८६ ॥ द्वापष्टि
 सहस्राणि चतु शताधिकानि एकपष्टि सहस्राणि षट् च शतानि ।
 षष्टि षडेव शतानि षष्टि पचपचाशत् पंचाशत् ॥ १८७ ॥ एक
 चत्वारिंशत् चत्वारिंशद् अष्टत्रिंशत् तथैव षट्त्रिंशत् । आयाणा नु



नोकरति ६०००	जेनकरावे- ति ६०००	जेनअणुमन्न- ति ६०००
मणसा २०००	वयसा २०००	कायसा २०००
ज्जियाहा सन्न ५००	निज्जयभ यसन्न ५००	निज्जियमेहु णसन्न ५००
मोइदी १००	चवखुइदी १००	वाणिदी १००
डवोकाया रभ १०	आडकाया रभ १०	तेडकाया रभ १०
तिजुआते गीधन्ना ?	समद्ववाते मुणीधन्ना ?	सअज्जवाते मुणिधन्ना ?



निज्जियपरिग्गह सन्न ५००
रसण्णेदी १००
वाडकायारभ १०
समुत्तिणोतेमुणी धन्ना ?

फासॅदी १००
वणस्सइक्काया रभ १०
तवजुत्ता ते मुणधन्ना ?

वेइदिया रभ १०	तेईयारभ १०	चवरिदिया रभ १०	पचिदिया रभ १०	अत्रीरण १०
ससंजमाते मुणीधन्ना ?	सच्चजुआते मु० ?	सोयजुआ ते० ?	आक्किचण ते सु० ?	उभजुआते मुणीयन्ना ?



अज्ञाण तु सहस्त्रा नायवा आणुपुवीए ॥ ८८ ॥ सर्वसाधुसाधु-
 णीसखत्ति— द्वावीसं लक्खा अडयालीस च तह सहस्साइं । स-
 वेसिपि जिणवराण जईण माणं विणिहिद्व ॥ ८९ ॥ चडयालीस लक्खा
 छायाल सहस चडसय समग्गा । छच्चेव अज्जियाओ चडवोसाए
 जिणवराण ॥ ९० ॥ सर्वगणधरसख्या केवलज्ञानि मनःपर्यवज्ञानि-
 अवधिज्ञानि-चतुर्दशपूर्वधर वैक्रियलब्धि-वादलि व-सामान्यसाधु-
 सख्या-सामान्यसाध्वीसंख्या सर्वसाधुसाध्वीसंख्या स्थापनया (३)
 दर्श्यते सुखावबोधनार्थमिति ॥ साधुसाधुणीभणनपसगा पाभा-
 इय किच्चति-नवकारेण विबोहो इरिय पडिक्कमिय भणइ सकथय
 । राइउसगं काउ आरभइ तो पडिक्कमण ॥ ९१ ॥ मिच्छाउक्कटप-
 णिवायदंडय काउसगतियकरण । पुत्तियवंदण आलोय सुत्तवद-
 णयखामणय ॥ ९२ ॥ वंदणय गाहातियपाढो छम्मासियस्स उस्स-
 ग्गो । पुत्तिय वंदण नियमो थुइ तिय चियवदणा रावो (वेला)
 ॥ ९३ ॥ साधुअतिचारचित्तणगाहत्ति—सयणासणन्नपाणे
 चेटय-जड-सिज्ज-काय-उच्चारे । समिई भावण गुत्ती वितहायरणे य

सहस्राणि ज्ञानव्यान्यानुपूर्व्या ॥ १८८ ॥ सर्वसाधुसाध्वीसख्ये
 ति—अष्टाविंशतिर्लक्षा अष्टचत्वारिंशच्च तथा सहस्राणि । सर्वेषा
 मपि जिनाना यतीना मान विनिर्दिष्टम् ॥ १८९ ॥ चत्वारिंशल्ल
 क्षा पट्टचत्वारिंशत् सहस्राणि चतु शतसहितानि पट चैत्रार्या
 चतुर्विंशतेर्जिनवराणाम् ॥ १९० ॥ स्थापना ३ । साधुसाध्वीभणन-
 प्रसगात् प्राभातिक कृत्यमिति नमस्कारेण विबोध ईर्या प्रतिक्रम्य
 भणति शम्भुस्त्वम् । रात्रिकायोत्सर्ग कृत्वाऽऽरभते तत प्रतिक्रम
 णम् ॥ १९१ ॥ मिथ्यादुष्कृत भणिपातदडक कायेत्सर्गत्रिककर
 णम् मुखत्रिका घन्दनमालोचन सूत्र घन्दनक क्षामणकम् ॥ १९२ ॥
 घन्दनक गाथात्रिकपाठ पाण्मासिकस्योत्सर्ग । मुखत्रिका घन्द
 न नियम स्तुतित्रिष च चैत्यघन्दन घेला ॥ १९३ ॥ साध्यतिचाग्चि
 न्तनागाथेति-शयनासनाग्रपानीयानि चैत्य यतिधर्म शय्या काया

अङ्गार ॥ ० ४ ॥ गोसमूह अंतकाले आलोड्य य देवमिय अङ्गारे ।
 सवे समानउत्ता हियण दोसे ठपिज्जादि ॥ ० ५ ॥ छम्मासियच्चि-
 तणपरत्ति—परमेसर महागोरनइ तीर्थे उत्कृष्टउ तप छम्मास, ते
 एक दिवस ऊणा छम्मास तुहु जीय करिउ सकहि ? न सके, काइ
 न सकही ? गुरुनिओगु न निर्हई, फिसउ गुरुनिओगु ? नाणा-
 चारु दर्शनाचारु चरित्राचारु तपाचारु, वोर्याचारु २ । ३ । ४ । ५ ।
 ऊणा सकही, न सके । ६ । ७ । ८ । ८ । ९ । १० । ऊणा सकहि ० ।
 ११ । १२ । १३ । १४ । १५ । ऊणा सक० । १६ । १७ । १८ ।
 १९ । २० । ऊणा स० । २१ । २२ । २३ । २४ । २५ । ऊणा स०
 एकदिवस ऊणा पाच मास सकहि इत्यादिरोत्या दिनपचकहान्या
 पच मासा विज्ञेयाः । एक मासु दिवसि ऊणउ सकहि ? न सकउ ।
 काइ इत्यादि । २ । ३ । ४ । ५ । ऊणउ सकहि ? न सकुयइ । ६
 । ७ । ८ । ९ । १० । ऊण स । ११ । १२ । १३ । १४ । ऊण
 सकहि, न सके । चउत्तीसयमु, वत्रीसमु, त्रीसयमु, १४ अट्टा-
 वीसयमु १२ चउवीसयमु ११ बावीसयमु १० वीसय ९ अठार-
 सयमु ८ सोलस ७ चउदसमु ६ द्वादसमु ५ दसमु ४ अष्टमु ३
 छट्ठु २ चउत्थु १ आविल्लु ? निविउ एकासण वेआसण
 पुरिमइ । सइपोरिसि । पोरिसि । नवकारसहिओ जिक्काई तपु
 करिउ सकइ तिणि पारइ, तओ उवहिं पडिलेहेइ । जिणकप्पिय-
 उवगरणसखत्ति—जिणा वारसरूवाइ, थेरा चोइसरूविणो ।
 अज्जाण पन्नवीस तु, अओ उइ उवग्गहो ॥ ९६ ॥ पत्त १ पत्तावधो

उच्चार । समितिर्भाविना गुतिर्वितथाचरणे चातिचार ॥ १९४ ॥ प्रात
 मुखान्तककालात् आलोच्य देवसिकातिचारान् । सर्वान् समानीय
 हृदये दीपान् स्थापयेत् ॥ १९५ ॥ तत उपधिं प्रतिलिखति । जि
 नकल्पकोपकरणसख्येति— जिना द्वादशोपकरणा स्थविराणा
 चतुदशोपकरणानि आयाणा पचविंशतिस्तु अत ऊर्ध्वमुपग्रह
 ॥ १९६ ॥ पात्र पात्रकयन्ध पात्रस्थापनं पात्रकेनरिका । पट

२ पायद्वयं च ३ पायकेसरिया ४ । पडलाइ ५ रयत्ताणं ६ च
 गोच्छओ ७ पायनिज्जोगो ॥ १७ ॥ तिन्नेव य पच्छागा १० रय-
 हरणं चैव ११ होइ मुहपत्ती १२ । एसो दुवालसविहो उवही
 जिणकप्पियाण तु ॥ १८ ॥ थविरकप्पोवगरणाइंति-एए चैव
 दुवालस मत्तग अइरेग चोलपट्टो य । एसो चउदसरूवो उवही पुण
 थेरकप्पमि ॥ १९ ॥ तिन्नि विहत्थी चउरंगुलं च भाणस्स मज्झिम
 पमाणं । एत्तो हीण जहन्न अइरेगयर तु उक्कोसं ॥ २० ॥ पत्तावध-
 पमाण भाणपमाणेण होइ नायव्व । जह गठिमि कयमि कोणा चउर-
 गुला हुंति ॥ २०१ ॥ पत्तगठवणं तह गुच्छगो पायपडिलेहिणी चैव ।
 तिण्हपि उप्पमाणं विहत्थी चउरगुल चैव ॥ २०२ ॥ अड्डाज्जा
 हत्था दीहा छत्तीसअंगुला रुदा । वीय पडिग्गहाओ ससरीराओ वि
 निप्फन्न ॥ २०३ ॥ कयलीदलगव्वसमा पडला उक्कट्टमज्झिम-
 जहन्ना । गिम्हे हेमंतमि य वासासु य पाणरक्खट्ठा ॥ ४ ॥ तिन्नि चउ
 पच गिम्हे चउरो पचच्छग च हेमते । पच छ सत्त वासासु हुंति यण-

लानि रजस्साण च गोच्छक पात्रनिर्यागि ॥ १९७ ॥ त्रय एव च
 प्रच्छादका रजोहरण चैव भवति मुखवच्चिका । एष द्वादशविध उ
 पधिर्जिनकल्पिकाना तु ॥ १९८ ॥ स्थविरकल्पोपकरणानीति-पता
 न्येव द्वादश मात्रकमतिरेक चोलपट्टश्च । एष चतुर्दशरूप उपधि
 पुन स्थविरकल्पे ॥ १९९ ॥ त्रयो त्रितस्तय चतुरगुल च भाजनस्य
 मध्यमप्रमाणम् । पतस्माद् हीन जघन्यमतिरेकतरन्तृत्कर्ष ॥ २०० ॥
 पात्रबन्धप्रमाण भाजनप्रमाणेन भवति ज्ञातव्यम् । यथा ग्रन्थौ
 कृतौ कोणा चतुरगुला भवन्ति ॥ २०१ ॥ पात्रकस्थापन तथा
 गोच्छक पात्रप्रतिलेखिनी चैव । त्रयाणामपि तु प्रमाण वितन्ति
 चत्वार्यगुलानि चैव ॥ २०२ ॥ अर्धतृतीया हस्ता दीर्घ्ये षट्त्रिंश-
 तमद्गुलान् विन्तीर्णा । द्वितीय प्रमाण पतद्ग्रहात् स्थशरीरादपि
 च निष्पन्नम् ॥ २०३ ॥ षट्लीदलगव्वसमा पटला उत्कृष्टमध्यम
 जघन्या । ग्रीष्मे हेमते च त्र्यांसु च प्राणरक्षणार्थ ॥ २०४ ॥ त्रय
 चत्वार पच ग्रीष्मे चत्वार पंच पद च हेमते । पंच पद सप्त य

अइयार ॥ ० / ॥ गोसमुह अतकाले आलोऽप य देवसिय अइयार ।
 सवे समाणइत्ता हियए दोसे ठरिज्जाहि ॥ ०५ ॥ छम्मामियच्चि-
 त्तणपरत्ति—परमेसर महापोरनइ तीर्थे उच्छृष्ट उ तप उम्मास, ते
 एक दिवस ऊणा छम्माम तुहु जीव करिउ सकहि ? न सके, काइ
 न सकही ? गुरुनिओगु न निर्देहई, किमउ गुरुनिओगु ? नाणा-
 चारु दर्शनाचारु चरित्राचारु तपाचारु, योग्याचारु २ । ३ । ४ । ५ ।
 ऊणा सकही, न सके । ६ । ७ । ८ । ८ । ९ । १० । ऊणा सकहि ० ।
 ११ । १२ । १३ । १४ । १५ । ऊणा सक ० । १६ । १७ । १८ ।
 १९ । २० । ऊणा स ० । २१ । २२ । २३ । २४ । २५ । ऊणा स ०
 एकदिवस ऊणा पाच मास सकहि इत्यादिरोत्या दिनपचकहान्या
 पच मासा विज्ञेयाः । एकु मासु दिवसि ऊणउ सकहि ? न सकउ ।
 काइ इत्यादि । २ । ३ । ४ । ५ । ऊणउ सकहि ? न सकुयइ । ६
 । ७ । ८ । ९ । १० । ऊण स । ११ । १२ । १३ । १४ । ऊण
 सकहि, न सके । चउत्तीसयमु, ववीसयमु, वीसयमु, १४ अट्ठा-
 वीसयमु १२ चउवीसयमु ११ वावीसयमु १० वीसय ९ अठार-
 सयमु ८ सोलस ७ चउदसयमु ६ द्वादसयमु ५ दसयमु ४ अष्टयमु ३
 छट्टु २ चउत्थु १ आविल्लु ? निविउ एकासण बेआसण
 पुरिमइ । सइपोरिसि । पोरिसि । नवकारसहिओ जिक्काई तपु
 करिउ सकइ तिणि पारइ, तओ उवहिं पडिलेहेइ । जिणकप्पिय-
 उवगरणासग्गन्ति—जिणा वारसरूवाइ, थेरा चोइसरूविणो ।
 अज्जाण पन्नवीस तु, अओ उइ उवग्गहो ॥ ९६ ॥ पत्त ? पत्तावधो

उच्चार । समितिभावना गुप्तिप्रितथाचरणे चातिचार ॥ १९५ ॥ प्रात
 मुखानतकफालात् आलोच्य दैवसिकातिचारान् । सर्वान् समानीय
 हृदये दोषान् स्थापयेत् ॥ १९५ ॥ तत उपधिं प्रतिलिखति । जि
 नकल्पिकोपकरणसरयेति— जिना द्वादशोपकरणा स्थविराणा
 चतुदशोपकरणानि आयाणा पचविंशतिस्तु अत ऊर्ध्वमुपग्रह
 ॥ १९६ ॥ पात्र पात्रकवन्ध पात्रस्थापनं पात्रकेमरिका । पट

पमज्जणद्व्या लिंगद्व्या चैव रयहरण ॥ १४ ॥ सपाइमरयरेणूपमज्जणद्व्या
 वयंति मुहपत्ति । नास मुह च वधइ तीए वसहिं पमज्जतो ॥१५॥
 छकायरक्खणद्व्या पायगहण जिणेहिं पन्नत्त । जे य गुणा संभोए
 हवंति ते पायगहणेवि ॥ १६ ॥ तणगहणानलसेवानिवारणा धम्म-
 मुक्कझाणद्व्या । दिट्ट कप्पगहण गिलाणमरणद्व्या चैव ॥१७॥ वेउन्वि
 अवावडे वाए य हिरि(हिरिए)खद्धपज्जणे चैव । तेसिं अणुगहद्व्या
 लिंगुदयद्व्या य पट्टो उ ॥ १८ ॥ ओघनिर्युत्तौ । अन्नह भणियपि
 सुए किंची कालाटकारणावेग्गव । आइन्नमन्नहच्चिय दीसइ सवि-
 ग्गगीएहिं ॥ १९ ॥ कप्पाण पाउरणं अगोयरचाय तुवयकडाही ।
 सिक्कगनिक्खवणत्तेपण तह दोराइमन्नपि ॥ २० ॥ साट्टणी-
 णोवगरणाट्ठति-उवगरणाइ चउदस (ते चैव हवति) अचोल-
 पट्टाई । अज्जाणवि भणियाइ अहियाणि य हुति ताणेव ॥ २१ ॥
 उगहणंतगपट्टो २ अद्धोरुय ३ चलणिया य ४ वोद्धव्वा । अविभ-
 तर ५ वाहिनियसणी य ६ तह कचुए चैव ७ ॥ २२ ॥ उक्कच्छिय

धमेव रजोहरण ॥ २१४ ॥ सपातिमरजोरेणुप्रमार्जनाथ वदन्ति
 मुखपोतिका । नासिका मुख च व प्राति तथा वसति प्रमार्जयन् ॥ २१५ ॥
 पट्टकायरक्षणाय पात्रग्रहण जिने प्रज्ञम । ये च गुणा मभोगे भवन्ति
 ते पात्रग्रहणेऽपि ॥ २१६ ॥ तृणग्रहणानलसेवानिवारणाय धर्म
 शुक्लध्यानाथ । दृष्ट कटपग्रहण ग्लानाथाय मृतकाथायैव ॥ २१७ ॥
 वैदुषिकेऽप्राप्तौ यातिके हीमति महति प्रजनने चैव । तेषामनु
 ग्रहाथ लिंगोदयार्थं च (चोल । पट्टस्तु ॥ २१८ ॥ अन्यथा भणित
 मपि श्रुते किंचित् कालादिकारणापेक्षं । आचीर्णमन्यथैव दृश्यते
 मयिप्रगीतै (ताथ) ॥ २१९ ॥ कल्पाना प्रायगण अग्रायतारत्याग
 तुवे कटाह पतत्प्रभृति । शिक्कवे निक्षेपश्रेपण तथा दधरकाद्यन्यद
 पि ॥ २२० ॥ माध्वीनामुपकरणमन्या-उपकरणानि चतुर्दश तान्येथ
 भवन्त्यचोऽपट्टानि । आयाणामपि भणितानि अधिकानि च भवंति
 तामामेय ॥ २२१ ॥ अथग्रहानतकपट्ट अर्द्धद्वय चणिका चोद्धव्या ।
 अन्तर्निघमनी यद्दिर्निघमनी तथा कश्चुक्कश्चैव ॥ २२२ ॥ अथकक्षिका

मसिणस्त्रा ते ॥ ५ ॥ माणं तु रयत्ताणे भाणपमाणेण होड निष्फन्नं ।
 पायाहिण करिन्त मज्जे चउरगुल कमइ ॥ ६ ॥ कप्पा आयपमाणा
 अड्डाइज्जा य तिन्यडा हत्या । दो चैय मुत्तिया उन्निओ य तइओ
 मुणेयव्यो ॥ ७ ॥ घत्तीमंगुलदीहं चउवीसं अंगुला य दंडो से ।
 अट्टगुला दसाओ एगयर हीणमहिय वा ॥ ८ ॥ चउरगुलं विट्थी
 एय मुहणंमगस्स उ पमाण । नीओऽत्रिय आपसो मुहणमाणेण
 निष्फन्न ॥ ९ ॥ जो मागट्ठओ पत्थो मरिसेसयर तु मत्तगपमाण ।
 दोसुमि दव्वग्गहण वासावासे य अहिगारो ॥ १० ॥ सूओयणस्स
 भरिय दुगाउअद्धाणमागओ साहू । भुंजइ एगहाणे एय किर मत्तगप-
 माण ॥ ११ ॥ दुगुणो चउग्गुणो वा हत्थो चउरस्सु चोलपट्टो उ ।
 थेरजुजाणाणट्ठा सण्हे वूलमि य विभासा ॥ १२ ॥ सथारुत्तरपट्टो
 अड्डाइज्जा य आयया हत्या । दुण्हपि य तित्यारो हत्थो चउरगुल
 चेव ॥ १३ ॥ आयाणे निक्खेवे ठाण निसीयण तुयट्ट सकोए । पुब्बि

पांसु भवन्ति घनमसृणरूपास्ते ॥ २०५ ॥ मान तु रजस्त्राणे भाजन
 प्रमाणेन भवति निष्पन्न । प्रदक्षिणा कुर्वत् मध्ये चतुरगुल व्राम्यति
 ॥ २०६ ॥ कल्पो आत्मप्रमाणो अर्धतृतीयो च हस्तौ विस्तृतौ ।
 द्वौ चैव सौत्रिकौ ओर्णिकश्च तृतीयो ज्ञातव्य ॥ २०७ ॥ द्वात्रिंश
 दगुला दैर्घ्ये चतुर्विंशत्यगुलो दण्डस्तस्य । अष्टागुला दशा
 (इत) एकतरद हीनमधिक वा ॥ २०८ ॥ चतुरगुल वितस्तिर्भ्रतत्
 मुखानतकस्य तु प्रमाण । द्वितीयोऽपि चादेशो मुखप्रमाणेन नि-
 ष्पन्न ॥ २०९ ॥ यो माग्धक प्रस्थ सविशेषतर तु मात्रकप्रमाण ।
 द्वयोरपि (ग्रीष्महेमन्तयो) प्रवग्रहण वर्षावासे चाधिकार
 ॥ २१० ॥ सूपोदनेन भूत द्विगव्यूताध्वन आगत साधु । भुक्ते
 पकस्थाने पतत् किल मात्रकप्रमाण ॥ २११ ॥ द्विगुण चतुगुणो
 वा हस्त चतुरस्रश्चालपट्टस्तु । स्थविरयुवाथ श्लक्षणे स्थूले च
 विभाषा ॥ २१२ ॥ सस्तारोत्तरपट्टो अर्द्धतृतीयो चायतौ हस्तौ ।
 द्वयोरपि च विस्तारो हस्त चतुरगुल चैव ॥ २१३ ॥ आदाने
 निक्षेपे स्थाने निषोदने त्वग्घर्तने सकोचे । पूष प्रमार्जनार्थं लिंगा

सो महापावो ॥ २९ ॥ गुरुच्छतीसगुणसरूवति—ससमयपरसम-
यविऊ गीयत्यो वच्छलो सुसीलो य । अविकत्यणो य सुगुरु
नाणाविहदेसभासन्नु ॥ ३० ॥ पडिख्वाई चउदस खंतीमाई य
दसविहो वम्मो । वारसवि भावणाओ सूरिगुणा हुति छत्तीसं
॥ ३१ ॥ ता कुलवहुनाएण रुज्जे निब्भच्छिउएहिंवि कहिंवि । एयस्स
पायमूल आमरणतं न मुत्तव्व ॥ ३२ ॥ उट्टट्टमदसमदुवालसेहिं
मासद्धमासखवणेहिं । अकरितो गुरुवयण अणंतसंसारिओ होइ
॥ ३३ ॥ भट्टायारो सूरी भट्टायाराणुवेक्खओ सूरी । उम्मग्गट्टियसूरी
तिन्निवि मग्ग पणासति ॥ ३४ ॥ गुरुपरिवारो गच्छो तत्थ वसं-
ताण निज्जरा त्रिउला । विणयाउ तहा सारणमाईहिं न टोसपडि-
वत्ती ॥ ३५ ॥ जीहाएवि लिहंतो न भद्दओ सारणा जहिं नत्थि ।
दंडेणवि ताडितो स भद्दओ सारणा जत्थ ॥ ३६ ॥ नत्थि सारणा
वारणा य पडिचोयणा य गच्छमि । सो य अगच्छो गच्छो मुत्तवो
संजमत्थीहिं ॥ ३७ ॥ पम्हुट्ठे सारणा वुत्ता, अणायारस्स वारणा ।

॥२२९॥ गुरुपद्त्रिंशद्गुणस्वरूपमिति—स्वसमयपरसमयविद् गीता
र्या वत्सल सुशीलश्च । अविकत्यनश्च सुगुरुनानाविधवेशभाषाज्ञ
॥ २३० ॥ प्रतिरूपादय चतुर्दश क्षान्त्यादिश्च दशविधो धर्म ।
द्वादशापि भावना सूरिगुणा भवन्ति पदत्रिंशद् ॥ २३१ ॥ तस्मात्
कुलवधूज्ञातेन कार्ये निर्भर्त्मितैरपि कथञ्चिद् । एतस्य पादमूल आ-
मरणात् न मोक्तव्य ॥ २३२ ॥ पष्ठाष्टमदशमद्वादशैर्मानाद्धैमास-
क्षपणै (तपस्यन्त) । अकुर्वन्त गुरुवचनं अनन्तससारिणो भवंति
॥ २३३ ॥ भ्रष्टाचार सूरिर्भ्रष्टाचाराणामुपेक्षक सूरि । उन्मार्ग
स्थित सूरि त्रयोऽपि मार्गं प्रणाशयन्ति ॥ २३४ ॥ गुरुपरिवारो
गच्छ तत्र यसता निजरा विपुला । विनयात् तथा स्मरणादिभिर्न
दोषप्रतिपत्ति ॥ २३५ ॥ जिह्वयाऽपि लिहन् न भद्रक स्मारणा
यत्र नास्ति । दंडेनापि ताडयन् न भद्रक स्मारणा यत्र ॥ २३६ ॥
नास्ति स्मारणा वारणा च प्रतिचोदना च गच्छे । न चागच्छो
गच्छो मात्तव्य मयमार्यिभि ॥ २३७ ॥ प्रमृष्टे (विस्मृते) स्मारणा

येकस्मिन् य ० मंघाटी १० नत्र मधकरणी य ११ । ओहोव-
 हंमि एए अज्जाण पन्नरीम तु ॥ २३ ॥ उवहिं पढिलेहिऊण
 साधुकिरिय सिरयेइ पउणपहर जायत्ति । जिणकल्पियसखा उ-
 ष्छिद्धा एगवसलीणत्ति-जिणकल्पिया य साह उद्धोसेणं तु एग-
 वसहीए । सत्त य हवति कडमपि अहिया कइयापि नो हुति ॥ २४ ॥
 जुगप्पहाणसूरिसंगत्ति-दुप्पसहो जा सूरी होहिंति जुगप्पहाण
 आयरिया । अज्जसुहम्मप्पभिई चउरहिया दुन्नि उ सहस्सा ॥ २५ ॥
 दुप्पसहत चरणं भणिय भगवता इह खेत्ते । आणाजुत्ताणमिणं
 न होइ अहुणत्ति वामोहो ॥ २६ ॥ द्रव्याचार्यसखत्ति-पचावन्न
 कोटी पचावन्नं च सयसहस्साइ । पचावन्नसहस्सा पच सया पच
 अहिया य ॥ २७ ॥ तीयाणागयकाले केई होहिंति गोयमा । सूरी ।
 नामगहणेवि जेसिं होई नियमेण पच्छित्तं ॥ २८ ॥ वूढो गणह-
 रसहो गोवमपमुहेहि पुरिससीहेहिं । जो त ठवइ अपत्ते जाणतो

वैकक्षिका सघाटी तथा च स्कन्धकरणी चैव । ओघोपधावेतानि
 आर्याणा पञ्चविंशतिस्तु ॥ २२३ ॥ उपधिं प्रतिलेरय साधुक्रिया
 शिक्षते पादोनप्रहर यावदिति । जिनकल्पिकसख्या उत्कृष्टा एक
 षसतो इति— जिनकल्पिकाश्च साधव उत्कर्षेण तु एकव
 सतौ । सत्रैव भवन्ति कथमपि अधिका कदाचिदपि न भवति
 ॥ २२४ ॥ युगप्रधानसूरिसरयेति-दुष्प्रसहा यावत् सूरयो भविष्य
 ति युगप्रधानाचार्या । आयसुधर्मप्रभृतय चतुरधिके द्वे सहस्रे
 ॥ २२५ ॥ दुष्प्रसहान्तं चरणं यद् भणितं भगवता इह क्षेत्रे । आ
 ज्ञायुत्तानामिद् न भवति अधुनेति ध्यामोह ॥ २२६ ॥ द्रव्याचार्य
 सख्येति-पचाशत् कोटय पंचाशच्च शतसहस्राणि । पचाशत् स
 हस्राणि पच शतानि पचाधिकानि च ॥ २२७ ॥ अतीता (तस्मिन्न)
 नागतकाले केचिद् भविष्यन्ति गौतम । सूरय । नामग्रहणेऽपि येषा
 भवति नियमेन प्रायश्चित्तं ॥ २२८ ॥ वूढो गणधरशब्दो गौतम
 प्रमुखै पुरुषसिद्धे । यस्त स्थापयति अपात्रे जानान स महापाप

सो महापावो ॥ २९ ॥ गुरुछत्तीसगुणसरूवंति—ससमयपरसम-
यविऊ गीयत्यो वच्छलो सुसीलो य । अविकत्यणो य सुगुरु
नाणाविहदेसभासन्नु ॥ ३० ॥ पडिरुवाई चउदस खंतीमाई य
दसविहो वम्मो । वारसवि भावणाओ सूरिगुणा हुंति छत्तीसं
॥ ३१ ॥ ता कुलवहुनाएण कज्जे निव्वच्चिउएहिंवि कहिंचि । एयस्स
पायमूलं आमरणतं न मुत्तव्व ॥ ३२ ॥ छट्ठमदसमदुवालसेहिं
मासद्धमासखवणेहिं । अकरिंतो गुरुवयणं अणंतससारिओ होइ
॥ ३३ ॥ भट्टायारो सूरी भट्टायाराणुवेक्खओ सूरी । उम्मग्गट्टियसूरी
तिन्निवि मग्ग पणासति ॥ ३४ ॥ गुरुपरिवारो गच्छो तत्य वसं-
ताण निज्जरा विउला । विणयाउ तहा सारणमाईहिं न दोसपडि-
वत्ती ॥ ३५ ॥ जीहाएवि लिहंतो न भद्दओ सारणा जहि नत्थि ।
दडेणवि ताडितो स भद्दओ सारणा जत्य ॥ ३६ ॥ नत्थि सारणा
वारणा य पडिचोयणा य गच्छमि । सो य अगच्छो गच्छो मुत्तवो
संजमत्थीहिं ॥ ३७ ॥ पम्हुट्ठे सारणा वुत्ता, अणायारस्स वारणा ।

॥२२९॥ गुरुपद्त्रिंशद्गुणस्वरूपमिति—स्वसमयपरसमयविद् गीता
र्था वत्सल सुशीलश्च । अविकत्यनश्च सुगुरुर्नानाविधदेशभाषाज्ञ
॥ २३० ॥ प्रतिरूपादय चतुर्दश क्षान्त्यादिश्च दशविधो धर्म ।
द्वादशापि भावना सूरिगुणा भवन्ति पद्त्रिंशद् ॥ २३१ ॥ तस्मात्
कुलत्रघूज्ञातेन कार्ये निर्भर्त्सितैरपि कथचिद् । एतस्य पादमूल आ-
मरणात् न मोक्तव्य ॥ २३२ ॥ पष्ठाष्टमदशमद्वादशीर्मासाद्धमास-
क्षपणै (तपस्यन्त) । अकुर्वन्त गुरुवचन अनन्तससारिणो भवति
॥ २३३ ॥ ऋष्टाचार सूरिर्भ्रष्टाचाराणामुपेक्षक सूरि । उन्मार्ग
स्थित सूरि त्रयोऽपि माग प्रणाशयन्ति ॥ २३४ ॥ गुरुपरिवारो
गच्छ तत्र वसता निजरा विपुला । विनयात् तथा स्मरणादिभिर्न
दोषप्रतिपत्ति ॥ २३५ ॥ जिह्वयाऽपि लिहन् न भद्रक स्मारणा
यत्र नास्ति । दडेनापि ताडयन् स भद्रः स्मारणा यत्र ॥ २३६ ॥
नास्ति स्मारणा वारणा च प्रतिचोदना च गच्छे । न चागच्छो
गच्छो मोक्तव्य मयमार्थिभि ॥ २३७ ॥ प्रमृष्टे (विस्मृते) स्मारणा

८ वेकन्त्रिय ० मंघाटी १० नंत्र गंधकरणी य ११ । ओहोव-
 हिमि एए अज्जाण पन्नरीम तु ॥ २३ ॥ उव्हिं पडिलेडिऊण
 साहुफिरिय सिस्सेइ पउणपहर जावत्ति । जिणकल्पियसंस्वा उ-
 ष्किहा एगवसलीणत्ति-जिणकल्पिया य साह उक्कोसेणं तु एग-
 वसहीए । सत्त य हवति कहमपि अहिया कइयापि नो ह्ति ॥ २४ ॥
 जुगप्पहाणसूरिसग्गत्ति-दुप्पसहो जा सूरी होहिंति जुगप्पहाण
 आयरिया । अज्जमुहम्मप्पभिई चउरहिया दुत्ति उ सहस्सा ॥ २५ ॥
 दुप्पसहत चरण ज भणिय भगवया इह सेत्ते । आणाजुत्ताणमिणं
 न होइ अहुणत्ति वामोहो ॥ २६ ॥ द्रव्याचार्यसखत्ति-पचावन्न
 फोडी पचावन्न च सयसहस्साइ । पचावन्नसहस्सा पच सया पच
 अहिया य ॥ २७ ॥ तीयाणागयकाले केई होहिंति गोयमा । सूरी ।
 नामगहणेवि जेसिं होई नियमेण पच्छित्तं ॥ २८ ॥ वूढो गणह-
 रसहो गोवमपमुहेहिं पुरिससीहेहिं । जो त ठवइ अपत्ते जाणतो

वेकक्षिका सघाटी तथा च स्कन्धकरणी चैव । औघोपधावेतानि
 आर्याणा पञ्चविंशतिस्तु ॥ २२३ ॥ उपधिं प्रतिलेख्य साधुक्रिया
 शिक्षते पादोनप्रहर यावदिति । जिनकल्पिकसरया उत्कृष्टा एक
 वसतौ इति— जिनकल्पिकाश्च साधव उत्कर्षेण तु एकव
 सतौ । सतैश्च भवन्ति कथमपि अधिका कदाचिदपि न भवति
 ॥ २२४ ॥ युगप्रधानसूरिसख्येति-दुष्प्रसहा यावत् सूरयो भविष्य
 ति युगप्रधानाचार्या । आर्यसुधर्मप्रभृतय चतुरधिके द्वे सहस्रे
 ॥ २२५ ॥ दुष्प्रसहान्त चरणं यद् भणित भगवता इह क्षेत्रे । आ
 ज्ञायुकानामिद् न भवति अधुनेति व्यामोह ॥ २२६ ॥ द्रव्याचार्य
 सरयेति-पचाशत् कोटय पंचाशश्च शतसहस्राणि । पचाशत् स
 हस्राणि पंच शतानि पचाधिकानि च ॥ २२७ ॥ अतीता (तस्मिन्न)
 नागतकाले केचिद् भविष्यन्ति गौतम ! सूरय । नामग्रहणेऽपि येषा
 भवति नियमेन प्रायश्चित्तं ॥ २२८ ॥ व्यूढो गणधरशब्दो गौतम
 प्रमुखै पुरुषसिद्धै । यस्त स्थापयति अपात्रे जानान स महापाप

साहुविहारसरूवति-गीयत्यो य विहारो वीयओ गीयत्यमी-
 सिओ भणिओ । इत्तो तडयविहारो नाणुत्ताओ जिणवरेहिं ॥ ४६ ॥
 तेरसखित्तगुणे रहियव्वति-चिक्खिल्ल १ पाण २ थंडिल्ल
 ३ वसही ४ गोरस ५ जनाउले ६ विज्जे ७ । ओसह ८
 निचया ९ हिवर्ड १० पासडा ११ भिक्ख १२ सज्झाए १३ ॥ ४७ ॥
 पच अवग्गहत्ति-देविद १ राय २ गिहवड ३ सागरि ४ साहमि
 ५ उग्गहे पच । अणुजाणाविय साहूण कप्पए सवया वसिड
 ॥ ४८ ॥ राया-चक्खई गिहवई-देसनायको सागारिओ-सिज्जा-
 यरो साहम्मिओ-साहू ॥ ओघसामायारी दसविहत्ति-
 इच्छा १ मिच्छा २ तहकारो ३, आवस्सिया य ४ निसीहिया ५ ।
 आपुच्छणा य ६ पडिपुच्छा ७, छंदणा य ८ निमंतणा ९ ॥ ४९ ॥
 उवसपया १० य काले सामाचारी भवे दसविहाड । एमाइ माहु-
 किच्च कुज्जा समयानुसारेणं ॥ ५० ॥ दसविहत्तकवालसामा-
 यारित्ति-पडिलेहणा १ पमज्जण २ भिक्खि ३ रिया ४ ऽऽलोय ५

मिति-गीतार्थश्च विहारो द्वितीयो गीतार्थमिश्रितो भणित ।
 इतस्तृतीयो विहारो नानुज्ञातो जिनवरैः ॥ २२६ ॥ त्रयोदशगुणं क्षेत्र
 स्थातव्यमिति कर्दम प्राणा स्थंडिल वसतिगारसा जनाकुलता
 वैद्य । औपध निचयोऽधिपति पाण्डण्डा भिक्षा स्वाध्याय ॥ २४७ ॥
 पचावग्रहा इति-देवेन्द्रराजगृहपतिसागारिकसाधर्मिकाणाम
 यग्रहापञ्च । अनुज्ञाप्य साधूना कल्पते सर्वदा घसितु ॥ २४८ ॥
 राजा-चक्रवर्ती गृहपति-देशनायक सागारिक-शय्यातर
 साधर्मिक-साधु । ओघसामाचारी दशविधा-इच्छा मिथ्या
 तथाकार आवश्यमी नैपेथिकी । आपुच्छना च प्रतिपुच्छा छंदना
 च निमंत्रणा ॥ २४९ ॥ उपसपञ्च काले मामाचारी भवेद् दश-
 विधा । एवमादि मापुहृत्य कुर्यात् समयानुसारेण ॥ २५० ॥
 दशविधा चक्रवालसामाचारीति-प्रतिलेखन प्रमार्जन भिक्षेयाऽऽ
 लोचना भोगर्धय । पात्रधायन विचारभूमि स्थंडिलानि आव

सुषाण चोयणा भुज्जो, निट्टुरा पटिनोयणा ॥ ३८ ॥ किं कीरड
 बहुपट्टिणि गणिणो गच्छंमि पापसमणेहिं । सुन्न चिय माला
 सुदरत्ति नहु चोरसंकिन्ना ॥ ३९ ॥ पय गच्छपरत्तं दुप्पसहाण-
 तर तु जो खंडे । त गोयम । जाण गणी निच्छयओऽणंतससारी
 ॥ ४० ॥ कालोचियजयणाए मच्छररहियाण उज्जमताण । जण
 जत्तारहियाण होइ जइत्तं जईण सया ॥ ४१ ॥ गुरुपमुहाण की-
 रह असुद्धसुद्धेहिं जत्तियं कालति-जावज्जीव गुरुणो असुद्ध-
 सुद्धेहिं वावि फायव । वसह वारस वरिसा अट्टारस भिक्खुणो
 मासा ॥ ४२ ॥ भक्ते पाणे धुवण पससणा इत्यपायसोए य ।
 आयरिए अइसेसा हवति दोसा अणायरिए ॥ ४३ ॥ करचरणनयण
 दसणाइधोयण पंचमो य अइसेसो । आयरियस्स उ सयय कायवो
 होइ नियमेण ॥ ४४ ॥ व्यवहारे ॥ सवत्थ सजम सजमाओ अप्पाणमेव
 रक्खिज्जा । मुच्चइ अइवायाओ पुणो विसोही नयाविरई ॥ ४५ ॥

उक्ता अनाचारस्य धारणा । स्पलितेषु चोदना भूयो निट्टुरा प्र-
 तिचादना ॥ २३८ ॥ किं क्रियते बहुकैरपि गणिनो गच्छे पापश्च
 मणे ? । शून्या एव शाला सुदरेति न तु चौरसकीर्णा ॥ २३९ ॥ पता
 गच्छव्यवस्था दुष्प्रसहेभ्योऽर्थाक् । तु य खडयेत् । त गौतम !
 जानीहि गणिन निश्चयतोऽनन्तमसारीति ॥ २४० ॥ काल एव य
 तनया मत्सररहितानामुच्छ्रिता । जनयात्रारहिताना भवति
 यतित्व यतीना सदा ॥ २४१ ॥ गुरुप्रमुखाणा क्रियते शुद्धाशुद्धाभ्या
 वापत्करालमिति-जावज्जीव गुरोरशुद्धशुद्धाभ्या वापि कतव्य ।
 वृषभे द्वादश वर्षाणि अष्टादश भिक्षोर्मासा ॥ २४२ ॥ भक्ते पाणे
 धारणे प्रशसनाया हस्तपादशौचे च । आचार्येऽतिशया भवन्ति दोषा
 अनाचार्ये ॥ २४३ ॥ करचरणनयनदशनादिधारण पंचमश्चाति
 शय । आचार्यस्य तु सततं कर्तव्यो भवति नियमेन ॥ २४४ ॥
 सर्वथ स्वयम् (रक्षेत्) सयमात् आत्मानमेव रक्षेत् । मुच्यतेऽति
 पातात् पुनर्विशोधिनचाधिरति ॥ २४५ ॥ माधुविहारस्वरूप

साहुविहारसस्त्वति-गीयत्यो य विहारो वीयओ गीयत्यमी-
 सिओ भणिओ । इत्तो तट्टयविहारो नाणुत्ताओ जिणवरंहिं ॥ ४६ ॥
 तेरसखित्तगुणे रहियव्वति-चिक्खिल्ल ? पाण २ थडिल्ल
 ३ वसही ४ गोरस ५ जनाउले ६ विज्जे ७ । ओसह ८
 निचया ९ हिवई १० पासडा ११ भिक्ख १२ सज्जाए १३ ॥ ४७ ॥
 पच अवग्गहत्ति-देविद १ राय २ गिहवड ३ सागरि ४ साहमि
 ५ उग्गहे पच । अणुजाणाविय साहूण कप्पए सवया वसिड
 ॥ ४८ ॥ राया-चक्कवई गिहवई-देसनायको सागारिओ-सिज्जा-
 यरो साहम्मिओ-साहू ॥ ओघसामायारी दसविहत्ति-
 इच्छा १ मिच्छा २ तहकारो ३, आवस्सिया य ४ निसीहिया ५ ।
 आपुच्छणा य ६ पडिपुच्छा ७, छदणा य ८ निमतणा ९ ॥ ४९ ॥
 उवसपया १० य काले सामाचारी भवे दसविहाड । एमाइ साहु-
 किच्च कुज्जा समयानुसारेणं ॥ ५० ॥ दसविहत्तकवालसामा-
 यारित्ति-पडिलेहणा ? पमज्जण २ भिक्ख ३ रिया ४ ऽऽल्लोय ५

मिति-गीतार्थश्च विहारो द्वितीयो गीतार्थमिश्रितो भणित ।
 इतस्त्वृतीयो विहारो नानुज्ञातो जिनवरं ॥ २४६ ॥ त्रयोदशगुण क्षेत्र
 स्यात्तत्र्यमिति कर्दम प्राणा स्थडिल चसतिगोरसा जनाकुलता
 वैद्य । औपध निचयोऽधिपति पावण्डा भिक्षा स्वाध्याय ॥ २४७ ॥
 पचावग्रहा इति-देवेन्द्रराजगृहपतिसागारिकसाधर्मिकानाम
 यग्रहा पञ्च । अनुज्ञाप्य साधूना कल्पते सधदा वसितु ॥ २४८ ॥
 राजा-चक्रवर्ती गृहपति-देशनायक सागारिक-शय्यातर
 साधर्मिक-साधु । ओघसामाचारी दशविधा-इच्छा मिथ्या
 तथाकार आयश्यरी नेपेधिकी । आपृच्छना च प्रतिपृच्छा छंदना
 च निमग्रणा ॥ २४९ ॥ उपमपञ्च काले मामाचारी भवेद् दश-
 विधा । एमादि माधुहृत्य कुर्यात् समयानुसारेण ॥ २५० ॥
 दशविधा चक्रवालसामाचारीति-प्रतिलेखन प्रमाजन भिक्षेर्याऽऽ
 नेचना भोगर्षध । पात्रधावन विचारभूमि स्थडिल्लानि आष

भुजना चैव ६ । पक्षगधुयण ७ त्रियारा ८ थट्टिडा ० ५५रमया-
 ईया १० ॥ ५१ ॥ त्रिचाईयति-जमणुगण रत्रिमि अनाखित्त-
 मि गहियममणाई । कप्पड न तमुत्रभुत्तु त्रिचाईयति ममयुत्ती ॥ ५२ ॥
 मग्गईयति-असणाईय कप्पड् फंसदुगम्भितराओ आणेउ ।
 पुरओ आणिञ्जत मग्गाईयति तमरुप्प ॥ ५३ ॥ काला-
 ईयति पदमप्पहराणीय असणाइ जईण कप्पए भुत्तु । जाव तिजामे
 उइं तमरुप्प कालइयत ॥ ५४ ॥ माणाईयति-कुक्कुडिअडगमाणा
 कवल वत्तीम माहुआहारो । अहमा नियआहारो कीरइ वत्तीस-
 भाएहिं ॥ ५५ ॥ होड पमाणाईय तदहियरुपलाण भोयणे जइणो ।
 एगकवलडउणो ऊणोयरिया तरो तमि ॥ ५६ ॥ उस्सिणस्स
 फासुयस्स य जलस्स सच्चित्तयाइ कालुत्ति-उस्सिणोदग ति-
 दडुक्कलिय फासुयजल तु जइकप्प । नवरि गिलाणाइकए पहरति-
 गोवरिवि ररियव्व ॥ ५७ ॥ जायइ सच्चित्तया से गिम्हमि पहर-
 पचगस्सुवरिं । सिसिरं चउरो जामा वासासु पुणो तिपहरुवरि ॥ ५८ ॥

श्यकादिक ॥ २०१ ॥ क्षत्रातीतमिति-यदनुद्गते रघो अतापक्षेत्रे
 गृहीतमशनादि । कल्पते न तदुपभोक्तु क्षत्रातीतमिति समयोक्ति
 ॥ २०२ ॥ मार्गातीतमिति-अशनादिक कल्पते क्रोशद्विकाभ्य-
 न्तरादानेतु । पुरत आनीयमान मार्गातीतमिति तदकल्प्य
 ॥ २०३ ॥ कालातीतमिति-प्रथमप्रहरानीतमशनादि यतीना कल्पते
 भोक्तु । यावत् त्रियाम ऊर्ध्वं तदकल्प्य कालातिक्रान्त ॥ २०४ ॥ मा-
 नातीतमिति कुक्कुटचण्डकप्रमाणा कवला द्वात्रिंशद् साध्वाहार ।
 अथवा निजाहार क्रियते द्वात्रिंशता भागै ॥ २०५ ॥ भवति
 प्रमाणातीत तदधिरकवलाना भोजन यते । एककवलाद्युन
 ऊनोदरिका तप तस्मिन् ॥ २०६ ॥ उष्णम्य प्रासुकस्य च ज-
 लस्य सच्चित्ततादिकाल इति-उष्णोदर त्रिदंडोत्कलित प्रासुकजल
 तु यतिकल्प्य । पर ग्लानादिकृते प्रहरत्रिकोपयपि धर्तव्य ॥ २०७ ॥
 जायते सच्चित्तता तस्य ग्रीष्म प्रहरपचकम्योपरि । चतुःप्रहर्या

बावीस परीसहति-खुहा १ विवामा २ सी ३ उण्ह ४, दसा ५-
 ज्वेला ६ रइ ७ तिथओ ८ । चरिया ९ निसीहिया १० सिज्जा
 ११, अकोस १२ वह १३ जायणा १४ ॥ ५९ ॥ अलाभ १५ रोग
 १६ तणफासा १७, मल १८ सक्कार १९ परीसहा । पन्ना २०
 अन्नाण २१ सम्मत्त २२, ए बावीस परीसहा ॥ ६० ॥ सत्त म-
 डलिउत्ति-सुत्ते १ जत्थे २ भोयण ३ काले ४ आवस्सए य ५
 सज्जाए ६ । मथार ७ चेव तहा सत्तेया मडली जडणो ॥ ६१ ॥
 दस पायच्छित्ताडन्ति-आलोयण १ पडिक्कमणे २ मीस ३ विवेगे
 ४ तहा विउस्सग्गे ५ । तव ६ उेय ७ मूल ८ अणवट्टिया य ९
 पारचिए चेव १० ॥ ६२ ॥ आलोयणदायगअन्नेसणत्ति-
 सल्लुडरणनिमित्त गीयस्सन्नेसणा उ उक्कास्सा । जोयणसयाइ
 सत्त उ वारस वासाइ कायवा ॥ ६३ ॥ तित्थतवोत्ति-मवच्छर-
 मुक्कोसो तित्थमि तवो उ रिसहनाहस्स । वीरस्स य उम्मासा

उपरि शिशिरे उपामु पुन त्रिप्रहया उपरि ॥ २०८ ॥ ह्यारि
 शति परिपहा इति-शुधा पिपामा शीतमुष्ण दशाचैलागतिश्चिय ।
 चया नैपेधिकी शय्या आक्राशो प्रधा याचना ॥ २०९ ॥ अलाभरोग
 तृणस्पर्शा मलसत्कारपरिपहा । प्रज्ञाऽज्ञान सम्यक्त्वमेते ह्य
 विंशति परिपहा ॥ २१० ॥ सप्त मडत्य इति-सूत्रेऽथ भोजने
 काले आवश्यक्वे च स्वाध्याये । मन्तारे चैत्र तथा सत्तैता मडल्यो
 यते ॥ २६१ ॥ दश प्रायश्चित्तानीति-आगेचनप्रतिक्रमणे मिश्र
 वियेकौ तथा व्युत्सर्ग । तप छेदमूगानघस्थितानि च पाराचिकं
 चैव ॥ २६२ ॥ आगेचनादायकान्नेपणेति-शलयाडरणनिमित्त
 गीतार्थस्यापेपण तृकपात् । योजनशतानि सप्त तु द्वादश
 घपाणि क्तव्य ॥ २६३ ॥ तीर्थतप इति-सद्यत्सरमुत्कर्ष तीर्थे

अष्ट य मामा उ सेमाणं ॥ ६४ ॥ उपहीघोमणकालुत्ति-अप्यते
 चिय वासे सव्य उवहिं धुवति जयणाए । अमईए उदगस्स उ
 जहन्नओ पायनिज्जोगो ॥ ६५ ॥ आयरियगिन्नाणाणं मइला
 पुणोवि धुवति । मा हु गुस्सणमयत्ता लोगमि अजीरण ड्यरे ॥६६॥
 वसत्तिसुद्धिरिति-पिट्ठिवसो दो धारणाउ २ चत्तारि मूलपेलीओ ।
 मूलगुणैहि विमुद्धा एसा हु अहागहा रसही ॥ ६७ ॥ वमग-
 कडगुक्कचण-त्रायगलेरणदुवारभूमी य । परिकम्मविप्पमुक्का एसा
 मूलत्तरगुणेषु ॥ ६८ ॥ दूमियभूमियवासियउज्जोइय बलिकडा
 अवत्ता य । सिक्का समट्ठाविय विसोहिकोडिं गया वसही ॥ ६९ ॥
 सिज्जादाणगुणात्ति-सिज्जादाणप्पभावेण, तरेइ भवसायर ।
 सिज्जायरो अओ बुत्तो, सिद्धो सव्वन्नुसासणे ॥ ७० ॥ सिज्जाए
 मठियाण गुणसुद्धियमुणिवराण सज्झाय । कुव्वताण सुन्नइ महुर-
 शुणी पुन्नवतेहिं ॥७१॥ जह २ सज्झायशुणी सुणिज्जइ मुणिवराण-

तपस्तु ऋषभनाथस्य । वीरस्य च पणमासा अष्ट च मासास्तु
 शेषाणाम् ॥ २६४ ॥ उपधिधावनकाल इति-अप्रात पव वर्ये सर्व
 मुपधि धावति यतनया । असति उदकस्य तु जघन्यत पात्र
 नियमि ॥ २६५ ॥ आचायग्लानाना मलिनानि मलिनानि
 पुनरपि धाव्यन्ते । मा भवतु गुरूणामवज्ञा लोकेऽजीर्णमितरस्मिन्
 ॥२६६॥ वसतिशुद्धिरिति-पिट्ठिवसो दो धारण्यां चतस्रो मूलबल्ल्य ।
 मूलगुणैर्विशुद्धैषैव वसतिर्यथाकृता ॥२६७॥ वशा कटा उत्कञ्चनानि
 आच्छादन लेपन द्वारभूमिश्च । परिकर्मविप्रमुक्ता एषा मूलोत्तरगुणै
 ॥ २६८ ॥ धवलिता धूपिता वासिता उद्योतिता कृतबलि अथ
 सिक्का च । सिक्का समट्ठाऽपि च विशुद्धिकोटीं गता वसति ॥२६९॥
 शय्यादानगुणा इति-शय्यादानप्रभावेण तरति भवसागर । शय्या
 तरोऽत उक्त सिद्ध सर्वज्ञशासने ॥ २७० ॥ शय्याया सस्थिताना
 गुणसुस्थितमुनिवराणा स्वाध्याय । कुर्वता श्रूयते मधुरध्वनि
 पुण्यवद्भिः ॥ २७१ ॥ यथा२ स्वाध्यायध्वनि श्रूयते मुनिवराणां

महदलणी । तह तह पावमलोह गलइ जहा अंजलीसलिल । ७० ॥
 पडणपहराइमाणुत्ति-आसाढे मासे दुपया, पोसे मासे चउप्पया ।
 चित्तासोएसु मासेसु, तिपया हवइ पोरिसी ॥ ७३ ॥ अंगुल सत्तर-
 तेण, पक्खेण तु दुरंगुलं । वडूए हायए वावि, मासेण चउरंगुल
 ॥ ७४ ॥ जिट्टामूले आसाढ सावणे छहिं अंगुलेहिं पडिलेहा ।
 अट्टहिं वीयतियमि तए दस अट्टहिं चउत्थे ॥ ७५ ॥ पोसे नवहिं
 पडणपहरादिस्थापनायत्रक-

प्रभात पडण प्रहर प्रतिलेखना	पश्चिमप्रहर प्रति० मास पद अंगुल	साद्धप्रहरप्र०
असाढ पद २ अंगुल ६	आसाढ २	पद ३
श्रावण पद २ " १०	श्रावण २ ४	पद ४
भाद्रपद " ३ " ४	भाद्रपद २ ८	पद ५
आश्विन " ३ " ८	आश्विन ३	पद ६
कार्तिक " ४ " १०	कार्तिक ३ ४	पद ७
मागशिर " ४ " ६	मागशिर ३ ८	पद ८
पोसमास " ४ " १०	पोष ४	पद ९
माघमास " ४ " ६	माघ ३ ८	पद ८
फाल्गुण " ४ " ०	फाल्गुण ३ ४	पद ७
चैत्रमास " ३ " ८	चैत्रमास ३	पद ६
वैशाख " ३ " ४	वैशाख २ ८	पद ५
ज्येष्ठमास " २ " १०	ज्येष्ठमास २ ४	पद ४

अघदग्नी । तथा तथा पापमलोहो गलति यथाऽजलीसलिल
 ॥ २७२ ॥ पादोनप्रहरादिमानमिति-आपाढे मासे द्विपदा पोषे
 मासे चतुरपदा । चैत्राश्विनयोर्ममियो त्रिपदा भवति पौरुषी
 ॥ २७३ ॥ अंगुल सत्तराद्या पक्षण तु द्वे अंगुले । वद्धेते द्वीयेते
 याऽपि मासेन चतुरगुलानि ॥ २७४ ॥ ज्येष्ठामूले आपाढे श्रावणे
 पड्भिंरंगुलै प्रतिलेखना । अष्टभिर्द्वितीयत्रितये ततीये दशभिरष्ट
 भिश्चतुर्थे ॥२७५॥ पोषे नवभि पदं शरीरच्छायया पौरुषी साधा ।

अष्टय मामा उ सेमाणं ॥ ६४ ॥ उग्रहीधोयणकालुत्ति-अप्यत्ते
 चिय वासे सव्यं उग्रहिं धुवति जयणाए । अमईए उदगस्स उ
 जहन्नओ पायनिज्जोगो ॥ ६५ ॥ आयरियगिलाणाण मइला
 पुणोवि धुवति । मा हु गुरूणमवन्ना लोगमि अजीरण इयर ॥ ६६ ॥
 वसत्तिसुद्धित्ति-पिट्ठिवसो दो धारणाउ चत्तारि मूलपेलीओ ।
 मूलगुणैहि विमुद्धा एसा हु अहागढा ऋसही ॥ ६७ ॥ वसग-
 कढगुकचणञ्जायगलेयणदुवारभूमी य । परिकम्मविप्पमुक्का एसा
 मूलत्तरगुणेषु ॥ ६८ ॥ दूमियभूमिययासियउज्जोइय बलिकडा
 अवत्ता य । सिक्का समट्टायिय विसोहिकोडिं गया वसही ॥ ६९ ॥
 सिज्जादाणगुणात्ति-सिज्जादाणप्पभावेण, तरेइ भवसायर ।
 सिज्जायरो अओ वुत्तो, सिद्धो सव्वन्नुसासणे ॥ ७० ॥ सिज्जाए
 सठियाण गुणसुट्ठियमुणिवराण सज्जाय । कुव्वताण सुन्नइ महुर-
 शुणी पुन्नवतेहिं ॥ ७१ ॥ जह च सज्जायशुणी सुणिज्जइ मुणिवराण-

तपस्तु ऋपभनाथस्य । वीरस्य च पणमासा अष्ट च मासास्तु
 शेषाणाम् ॥ २६४ ॥ उपधिधावनकाल इति-अप्रात एव वर्षे सर्व
 मुपधि धावति यतनया । असति उदकस्य तु जघन्यत पात्र
 नियोग ॥ २६५ ॥ आचायग्लानाना मलिनानि मलिनानि
 पुनरपि धाव्यन्ते । मा भवतु गुरूणामवज्ञा लोकेऽजीर्णमितरस्मिन्
 ॥ २६६ ॥ वसतिशुद्धिरिति-पृष्ठिर्धशो द्वे धारण्यौ चतस्रो मूलवल्ल्य ।
 मूलगुणैर्विशुद्धैवैव वसतिर्यथाकृता ॥ २६७ ॥ यथा कटा उत्कञ्चनानि
 आच्छादन लेपन द्वारभूमिश्च । परिकर्मविप्रमुक्ता एषा मूलोत्तरगुणै
 ॥ २६८ ॥ धवलिता धूपिता वासिता उद्योतिता कृतबलि अव
 सिक्ता च । सिक्का समट्टाऽपि च विशुद्धिकोटीं गता वसति ॥ २६९ ॥
 शय्यादानगुणा इति-शय्यादानप्रभावेण तरति भवसागर । शय्या
 तरोऽत उक्त सिद्ध सर्वज्ञशासने ॥ २७० ॥ शय्याया सस्थिताना
 गुणसुन्धितमुनिवराणा स्वाध्याय । कुर्वता श्रूयते मधुरध्वनि
 पुण्यवद्भिः ॥ २७१ ॥ यथाऽ स्वाध्यायध्वनि श्रूयते मनिवराणा

॥ ८२ ॥ पंचासववेरमण पचिदियनिग्गहो कसायजओ । दंडत्त-
यस्स विरई सतरसहा सजमो होइ ॥ ८३ ॥ आयरिय १ उवज्झाए
२ तवस्सि ३ थेरे ४ गिलाणसाहूसु ६ । समणुन्न ७ संप ८ कुल
९ गण १० वेयावच्चं हवइ दसहा ॥ ८४ ॥ वसहि १ कह २ निसिज
३ इदिय ४ कुहुतर ५ पुव्वकीलिय ६ पणीए ७ । अडमायाहार ८
विभूसणा य ९ नव वभगुत्तीओ ॥ ८५ ॥ वारस अंगाईय नाण
तत्तत्यसद्दहाण तु । दसणमेय चरण विरई देसे य सव्वेय ॥ ८६ ॥
अणसणमूणोयरिया वित्तीसंखेवण रसच्चाओ । कायकिलेसो सं-
लीणया य वज्झो तवो होइ ॥ ८७ ॥ पायच्छित्त विणओ वेया-
वच्च तहव सज्जाओ । ज्ञाण उस्सग्गोऽविअ अन्भितरओ तवो होइ
॥ ८८ ॥ कोहो माणो माया लोभो चउगे हवति हि कसाया ।
एएसिं निग्गहण चरणस्स हवतिमे भेया ॥ ८९ ॥ करणसत्त-
रित्ति-पिंडविसोही ४ ममिर्द ५ भावण १० पडिमा य १२ इदिय-
निरोहो ५ । पडिलेहण २५ गुत्तीओ ३ अभिग्गहा ८ चेव करण तु

पचाश्रवजिग्गमण पचेन्द्रियनिग्रह कपायजय । दंडत्रयस्य विरति
समदशधा भवति ॥ २८३ ॥ आचार्यापाध्यायतपस्त्रि
स्यधिररत्नानसाधुषु । समनोज्ञे सधे कुले गणे वेयावृत्य भवति
दशधा ॥ २८४ ॥ उमतिकथानिपचेन्द्रियकुडघातरपूर्वक्रोडित
प्रणीतानि । अतिमात्राहारत्रिभूषणानि च नत्र प्रह्वगुत्तय
॥ २८५ ॥ द्वादशाग्यादिक ज्ञान तत्पार्यश्चज्ञान तु दशनमेतत्
चरण विरति देशे च सउस्मिश्च ॥ २८६ ॥ अनशनमूनोदरता
वृत्तिमक्षेपण रसत्याग कायक्लेश सतीनता च ग्राह्य तपो भवति
॥ २८७ ॥ प्रायश्चित्त विनयो वेयावृत्य तथैव म्वाध्याय । ध्यान
उत्तमर्गाऽपि चाभ्यन्तरक तपो भवति ॥ २८८ ॥ क्रोधो मानो माया
लोभ चत्वारो भवन्ति हि कपाया । एतेषा निग्रहण चरणम्य
भवन्तीमे भेदा ॥ २८९ ॥ उरणसमतिरिति-पिंडविशुद्धि ममि
तयो भावना प्रतिमाश्चेन्द्रियनिरोधा । प्रतिलेखना गुत्तयोऽभि
ग्रहार्थे च करण तु ॥ २९० ॥ चत्वार पच द्वादश द्वादश पंच

पण्डि सरीरत्रायाउ पोग्मिी मङ्गा । उरिप पयारणं आमाढ
जाव तिन्नि पया ॥ ७६ ॥ अङ्गाउजेहिं राईटिएहि उक्कि अगुलं
चडड [पडड] । आसाढाओ पोसो पोमाओ जाव आसाढा ॥७७॥
पउणपहर पत्ताडयपडिलेहण विहऊण जहा । चारस चारम बहिं
अब्भितग्मि पत्तम्स होइ पडिलेहा । भणिया जिणेहिं जगवणेहिं
पणयोसय युच्चा ॥७८॥ तओ भोयणपेलाए पत्ताए विहरणाय वयइ,
भोयणार्णंतर सिमखइ अन्नेसि चा पट्चइ ॥ चरणमत्तरित्ति-
यय ५ समणधम्म १० सजम १७ पेयाउच्च च १० उभगुत्तीओ ९ ।
नाणाइतिय ३ तव १० कोहनिगगार्ड ४ चरणमेय ॥ ७९ ॥ पण
दस सत्तर दसगं नय ति दुगालस चउकमिय चरण । सयरिविह
नायव आयरियव च साहूहिं ॥ ८० ॥ पाणिवह १ मुसावाए २
अदत्त ३ मेहुण ४ परिगह ५ चेव । एयाइ हुति पच उ महवयाइ
जईण तु । ८१ ॥ ग्वती य १ महव २ उज्जव ३ मुत्ती ४ तव ५ सजमेद
य वोद्धवे । सच्च ७ सोय ८ आकिंचण ९ च वभ १० च जइधम्मो

एकैक पदहरण आपाढे यावत् त्रय पादा ॥ २७६ ॥ अर्द्धतृतीयै
रात्रिविधै एकैकमगुलं उद्धते पतति । आपाढात् पौष पौषाच्च
यावदापाढ ॥ २७७ ॥ पादानप्रहरे पात्रादिप्रतिलेखना विधाय
यथा-द्वादश द्वादश वाहोऽभ्यन्तरे पात्रस्थ भवति प्रतिलेखना
भणिता जिनैजगद्वान्धवै पचविंशतिरुक्ता ॥ २७८ ॥ ततो भो
जनवेलाया प्राप्ताया विहरणाय व्रजति । भोजनानन्तर
शिक्षति अन्येषा वा प्ररुपयति ॥ चरणसप्ततिरिति-व्रतानि
श्रमणधर्मा सयमा वैयावृत्यानि च ब्रह्मगुप्तयो ज्ञानादित्रिक
तपास्ति क्रोधनिग्रहादय चरणमेतत् ॥ २७९ ॥ पंच दश सप्तदश
दशक नव त्रीणि द्वादश चतुष्कमिति चरण । सप्ततिविध ज्ञात
व्यमाचरितव्य च माधुभि ॥ २८० ॥ प्राणिवधो मृषावादोऽदत्त
मथुन परिग्रहश्चैव । पतानि भवन्ति पचैव महाव्रतानि यतीना
तु ॥ २८१ ॥ क्षान्तिञ्च मार्दव आजैव मुक्ति तप सयमञ्च बाह्व
व्य । सत्यं शौचमाकिंचन्य च ब्रह्म च यतिधम ॥ २८२ ॥

॥ ८२ ॥ पचासववेरमण पचिंदियनिग्गहो कसायजओ । दडत्त-
 यस्स विरई सतरसहा संजमो होइ ॥ ८३ ॥ आयरिय १ उवज्झाए
 २ तवस्सि ३ थेर ४ गिलाणसाहूसु ६ । समणुन्न ७ सघ ८ कुल
 ९ गण १० वेयावच्च हवइ दसहा ॥ ८४ ॥ वसाहि १ कह २ निसिज्ज
 ३ इटिय ४ कुडुतर ५ पुव्वकीलिय ६ पणीए ७ । अइमायाहार ८
 विभूसणा य ९ नव वभगुत्तीओ ॥ ८५ ॥ वारस अंगाईय नाण
 तत्तत्थसद्दहाण तु । दसणमेय चरण विरई देसे य सव्वेय ॥ ८६ ॥
 अणसणमूणोयरिया वित्तीसंखेवण रसच्चाओ । कायकिलेसो स-
 लीणया य वज्झो तवो होइ ॥ ८७ ॥ पायच्छित्त विणओ वेया-
 वच्च तहव सज्जाओ । ज्ञाण उस्सग्गोऽविअ अब्भितरओ तवो होइ
 ॥ ८८ ॥ कोहो माणो माया लोभो चउगे हवति हि कसाया ।
 एएसिं निग्गहण चरणम्स हवतिमे भेया ॥ ८९ ॥ करणसत्त-
 रित्ति-पिंडविसोही ४ समिट्ठ ५ भावण १२ पडिमा य १२ इदिय-
 निरोहो ५ । पडिलेहण २५ गुत्तीओ ३ अभिग्गहा ४ चैव करणं तु

पचाश्रवविग्गमण पचेन्द्रियनिग्रह कपायजय । दडत्रयस्य विरति
 मत्रदशधा सयमो भवति ॥ २८३ ॥ आचार्यापाध्यायतपस्त्रि
 स्थविरग्लानसाधुषु । समनोक्षे सघे कुले गणे वैयावृत्य भवति
 दशधा ॥ २८४ ॥ प्रसत्तिकथानिपचेन्द्रियकुडघातरपूव्वस्त्रीडित-
 प्रणीतानि । अतिमात्राहारविभूषणानि च नत्र ब्रह्मगुत्तय
 ॥ २८५ ॥ द्वादशाग्यादिक ज्ञान तत्प्राथश्रद्धान तु दर्शनमेतत्
 चरण विरति देशे च सधम्मिश्च ॥ २८६ ॥ अनशनमूनोदरता
 वृत्तिमक्षेपण रसत्याग कायक्लेश संगीनता च प्राह्य तपो भवति
 ॥ २८७ ॥ प्रायश्चित्त विनयो वैयावृत्य तथैव स्वाध्याय । ध्यान
 उत्सर्गाऽपि चाभ्यन्तरक तपो भवति ॥ २८८ ॥ क्रोधो मानो माया
 लोभ चत्वारो भवन्ति हि कपाया । एतेषा निग्रहण चरणभ्य
 भवन्तीमे भेदा ॥ २८९ ॥ करणमत्रतिरिति-पिंडविशुद्धि ममि
 तयो भावना प्रतिमाचेन्द्रियनिरोधा । प्रतिलेगना गुत्तयोऽभि
 ग्रहार्थेण करणं तु ॥ २९० ॥ चत्वार पच द्वादश द्वादश पंच

पण्डि सरीरन्त्रायाड पोग्मि मद्रा । इण्डि पयहरणं आमाड
जात्र तिन्नि पया ॥ ७६ ॥ अद्राडजेहिं राडंदिण्हिं इक्कि अगुलं
चडड [पडड] । आसाढाओ पोसो पोमाओ जाव आसाढा ॥७७॥
पउणप्पहर पत्ताडयपडिलेहण विहऊण जहा । बारस बारस वडिं
अडिभतरंमि पत्तम्स टांड पडिलेहा । भणिया जिणेहिं जगवययहिं
पणयोसय उचा ॥७८॥ तओ भोयणयलाए पत्ताए विहरणाय वयड,
भोयणाणंतर सिमखइ अन्नेसि वा पस्वइ ॥ चरणमत्तरित्ति-
यय ५ समणधम्म १० सजम १७ पेयायच च १० उभगुत्तीओ ९ ।
नाणाइतिय ३ तव १० कोहनिग्गहाई ४ चरणमेय ॥ ७९ ॥ पण
दस सत्तर दसग नव ति दुवाल्स चउकमिय चरण । सयरिविह
नायव आयरियव च साहूहिं ॥ ८० ॥ पाणिवह १ मुसावाए २
अदत्त ३ मेहुण ४ परिग्गह ५ चेव । एयाइ हुति पच उ महवयाइ
जईण तु । ८१ ॥ खती य १ महव २ ऽज्जव ३ मुत्ती ४ तव ५ सजमेड
य बोद्धवे । सच्च ७ सोय ८ आकिंचण ९ च वभ १० च जइधम्मो

एकैक पदहरण आपाढे यावत् त्रय पादा ॥ २७६ ॥ अर्द्धतृतीयै
रात्रिदित्रै एकैकमगुलं वद्धते पतति । आपाढात् पौष पौषाच्च
यावदाषाढ ॥ २७७ ॥ पादोनप्रहरे पात्रादिप्रतिलेखना विधाय
यथा-द्वादश द्वादश बाह्येऽभ्यन्तरे पात्रस्य भवति प्रतिलेखना
भणिता जिनेजगद्वान्धरै पञ्चविंशतिरुक्ता ॥ २७८ ॥ ततो भो
जनवेलाया प्राप्ताया विहरणाय व्रजति । भोजनानन्तर
शिक्षति अन्येषा वा प्ररूपयति ॥ चरणसप्ततिरिति-व्रतानि
श्रमणधर्मा सयमा पेयावृत्यानि च ब्रह्मगुप्तयो ज्ञानादित्रिक
तपासि क्रोधनिग्रहादय चरणमेतत् ॥ २७९ ॥ पंच दश सप्तदश
दशक नव त्रीणि द्वादश चतुष्कमिति चरण । सप्ततिविध ज्ञात
व्यमाचरितव्य च साधुभि ॥ २८० ॥ प्राणिवधो भषाषादोऽदस्त
मैथुनं परिग्रहश्चैव । एतानि भवन्ति पचैव महाव्रतानि यतीना
तु ॥ २८१ ॥ क्षान्तिश्च मार्दव आजव मुक्ति तप सयमश्च वाद्
व्य । सत्यं शौचमार्किचन्य च ब्रह्म च यतिधम ॥ २८२ ॥

॥ ८० ॥ पंचासववेरमण पचिंदियनिग्गहो कसायजओ । दडत्त-
यस्स विरई सतरसहा संजमो होइ ॥ ८३ ॥ आयरिय १ उवज्झाए
२ तवस्सि ३ थेरे ४ गिलाणसाहसु ६ । समणुन्न ७ संघ ८ कुल
९ गण १० वेयावच्च हवइ दसहा ॥ ८४ ॥ वसाहि १ कह २ निसिज्ज
३ इटिय ४ कुट्टतर ५ पुव्वकीलिय ६ पणीए ७ । अइमायाहार ८
विभूसणा य ९ नव वभगुत्तीओ ॥ ८५ ॥ वारस अंगाईय नाण
तत्तत्तयसहहाण तु । दसणमेय चरण विरई देसे य सव्वे य ॥ ८६ ॥
अणसणमूणोयरिया वित्तीसंखेवण रसच्चाओ । कायकिलेसो सं-
लीणया य वज्झो तवो होइ ॥ ८७ ॥ पायन्डित्तं विणओ वेया-
वच्च तहेव सज्जाओ । ज्ञाण उस्सग्गोऽविअ अब्भितरओ तवो होइ
॥ ८८ ॥ कोहो माणो माया लोभो चउगे हवति हि कसाया ।
एएसि निग्गहण चरणस्स हवतिमे भेया ॥ ८९ ॥ करणसत्त-
रित्ति-पिडविसोही ४ ममिई ५ भावण १० पडिमा य १२ इदिय-
निरोहो ५ । पडिलेहण २५ गुत्तीओ ३ अभिग्गहा ४ वेव करण तु

पचाश्रवधिग्गमण पचेन्द्रियनिग्रह कपायजय । दडत्तयस्य विरति
ममदशधा सयमो भवति ॥ २८३ ॥ आचार्योपाध्यायतपस्त्रि
स्थविरग्लानसाधुपु । ममनोज्ञे सधे कुले गणे वेयावृत्त्य भवति
दशधा ॥ २८४ ॥ उमतिकथानिपद्येन्द्रियकुडधातरपूर्वक्रीडित
प्रणीतानि । अतिमात्राद्वारविभूषणानि च नत्र ग्रहगुत्तय
॥ २८५ ॥ द्वादशाग्यादिव ज्ञान तत्परार्थश्चद्वान तु दशनमेतत्
चरण विरति देशे च सत्रस्मिञ्च ॥ २८६ ॥ अनशनमूनोदरता
वृत्तिरक्षेपण रसत्याग कायक्लेश सत्नीनता च प्राद्य तपो भवति
॥ २८७ ॥ प्रायश्चित्त विनयो वेयावृत्त्य तथैव म्याध्याय । ध्यान
उन्मर्गाऽपि चाभ्यन्तरक तपो भवति ॥ २८८ ॥ क्रोधो मानो माया
लोभ चत्वारो भवन्ति द्वि कपाया । एतेषा निग्रहण चरणम्य
भवन्तीमे भेदा ॥ २८९ ॥ करणसत्तरित्ति-पिडविशुद्धि ममि
तयो भावना प्रतिमाद्येन्द्रियनिरोधा । प्रतिलेखना गुत्तयोऽभि
ग्रहाश्चैव करण तु ॥ २९० ॥ चत्वार पच द्वादश द्वादश पंच

पण्डित् सरीग्न्त्रायाउ पोगिमी गद्दा । इति पयहरण आमाद
जाय तिननि पया ॥ ७६ ॥ अद्दाड्जेहि राड्दिहि इक्कि अगुल्लं
चट्ट [पडड] । आसादाओ पोसो पोमाओ जाव आसादो ॥ ७७ ॥
पउणप्पहरे पत्ताडयपडिलेहणं विहेऊण जहा । चारस बारम वहि
अड्ढितरमि पत्तम्स हाइ पडिलेहा । भणिया जिणेहि जगवपरेहि
पणयोसय जुचा ॥ ७८ ॥ तओ भोयणयलाए पत्ताए विहरणाय त्रयड,
भोयणार्णंतर सिखइ अन्नेमि वा पस्वइ ॥ चरणमत्तरित्ति-
त्रय ५ समणधम्म १० सज्जम १७ त्रेयायच्च च १० उभगुत्तीओ ९ ।
नाणाइतिय ३ तव १० कोहनिगहाई ४ चरणमेय ॥ ७९ ॥ पण
दस सत्तर दसग नय ति दुगालस चउक्कमिय चरण । सयरिविह
नायव आयरियव च साह्हि ॥ ८० ॥ पाणिवह १ मुसावाए २
अदत्त ३ गेह्ण ४ परिग्गहे ५ चैव । एयाइ हुति पच उ महवयाइ
जईण तु । ८१ ॥ खती य १ महव २ उज्जव ३ मुत्ती ४ तव ५ सज्जमे
य वोद्धवे । सच्च ७ सोय ८ आकिंचण ९ च वम १० च जइधम्मो

पक्केक पदहरण आपाढे यायत् त्रय पादा ॥ २७६ ॥ अर्द्धतृतीयै
रात्रिदिवै पक्केकमगुल्लं वर्द्धते पतति । आपाढात् पौष पोषाच्च
यावदापाढ ॥ २७७ ॥ पादोत्तप्रहरे पात्रादिप्रतिलेखना विधाय
यथा-द्वादश द्वादश बाह्येऽभ्यन्तरे पात्रस्य भवति प्रतिलेखना
भणिता जिनैजगद्बान्धवै पचविंशतिरुक्ता ॥ २७८ ॥ ततो भो
जनयैलाया प्राप्ताया विहरणाय व्रजति । भोजनानन्तर
शिक्षति अन्येषा वा प्ररूपयति ॥ चरणसप्ततिरिति-व्रतानि
श्रमणधर्मा सयमा त्रेयावृत्यानि च ब्रह्मगुप्तयो ज्ञानादित्रिषु
तपासि शोधनिग्रहादय चरणमेतत् ॥ २७९ ॥ पंच दश सप्तदश
दशक नव त्रीणि द्वादश चतुष्कमिति चरण । सप्ततिविध ज्ञात
व्यमाचरितव्य च साधुभि ॥ २८० ॥ प्राणिवधो मृषावादोऽदत्त
मैथुन परिग्रहश्चैव । पतानि भवन्ति पचैव महाव्रतानि यतीना
नु ॥ २८१ ॥ क्षान्तिश्च मार्दव आजव मुक्ति तप सयमश्च वाह
व्य । सयं शोचमार्किचन्य च ब्रह्म च यतिधम ॥ २८२ ॥

५ दायगु ६ म्मीसे ७ । अपरिणय ८ लिप्त ९ छद्दिय १० एस-
 णदोसा ऽस हवति ॥ २८ ॥ पिंडेसणा य सदा सखित्तोयरइ
 नवसु कोटीसु । न हणइ न किणइ न पयइ कारावणुअणुमईहिं
 नव ॥ २९ ॥ कम्मुद्देसियचरमतिय पूई मीस चरमपाहुडिया ।
 अज्झोयर अविसोही त्रिसोहिकोडी भवे सेसा ॥ ३०० ॥ इरिया
 १ भासा २ एसण आयाणाइसु ४ तह परिट्टवणा ५ । सम्म जा उ
 पवित्ती सा समिई पचहा एव ॥ ३०१ ॥ पढममणिच्च १ मत्तरणय
 २ ससारो ३ एगया य ४ अन्नत्त ५ । असुइत्त ६ आसव ७ सवरो
 य ८ तह निजरा ९ नवमी ॥ ३०२ ॥ लोगसहावो १० वोही य
 दुल्लहा ११ धम्मसाहओ अरिहा १२ । एयाओ हुति वारस जहकम
 भावणीयाओ ॥ ३०३ ॥ भिक्खुपडिमत्ति-मासाई सत्तता ७
 पढमा ८ वि ९ तइय १० सत्तराइदिणा । अहराई एगराई भिक्खु-
 पडिमाण वारसग ॥ ३०४ ॥ स्थापनाऽग्रे लिख्यते(४) ॥ पढमसघयण-
 जुत्तो नवपुष्ठी दसमवत्पुसुयकलिओ । जत्थऽत्यमियनिवासी

दशैपणादोपा इति-शक्ति भ्रक्षित निक्षिप्त पिहित सहित दायक
 उन्मिथ्र । अपरिणत लिप्त छद्दित पपणादोपा दश भवन्ति ॥ २९८ ॥
 पिंडैपणा च सदा सक्षेपेणावतरति नवसु कोटीपु । न हति न क्री
 णाति न पचति कारणानुमतिभ्या नव ॥ २९९ ॥ कर्मोद्देशिकं चर-
 मत्रिक पूर्तिमिथ्र चरमप्राभृतिका । अध्वपूरक चाविशोधि (कोटि)
 विशोधिकोटिर्भवेत् शेषा ॥ ३०० ॥ ईर्याभाषेपणादानादियु तथा
 परिष्ठापनाया । सम्यक या तु प्रवृत्ति सा समिति पचधैव ॥ ३०१ ॥
 प्रथममनित्यत्वमशरण्य च ससार एकता चान्यत्त्व । अशुचित्य
 माश्रय सवर तथा निजरा नयमी (भावयेत्) ॥ ३०२ ॥ लोकस्व-
 भावो रोधिदुर्लभा च धर्मस्य कथकाऽहन । एता भवन्ति द्वादश
 यथाक्रम भावनीया ॥ ३०३ ॥ भिक्षुप्रतिमा इति-मासादिसमाता
 प्रथमा द्वितीया तृतीया समरात्रिदिवा । अहारात्रिकी एकरात्रिकी
 भिक्षुप्रतिमाना द्वादशक ॥ ३०४ ॥ प्रथमसहननयुक्तो नवपूर्वो
 दशमधस्तुथुतकलित । यथास्तमितनिवासी उपमगपरीयहाभीत

॥ ९० ॥ चउ पण राग्गस बारम पण पणयीम नि चउ इय सयरि ।
 मेया कग्गे पए जाण पिया ते जण यत्ता ॥ ०१ ॥ पिट सिद्ध च
 उत्थ च, चउत्थ पायमेय य । अकप्पियं न उच्छेत्ता, पटिगाहिन
 कप्पिय ॥ ०२ ॥ सोलसउगमदोसा सोलस उप्पायणाय दो-
 सा य । दस एसणाय दोसा वायालीम इय हरति ॥ ९३ ॥ उ-
 गमदोसत्ति-आहाकम्म १ हेसिय २ पूडकम्मे ३ य मीसजाए ४
 य । ठयणा ५ पाहुडियाए ६ पाओयर ७ कीय ८ पामिच्च ९
 ॥ ९४ ॥ परियट्टिए १० अभिहडे ११ उन्भिन्ने १२ मालोहडे
 य १३ अण्डिज्जे १४ । अणिसिट्ट १५ अज्झोयरए १६ सोलस
 पिंडुगमे दोसा ॥ ९५ ॥ उप्पायणादोसत्ति-धाई १ दूई २
 निमित्ते ३ आजीव ४ वणीमगे ५ तिगिन्ना य ६ । कोहे ७ माणे
 ८ माया ९ लोभे १० य हवति दस एए ॥ ९६ ॥ पुर्वि पच्छा
 सथव ११ विजा १२ मते १३ य चुन्न १४ जोगे १५ य । उप्पाय-
 णाय दोसा सोलसमे मूलकम्मे १६ य ॥ ९७ ॥ दस एसणा-
 दोसत्ति-सकिय १ मक्खिय २ निक्खित्त ३ पिडिय ४ साहरिय

पचविंशति तिस्र चत्वार इति सप्तति भेदा करणे पते वेपा
 प्रिया ते जगति धन्या ॥ २९१ ॥ पिण्ड शय्या च वस्त्र च
 चतुर्थ पात्रमेव च । अकल्प्य नेच्छेत् प्रतिगृहणीयात् कल्प्य
 ॥ २९२ ॥ षोडशोद्गमदोषा षोडशोत्पादनाया दोषाश्च ।
 दशेषणाया दोषा द्वाचत्वारिंशद् इह भवन्ति ॥ २९३ ॥
 उद्गमदोषा इति-आधाकर्मादेशिक पूतिकम च मिश्रजात च ।
 स्थापना प्राभूतिक्रा प्रादुर्गण क्रान् प्राप्तिर्य ॥ २९४ ॥
 परिवर्तितेऽभ्याहृते उद्भिन्ने मालापहृत चाच्छेद्य । अनिसृष्ट अ-
 वपूरक षोडश पिंडोद्गमे दोषा ॥ २९५ ॥ उत्पादनादोषा इति-
 धात्री दूती निमित्तमाजीव वनीपक चिकित्सा च । क्रोधो माना
 माया लाभश्च भवन्ति दशैत ॥ २९६ ॥ पूर्वं पश्चात् सम्तवो विद्या
 मत्रश्च चूर्णा योगश्च । उत्पादनाया दोषा षोडशा मूलकम च ॥ २९७ ॥

५ टायगु ६ म्मीसे ७ । अपरिणय ८ लिप्त ९ छद्दिय १० एस-
 णदोसा दस हवति ॥ २८ ॥ पिंडेसणा य सहा सखित्तोयरइ
 नवसु कोटीसु । न हणइ न किणइ न पयइ कारावणुअणुमईहिं
 नव ॥ २९ ॥ कम्मुद्देसियचरमतिय पूई मीस चरमपाहुडिया ।
 अज्झोयर अविसोही तिसोहिकोटी भवे सेसा ॥ ३०० ॥ इरिया
 १ भासा २ एसण - आयाणाइसु ४ तह परिट्टवणा ५ । सम्म जा उ
 पवित्ती सा समिई पचहा एव ॥ ३०१ ॥ पढममणिच्च १ मत्तरणय
 २ ससारो ३ एगया य ४ अन्नत्त ५ । असुइत्त ६ आसव ७ सवरो
 य ८ तह निज्जरा ९ नवमी ॥ ३०२ ॥ लोगसहावो १० वोही य
 दुल्लहा ११ धम्मसाहओ अरिहा १२ । एयाओ हुति वारस जहकम्म
 भावणीयाओ ॥ ३०३ ॥ भिक्खुपडिमत्ति-मासाई सत्तता ७
 पढमा ८ वि ९ तइय १० सत्तराइदिणा । अहराई एगराई भिक्खू-
 पडिमाण वारसग ॥ ३०४ ॥ स्थापनाऽग्रे लिख्यते(४) ॥ पढमसंघयण-
 जुत्तो नवपुष्ठी दसमवत्थुसुयकलिओ । जत्थऽत्थमियनिवासी

दशैषणादोषा इति-शक्ति म्रक्षित निक्षित पिहित सहित दायक
 उन्मिश्र । अपरिणत लिप्त छद्दित एषणादोषा दश भवन्ति ॥ २९८ ॥
 पिंडैषणा च सत्रा सक्षेपेणावतरति नयसु कोटीषु । न हति न व्री
 णाति न पचति कारणानुमतिभ्या नव ॥ २९९ ॥ कम्मोद्देशिकं चर
 मत्रिक पूर्तिमिश्र चरमप्राभृतिका । अन्धपूरक चात्रिशोधि (कोटि)
 विशोधिकोटिर्भवेत् शेषा ॥ ३०० ॥ ईयाभाषैषणादानादिषु तथा
 परिष्ठापनाया । सम्यक या तु प्रवृत्ति सा समिति पचधैव ॥ ३०१ ॥
 प्रथममनित्यत्वमशरण्य च ससार एकता चान्यत्र । अशुचित्य
 माश्रय सवर तथा निजरा नवमी (भावयेत्) ॥ ३०२ ॥ लोकस्व-
 भावो बोधिदुर्लभा च धर्मस्य कथकाऽहन् । एता भवन्ति द्वादश
 यथान्म भावनीया ॥ ३०३ ॥ भिक्षुप्रतिमा इति-मासादिसमाता
 प्रथमा द्वितीया तृतीया ममरात्रिदिवा । अहारत्रिकी एकरात्रिकी
 भिक्षुप्रतिमाना द्वादशक ॥ ३ ८ ॥ प्रथमसहननयुक्तो नवपूर्वा
 दशमश्नुथुतकलित । यत्रास्तमितनिवासी उपमगपरीपहाभीत

उत्सर्गपरीसहअभीभो ॥ ५ ॥ योमदृचत्तदेहो उवमगसगो जहर
जिणकप्पो । एमणमभिग्गीया भत्तं च अलेयट तम्म ॥ ६ ॥
तयण सुत्तेण सत्तेण, एगत्तेण यदेण य । तुलणा पचहा वुत्ता, जिण-
कप्पं पडियज्जओ ॥ ७ ॥ फामण २ रमणा २ घाण ३ चरसु ४

भिक्षुप्रतिमाद्वादशस्थापना ॥
प्रथमा १ एकमासिकी प्रतिमा ॥
द्वितीया २ द्विमासिकी प्रतिमा ॥
तृतीया ३ त्रिमासिकी प्रतिमा ॥
चतुर्थी ४ चतुर्मासिकी प्रतिमा ॥
पचमी ५ पंचमासिकी प्रतिमा ॥
षष्ठी ६ षण्मासिकी प्रतिमा ॥
सप्तमी ७ सप्तमासिकी प्रतिमा ॥
अष्टमी ८ सप्ताहोरात्रिकी प्रतिमा ॥
नवमी ९ सप्ताहोरात्रिकी प्रतिमा ॥
दसमी १० सप्ताहोरात्रिकी प्रतिमा ॥
एकादशी ११ एकाहोरात्रिकी प्र० ॥
द्वादशी १२ एकरात्रिकी प्रतिमा ॥

सोय च ५ इदिया पच १ फास
२ रस २ गघ ३ वन्ना ४
सद्दा विसया विणिदिट्ठा ॥ ८ ॥
पडिलेहणाणि गोसावरणह-
उग्गाहपोरिसीसु तिग ।
तत्थ पहाए अणुग्गयमूरं
पडियमणकरणाओ ॥ ९ ॥
मुहपत्ति १ चोलपट्टो २ क-
पत्तिग ३ दुनिसिज्ज ७
रयहरण । सयारु ९ उत्तरपट्टो
१० । दस पहाऽणुग्गए सूरं

॥ १० ॥ पडिलेहिउण उवहिं गोसमि पमज्जणा उ वसहोए । अव-
ण्हे पुण पढमं पमज्जणा तयणु पडिलेहा ॥ ११ ॥ दुन्नि उ पमज्जणाओ

॥ ३०५ ॥ व्युत्सृष्टत्यक्तदेह उपसर्गसहो यथैव जिनकल्पी । एष
णाऽभिगृहीता भक्त चालेपट्टत् तस्य ॥ ३०६ ॥ तपसा सत्त्वेन
सूत्रेणैकत्वेन बलेन च । तुलना पचधोक्ता जिनकल्प प्रति
पद्यमानस्य ॥ ३०७ ॥ स्पर्शन रसन घ्राण चक्षु श्रोत्र चेन्द्रियाणि
पच । स्पर्शरसगन्धवर्णा शब्दा विषया विनिर्दिष्टा ॥ ३०८ ॥
प्रतिलेखनानि अन्धबुद्धि अपराण्हे उद्वाटपोरुह्या त्रिक । तत्र प्रभा
तेऽनुद्गते सूर्ये प्रतिप्रमणकरणात् (अनन्तर) ॥ ३०९ ॥ मुखपट्टि
चोलपट्ट धल्पत्रिक द्वे निपद्ये रजोहरण । ससार उत्तरपट्टो दश
प्रतिलेखना अनुद्गते रुरे ॥ ३१० ॥ प्रतिलिरयोपधि प्रभाते
प्रमाजना वसत्या । अपराहणे पुन प्रथम प्रमार्जना तदनु प्रति
लेखना ॥ ३११ ॥ द्वे प्रमार्जने ऋतुषु वर्षासु तृतीया मध्याह्ने । वस

उलम्भि वासासु तदय मज्झणह । वसहि ऱहुसो पमज्जण अइसपट्टेऽन्न-
हिं गच्छे ॥ १२ ॥ मणगुत्तिमादयाओ गुत्तीओ तिन्नि हुति नायवा ।
अकुसलनिवत्तिरूवा कुसलपवित्तिस्सरूवा य ॥ १३ ॥ दवे खित्ते काले
भावे य अभिग्गहा विणिद्धिटा । ते पुण अणैगमैया करणस्स इम
सरूव तु ॥ १४ ॥ गासेसणाणपणगंति-सज्जोयणा १ पमाणे २
इंगाले ३ धूम ४ कारणे ५ चैव । उवगरण भत्तपाणे सवाहिरिभितरा
पढमा ॥ १५ ॥ कुकुडिअडयमित्ता कवला वत्तीस भोयण पमाणे
२ । राएणासायतो सगार करड सचरित्तं ॥ १६ ॥ जं भोयणम-
मणुन्न टोसेण सधूमग कुणट चरण ४ । वेयावच्चाईया कारणमविहिंमि
अट्टयारो ॥ १७ ॥ वेयण १ वेयावच्चे २ इरियट्टाए ३ य सजमट्टाए
४ । तह पाणवत्तियाए ५ छट्ट पुण धम्मचित्ताए ६ ॥ १८ ॥ पिण्ड असो-
ह्यतो अचरित्ती इत्थ ससओ नत्थी । चारित्तमि असते सवा दिक्खा
निरत्थिया ॥ १९ ॥ निरवज्जाहाराण साधूण नित्तमेव उववासो ।
उत्तरगुणपुद्धिक्कए ते ण उववासमिच्छन्ति ॥ २० ॥ ओसन्नोवि विहारे

तेर्हुश' प्रमाजना अतिसघट्टेऽन्यत्र गच्छेत् ॥ ३१२ ॥ मनोगुत्त्या
दयो गुत्तय तिस्सो भवन्ति ज्ञातव्या । अकुशठनिवृत्तिरूपा कु
शलप्रवृत्तिस्वरूपाश्च ॥ ३१३ ॥ इये क्षेत्रे काले भावे चाभिग्र
हा विनिर्दिष्टा । ते पुनरनेकभेदा करणस्येद स्वरूपतु ॥ ३१४ ॥
ग्रामैषणाना पंचकमिति-मयोजना प्रमाणमंगारो धूम कारण चैव ।
उपकरणभत्तपाणे सवाह्याभितरा प्रथमा ॥ ३१५ ॥ कुकुट्टयडक-
भात्रा कवला ह्याप्रिशद् भोजनप्रमाण । रागेणास्वादयन् सागार
करोति स्वचाग्नि ॥ ३१६ ॥ यद् भोजनममनोह्य द्वेषेण सधूमक
करोति चरण । वेयावृत्त्याद्य कारण अविधावतिघार ॥ ३१७ ॥
वेदना वेयावृत्त्य ईयार्याय मयमार्याय । तथा प्राणप्रत्ययाय पष्ठ
पुनर्धर्मचिन्तार्य ॥ १८ ॥ पिण्डमशोधयन् अचाग्निो अत्र संश-
यो नास्ति । चारित्रेऽमति मया दीक्षा निरर्थिका ॥ ३१९ ॥ निर-
वयाहाराण साधूना नित्यमेवोपयास । उत्तरगुणपुद्धिक्कृते ते
उपयासमिच्छन्ति ॥ ३२० ॥ अत्रमन्नोऽपि विहारे कम शोधयति

कम्म मोहट सुलहपोही य । चरणकरण विमुद्ध उपगृहतो परुवंतो
 ॥ २१ ॥ अद्धममणम्म मयजगम्म कुजा ट्यम्म दो भाए । राऊप-
 पियारगट्टा छन्भाय उणय कुजा ॥ २२ ॥ पिण्डपाणाणमणास-
 त्तगंति—ससट्ट १ मसेसट्टा २ उद्धट्ट ३ तह अप्पलेपिया चैव ४ ।
 उग्गहिया ५ पग्गहिया ६ उज्झिययम्मा य ७ सत्तमिया ॥ २३ ॥
 वत्थग्गहणविधाणत्ति-दुवरखलु भो निच्च, अणगारस्स भिद्धसुणो
 । सव्व से जाण्य होड, नहु किंचि अजाण्य ॥ २४ ॥ जं न तयट्टा
 कोय नैव वुय जन्न गहियमन्नेसिं । आहट्ट पामिच्च णय कप्पए
 माहुणो वत्थ ॥ २५ ॥ अजणखंजणरुद्धमलित्ते, मूसगभक्खिय
 अग्गिहिं दट्टे । तुन्निय कुट्टिय पज्जव लीढे, होइ विवागो सुहो अ-
 सुहो वा ॥ २६ ॥ नवभागकए वत्थे चउरो कोणा य दोन्नि अता
 य । नो कन्नावट्टीओ मज्जे वत्थस्स ट्ठकत्तु ॥ २७ ॥ चत्तारि देवया भागा,
 दवे भागा य माणुसा । आसुरे य दुवे भागा, एगो पुण जाण रक्ख-
 सो ॥ २८ ॥ देवेसु उत्तमो लाभो, माणुसेसु य मज्झिमो । आसुरेसु

सुलभवोधिञ्च । चरणकरण विशुद्धमुपगृहयन् प्ररूपयञ्च ॥ ३२१ ॥
 अर्द्धमशनस्य सव्यजनस्य कुर्याद् द्रव्यस्य द्वौ भागौ । वायुप्रविच-
 रणार्थाय पष्ठ भागमूनकं कुर्यात् ॥ ३२२ ॥ पिण्डैषणासप्तकमिति-
 अससृष्टा ससृष्टोद्धता तथाऽल्पलेपिका चैव । उद्गृहीता प्रगृहीतो
 जिह्वतधर्मा च सप्तमिका ॥ ३२३ ॥ वस्त्रग्रहणविज्ञानमिति—दुष्कर खलु
 भो नित्यमनगरस्य भिक्षो । नर्थ तस्य याचित भयति नैव किंचि
 दयाचितं ॥ ३२४ ॥ यन्न तदर्थाय व्रीत नैव व्यूत यन्न गृहीतमन्यै ।
 आहृत प्रामित्यं त्यक्त्या कल्पते साधो यन्न ॥ ३२५ ॥ अंजनखंजनक
 र्दमलित्ते मूपकभक्षितेऽग्निना दग्धे । तूर्णिते कुट्टिते पर्यवलीढे भ
 वति विपाक शुभोऽशुभो वा ॥ ३२६ ॥ नवभागकृते वस्त्रे चत्वार
 कोणाश्च द्वावन्तौ च । द्वे कणवृत्तौ मध्ये रस्त्रस्यैक तु भाग जानी
 हि ॥ ३२७ ॥ चतुरो देवताभागान् द्वौ भागौ च मानुषाणा । अ
 सुराणां च द्वौ भागौ एक पुनर्जानीहि राश्वन ॥ ३२८ ॥ देवेषुत्तमो

य गेलन्न, मरण पुण जाण रक्खसे ॥ २९ ॥ जडकप्पं जमुल्ल व-
 त्थंति—मुल्लजुय पुण तिविह जहन्नय मज्झिमं च उक्कोस । जहन्ने अ-
 द्वारसग सयसहस्सं च उक्कोस ॥ ३० ॥ रूपकाष्टदशारारभ्य लक्ष-
 मूल्य च श्रुयति ॥ पात्रलक्षणमिति—अतो वहिं च दडू पुप्फग-
 भिन्नं च कीडखट्टय च । पडमुप्पल चपलय परिहरियव पयत्तेण
 ॥ ३१ ॥ दडकलकूखणमिति—लट्ठी आयपमाणा विलट्ठी चउर-
 गुलेण परिहीणा । दडो वाहुपमाणो विदडओ क्वम्भमित्तो य ॥ ३२ ॥
 एगपव पसमति, दोपवा कलहकारिया । तिपवा लाभमपन्ना, च-
 उपवा मारणतिया ॥ ३३ ॥ पचपवा उ जा लट्ठी, पथे कलहनिवा-
 रिणी । उच्चपवा उ आयको, सत्तपवा निरोडया ॥ ३४ ॥ अट्टपवा
 असपत्ती, नवपवा जसकारिया । दसपवा उ जा लट्ठी, तहिय सव-
 सपया ॥ ३५ ॥ वका कीडखट्टया चित्तलया पोल्लहा य दडू य । ल-
 ट्ठी य उब्भमृका वज्जेयवा पयत्तेण ॥ ३६ ॥ णववद्धमाणपवा निद्धा
 वन्नेण एगवन्ना य । एमाडलखणजुआ पसत्थलट्ठी मुणेयवा ॥ ३७ ॥

लाभो मानुपेषु च मध्यम । आसुरेषु च ग्लानत्प मरण पुनर्जा
 नीहि रक्षसि ॥ ३२९ ॥ यतिकत्थय थन्मृत्य वच्चमिति-मूल्ययुत
 पुनस्त्रिभिध जघन्यक मध्यम चोत्कर्ष । जघन्येऽष्टादशक शतसहस्र
 चोत्कर्ष ॥ ३३० ॥ पात्रलक्षणमिति-अन्तर्ग्रहिश्च दग्ध पुष्पकभिन्न
 च कीटभक्षित च । पद्मोत्पलं पात्रं परिहर्तव्य प्रयत्नेन ॥ ३३१ ॥ दड-
 कलक्षणमिति-यष्टिगत्मप्रमाणा विलट्टि चतुर्भिरगुलै परिहीना ।
 दण्डो वाहुप्रमाणो विदण्डक कक्षामात्रश्च ॥ ३३२ ॥ एकपर्यां
 प्रशंसति द्विपया क्वहकारिका । त्रिपर्यां लाभमपन्ना चतुष्पर्या
 मारणानिकी ॥ ३३३ ॥ पचपर्यां तु या यष्टि पथि कलहनिवारिणी ।
 पदपर्यां तु आतंक समपया नीगेगिका ॥ ३३४ ॥ अट्टपर्याऽसपत्ति
 नैवपर्यां यश कारिका । दशपर्यां तु या यष्टि तत्र मयार्थसपद
 ॥ ३३५ ॥ वका कीटवादिता चित्रया शुपिगा च दग्धा च । यष्टिश्चो
 र्धशुष्का यजयित्तया प्रयत्नेन ॥ ३३६ ॥ घनार्धमानपया म्निग्धा
 पणनैकवणा च । पपमादिलक्षणयुता मशस्ता यष्टिमुणित्तया

कम्म मोहड मुल्लघोही य । चरणकरण त्रिमुद्र उपगृहीतो पर्वतो
 ॥ २१ ॥ अद्धममणस्स मत्तजगम्म कुन्ना दग्गम टो भार । वाऊप-
 रियारगट्टा छब्भाय ऊणय कुन्ना ॥ २२ ॥ पिण्डपाणाणमणास-
 त्तगंति—ससट्ट १ मससट्टा २ उद्धट्ट ३ तद्द अप्पलेविया चैव ४ ।
 उग्गट्टिया ५ पग्गट्टिया ६ उज्झियग्गमा य ७ सत्तमिया ॥ २३ ॥
 वत्थग्गहणविधाणत्ति-दुक्करखलु भो निच्च, अणगारस्स भिक्खुणो
 । सव्व से जाट्टय होड, नहु किंचि अजाइय ॥ २४ ॥ ज न तपट्टा
 कीय नेव पुय जत्त गट्टियमत्तेसिं । आहट्ट पामिच्च णय कप्पए
 साहुणो वत्थ ॥ २५ ॥ अजणखंजणरुद्धमलित्ते, मूसगभक्खिय
 अग्गिहिं दड्ढे । तुन्निय कुट्टिय पज्जव लीढे, होइ विवागो सुहो अ-
 सुहो वा ॥ २६ ॥ नवभागकए वत्थे चउरो कोणा य दोन्नि अता
 य । दो कन्नावट्टीओ मज्जे वत्थस्स इक्कतु ॥ २७ ॥ चत्तारिदेवया भागा,
 दुवे भागा य माणुसा । आसुरे य दुवे भागा, एगो पुण जाण रक्ख-
 मो ॥ २८ ॥ देवेसु उत्तमो लाभो, माणुसेसु य मज्झिमो । आसुरेसु

सुलभवोधिश्च । चरणकरण विशुद्धमुपगृह्यन् प्ररूपयश्च ॥ ३२१ ॥
 अद्धमशनस्य सव्यजनस्य कुर्याद् द्रवस्य द्वौ भागौ । वायुप्रविचा-
 रणार्थाय षष्ठ भागमूनकं कुर्यात् ॥ ३२२ ॥ पिण्डैपणासत्तकमिति-
 अससृष्टा ससृष्टोद्धता तथाऽल्पलेपिका चैव । उद्गृहीता प्रगृहीतो
 जिह्वतथर्मा च मत्तमिका ॥ ३२३ ॥ वस्त्रग्रहणविधानमिति-दुष्कर खलु
 भो नित्यमनगारस्य भिक्षो । सर्वं तस्य याचित भवति नैव किंचि
 दयाचितं ॥ ३२४ ॥ यन्न तदर्थाय क्रीत नैव व्यूत यन्न गृहीतमन्यै ।
 आहृत प्रामित्यै त्यक्त्वा कल्पते साधो यन्न ॥ ३२५ ॥ अंजनखंजनक-
 र्दमलित्ते मूषकभक्षितेऽग्निना दग्धे । तूर्णिते कुट्टिते पर्यवलीढे भ-
 वति विपाक शुभोऽशुभो वा ॥ ३२६ ॥ नवभागकृते वस्त्रे चत्वार
 कोणाश्च द्वावतौ च । द्वे कणवृत्ती मध्ये उखस्यैव तु भाग जानी-
 हि ॥ ३२७ ॥ चतुरो देवताभागान् द्वौ भागौ च मानुषाणा । अ-
 सुराणां च द्वौ भागौ एक पुनजानीहि राभस ॥ ३२८ ॥ देवेपुत्रमो

दसा ८ अणुत्तरोववाइया दसा तत्तो ९ । पण्हावागरण तह १० इ-
 कारसम विवागसुयं ११ ॥ ४५ ॥ अद्वार सहस्साइ पमाण इह होड
 पढममग तु । सेसाइ अगाइ हवति इह दुगुणदुगुणाइ ॥४६॥ ओवइ
 १२ रायपसेणीय १३ जीवाभिगमो १४ तहेव पन्नवणा १५ । चंदस्स
 य १६ सूरस्स य १७ जवुद्दीवस्स पन्नत्ती १८ ॥ ४७ ॥ निरयावलिया
 १९ कप्पिय २० पुप्फिय २१ तह पुप्फचूलिओवंग २२ । वण्हदसा
 २३ दीवमागरपन्नत्ती २४ मयविसेतेण ॥ ४८ ॥ कप्प २५ निसीह
 २६ दसासुय २७ ववहारो २८ उत्तरज्झयणसुत्त २९ । रिसिभासि-
 य ३० दसयालिय ३१ आवस्सय ३२ मगवज्जाइ ॥ ४९ ॥ तदुल-
 वेयालियया ३३ चद्राविज्झय ३४ तहेव गणिविज्जा ३५ । निरयवि-
 भत्ती ३६ आउरपच्चक्खाणा ३७ इय पइच्चा ॥ ५० ॥ गणहरवलय
 ३८ देविंदनरिंदा ३९ मरण ४० ज्ञाणभत्तीओ ४१ । पक्खिय ४२
 नंदी ४३ अणुओगदारा ४४ देविंदसंथवणं ४५ ॥ ५१ ॥ इय प-
 णयाली सुत्ता उद्वारा पचरूप १ जियकप्पा २ । पिंढे ओहनिजुत्ती
 निज्जुत्ती भासचुत्तीओ ॥ ५२ ॥ पंचमहवयभैयो छकायवहो उ ते-

अतकृद्दशा अनुत्तरोपपातिकदशा तत प्रश्नव्याकरण तथा एकादश
 विपाकश्रुत ॥३४५॥ अष्टादश सहस्राणि प्रमाणमिह भवति प्रथमेऽङ्के ।
 शेषाणि अगानि तु भवन्तीह द्विगुणद्विगुणानि ॥३४६॥ औपपा-
 तिक राजप्रश्नीय जीवाभिगमस्तथैव प्रज्ञापना । चद्रप्रज्ञप्तिश्च सूर्यस्य
 जवृद्धीपप्रज्ञप्ति ॥ ३४७ ॥ निरयावलिका कल्पिक पुष्पिक तथा
 पुष्पचूलिकोपाग । वण्हदशा द्वीपमागरप्रज्ञप्तिर्मतप्रिशेषेण ॥३४८॥
 कल्प निशीथ दशाश्रुत व्यवहार उत्तराध्ययनसूत्र । ऋषि
 भाषित दशवकालिक आयश्यकमगवज्जानि ॥ ३४९ ॥ तदुक्तं
 चारिक तथैत्र गणिविद्या । निरयविभक्तिरानुरप्रत्याख्यानमिति
 प्रकीणानि ॥ ३५० ॥ गणधरवलय देवेन्द्रनरकन्द्र मग्णध्यान-
 (त्रि) भक्ती । पाक्षिक नन्दी अनुयोगद्वाराणि देवेन्द्रसस्तथन
 ॥ ३५१ ॥ इति पचचत्वारिंशत् सूत्राणि उद्वार पचकन्पो जी
 तकल्प पिण्डीघनिर्युक्ती नियुक्तिभाष्यचुणय ॥ ३५२ ॥ पंच

गित्ताहयाण अचित्तति—जोयणसये तु गंतु अणहारण तु मंड
 सरुनी । यायागणिभृमेहिं सिद्धत्थ होड लोणाड ॥ ३८ ॥ नि-
 ताडयाड जाणइ सट्ठीए जोयणाण पत्ताड । हरट्ट पिप्पलि
 मिरियाडयाणि समए अचित्ताई ॥ ३९ ॥ हरियाल्मणोसिलपि-
 प्पली उ खज्जूरमुद्धिया अभया । आडन्नमणाडन्ना तेविहु एमेव ना-
 यवा ॥ ४० ॥ आरुहणे ओरुहणे निसियण गोणाटण च गाउम्हा ।
 भुम्माहारच्छेओ उव्वमेण तु परिणामो ॥ ४१ ॥ त्रिणओ वावन्न-
 भेओत्ति—तित्थयर १ सिद्ध २ कुल ३ गण ४ सत्र ५ मिरिय ६
 धम्म ७ नाण ८ नाणीण ९ । आयरिय १० थेरु ११ वज्झाय १२
 गणीण तेरस पयाणि ॥ ४२ ॥ अणसायणा य १ भक्ती २ बहु
 माणो ३ तहय वन्नसजलणा ४ । तित्थयराई तेरस चउगुणा हुति
 वावन्ना ॥ ४३ ॥ सपइआगमपणयालीससखा वट्ठतत्ति-
 आयारो १ मूयगडे २ ठाण ३ समवाय ४ भगवईअग ५ । नायाध-
 म्मरुहाओ ६ उवासगदसाओ ७ सत्तमय ॥ ४४ ॥ अतगडाण च


॥ ३३७ ॥ क्षेत्रातीतानामचित्तत्यमिति—योजनशत तु गन्याऽनाहा
 रेण तु भाडसक्रान्त्या । वृन्ताकधूमे त्रिध्यस्त भवति लवणादि
 ॥ ३३८ ॥ क्षेत्रातीतानि जानीत पष्ट्या योजनानामुपरि प्राप्तानि ।
 हरितकी पिप्पली मरीचादिकानि समयेऽचित्तानि प्राक्तानि
 ॥ ३३९ ॥ हरितालो मन शिला पिप्पली तु खज्जुरो मझीकाऽभया ।
 आचीर्णानाचीर्णानि तान्यपि खलु पयमेष ज्ञातव्याति ॥ ३४० ॥
 आरोहणेऽधरोहणे निपीदने गवादीना च गात्रोष्मणा । भौमाहार
 व्युच्छेद उपक्रमेण तु परिणाम ॥ ३४१ ॥ विनयो द्वापचाशद्भेद
 इति—तीर्थकरसिद्धकुलगणमधक्रियाधर्मज्ञानज्ञानिना । आचार्यस्थ
 विरोपाध्यायगणिना त्रयोदश पदानि ॥ ३४२ ॥ अनाशातना
 च भक्तिर्बहुमान तथा च वर्णसज्वलना । तीर्थकरादय त्रयोदश
 चतुर्गुणा भवन्ति द्विपचाशद् ॥ ३४३ ॥ स्वप्रत्यागमा पचचत्वा
 रिशत्स्वरया घर्तन्त इति—आचार सूत्रकृत स्थान संनवाया
 भगवत्यग । ज्ञाताधर्मकथा उपासकदशा सप्त सूत्राणि ॥ ३४४ ॥

खंतिजुया ते मुणी वंदे ॥ ५९ ॥ इय मह्वाइजोगा पुढवी
काए हवंति दस भेया । आउक्कायाईसुवि इय एए पिंढिय तु
सय ॥६०॥ सोईदिएण एव सेसेहिवि जइम तओ (ईदिएहिं) पंच

उवसमसेणीति—

अणदंसनपुंसिस्थीवेयलकं च पुरुसवेयं च ।

दो दो एगंतरिए मसिे सरिस उवसमेइ ॥ १ ॥



उवसमसेणिचउक जायइ जीवस्त आभवन्तूणं ।
वा पुण एगभवे स्वगस्सेढी भवे एगा ॥ १ ॥

कुर्वन्ति मनसा निर्जिताहारसज्ञाश्रोत्रेन्द्रिया । पृथिवीकायारम्भं
क्षान्तिपुता तान् मुनीन् वन्दे ॥ ३२९ ॥ इति मार्दवादियोगात्
पृथिवीकाये भवन्ति दश भेदा । अप्यायादिभ्यपि पयमेते पिण्डि
त तु द्वा ॥३६०॥ श्रोत्रेन्द्रियेणैव शेषैरपि तत इन्द्रियै पंच शतानि ।

णऽणुनाभो । मुहमीलनिउत्ताण ऋड जो परयणरहम्म ॥ ५३ ॥
 आम घटे निहत्तं जहा नउ त घट विणामड । इय सिद्धतरहम्म अ
 प्पाहारं विणासेड ॥ ३५ ४ ॥ जओ माह नहन्नेण अट्टपवयणमा-
 याओ उयोसेणं तु पारम भेगाड । मायगम्मपि नहन्नेणं त चेव उ
 योसेण उज्जोयणिया मुनओ अत्यओपि, पिडेसणज्जयण न सु
 त्तओ. अथओ पुण उज्जायण मुणेइ । आयड्यरूचू णीं ॥ अट्टारस
 सीलगसहस्सत्ति—सीलगाण सहस्सा अट्टारस इत्य हुवि निय
 मेण । भायण समणाण अखडचरित्तजुत्ताण ॥ ५५ ॥ ३ करणे
 ३ जोए ४ सत्ता ७ उट्टिय १० भोमाइ १० समणधम्मो य । सीलग-
 सहस्साण अट्टारसगस्स णिप्फत्ती ॥ ५६ ॥ करणाई तिन्नि जोगा
 मणमाईणि उ हसति करणाइ । आहाराई सत्ता चउ सोयाइदिया
 पच ॥ ५७ ॥ भोमाई नव जीवा अजीवकाओ य समणधम्मो
 य । खताइ दसपयारो एव ठिए भायणा एसा ॥ ५८ ॥ जे
 नो करिंति मणसा निज्जियआहारसन्नसोड्डी । पुढवोकायारभ


महाव्रतभेद पद्कायप्रधन्तु तेनानुवात । सुखशीलनियुक्ताना
 कथयति य प्रवचनरहस्य ॥ ३-३ ॥ अपके घटे निहित यथा
 जल त घट विनाशयति । एव सिद्धान्तरहम्यमल्पाधारं विना
 शयति ॥ ३-४ ॥ यत साधुर्जघन्येनाष्टप्रवचनमातर उत्कर्षेण तु
 द्वादशागानि (अध्येति) श्रावकस्यापि जघन्येन तदेव, उत्कषण
 पङ्जीवनिकाय सूत्रतोऽर्थतोऽपि पिण्डैषणाध्ययन न सूत्रत अथत
 पुनरुल्लापेन शृणोति । अष्टादशशीलागमहस्त्राणीति—शीलागाना स
 हस्त्राणि अष्टादशात्र भवन्ति नियमेन । भावेन श्रमणानामखड
 चारित्र्ययुक्ताना ॥ ३-५ ॥ करणाणि योगान् सज्ञा इन्द्रियमूल्या-
 दीन् श्रमणधर्माश्च (आश्रित्य) शीलागसहस्त्राणामष्टादश
 कस्य निष्पत्ति ॥ ३-६ ॥ करणानि त्रीणि योगा मनआदयस्तु
 भवन्ति करणानि । आहारादय सज्ञा चतत्र श्रोत्रादीन्द्रि
 याणि पच ॥ ३-७ ॥ मूल्यादयो नवजीवा अजीवकायश्च श्रमण
 धर्मश्च । भान्यादि दशप्रकार एवस्थिते भावनेषा ॥ ३-८ ॥ ये न

अणदस नपुसित्थी वेयल्लक्क च पुरिसवेय च । दोदो एगत-
 रि-ए सरिसे सरिस उवसमेइ ॥ ३६३ ॥ उवसमसेणिचउक्क जायइ जीवस्स
 आभवं नूण । ता पुण दो एगभवे खवगस्सेही भवे एगा
 ॥ ३६४ ॥ खवगस्सेहीत्ति—अण मिच्छ मोससमं अट्ट नपुसि-
 त्थिवेय ल्लक्क च । पुमवेय च खवेई कोहाईए उ सजलणे ॥ ६५ ॥
 नवर इत्यो खवगा नपुंसगं खविय खवइ थीवेय । हासाइल्लग ख-
 विउ खवइ सवेय नरो खवगो ॥ ६६ ॥ जलाइय सर्वं परिट्टविय
 गोयररिय पडियरु, जहा-कालो गोयरचरिया थडिल्ला वसहि वत्थ-
 पडिलेहा । सभरओ सो य साहू जस्स य ज किंचि आजत्त ॥ ६७ ॥
 तओ अट्टविवे निमज्जमाणे सझासमए देवसिय पडिक्कमणंति—चिय-
 वदण उस्सग्गो पुत्तिय पडिलेह वदणालोए । सुत्तं वंदण खामण वद-
 णय चरित्त उस्सग्गो ॥ ६८ ॥ दसणनाणुम्सग्गा सुयदेवयत्थि-
 त्तदेवयाण च । पुत्तियवंदण थुइतिय सक्कत्थय पुत्त देवसिय ॥ ६९ ॥

वेद पदक च पुरुषवेद च । द्वौ द्वौ एकान्तरितौ सहशौ सहशे
 उपशमयति ॥ ३६३ ॥ उपशमथ्रेणिचतुष्क जायते जीवस्याऽऽभय
 नून । ते पुनर्द्वै एकभवे क्षपकथ्रेणिर्भवेदेका ॥ ३६४ ॥ क्षपक-
 थ्रेणिरिति—अण मिथ्यात्थ मिथ्र सम्यक्तमशौ नपुसक स्त्रिय वेद
 पदं च पुंवेद च क्षपयति क्रोधादींस्तु सज्जलनान् ॥ ३६५ ॥ किन्तु
 स्त्री क्षपिका नपुसक क्षपयित्वा क्षपयति स्त्रीवेद । हास्यादिपदं
 क्षपयित्वा क्षपयति स्ववेदं नर क्षपक ॥ ३६६ ॥ जलादिक सर्वं
 परिष्ठाप्य गोचरचरिका प्रतिक्काम्यति यथा—कालो गोचरचर्याका
 स्थडिल यत्ततिर्वत्थप्रतिलेपना स्मत्तां स च साधुर्यस्य च यत्त
 किंचिदनुपयुक्त ॥ ३६७ ॥ ततोऽर्द्धप्रिम्भे निमज्जति सध्यासमये
 देवसिक्कं प्रतिक्कमणमिति—चैत्यय दनमुत्सर्गे (मुख) पोत्तिका
 प्रतिलेपना वन्दनाऽऽगोच- । वृद्ध वन्दना क्षामणं वन्दनक धारि-
 त्तोत्सग ॥ ३६८ ॥ दर्शनज्ञानोत्सर्गो धृतदेयताक्षेत्रदेयतयोश्चोत्सर्ग ।
 (मुख) पोत्तिका वन्दन स्तुतिप्रिध शक्कस्तथ स्तोत्र ध्वजसि
 क ॥ ३६९ ॥ प्रमगत पात्रिकप्रतिक्कमणयिधिरिति—मुखपोत्तिका

सया । आहारमद्वन्तोगा इय सेमाऽ सदम्बदुगं ॥६१॥ एवं ब्रजेण
 वयमाऽपसु पय त्रंति सगदग्ना । न कर संमेदिपिय षए सवेवि
 अद्वारा ॥६२॥ भट्टारममीलागनादसरहनाम—(स्यापना प्राग्गता)

अणमिच्छमीससेम अट्टनपुंसित्थियेयेलं च ।
 पुमवेयं च खवेई कीहाईए उ संजलणे ॥१॥



नवर इत्थी खवगा नपुंसं खवियं खविय धीवेय ।
 हासाइछग खविउ खवइ संवेय नरो खवगो ॥२॥ क्षपकश्रेणी गाथा

आहारसंज्ञायोगादेव शेषाभि सहस्रद्विकं ॥ ३६१ ॥ एष मनसा
 वचनदिपु एष भवन्ति षट् सहस्राणि । न करणे शेषाणामपि चैते
 सर्वेऽप्यष्टादश ॥ ३६२ ॥ उपशमश्रेणिरिति—अण दर्शनं नर्तुसकं खियं

त्यओ होइ सर्वेसिं ॥ ७७ ॥ सर्वजिणपढमसावयनामाणि-
 त्ति--भरह १ सगर २ मितासण ३ मितावीरिय २ सच्चवीरिय ५
 अजियसेण ६ वाणविरिय ७ मप्रव ८ जुद्धविरिय ९ सीमवर
 १० तिविद्धु ११ दुविद्धु १२ मयभु १३ पुरिसोत्तम १४
 पुरिससिंह १५ कोणायल १६ कूवेर १७ सुभुम १८ अजिय १९
 विजयमय २० हरिसेण २१ कण्ह २२ पसेण २३ सेणिओ २४ ॥
 अथ सावगसख्यामाह--पढमस्स तिन्नि लक्खा पन्नास सहस्स १
 दुलक्ख जा संती । लक्खोवरि अडनउइ २ तेणउइ ३ अट्टसीया य
 ४ ॥ ७८ ॥ एगासी ५ छावत्तरि ६ सत्तावन्ना य ७ तहय पन्नासा
 ८ । एगुणतीस ९ नवासी १० अगुणासी ११ पणसयरिनेया १२
 ॥ ७९ ॥ अट्टेव १३ छच्च १४ चउरो सहस्स १५ नवई सहस्स
 १६ संतिस्स । तत्तो एगो लक्खो उवरि गुणसीय १७ चुल्सी य १९
 ॥ ८० ॥ तेयाली १९ वावत्तरि २० सत्तरि २१ इगुहत्तरी य २२ चउ-
 सट्टी २३ । एगुणसट्टि सहस्सा २४ सावग एए जिणवराण ॥ ८१ ॥

भाणामादिमौ यामौ । तृतीयो भवति गुरूणा चतुर्थको भवति सर्व-
 पा ॥ ३७७ ॥ सर्वजिनप्रथमप्रावकनामानीति-भरत सगर मित्रा
 सन मित्रवीर्य सत्यवीर्योऽजितसेनो वाणवीर्य मघवान् युद्ध-
 वीर्य सीमधर त्रिपृष्ठो द्विपृष्ठ स्वयम् पुरुषोत्तम पुरुपसिंह
 कोणायल कूवेर सुभूमोऽजितो विजयमयो हरिपेण पृष्ण प्रसेन
 जित् ध्रेणिक अथ प्रायकसरयामाह-प्रथमस्य त्रयो लक्षा
 पचाशत् सहस्राणि द्वौ लक्षौ यावत् शान्ति । लभोपरि अष्ट
 नवति त्रिनवतिरष्टाशीतिश्च ॥ ३७८ ॥ एकाशीति पद्सप्तति स-
 त्पंचाशच्च तथा च पचाशत् । एकोनत्रिंशत् एकोननवति एको
 नाशीति पचसप्ततिर्हैया ॥ ३७९ ॥ अष्टैव पद् च चत्वार सहस्रा
 णि शान्ते । तत एकोऽलक्ष उपरि एकोऽष्टाशीति चतुरशीतिश्च
 ॥ ३८० ॥ त्रिचत्वारिंशद् द्वाप्तति सप्ततिरेकमत्तिश्च चतु षट्ति
 । एकोऽषट्ति सहस्राणि प्रायका पते जिनधराणाम् ॥ ३८१ ॥ आ

पमंगओ पक्किगयपट्टिक्कमणत्रिहिति—सुहपुत्तिव वंणय मं-
 युद्दाग्वामण तहाऽऽओप । चण पत्तय रामणाणि वंणय मुत्त च
 ॥ ७० ॥ मुत्त अञ्चुट्टाण उस्मगो पुत्तिपट्टण तहय । पत्तते स्वा-
 मणय एत्त विही पक्खिपट्टिमणे ॥ ७१ ॥ देसिय चाउम्मासिय
 सबच्छरिएसु पट्टिक्कमणमज्जे । मुणियो रामिञ्चंति तिन्नि तहा पंच
 सत्त कमा ॥ ७२ ॥ चत्तारि टो दुवालस मीस चत्ता य हुत्ति उ-
 ज्जोया । देसिय राइय पक्खिय चाउम्मासे य वरिसे य ॥ ७३ ॥
 तओ सज्झाय विहिय सुयणवेलाए सयारए ठाऊण उम भणइ—अ-
 णुजाणह परमगुरु । गुरुगुणरयणेहिं भूसियसरोरा । बहु पट्टिपुत्ता
 पोरिसि राईसयारए ठामि ॥ ३७४ ॥ अणुजाणह संथार बाहुवहा-
 णेण वामपासेण । कुक्कुटिय पायपसारण अतरत पमज्जए भूमि ॥७५॥
 सकोइय सढासा उट्टट्टन य कायपट्टिलेहा । दव्वाई उवओग उस्सास
 निरुंभणाऽऽलोय ॥ ७६ ॥ निसिजागरणविहिति—सवेवि
 पढमजामे दुन्नि य वसहाण आइमा जामा । तइओ होइ गुरुण चउ-

घन्दनकं सद्युद्धक्षामण तथाऽऽलोच । घन्दन प्रत्येकक्षामणानि
 घन्दनक सूत्रं च ॥ ३७० ॥ सूत्रमभ्युत्थानमुत्सर्गं पोतिका
 घन्दनं तथा च । पर्यंते क्षामणकमेव विधि पाक्षिकप्रतिक्रमणे
 ॥ ३७१ ॥ दैवसिकचातुर्मासिकसांघत्सरिकेषु प्रतिक्रमणेषु
 मध्ये मुनय । क्षाम्यन्ते प्रयस्तथा पंच सप्त क्रमात् ॥ ३७२ ॥
 चत्वारो द्वौ द्वादश विंशति चत्वारिंशच्च भवंति उद्योता ।
 दैवसिकरात्रिकपाक्षिकेषु चातुर्मासिके षाषिके च ॥३७३॥ तत स्वा
 ध्याय विधाय शयनवेलाया सस्तारके स्थित्वा इदं भणति—अनुजा
 नीत परमगुरवो ! गुरुगुणरत्नैर्भूषितशरीरा । बहुप्रतिपूर्णा पौरुषी
 रात्रिसस्तारकं करोमि ॥ ३७४ ॥ अनुजानीत सस्तार बाहूपधानेन
 धामपाश्वेना कुक्कुटीकपादप्रसारणमशकनुबन् प्रमार्जयेद् भूमि ॥३७५॥
 सकोचे च सर्वशकान् प्रमार्जयेत् उद्वत्तमाने च कायप्रतिलेखना
 (जागरणे) ब्रह्माद्युपयोग उच्छ्वासनिरोध, आलोक च (पश्येत्)
 ॥ ३७६ ॥ निशिजागरणविविरिति—सर्वेऽपि प्रथमयामे द्वौ च ब्रुव

माचियामंग यामाह—पहमम पच लखा चउपन्नमात्म तवपु
 पण लखा । पणयात्रीम सहस्मा २ छउरय छत्तीम महमा य ३
 ॥ ८० ॥ मत्तारीमसहस्माहिय लखा पच ४ पच लखा य ।
 सोलस सहस्म अहिया पण लखा पच उ सहस्सा ६ ॥ ८३ ॥
 उपरि चउरो लखा धम्मो जा उवरि सहम तेणउई ७ । उगतवई
 ८ उगहत्तरि ९ अहवन्न १० उडयाल ११ उत्तीमा १२ ॥ ३८४ ॥
 चउरीसा १३ चउदम १४ तेरसेर १५ तत्तो विलख जा वीरो ।
 तदुपरि नव १६ एगासी १७ विमत्तरी १८ सयरि १९ पन्नासा २०
 ॥ ८५ ॥ अडयाला २१ छत्तीसा २२ इगुचत्त २३ द्वारसेव य स-
 हस्सा २४ । सद्धीणमाणमेय चउवीसाए जिणवराण ॥८६ ॥ साव-
 यगुणात्ति—यम्मरयणस्स जुगो अक्खुद्धो १ रूवव २ पगडसोमो
 ३ । लोग्गिओ ४ अकूरो ५ भीरू ६ असढो ७ सुदग्गिन्नो ८
 ॥ ८७ ॥ लज्जालुओ ९ दयाल १० मज्झत्यो सोमदिट्ठि ११ गुण-
 रागी १२ । सकह १३ सुपक्खजुत्तो १४ सुदीहदसी १५ विसेमन्नू
 १६ ॥ ८८ ॥ बुद्धाणुगो १७ विणीओ १८ कयन्नुओ १९ परहि-

विकासरयामाह—प्रथमस्य पच लक्षा चतुःपंचाशत् सहस्राणि तदनु
 पच लक्षा । पचचत्वारिंशत् सहस्राणि षट् लक्षा षट्त्रिंशत् सह
 स्राणि च ॥ ३८२ ॥ सप्तविंशतिसहस्राधिका लक्षा पच पच ल
 क्षा पंच तु सहस्राणि ॥ ३८३ ॥ उपरि चत्वारो लक्षा धर्म या
 बहुपरि सहस्राणि त्रिनवति । एकनवतिरेकसप्ततिरष्टपचाश
 दष्टचत्वारिंशत् षट्त्रिंशत् ॥ ३८४ ॥ चतुर्विंशति चतुर्दश त्रयो
 दशैव तत त्रयो लक्षा यावद्दरि । तदुपरि नव एकाशीतिर्नास
 तति सप्तति पचाशद् ॥ ३८५ ॥ अष्टचत्वारिंशत् षट्त्रिंशदेक
 चत्वारिंशदष्टदशैव च सहस्राणि श्राद्धीना मानमेतत् चतुर्विंशते
 जिंनवराणाम ॥ ३८६ ॥ श्रावकगुणा इति—धर्मस्य योग्योऽशुद्रो रूप
 वान् प्रकृतिसौम्य । लोकप्रियोऽकूरो भीरुरशठ सुदाक्षिण्य ॥ ३८७ ॥
 लज्जालुदयालुर्मध्यस्थ सौम्यदृष्टिर्गुणरागी । मत्कथं सुपक्षयुक्त
 सुदीर्घदर्शी विशेषज्ञ ॥ ३८८ ॥ बुद्धानुगो विनीत कृतज्ञकः पर-

४ अंगारसरूवकम्माइं ५ । वाणिज्जाणि य विस ६ लक्ख ७ दंत-
 ८ रस ९ केस १० विसयाणि ११ ॥ ५ ॥ दवदाण ११ जंतवा-
 हण १२ निल्लउण १३ असइपोससहियाणि १४ । सजलासय-
 सोसाणि य १५ कम्माइ हवंति पन्नरस ॥ ६ ॥ नाणाई अट्टवि-
 हो—काले विणए बहुमाणुवहाणे तहय अनिण्हवणे । वंजण अत्थ
 तदुभए अट्टविहो नाणमायारो ॥ ७ ॥ निस्संकिय निक्कंखिय निवि-
 तिगिच्छा अमूढदिट्ठी अ । उववूह थिरीकरणे वच्छेच्छ पभावणे अट्ट
 ॥ ८ ॥ पणिहाणजोगजुत्तो पचहिं समिईहिं तीह गुत्तीहिं । चर-
 णायारो विवरीययाए तिण्हपि अइयारा ॥ ९ ॥ चारस तवत्ति-
 अणसणमूणोयरिया वित्ति० ॥ पायच्छित्त विणओ० । मम्ममक-
 रणे वारस तवाइयारा तिग तु विरियस्स । मण १ वइ २ काया ३
 पावप्पउत्त विरिअतिगइयारा ॥ १० ॥ पण सम्मत्तंति—संका १
 कंखी यं २ तहा वितिगिच्छा ३ अन्नतित्थियपसंसा ४ । परतित्थि-
 ओवसेवण ५ अइयारा पंच सम्मत्ते ॥ ११ ॥ चयाइंति—पाणिवह

धनागारस्वरूपाणि कर्माणि । वाणिज्यानि च विपलाक्षादतरसकेश-
 विपयाणि ॥८०२॥ दवदानयत्रवाहानिर्लाञ्छनासतीपोपसहितानि ।
 सजलाशयशापाणि च कर्माणि भवन्ति पचदश ॥४०६॥ ज्ञानादि
 अष्टविध इति—काले विनये बहुमाने उपधाने तथा चानिद्वयने ।
 व्यजनाद्यतदुभये अष्टविधो ज्ञानाचार ॥४०७॥ नि शक्तो निष्का
 द्वितो निविचिकित्सोऽमूढदष्टिश्च । उपवृद्धा स्थिरीकरण वात्सल्य
 प्रभायना अष्ट ॥४०८॥ प्रणिधानयोगयुक्त पचभि समितिभि तिस्रु
 भिरगुप्तिभि । चरणाचारो विपरीतया त्रयाणामतिचारा ॥ ४०९ ॥
 द्वादश तपासीति—अशानमूनोदरिता वृत्ति० प्रायश्चित्त विनय ० ।
 सम्यगकरणे द्वादश तपोऽतिचारा त्रिक तु धीर्यस्य । मनोयाङ्गाया
 पापप्रयुक्ता धीर्यत्रिकातिचारा ॥४१०॥ पंच सम्यक्तये-शका वाक्षा च
 तथा विचिकित्साऽन्यतीर्थिकप्रशसा । परतीर्थिकोपसेवन अतिचा
 रा पच सम्यक्तये ॥४११॥ व्रतानि इति -प्राणिधयो मृपायाद ० ।

फोरड ज च न मगेड तम्म मद्दहणा । त्रिणिणा पन्नत्तं सद्दहमाणस्स
 पत्त (सम्म) चं ॥ ९८ ॥ पाणिग्रह १ मुमायाए २ अदत्त ३ मे-
 हण ४ परिग्रह ५ चेय । दिसि ६ भोग ७ टट्ट ८ समयय ९ वेसे
 १० तह पासह ११ त्रिभागे १२ ॥ ९९ ॥ लद्धट्टा गहियट्टा पुच्छि-
 यट्टा त्रिणिच्छियट्टा य । अहिगयजोयाईया अचालणिज्जा पवयणा-
 ओ ॥ ४०० ॥ सुत्ते अत्ये कुसला उवसग्गावयाए तहा कुसला । व-
 वहारभावकुसला पवयणकुसला उ छन्मेया ॥ ४०१ ॥ केसिपि
 सजयाणं केहिंपि गुणेहिं सावया अहिया । तम्हा ते देसजई इयरे
 उभएवि पव्वहा ॥ २ ॥ चउवीसमहियसय गिहिपडिक्कम-
 णाह्याराणत्ति—पण सलेहण ५ पन्नरस कम्म १५ नाणाइ अह
 पत्तेय २४ । वारस तव १० त्रिरियतिग ३ प्रण सम्म ५ वयाइ ६०
 पत्तेय ॥ ३ ॥ पण सलेहणत्ति—इहपरलोयाससप्पओग २ मरणं
 च ३ जीवियाससा ४ । कामे भोगे य तहा ५ मरणते पंच अइ-
 यारा ॥ ४ ॥ पन्नरस कम्मत्ति—भाडी १ फोडी २ साडी ३ वण

यत् शक्यते तत् क्रियते यच्च न शक्यते तस्य श्रद्धा । केवलित्ता
 प्रज्ञस्य श्रद्धधान प्रज्ञप्त (सम्यक्च) ॥ ३९८ ॥ प्राणिवधो मृषा
 वादोऽदत्त मैथुनं परिग्रहश्चैव । दिग् भागो दड सामायिकं देश
 स्तथा पोपधा विमाग ॥ ३९९ ॥ लब्धार्थं । गृहीतार्थां पृष्टार्थां वि-
 निश्चितार्थांश्च । अधिगतजीघादिका अचालनीया प्रवचनात् ॥ ४०० ॥
 सूत्रेऽर्थे कुशला उत्सर्गापवादके तथा कुशला । व्यवहारभाव
 कुशला प्रवचनकुशला पद्य पद्भेदा ॥ ४०१ ॥ केभ्यश्चित् संय
 तेभ्य कैश्चिदपि शुणै श्रावका अधिका । तस्मात् ते देशयतश्च
 इतरे उभयतोऽपि प्रप्रष्टा ॥ ४०२ ॥ चतुर्विंशत्यधिकशत गृहिप्रति
 क्रमणातिचाराणा-पंच सलेखनाया पचदश कर्मादानानि ज्ञाना-
 दिषु प्रत्येकमष्टौ द्वादश तपसि वीर्ये त्रिक सम्यक्त्वे पञ्च व्रतेषु
 प्रत्येक पञ्च ॥ ४०३ ॥ पच सलेखना इति—इहपरलोकाशसाप्र
 योगो मरणे च जीविते आशसा कामे भोगे च तथा मरणान्ते
 पंचातिचारा ॥ ४०४ ॥ पचदश कर्माणोति--भाडी स्फोटी शाटी

४ अंगारस्वरूपकम्माइं ५ । वाणिजाणि य विस ६ लवख ७ दंत-
 ८ रस ९ केस १० विसयाणि ११ ॥ ५ ॥ दवदाण ११ जंतवा-
 हण १२ निल्लउण १३ असइपोससहियाणि १४ । सजलासय-
 सोसाणि य १५ कम्माइ हवंति पन्नरस ॥ ६ ॥ नाणाई अट्टवि-
 हो—काले विणए बहुमाणुवहाणे तहय अनिण्हवणे । वंजण अत्थ
 तदुभए अट्टविहो नाणमायारो ॥ ७ ॥ निस्सकिय निकंखिय निवि-
 तिगिच्छा अमूढदिट्ठी अ । उववृह थिरीकरणे वच्छल्ल पभावणे अट्ट
 ॥ ८ ॥ पणिहाणजोगजुत्तो पचहिं समिईहिं तीह गुत्तीहिं । चर-
 णायारो विवरीययाए तिण्हपिं अइयारा ॥ ९ ॥ चारस तवत्ति-
 अणसणमूणोयरिया वित्ति० ॥ पायच्छित्तं विणओ० । सम्ममक-
 रणे चारस तवाइयारा तिग तु विरियस्स । मण १ वइ २ काया ३
 पावप्पजत्त विरिअतिगइयारा ॥ १० ॥ पण सम्मत्तंति—सका १
 कंखो यं २ तथा वितिगिच्छा ३ अन्नतित्थियपसंसा ४ । परतित्थि-
 ओवसेवण ५ अइयारा पंच सम्मत्ते ॥ ११ ॥ वयाइति—पाणिवह

धनागारस्वरूपाणि कर्माणि । वाणिज्यानि च विपलाक्षादतरसकेश-
 धिपयाणि ॥४०५॥ दवदानयत्रवाहानिर्लाछनासतीपोपसहितानि ।
 सजलाशयशोपाणि च कर्माणि भवन्ति पचदश ॥४०६॥ ज्ञानादि
 अष्टविध इति—काले विनये बहुमाने उपधाने तथा चानिद्ववने ।
 व्यजनार्थतदुभये अष्टविधो ज्ञानाचार ॥४०७॥ नि शक्तो निष्का
 द्वितो निर्विचिकित्सोऽमूढदष्टिश्च । उपवृद्धा स्थिरीकरण वात्सल्य
 प्रभायना अष्ट ॥४०८॥ प्रणिधानयोगयुक्त पचभि समितिभि तिस्रु
 भिर्युग्मिभि । चरणाचारो विपरीतया त्रयाणामतिचारा ॥ ४०९ ॥
 द्वादश तपासीति—अशानमूनोदरिता वृत्ति० । प्रायश्चित्त विनय ० ।
 सम्यगकरणे द्वादश तपोऽतिचारा त्रिक तु वीर्यस्य । मनोजाक्षाया
 पापप्रयुक्ता वीर्यत्रिकातिचारा ॥४१०॥ पंच सम्यक्तवे-शका वाक्षा च
 तथा धिचिकित्साऽन्यतीर्थिकप्रशसा । परतीर्थिकोपसेजन अतिचा
 रा पच सम्यक्तवे ॥४११॥ व्रतानि इति -प्राणिधधो मृपायाद ० ।

मुसायाए० पद्मयाए अइयारा नरतिरियाणऽन्नपाणजुन्तेओ ? । बंधो
 २ वदो य ३ अइभारारोपणं ४ तहय छविन्तेओ ५ ॥ १० ॥ सहसा
 फलंकदाणं ? रहदूमण २ दारमनमेद च ३ । तह कूटलेहकरण ४
 मुसोवएसो ५ मुसादोसा ॥ १३ ॥ चौराणीय ? चौरप्यओग २
 जं कूटमाणतुलकरण ३ । रिउरजववहारो ४ सरिसजुई ५ तइयत्रय-
 दोसा ॥ १४ ॥ भुंजइ इयरपरिग्गह ? मपरिग्गहिय २ धिय चउ-
 त्यवए । कामे तिबहिलासो ३ अणगकीला ४ परिग्गहो ५ ॥ १५ ॥
 जोएइ खित्तवत्थुणि ? रूपकणयाइ देइ सयणाण २ । धणध-
 द्धाइ परधरि वधइ ३ जा नियमपज्जंतो ॥ १६ ॥ दुपयाई गन्धि गाहेइ
 संजोएई य कुप्पसखं च । अप्पधण बहुमुल्ल करइ पंचमवए दोसा ॥ १७ ॥
 तिरिय ? अहो य २ उइठं ३ दिसिवयसखाअइक्कमे तिन्नि । दिसि-
 वयदोसा तह सइविम्हरण ४ खित्तयुइठी य ५ ॥ १८ ॥ अप्पक
 १ दुप्पक २ सच्चित्त ३ तह सच्चित्तपडिवद्ध ४ । तुच्छोसहिभक्ख-
 णय ५ दोसा उवभोगपरिभोगे ॥ १९ ॥ कुकुइय ? मोहरिय २

प्रथमव्रतेऽतिचारा नरतिरिश्चामन्नपानव्युच्छेद । बन्धो वधश्चाति
 भारारोपण तथा च छविच्छेद ॥ ४१२ ॥ सहसा कलकदान रहोदू-
 पण दारमन्नभेदश्च । तथा कूटलेखकरण मृषोपदेशो मृषादोषा
 ॥ ४१३ ॥ चौरानीत चौरप्रयोगो यत् कूटमानतुलाकरण । रिपु
 राज्यव्यवहार सहशयुति तृतीयव्रतदोषा ॥ ४१४ ॥ भुक्ते इत्वर
 परिगृहीता अपरिगृहीता स्त्रिय चतुर्थव्रते । कामे तीव्राभिलाषोऽनग-
 क्रीडा परविवाह ॥ ४१५ ॥ योजयति क्षेत्रवास्तूनि रूप्यकनकानि
 च ददाति स्वजनेभ्य । धनधान्यानि परगृहे वध्नाति यावत्
 नियमपर्यंत ॥ ४१६ ॥ द्विपदानि चतुष्पदानि गभ ग्राहयति कु-
 प्यसत्या च । अल्पधन बहुमूल्य करोति पंचमव्रते दोषा
 ॥ ४१७ ॥ त्रियगधश्चोर्ध्व दिग्ब्रतसरयातिक्रमे त्रय । दिग्ब्रत
 दोषास्तथा स्मृतिविस्मरण क्षेत्रवृद्धिश्च ॥ ४१८ ॥ अपक दुष्पक्
 सच्चित्त तथा सच्चित्तप्रतिबद्ध । तुच्छोपधिभक्षणता दोषा उपभो-
 गपरिभोगे ॥ ४१९ ॥ कौकुच्य मोखर्यं भोगोपभोगातिरेक्कदपों ।

भोगुवभोगाइरेग ३ कदप्पा ४ । जुत्ताहिगरण५मेए अइयारा-
ण थदडवए ॥ २० ॥ काय १ मणो २ वयणाणं ३ दुप्पणि-
हाण सईअकरणं च ४ । अणवद्वियकरण चिय ५ सामाइय पच अइ-
यारा ॥ २१ ॥ आणवण १ पेसवण २ सहणुराओ ३ सरूवअणु-
वाओ ४ । वहिपुगलपक्खेवो ५ दोसा देसावगासिस्स ॥२२॥ अ-
प्पडिलेहि १ अपमज्जिय च २ सिज्जाणि थडिलाणि तहा ४ । सम च
अणणुपालण ५ अइयारा पोसहे पच ॥ २३ ॥ सच्चित्ते निक्खिवण
१ सच्चित्तपिहण च २ अन्नववएसो ३ । मच्छरिय तह ४ कालाइयं
च ५ दोसाऽतिहिविभागे ॥२४॥ सड्ढपडिमाउत्ति—दसण १-
वय २ सामाइय ३ पोसह ४ पडिमा ५ अरभ ६ सच्चित्ते ७ । आरभ
८ पेस ९ उद्विह १० वज्जए समणभूए य ११ ॥ २५ ॥ साहम्मि-
याण वच्छल्लति—साहमियाण वच्छल्ल, कायव भत्तिनिग्भरं ।
विवाय कलह वज्जे, जओ सुत्ते वियाहिय ॥ २६ ॥ त अत्थं तं च
सामत्थ, विन्नाण च स उत्तम । साहमियाण कज्जमि, ज वच्चति सु-
युक्ताधिकरणमेते अतिचारा अनर्थदडव्रते ॥ ४२० ॥ कायमनो
वचनाना दुष्प्रणिधान स्मृत्यकरण च । अनवस्थितकरण सामा-
यिके पचैवातिचारा ॥ ४२१ ॥ आनन प्रेषण शब्दानुराग स्व
रूपानुपात वहि पुद्गलप्रक्षेप दोषा देशावकाशिकस्य ॥ ४२२ ॥
अप्रतिलेखितामप्रमार्जिता शय्या तथा स्थडिल च । सम्यक् चाननु-
पालनमतिचारा पोपये पच ॥ ४२३ ॥ सच्चित्ते निक्षेपण सच्चित्त
पिधान चान्यव्यपदेश । मात्सर्यं तथा कालातीत च दोषा अ-
तियिविभागे ॥ ४२४ ॥ थाद्धप्रतिमा इति—दर्शनव्रतसामायिक-
पौषधप्रतिमाऽत्रहमचित्तेषु । आरभप्रेण्योद्दिष्टयर्जक श्रमणभूतश्च
॥ ४२५ ॥ साधर्मिकाणा चात्मल्यमिति—साधर्मिकाणा या
त्सल्य कर्तव्य भक्तिनिर्भर । विनाद् कलह यर्जयेद् यत सूत्रे ध्या-
ख्यात ॥ ४२६ ॥ सोऽर्थं तद्य सामर्थ्यं विज्ञानं च तदुत्तम । साध

मृसायाए० पटमरए अइयारा नरतिरियाणऽन्नपाणजुन्डेओ ? । बंधो
 २ वहो य ३ अइमारारोपणं ४ तटय छपिडेओ ५ ॥ १२ ॥ सहसा
 फलंकदानं ? रहदूषण २ दारमनभेद च ३ । तट हूडलेखकरणं ४
 मृसोवएसो ५ मृसादोसा ॥ १३ ॥ चोराणीय ? चोरपपओग २
 जं कूटमाणतुलकरण ३ । रिउरज्जववहारो ४ मरिसजुई ५ तइयवय-
 दोसा ॥ १४ ॥ भुजइ इयरपरिगह ? मपरिगहिय २ यिय चउ-
 त्यवए । कामे तिहदिलासो ३ अणगकीला ४ परियाहो ५ ॥ १५ ॥
 जोएइ खित्तवत्थूणि ? रूपकणयाइ देइ सयणाण २ । घणघ-
 छाइ परघरि वधइ ३ जा नियमपज्जंतो ॥ १६ ॥ दुपयाइ गन्धि गाहेइ
 संजोएई य कुप्पसख च । अप्पधण बहुमुल्ल करोइ पचमवए दोसा ॥ १७ ॥
 तिरियं ? अहो य २ उइडे ३ दिसिवयसखाअइकमे तिन्नि । दिसि-
 वयदोसा तट सइविम्हरण ४ खित्तवुइढी य ५ ॥ १८ ॥ अप्पक
 ? दुप्पक २ सच्चित्त ३ तट सच्चित्तपडिवद्ध ४ । तुच्छोसहिभक्ख-
 णय ५ दोसा उवभोगपरिभोगे ॥ १९ ॥ कुकुइय ? मोहरिय २

प्रथमव्रतेऽतिचारा नरतिरञ्चामन्नपानव्युच्छेद । बन्धो वधञ्चाति
 भारारोपण तथा च छविच्छेद ॥ ४१२ ॥ सहसा कलंकदान रहोदू-
 षण दारमन्नभेदश्च । तथा कूटलेखकरण मृषोपदेशो मृषादोषा
 ॥ ४१३ ॥ चौरानीत चौरप्रयोगो यत् कूटमानतुलाकरण । रिपु-
 राज्यव्यवहार सहशयुति तृतीयव्रतदोषा ॥ ४१४ ॥ भुक्ते इत्वर
 परिगृहीता अपरिगृहीता स्त्रिय चतुथव्रते । कामे तीव्राभिलाषोऽनग-
 क्रीडा परविवाह ॥ ४१५ ॥ योजयति क्षेत्रवास्तूनि रूप्यकनकानि
 च ददाति स्वजनेभ्य । धनधान्यानि परगृहे बध्नाति यावत्
 नियमपयत ॥ ४१६ ॥ द्विपदानि चतुष्पदानि गभ ग्राहयति कु-
 प्यसरया च । अल्पधन बहुमूल्य करोति पंचमव्रते दोषा
 ॥ ४१७ ॥ तिर्यगधश्चोद्य दिग्व्रतसरयातिव्रमे त्रय । दिग्व्रत
 दोषास्तथा स्मृतिविस्मरण क्षेत्रवृद्धिश्च ॥ ४१८ ॥ अपक दुप्पक
 सच्चित्त तथा सच्चित्तप्रतिबद्ध । तुच्छोपधिभक्षणता दोषा उपभो-
 गपरिभोगे ॥ ४१९ ॥ कौकुच्य मौख्य भोगोपभोगातिरेक्कदपौ ।

जिणसुक्खतवत्ति—निवाणमंतकिरिया चउदसमेणं ६ पढमना-
 हस्स । सेसाण मासिएण वीरजिणिंढस्स छट्टेण ॥ ३४ ॥ जिणसु-
 क्खसाट्टणो त्ति—एगो भयवं वीरो तित्तीसाइ सह निव्वुओ पासो ।
 छत्तीसएहिं पचहिं सएहिं नेमी गओ सिद्धिं ॥ ३५ ॥ पचहिं समण-
 सएहिं मल्ली सती उ नवसएहिं तु । अट्टसएण वम्मो सएहिं छहि
 वासुपुज्जजिणो ॥ ३६ ॥ सत्तसहस्साणंतइजिणस्स विमलस्स छ-
 स्सहस्साइं । पंच सयाइं सुपासे पउमाभे तिन्नि अट्टसया ॥ ३७ ॥ दस
 य सहस्सेहिं उसभो सेसा उ सहस्सपरिवुडा सिद्धा । निवाणगमण-
 संखा एसा जिणसत्तसाहूण ॥ ३८ ॥ सुक्खट्टाणत्ति—अट्टावर्यमि
 उसभो सिद्धिगओ वासुपुज्ज चपाए । पावाए वद्धमाणो अरिट्टनेमी
 उ उज्जिते ॥ ३९ ॥ अवसेसा तित्थयरा जाइजरामरणबंधणविमुक्का ।
 सम्मेयसिलसिहरे वीस परिनिव्वुया वदे ॥ ४० ॥ सिद्धिगमणवे-

इति—निर्वाणमन्तक्रिया चतुर्दशमेन प्रथमनाथस्य । शेषाणा मा
 सिकेन वीरजिनेन्द्रस्य पट्टेन ॥ ४३४ ॥ जिनमोक्षसाधक -- एको
 भगवान् वीर त्रयस्त्रिंशता मह निर्द्वैत पार्श्व । पद्त्रिंशदधि
 के पचभि शतं नेमिगत सिद्धिं ॥ ४३५ ॥ पचभि श्रमणशतैर्मल्ली
 शान्तिस्तु नवभि शतैरेव । अष्टशत्या धर्म शतै पद्भि वासु-
 पूज्यजिन ॥ ४३६ ॥ सप्त सहस्राणि अनन्तजिनस्य विमलस्य प
 ट्टसहस्राणि । पच शतानि सुपार्श्वे पद्माभे त्रीणि (अधिकानि)
 अष्टभि शतानि ॥ ४३७ ॥ दशभिश्च सहस्रैरुपभ शेषास्तु सहस्रप-
 रिवृता सिद्धा । निर्वाणगमनसख्या एषा जिनसर्वसाधूना
 ॥ ४३८ ॥ मोक्षस्थानभित्ति—अष्टापदे ऋषभ सिद्धिं गतो वासु-
 पूज्य चपाया । पापाया यद्धमानोऽरिट्टनेमिस्तु उज्जयते ॥ ४३९ ॥
 अयशेषास्तीयकरान् जातिजरामरणग्रन्धनविमुक्तान् । सम्मेत
 शैलशिखरे विंशतिं परिनिर्द्वैतान् वन्दे ॥ ४४० ॥ सिद्धिगमन

सायया ! ॥ २७ ॥ महाणुभायेण गुणायरेण, वडरेण पुर्विं सुयसा-
यरेण । सुय मरतेण जिणुत्तमाणं, वच्छयतेण फय तु जम्हा ॥ २८ ॥
न फय दीणुद्धरण न कर्यं माहम्मियाण वच्छय । हिययमि वीयराओ
न धारिओ हारिओ जम्मो ॥ २९ ॥ जिणजग्गत्ति—जक्खा
गोमुह १ महजख २ विमुह ३ ईसर ४ सत्तुवरु ५ कुमुमो ६ । माय-
गो ७ विजया ८ जिय ९ वधो १० मणुओ ११ सुरकुमारो १२
॥ ३० ॥ छम्मूह १३ पयाल १४ किन्नर १५ गरुडो १६ गधव १७
तहय जक्खदो १८ । कूवर १९ वरुणो २० भिउडी २१ गोमेओ
२२ वामण २३ मयगो २४ ॥ ३१ ॥ जक्खिणिनामत्ति—दे-
वीओ चक्केसरि १ अजिया २ दुरियारि ३ कालि ४ महकाली ५ ।
सोमा ६ सता ७ जाला ८ सुतारया ९ सोय १० सिरिवच्छा
११ ॥ ३२ ॥ पवरा १२ विजय १३ कूसा १४ पन्नत्ति १५
निवाणि १६ अचुया १७ धरणी १८ । वइरुट्ट १९ दत्त २०
गधारि २१ अब २२ पउमावई २३ सिद्धा २४ ॥ ३३ ॥

मिकाणा कार्ये यद् व्रजन्ति सुध्रावका ! ॥ ४२७ ॥ महानुभावेन
गुणाकरेण, धज्जेण पूर्वे श्रुतसागरेण । श्रुत स्मरता जिनोत्त
माना वात्सल्यक तेन कृत तु यस्मात् ॥ ४२८ ॥ न कृत दीनो-
द्धरण न कृत साधमिकाणा वात्सल्य । हृदये धीतरागो न धारितो
हारित जन्म ॥ ४२९ ॥ जिनयक्षा इति—यक्षा गोमुखो महायक्ष
त्रिमुख इश्वर सत्तुवरु कुसुम । मातगो विजयोऽजितो ब्रह्मा म-
नुज सुरकुमार ॥ ४३० ॥ षण्मुख पाताल किन्नरो गरुडो गधर्व-
स्तथा च यक्षेन्द्र । कूवरो वरुणो भकुटी गोमेदो वामनो मातंग
॥ ४३१ ॥ यक्षिणोनामानीति—देव्य चक्केश्वरी अजिता दुरितारि
काली महाकाली । सोमा शान्ता ज्वाला सुतारकाऽशोका श्रीवत्सा
॥ ४३२ ॥ प्रवरा विजयाकुशा प्रज्ञतिर्निर्वाणिरच्युता धरणी । वैरोट्ठा
दत्ता गाधारी अम्बा पद्मावती सिद्धायिका ॥ ४३३ ॥ जिनमोक्षतपः

॥ चउवीसजिणकल्याणकस्थापना-

कार्तिक वदि कल्याणकानि

- ५ नाण सभवजिणस्स
- १२ जम्मो पउमप्पहस्स
- १२ नेमिजिणस्स चवण
- १३ दिक्खा पउमप्पहस्स
- १५ मोक्खो-वीरजिणस्स

कार्तिक सुदि कल्याणकानि

- १ सुविहिजिणनाण
- १२ अरजिणस्स नाण

मार्गसिर वदि कल्याणकानि

- ५ जम्मो सुविहिजिणस्स
- ६ दिक्खा सुविहिजिणस्स
- १० दीक्षा वीरजिनेन्द्रस्य
- ११ मुक्खो पउमप्पहस्स

मार्गसिर सुदि कल्याणकानि

- १० जम्मो अरस्स
- १० मुक्खो अरस्स
- ११ दीक्षा अरनाथस्य
- ११ नाण नमिस्स
- ११ जम्मो मल्लिस्स
- ११ दिक्खा मल्लिस्स
- ११ नाणं मल्लिस्स
- १४ जम्मो सभवस्स
- १५ दिक्खा सभवस्स

पोष वदि कल्याणकानि

- १० जम्मो पासस्स
- ११ दिक्खा पासस्स
- १२ जम्मो चंदप्पहस्स
- १३ दिक्खा चंदप्पहस्स
- १४ नाण सीयलस्स

पोष शुदि कल्याणकानि

- ६ विमलस्स नाण
- ९ नाण संतिस्स
- ११ नाणं अजियस्स
- १४ नाणं अभिनदणस्स
- १५ नाण धम्मनाहस्स

माघ वदि कल्याणकानि

- ६ चवण पउमप्पहस्स
- १२ जम्मो सीयलस्स
- १२ दिक्खा सीयलस्स
- १३ मुक्खो उतभस्स
- १५ नाण सेयसस्स

माघ सुदि कल्याणकानि

- २ नाण वासुपुजस्स
- २ जम्मो अभिनदणस्स
- ३ जम्मो विमलस्स
- ३ जम्मो धम्मस्स
- ४ दिक्खा विमलस्स
- ८ जम्मो अजियस्स
- ९ दिक्खा अजियस्स
- १० दिक्खा अभिनद०
- १३ दिक्खा धम्मस्स

लुत्ति—उसभोऽनिभोऽभिनन्दन सुमई सुपासो जिणो य चंद्राभो ।
 सीयल सेयमोऽपि य सिद्धिं पत्ता उ पुवण्हे ॥४१॥ सभवजिण पउ-
 माभो सुविही तट वासुपुज्जजिणचंदो । चत्तारिपि तित्ययरा मुक्ख
 पत्ता उ अउरण्हे ॥ ४२ ॥ विमलो य अणतजिणो सती कुयू य
 मल्लि मुणिसुवो । नेमी पासो पत्ता निवाणे पुवराईए ॥ ४३॥ धम्मो
 अरजिणपउमो नमी य वीरो य चरमतित्ययरो । सिद्धिं सपत्ता पुण
 चरमे भागे य रयणीए ॥ ४४ ॥ पचकल्याणिकनखत्तत्ति—
 उसभस्स उत्तरासाढा ४ अभिइ सिद्धो अजिय रोहिणि ४ मिगसिर
 मुक्खो ५ सभव मिगसिर ४ अद्दा सिद्धो ५ अभिणदणो पुणवस्स
 सुमई महा पउमप्पहो चित्ता सुपासो विसाहा चदप्पह अणुराहा ४
 जिट्ठा निवाण सुविही मूल सीयल पुवासाढा सिज्जस सवण ४
 धणिट्ठा मुक्खो वासुपुज्ज सयभिस ४ पुवभद्दवया मुक्खो विमल
 उत्तरभद्दवया अणत रेवई धम्मजिण पुस्सो सति भरणो कुथु
 कित्तिया अर रेवई मल्लिऽस्सिणि ४ भरणि मुक्खो मुणिसुवय सवण
 नमि अस्सिणि नेमि चित्ता पास विसाहा वीर उत्तरफग्गुणी ४ साइ

वेलेति—ऋषभोऽजितोऽभिनन्दन सुमति सुपाश्वो जिनश्च च
 द्राभ । शीतल श्रेयासोऽपि च सिद्धिं प्राप्तास्तु पूर्वाह्णे ॥ ४४१ ॥
 सभवजिन पद्माभ सुविधिस्तथा वासुपूज्यजिनचन्द्र । चत्वा
 रोऽपि तीर्थकरा मोक्ष प्राप्ता अपराह्णे ॥४४२॥ विमलश्चानन्तजि
 न शान्ति कुथुश्च मल्लिमुनिसुव्रतौ । नेमि पार्श्व प्राप्ता नि
 र्वाण पूर्वरान्नो ॥ ४४३ ॥ धर्मोऽरजिनपद्मो नमिश्च वीरश्च चरम-
 तीर्थकर । सिद्धिं सप्राप्ता चरमे भागे च रजया ॥ ४४४ ॥
 पचकल्याणकनक्षत्राणीति—ऋषभस्योत्तरावाढाऽभिजिति सिद्धो
 ऽजितस्य रोहिणी मृगशिरे मोक्ष , सभवस्य मृगशिरा
 आर्द्राया सिद्ध , अभिनन्दनस्य पुनर्वसव , सुमतेर्मघा , पद्मप्रभस्य
 चित्रा , सुपाश्वस्य विशाखा , चन्द्रप्रभस्यानुराधा ज्येष्ठाया निर्वाण,
 सुविधे मूल, शीतलस्य पूर्वावाढा श्रेयासस्य श्रवण धनिष्ठाया

ज्येष्ठ वदि कल्याणकानि

६ चवण सेपतस्म

८ जम्मो मुणिसुवयस्स

९ मुरूवो मुणिसुवयस्स

१३ मुरूवो सतिस्स

१३ जम्मो संतिस्स

१४ दिक्खा संतिस्स

ज्येष्ठ सुदि कल्याणकानि

५ मुरूवो धम्मस्म

९ चवणं वासुपुज्जस्स

१२ जम्मो सुपासस्स

१३ दिक्खा सुपासस्म

अषाढ वदि कल्याणकानि

४ चवण रिमहस्स

७ मुरूवो तिमलस्म

९ दिक्खा नमिस्स

अषाढ सुदि कल्याणकानि

६ चवण वीरस्स

८ मुरूवो नेमिस्स

१४ मुरूवो वासुपुज्जस्स

श्रावण वदि कल्याणकानि

३ मुरूवो सेयतस्म

७ चवण अणंतस्स

८ चवण नेमिस्स

९ चवणं कुमुम्म

श्रावण सुदि कल्याणकानि

७ चवणं सुप्रइस्म

५ जम्मो नेमिम्म

६ दिक्खा नेमिनायस्स

८ मुरूवो सुपासस्म

१० चवण मुणिसुवयस्स

भाद्रपदा वदि कल्याणकानि-

७ चवण सतिनायस्स

७ मुरूवो चंदप्पहस्स

८ चवण सुपासस्स

भाद्र पद सुदि कल्याणकानि

१४ मुरूवो सुविहिस्स

आसो वदि कल्याणकानि

१५ ज्ञानं नेमिनायस्स

आसो सुदि कल्याणकानि

१५ चवण नेमिनायस्स

इति कल्याणकानि.

७-१३-१०-१४-१५-१३-१७-१०-६-९-४-२=१२०

फागुण शनि कल्याणकानि

- ६ नार्ण सुपामम्म
- ७ मुग्गो सुपामम्म
- ७ नाण चत्थपहम्म
- ९ चरणं सुविहिस्स
- ११ नाण आदिजिणस्स
- १० जम्मो सिद्धंसम्म
- १० नाण सुवपस्स
- १३ दिक्खा सेयसस्स
- १४ जम्मो वामुपुज्जस्स
- १५ दीक्षा वामुपुज्जस्स

फागुण सुदि कल्याणकानि

- २ चवण अरजिणस्स
- ४ चवण मल्लिस्स
- ८ चवण सभवस्स
- १० मुखो मल्लिस्स
- १२ दिक्खा सुणिसुवयस्स

चैत्र वदि कल्याणकानि

- ६ चवण पामस्स
- ४ नाण पासस्स
- ५ चरण चत्थपहम्म
- ८ जम्मो रिसहस्स
- ८ दिक्खा रिसहस्स

चैत्र सुदि कल्याणकानि

- ३ नाण कुयुम्म

- ५ मुग्गो संभरम्म
- ८ दिक्खा अननस्स
- ९ मुग्गो अजियस्स
- ० मुग्गो सुमइम्म
- ११ नाण सुमइम्म
- १३ जम्मो वीरस्स
- १५ नाण पउमपहम्म

वैशाख वदि कल्याणकानि

- १ मुखो कुयुम्म
- २ दिक्खा सीयलस्स
- ५ दिक्खा कुयुम्म
- ६ चवण सीयलस्स
- १० मुखो नमिस्स
- १३ जम्मो अर्णतस्स
- १४ दिक्खा अर्णतस्स
- १४ नार्ण अणतस्स
- १४ जम्मो कुयुम्म

वैशाख सुदि कल्याणकानि

- ४ चवण अभिनदणम्म
- ७ चवण धम्मस्स
- ८ मुखो अभिनदणस्स
- ८ जम्मो सुमइम्म
- ९ दिक्खा सुमइम्म
- १० नाण वीरस्स
- १० चवण विमलम्म
- १३ चवण अजियस्स

ज्येष्ठ वदि कल्याणकानि

६ चवणं सेयसस्त

८ जम्मो मुणिसुवयस्स

९ मुक्खो मुणिसुवयस्स

१३ मुक्खो सतिस्स

१३ जम्मो संतिस्स

१४ दिक्खा संतिस्स

ज्येष्ठ सुदि कल्याणकानि

५ मुक्खो धम्मस्स

९ चवणं वासुपुज्जस्स

१२ जम्मो सुपासस्स

१३ दिक्खा सुपासस्स

अपाड वदि कल्याणकानि

४ चवण रिसहस्स

७ मुक्खो विमलस्स

९ दिक्खा नेमिस्स

अपाड सुदि कल्याणकानि

६ चवण वीरस्स

८ मुक्खो नेमिस्स

१४ मुक्खो वासुपुज्जस्स

श्रावण वदि कल्याणकानि

३ मुक्खो सेयंसस्स

७ चवण अणंतस्स

८ चवणं नेमिस्स

९ चवणं कुंथुस्स

श्रावण सुदि कल्याणकानि

२ चवणः सुमइस्स

५ जम्मो नेमिस्स

६ दिक्खा नेमिनाथस्स

८ मुक्खो सुपासस्स

१५ चवणं मुणिसुवयस्स

भाद्रवा वदि कल्याणकानि

७ चवणं सतिनाथस्स

७ मुक्खो चदप्पहस्स

८ चवणं सुपासस्स

भाद्र पद सुदि कल्याणकानि

१४ मुक्खो सुविहिस्स

आसो वदि कल्याणकानि

१५ ज्ञान नेमिनाथस्स

आसो सुदि कल्याणकानि

१५ चवण नेमिनाथस्स

इति कल्याणकानि.

फागुण वदि कल्याणकानि
 ६ नाणं सुपासस्म
 ७ मुखो सुपासस्म
 ७ नाण चद्रप्पहम्म
 ९ चवणं सुविहिस्स
 ११ नाण आदिजिणस्स
 १० जम्मो सिज्जंसस्स
 १२ नाणं सुवयस्म
 १३ दिक्खा सेयसस्स
 १४ जम्मो वासुपुज्जस्स
 १५ दीक्षा वासुपुज्जस्स

फागुण सुदि कल्याणकानि
 २ चवण अरजिणस्स
 ४ चवण मल्लिस्स
 ८ चवण सभवस्स
 १२ मुखो मल्लिस्स
 १२ दिक्खा सुणिसुवयस्स

चैत्र वदि कल्याणकानि

४ चवण पासस्स
 ४ नाण पासस्स
 ५ चवण चद्रप्पहस्स
 ८ जम्मो रिसहस्स
 ८ दिक्खा रिसहस्स

चैत्र सुदि कल्याणकानि

३ नाण कुथुस्स

५ मुखो संभवस्म
 ८ दिक्खा अनतस्स
 ५ मुखो अजियस्म
 ९ मुखो सुमइस्म
 ११ नाणं सुमइस्स
 १३ जम्मो वीरस्स
 १५ नाण पउमप्पहस्स

वैशाख वदि कल्याणकानि

१ मुखो कुथुस्स
 २ दिक्खा सीयलस्स
 ५ दिक्खा कुथुस्स
 ६ चवण सीयलस्स
 १० मुखो नमिस्स
 १३ जम्मो अणंतस्स
 १४ दिक्खा अणतस्स
 १४ नाण अणतस्स
 १४ जम्मो कुथुस्स

वैशाख सुदि कल्याणकानि

४ चवण अभिनदणस्स
 ७ चवण धम्मस्स
 ८ मुखो अभिनदणस्स
 ८ जम्मो सुमइस्स
 ९ दिक्खा सुमइस्स
 १० नाण वीरस्स
 १२ चवण विमलस्स
 १३ चवण अजियस्स

उपवासो १ आंबिलयं २ निविय १३ इको य दो य तेरस उ ।
 एकामणा य चुळसीइ ४ कळ्हागे होइ तवसंखा ॥ ५१ ॥
 मुणि ७ तेरस १३ दस १० चउदस १४ पनरस १५ तह तेरसेव
 १३ सत्तरस १७ । दस १० छ ६ नव ९ चउ ४ दो २ तह
 कत्तियाइ कळ्हाणय जिणाण ॥ ५२ ॥ जिणंतराइंति-अयराण

कोडि लक्खा पन्नामं २ तीस ३	५०००००००००००००
दस ४ य नव ५ चेव । कोडि सहस्सा	३०००००००००००००
नवई ६ नव य सहसा ७ नव सयाइ ८	१०००००००००००००
॥५३॥ नवई पुण कोडीओ कोडी नवई	२०००००००००००००
उ सागरसऊण । छावट्टो लक्खेहिं छवो-	२०००००००००००००
स सहस्स वरिसेहिं १० ॥५४॥ चउपन्न	१०००००००००००००

सागराइ ११ तीस १२ नव १३ चारि १४ तिन्रि ऊणाइ । पलि-
 यतिचउभागेहि १५ पलियद्ध १६ पलियचउभागो १७ ॥ ५५ ॥
 कोडिसहस्सूणा सा वरिसाणं त च अंतरमरस्स १८ । चउपन्न

उपवास आचामाम्ले निर्विभृत्तिकानि एकश्च द्वे च त्रयोदश च । ए
 कासनानि चतुरशीति कल्याणकेषु भवति तप सरया ॥ ४२१ ॥
 सप्त त्रयोदश दश चतुर्दश पचदश तथा त्रयोदशैव सप्तदश च ।
 दश षट् नव चत्वारि द्वे तथा च कार्तिकादिषु कल्याणकानि जि-
 नाना ॥ ४२२ ॥ जिनातराणीति—अतराणा कोटिलक्षा पंचाशत्
 त्रिंशद् दश द्वे च नव चैव । कोटिसहस्रा नवति नव च सहस्राणि
 नव शतानि । ४२३ ॥ नवति पुन कोटयो नवति कोटश्च साग
 रोपमशतोना । षट्षाट्लक्षे षट्षिंशतिसहस्रवर्ष ॥ ४२४ ॥ चतु-
 ष्षचाशत् सागरोपमाणि त्रिंशत् नव चत्वारि त्रीणि ऊनानि पादे-
 स्त्रिभि पल्यम्य पल्यार्धेन पल्यपादेन च न्यूनानि ॥ ४२५ ॥ कोटीसह
 स्रैरूनं यपाणा तश्चांतरमरस्य चतुष्षचाशद्र्षलक्षा षट् पंच च वर्ष

मुखागे ॥ ठाणागे ॥ सठाणत्ति—उद्धट्टाणट्टियाओ अट्टव पत्तियक-
 सट्टियाओवि । मुत्तिगईणं तेसिं जं तइय नत्तिय सठाण ॥ ४५ ॥
 उसभो अरिट्टेनेपी वीरो पत्तियकसट्टिया सिद्धा । अयसेसा तित्तियपरा
 उद्धट्टाणेण उ वयति ॥ ४६ ॥ विहरमाणजिणसरत्ति—उत्तिट्ट
 जहन्नेण संखा विहरतित्तियनाहाण । जम्मसमएत्ति सरत्ता उक्खिट्ट ज-
 हन्नया तेसिं ॥ ४७ ॥ सत्तरिसयमुओस जहन्न वीसा य दस य वि-
 हरंति । जम्म पइमुओस वोस दस हुत्ति उ जहना ॥ ४८ ॥ चउस-
 ट्टी तित्तियपरा धायईसडे य निव्वुया वंदे । चउसट्टी पुण वदे पुक्ख-
 रद्धे य दीवमि ॥ ४९ ॥ सोलस पुव्वविदेहे अवरविदेहे य सोलस
 य वदे । पचेव य पचेव य भरहे अइरावए वदे ॥ ५० ॥

मोक्ष , वासुपूज्यस्य शतभिषक् पूवभाद्रपदे मोक्ष , विमलस्य
 उत्तरभाद्रपदा , अनन्तस्य रेवती , धर्मजिनस्य पुष्य शान्ते
 भरणी , कुयो वृत्तिका , अस्य रेवती , मल्ले अश्विनी , भरण्या मोक्ष ,
 मुनिसुव्रतस्य श्रवण , नमे अश्विनी , नेमे चित्रा , पार्श्वस्य विशाखा ,
 धीरस्य उत्तराफाल्गुनी स्वातौ मोक्ष , ॥ स्थानागे ॥ सस्था
 नमिति—ऊर्ध्वस्थानस्थिता अथवा पर्यकसस्थिता अपि । मु
 क्तिगताना तेषा यत् तृतीय नास्ति सस्थान ॥ ४४२ ॥ ऋषभोऽरि
 ष्टनेमिर्वीर पर्यकसस्थिता सिद्धा । अघशोपास्तीर्थकरा ऊर्ध्व
 स्थानेन तु व्रजिता ॥ ४४६ ॥ विहरमानजिनसरयेति—
 उत्कर्षेण जघन्येन सरया विहरत्तीथनाथानाम् । जन्मसमये
 ऽपि तेषा सख्योत्कृष्टतो जघन्यत ॥ ४४७ ॥ सप्ततिशत उत्क
 र्षत जघन्यतो विंशतिश्च दश च विहरति । जन्म प्रति
 उत्कर्षतो विंशतिदश भवन्ति तु जघन्यात् ॥ ४४८ ॥ चतु-
 षष्टि तीर्थकरान् धातकीखडे च निर्बृतान् घन्दे । चतु षष्टि पुनर्बन्दे
 पुष्करार्द्धे च द्वीपे ॥ ४४९ ॥ षोडश पूवविदेहेषु अपरविदेहेषु च
 षोडश च घन्दे । पचैव च पचैव च भरते पराघते घन्दे ॥ ४५० ॥

उवत्रासो १ आंत्रिलयं २ निव्विय १३ इको य दो य तेरस ७ ।
 एकासणा य चुञ्जसोइ ४ कल्लागे होइ तवसंखा ॥ ५१ ॥
 मुणि ७ तेरस १३ दस १० चउदस १४ पनरस १५ तह तेरसेव
 १३ सत्तरस १७ । दस १० छ ६ नव ९ चउ ४ दो २ तह
 कत्तियाइ कल्लणय जिणाण ॥ ५२ ॥ जिणंतराइति-अयराण

कोडि लक्खा पन्नासं २ तीस ३
 दस ४ य नव ५ चेव । कोडि सहस्सा
 नवई ६ नव य सहसा ७ नव सयाई ८
 ॥५३॥ नवई पुण कोडीओ कोडी नवई
 उ सागरसऊण । छावट्टो लक्खेहिं छवो
 स सहस्स वरिसेहिं १० ॥५४॥ चउपन्न

५०००००००००००००००
३०००००००००००००००
१०००००००००००००००
९००००००००००००००
९००००००००००००००
९००००००००००००००
९००००००००००००००

सागराइ ११ तीस १२ नव १३ चारि १४ तिननि ऊणाइं । पलि-
 यतिचउभागेहि १५ पलियद्ध १६ पलियचउभागो १७ ॥ ५५ ॥
 कोडिसहस्सूणा सा वरिसाण तं च अतरमरस्स १८ । चउपन्न

उपवास आचामाम्ले निर्विद्वृत्तिकानि एकञ्च द्वे च त्रयोदश च । प
 कामनानि चतुरशीति कल्याणकेषु भवति तप सरया ॥ ४२१ ॥
 सप्त त्रयोदश दश चतुर्दश पचदश तथा त्रयोदशैव सप्तदश च ।
 दश षट् नव चत्वारि द्वे तथा च कार्तिकादिषु कल्याणकानि जि
 नाना ॥ ४२२ ॥ जिनातराणीति-अतराणा कोटिलक्षा पंचाशत्
 त्रिंशद् दश द्वे च नव चैव । कोटिसहस्रा नवति नव च सहस्राणि
 नव शतानि । ४२३ ॥ नवति पुन कोटयो नवति कोटय साग
 रोपमशतोना । षट्पाण्डलक्षै षट्त्रिंशतिमहस्रघर्ष ॥ ४२४ ॥ चतु
 ष्पचाशत् सागरोपमाणि त्रिंशत् नव चत्वारि त्रीणि ऊनानि पादे-
 स्त्रिभि पल्यस्य पल्यार्धेन पल्यपादेन च न्यूनानि ॥ ४२५ ॥ कोटीसह
 स्रैरुनं घषाणा तथा अतरमरस्य चतुष्पचाशद्दर्पलक्षा षट् पंच च घर्ष

वरिस लक्खा १९ छ २० प्पच १५ वरिस लक्खाई २१ ॥ ५६ ॥
 तेयासी य सहस्ता सत्त सयाइ उपरि पन्नास २२ । नेमिस्स-
 तरमेय पासस्सऽद्दाइयसयाइ २३ ॥ ५७ ॥ उत्तभजिणाओ वीरो
 जाओ अयराण कोटिकोटीओ । वायालीस सहस्सेहि नयरि व-
 रिसाण ऊणाए ॥ ५८ ॥ तित्थवुच्छेउत्ति—पुरिमतिमअट्टट-
 रेसु तित्थस्स नत्थि वुच्छेओ । मज्झिणएसु सत्तसु इत्थियकाल तु
 वुच्छेओ ॥ ५९ ॥ चउभागो चउभागो तिन्नि य चउभाग पलिय
 चउभागो । तिन्नेव य चउभागा चउत्थभागो य चउभागो ॥ ६० ॥
 अट्ट महापाडिहेराइति—किंकिळी १ कुसुमवुट्ठी २ दिवड्ढणी
 ३ चामरा ४ ऽऽसणाइ च ५ । भामडल ६ भेरि ७ छत्त ८ जयति जि
 णपाडिहेराइ ॥ ६१ ॥ दोसा अट्टारसत्ति—अन्नाण १ कोह २
 मय ३ माण ४ लोह ४ माया ६ रई य ७ अरई य ८ । निद्दा ९ सोय
 १० अलियवयण ११ चोरिया १२ मच्छर १३ भया य १४ ॥ ६२ ॥

लक्षा ॥ ४५६ ॥ त्र्यशीतिसहस्राणि सप्त शतानि उपरि च पंचा
 शत् । नेमिनोऽन्तरमेतत् पार्श्वस्यार्धतृतीयशतानि ॥ ४५७ ॥ ऋ
 पभजिनाद् धीरो जात अतराणा कोटाकोदया । द्वाचत्वारिंश
 त्सहस्रै नवर वर्षाणा ऊनाया ॥ ४५८ ॥ तीर्थव्युच्छेद इति—पुरि
 मान्तिमाथाथान्तरेषु तीर्थस्य नास्ति व्युच्छेद । मध्येषु सप्तसु पता
 वत्काल तु व्युच्छेद ॥ ४५९ ॥ चतुर्भाग चतुर्भाग त्रयश्च चतुर्भाग
 पल्यचतुर्भाग । त्रय एव च चतुर्भागाश्चतुर्भागश्च चतुर्भाग ॥ ४६० ॥
 अष्ट महाप्रातिहार्याणि—कुसुमवृष्टिर्दिव्यध्वनि चामरमासनानि
 च । भामडल दुदुभि छत्र जयति जिनप्रातिहार्याणि ॥ ४६१ ॥
 दोषा अष्टादशेति—अज्ञान क्रोधो मदो मान माया लोभो रतिश्चार
 तिश्च । निद्रा शोकोऽलिकवचन चौयः मत्सरभये च ॥ ४६२ ॥ प्राणि

पाणिवह १५ पेमकीला १६ पसंग १७ हासा य १८ जस्स ए दोसा ।
 अट्टारस वि पणट्ठा नमामि देवाहिदेव त ॥ ६३ ॥ अच्चेराण र
 दसगति—उवसग्ग १ गवभहरण २ इत्थीतित्थ ३ अभाविया परिसा
 ४ । कण्हस्स अवरकंका ५ अवयरण चदसूराण ६ ॥ ६४ ॥ हरिव-
 सकुलुप्पत्ती ७ चमरुपाओ य ८ अट्टसय सिद्धा ९ । अस्सजयाण
 पूआ १० दसवि अणत्तेण कालेण ॥ ६५ ॥ सिरिरिसहसीयलेसुं
 इक्किक्क मल्लिनेमिणाहे य । वीरजिणिंदे पच उ एग सव्हेसु पाएण
 ॥ ६६ ॥ रिसहे अट्टहियसयं सिद्धं सीयलजिणमि हरिवसो । ने-
 मिजिणेऽवरककागमण कण्हस्स सपत्त ॥ ६७ ॥ इत्थीतित्थं मल्ली
 पूआ अस्सजयाण नवमजिणे । अवसेसा अच्चेरा वीरजिणिंदस्स
 नित्थमि ॥ ६८ ॥ आसन्नो य पओगा वीरत्तवत्ति—सर्वं च तवो-
 कम्म अपाणय आसि वीरनाहस्स । छच्चउतिदुगेगमासे एगनव दुच्छक
 वारस अकासी । दो दो दिवडेऽड्ढाइयमासे वावत्तरी पक्खे ॥ ६९ ॥

वध प्रेम श्रीडाप्रमगो हास्य यस्यैते दोषा । अष्टादशापि प्रणष्टा
 नमामि देवाधिदेव त ॥ ४६३ ॥ आश्रयाणा च दशकमिति—उप
 सर्ग गर्भहरण द्वितीर्थमभाविता पपद् । कृष्णस्यापरककाऽय
 तरण चन्द्रसूर्ययो ॥ ४६४ ॥ हरिश्शकुलोत्पत्ति चमरोत्पाद-
 श्राष्टशतसिद्धि असयताना पूजा दशापि अनन्तेन कालेन ॥ ४६५ ॥
 श्रीश्रुपभशीतलयो एकैक मल्लो नेमिनाथे च । वीरजिनेन्द्रे पच
 तु पक सर्वेषु प्रायेण ॥ ४६६ ॥ ऋषभेऽष्टाधिकशत सिद्धा शीत
 लजिने हरिश्श । नेमिजिनेऽपरककागमन कृष्णस्य सप्राप्त
 ॥ ४६७ ॥ श्रीतीर्थ मल्ली (जिने) पूजाऽसयताना नवमजिने । अ
 धशेषाणि आश्रयाणि वीरजिनेन्द्रस्य तीर्थं ॥ ४६८ ॥ आसन्नश्च
 प्रयागात् वीरतप इति—सर्वं च तपश्चर्म अपानकमासीद् वीरस्य
 पट्चतुस्त्रिंशत्येकमासी (क्रमेण) पश्चा नय छे पद् द्वादश
 अकार्षीत् । छे छे सार्धद्व्यर्धमासी द्वास्तसति मक्षत् ॥ ४६९ ॥

वरिस लक्खा १९ छ २० पंचाय वरिस लक्खाई २१ ॥ ५६ ॥
 तेयासी य सदस्सा सत्त सयाइ उवरि पन्नास २२ । नेमिस्स-
 तरमेय पासस्सऽद्दाडयसयाइ २३ ॥ ५७ ॥ उत्तभजिणाओ वीरो
 जाओ अयराण कोटिकोटीओ । वायालीस सहस्सेहिं नवरि व-
 रिसाण ऊणाए ॥ ५८ ॥ तित्थवुच्छेउत्ति—पुरिमतिमअद्वट्ठ-
 रेसु तित्यस्स नत्थि वुच्छेओ । मज्झिअणसु सत्तसु उत्तियकाल तु
 वुच्छेओ ॥ ५९ ॥ चउभागो चउभागो तित्थि य चउभाग पलिय
 चउभागो । तित्थेव य चउभागा चउत्थभागो य चउभागो ॥ ६० ॥
 अट्ट महापाडिहेराइति—किंकिळी १ कुसुमवुट्ठी २ दिद्वण्णी
 ३ चामरा ४ ऽऽसणाइ च ५ । भामडल ६ भेरि ७ छत्त ८ जयति जि
 णपाडिहेराइ ॥ ६१ ॥ दोसा अट्टारसत्ति—अन्नाण १ कोह २
 मय ३ माण ४ लोह ४ माया ६ रई य ७ अरई य ८ । निद्दा ९ सोय
 १० अलियवयण ११ चोरिया १२ मच्छर १३ भया य १४ ॥ ६२ ॥

लक्षा ॥ ४५६ ॥ त्र्यशीतिसहस्राणि सप्त शतानि उपरि च पंचा
 शत् । नेमिनोऽन्तरमेतत् पार्श्वस्यार्धतृतीयशतानि ॥ ४५७ ॥ ऋ
 पभजिनाद् वीरो जात अतराणा कोटाकोद्या । द्वाचत्वारिंश
 त्सहस्रै नवर वर्षाणा ऊनाया ॥ ४५८ ॥ तीर्थव्युच्छेद इति—पुरि
 मान्तिमाष्टाष्टान्तरेषु तीर्थस्य नास्ति व्युच्छेद । मध्येषु सप्तसु पता
 वत्काल तु व्युच्छेद ॥ ४५९ ॥ चतुर्भाग चतुर्भाग प्रयश्च चतुर्भाग
 पल्यचतुर्भाग । अय एव च चतुर्भागाश्चतुर्भागश्च चतुर्भाग ॥ ४६० ॥
 अष्ट महाप्रातिहार्याणि—कुसुमवृष्टिर्दिव्यध्वनि चामरमासनानि
 च ॥ भामडल बुदुभि छत्र जयन्ति जिनप्रातिहार्याणि ॥ ४६१ ॥
 दोषा अष्टादशेति—अज्ञान क्रोधो मदो मान माया लोभो रतिश्चार
 तिश्च । निद्रा शोकोऽलिक्वचन चौर्य मत्सरभये च ॥ ४६२ ॥ प्राणि

रुसन्ति—भीमावलि १ जियसत्तू २ भद्रो ३ विस्साहलोय ४ सु-
 पइट्ठो ५ । अचलो य ६ पुडरीओ ७ अजियधर ८ अजियनाहो य ९
 ॥ ७३ ॥ पेढालुच्चिय दसमो १० इक्कारसमो य सच्चइसुयत्ति ११ । एए
 रुद्धनामा इक्कारस हुति अगहरा ॥ ७४ ॥ भीमावली उउसमे १ जि-
 यसत्तू होइ अजियतित्थमि २ । सुविहियाइसु रुद्धा ८ पेढालो सति-
 पेस्तो ॥ ७५ ॥ सच्चइसुओ य रुद्धो बोद्धवो वद्धमाणतित्थमि । एए
 रुद्धा सवे भणिया दसमंमि पुव्वमि ॥ ७६ ॥ वीरवद्धतित्थत्ति—से-
 णिय सुपास पुट्टिल उदाइ सखे दढायु सयगे य । रेवइ सुलसा वीरस्स
 वद्धतित्थत्तणा नव उ ॥ ७७ ॥ सेणिउ पसिद्धो सुपासो वीरजिण-
 पिइअः पुट्टिलो वीरसिस्सो उदाइ कोणिकसुय' दढाऊ य अपसि-
 द्धः सखसतकौ वीरश्रावकौ सुलसारेवत्यौ श्राविके च अपच्छिओ
 उदायणसिरि (रायरिसी) । अओ परं वद्धमउडा न पवइस्सति

इति—भीमावली जितशत्रु भद्रो विश्वाहलश्च सुप्रतिष्ठ । अचलश्च
 पुडरीकोऽजितधरोऽजितनाथश्च ॥ ४७३ ॥ पेढाल एव दशम ए
 कादशश्च सत्यकिसुत इति । एते रुद्रनामान एकादश भवन्ति
 अग (विद्या) धरा ॥ ४७४ ॥ भीमावली तु ऋषभे जितशत्रुरभवत्
 अजिततीर्थं सुविध्यादिषु रुद्रा पेढालाद्या शान्तिपर्यन्तेषु ॥ ४७५ ॥
 सत्यकिसुतश्च रुद्रो बोद्धव्यो घर्द्धमानतीर्थे । एते रुद्रा सर्वे
 भणिता दशमे पूर्वे ॥ ४७६ ॥ वीर (तीर्थे) वद्धतीर्थकृत्या इति-
 श्रेणिक सुपार्श्वे पोट्टिल उदायी शखो दढायु शतकश्च । रेवती
 सुलसा वीरस्य (तीर्थे) वद्धतीर्थकृत्या नवव ॥ ४७७ ॥ श्रे-
 णिक प्रसिद्ध सुपार्श्वे वीरजिनपितृय पोट्टिल वीरशिष्य
 उदायी कोणिकसुत दढायुश्च अपसिद्ध अपश्चिम श्रीउदा-
 यनो राजर्षि अत पर वद्धमुकुटा न प्रव्रजिष्यन्ति । पद च

दुचवदसदिणा पट्टिमा भद्द महाभद्द सवओमद्दा । वारसअट्टम
 तह वारसेगराई तिदेउमिया ॥ ७० ॥ पचट्टिणूग छमासिय खरण
 फोसविप तु तमकासि । दुत्ति सपग्गुणतीसे अकासि त छट्टखमणाण
 ॥७१॥ दिवमूणाऽद्दसया पारणया पढमवयट्टिण चेग । उय तेरस
 पक्खादिय वारसवरिसावसाण ते ॥७२॥ यच्च ॥ इक्कारस रुद्धपु

श्रीरीरकृततपःस्थापना लिख्यते ॥

पाण्मासिक ? पारणादिन ? मा० ६

पचदिणूणपण्मासिक पा० ? मास ५ दिन २५

चउमासीय ९ पारणा ९ मास ३६

तिमासीय २ पारणा २ मास ६

दुमासीय ६ पारणा ६ मास १२

एकमासीय १२ पारणा १२ मास १२

अद्धमासीय ७२ पारणा ७२ मास ३६

दिवडमासीय २ पारणा २ मास ३

अद्धाइयमासीय २ पारणा २ मास ५

अठमतप १२ पारणा १२ दिन ३६

छठतप २२९ पारणा २२९ मास १५ दिन ८

भद्रप्रतिमा दिन २, महाभद्रप्रतिमा दिन ५

सर्वतोभद्रप्रतिमा दिन १० अन्विता

एगसरा कृत्वा पारयति अतः पारणक ? दिन १६

एव तपोदिन वर्ष ? १ मास ६ दिन २५

पारणकदिनानि एकरात्रिकी-प्रतिमादिन ? पारणा ? दिन

एवतपादि वर्ष ? १ मास ६ दिन २५ पारणक त्रत दिनेन मह
 ३५० पारणकदिनानि एव सर्वं मोलने वर्ष ? २ मास ६ दिन ? ५

द्विचतुदशदिनी प्रतिमा भद्रामहाभद्रासर्वतोभद्रा । अष्टमान्
 द्वादश तथा द्वादशीं एकरात्रिकीं त्रिदैवतिका ॥ ४७० ॥ पच
 दिनेनपाण्मासिकक्षपण कोशाव्यो त्वमकार्षी । द्वे शते एकोन
 त्रिंशतमकार्षी त्व घट्टक्षपणाना ॥ ४७१ ॥ दिवसोतान्यध्युष्ट
 शतानि पारणकानि प्रथमव्रतदिन चेक । इति त्रयोदशपक्षा
 धिकद्वादशवर्षावसान ते ॥ ४७२ ॥ पक्कावश रुद्रा परमभ्राज्जा

रुसत्ति—भीमावलि १ जियसत्तू २ भद्रो ३ विस्साहलोय ४ सु-
 पइट्टो ५ । अचलो य ६ पुंडरीओ ७ अजियधर ८ अजियनाहो य ९
 ॥ ७३ ॥ पेढालुच्चिय दसमो १० इकारसमो य सच्चइसुयत्ति ११ । एए
 रुदनामा इकारस हुति अगहरा ॥ ७४ ॥ भीमावली उ उसमे १ जि-
 यसत्तू होइ अजियतित्थंमि २ । सुविहियाइसु रुदा ८ पेढालो सति-
 पेरतो ॥ ७५ ॥ सच्चइसुओ य रुदो बोद्धवो वद्धमाणतित्थमि । एए
 रुदा सवे भणिया दसमंमि पुव्वमि ॥ ७६ ॥ वीरवद्धतित्थत्ति—से-
 णिय सुपास पुट्टिल उदाइ सखे दढायु सयगे य । रेवड सुलसा वीरस्स
 वद्धतित्थत्तणा नव उ ॥ ७७ ॥ सेणिउ पसिद्धो सुपासो वीरजिण-
 पिइज्जः पुट्टिलो वीरसिस्सो उदाइ कोणिकसुयः दढाऊ य अपसि-
 द्धः संखसतकौ वीरश्रावकौ सुलसारेवत्यौ श्राविके च अपच्छिप्रो
 उदायणसिरि (रायरिसी) । अओ परं वद्धमउडा न पवइस्सति

इति—भीमावली जितशत्रु भद्रो विश्वाहलश्च सुप्रतिष्ठ । अचलश्च
 पुंडरीकोऽजितधरोऽजितनाथश्च ॥ ७३ ॥ पेढाल एव दशम ए
 कादशश्च सत्यकिसुत इति । एते रुद्रनामान एकादश भवन्ति
 अग (त्रिधा) धरा ॥ ७४ ॥ भीमावली तु ऋषभे जितशत्रुरभवत्
 अजिततीर्थं सुविध्यादिषु रुद्रा पेढालाद्या शान्तिपर्यन्तेषु ॥ ७५ ॥
 सत्यकिसुतश्च रुद्रो बोद्धव्यो वद्धमानतीर्थं । एते रुद्रा सर्वे
 भणिता दशमे पूर्वे ॥ ७६ ॥ वीर (तीर्थ) वद्धतीर्थकृत्वा इति—
 श्रेणिक सुपार्श्वं पोट्टिल उदायी शखो दढायु शतकश्च । रेवती
 सुलसा वीरस्य (तीर्थ) वद्धतीर्थकृत्वा नवव ॥ ७७ ॥ श्रे
 णिक प्रसिद्धं सुपार्श्वं वीरजिनपितृय पोट्टिल वीरशिष्य
 उदायी कोणिकसुत दढायुश्च अपसिद्ध अपश्चिम श्रीउदा
 यनो राजपि अत पर वद्धमुकुटा न प्रव्रजिष्यन्ति । पद घ

उच्च खलना वीरस्य-अप्रीतिमत्यघग्रहे निवसन ? निर्वै कोसङ्का
 २ मोगेण ३ । पाणीपत्त ४ गिदिगणय च ५ त्तिन्नं च वन्यदे ६ ॥७८॥
 धीरोयमग्गजात्तांति—उत्तिट्ठमि सप्तदहत्ताग उत्रसग्गयाण
 अग्गया । सल्लुद्धारो कालात्त कत्तूयणामीय ॥७९॥ दस प-
 मसङ्गत्ति—आणंठ १ कामदेवे २ चुलणिपिया ३ तह चउत्त सु-
 देवे ४ । चुल्लसय ५ बुटकोलिय ६ सहालपुत्ते ७ महासयगे ८ ॥८०॥
 नदणपिया ९ [चुल्लणिपिया] साल्लइपिया १० इकारस पडिमका
 रिणो रिद्धा वीमसम उवासगाण नामा खल्लु हुति नायवा ॥८१॥
 आनंदमहासयगयोरवधिज्ञान । शेषाणा च न ॥ चेट्ठगपरमसङ्गस्स
 सत्त धूयत्ति—रुमसो तस्स पभावइ तह पउमावइ मिगावईदेवी ।
 सिव जिह्व मुजिह्व चिल्लणत्ति तस्सेव धूयाओ ॥ ८२ ॥ गोय-

खलना धीरस्येति-अप्रीतिमत्यघग्रहे निवसन नित्य व्युत्सृ
 प्क्षाय मौनेन (स्थान) पाणिपात्र गृहिधन्दनक च दत्त च
 घस्त्राद्ध ॥ ४७८ ॥ धीरोपसर्गा जघन्यादय इति—उत्कृष्टमध्यम
 जघन्यकानामुपसर्गाणा अतिगुरुका । शल्योद्धार कालचक्र
 कटपूतनाशीत ॥ ४७९ ॥ दश परमथाद्धा इति—आनन्द का
 मदेव चुलणिपिता तथा चतुर्थ सुरदेव । चुल्लशतक कुडको
 लिक सहालपुत्रो महाशतक ॥ ४८० ॥ नन्दनपिता सालकि
 पिता एकादशमतिमाकारिण क्रुद्धा । विंशति सप्ता उप्पस
 खाना नामानि भवन्ति ज्ञातव्यानि ॥ ४८१ ॥ आनन्दमहाशत
 कयोरवधिज्ञान शेषाणा च न । चेट्ठकस्य परमथाद्धस्य सत्त पुञ्य
 इति—क्रमश तस्य प्रभावती तथा पद्मावती मृगावती देवी । शिवा
 ज्येष्ठा सुज्येष्ठा चिल्लणेति तस्यैव पुञ्य ॥ ४८२ ॥ गौतमावयो

श्रीद्रु भूति शिव ५००	अग्नि भू० शि० ५००	वायु भू० शि० ५००	व्यक्तजी शि० ५००	सुधर्म शि० ५००	मण्डिय शि० ३५०	मौरियशि० १५०	शिष्य ३००	१११
गृहस्थपर्या- य वर्ष ५०	गृहस्थ प० वर्ष ६६	गृह० प० वर्ष ४२	गृ० प० वर्ष ५०	गृ० पर्या० वर्ष ५०	गृ० प० वर्ष ५३	गृह० प० वर्ष ६५	गृह० पर्या० वर्ष ४८	गृहस्थ प० वर्ष ४६
छत्रस्थपर्या य वर्ष ३०	छ० प० वर्ष १२	छ० प० वर्ष १०	छ० प० वर्ष १२	छ० प० वर्ष ४२	छ० प० वर्ष १४	छ० पर्या० वर्ष १४	छ० पर्या० वर्ष ९	छत्र० प० वर्ष १२
केवलपर्या- य वर्ष १२	के० प० वर्ष १६	के० प० वर्ष १८	के० प० वर्ष १८	के० प० वर्ष ८	के० प० वर्ष १६	केवल प० वर्ष १६	केवल प० वर्ष २१	केवल प० वर्ष १६
सर्वायु वर्ष ९२	सर्वायु वर्ष ७४	सर्वायु वर्ष ७०	सर्वायु वर्ष ८०	सर्वायु वर्ष १००	सर्वायु वर्ष ८३	सर्वायु वर्ष ९५	सर्वायु वर्ष ७८	सर्वायु वर्ष ७२

मेतार्य शि० ३००	प्रभास शि० ३००	प्य ३००
गृहस्थ पर्या य वर्ष ३६	गृहस्थ पर्या य वर्ष १६	य वर्ष १६
छत्र० प० वर्ष १०	छ० प० वर्ष ८	छ० प० वर्ष ८
केवल प० वर्ष १६	केवल प० वर्ष १६	केवल प० वर्ष १६
सर्वायु वर्ष ६२	सर्वायु वर्ष ४०	सर्वायु वर्ष ४०

गणधरा इति—एकादशापि वीरस्य गणधरा इन्द्रभूतिप्रसुगा ।
 द्वात्रिंशत्सुवर्षा यनुदेशविद्याधिपा म२ ॥ २८३ ॥ प्रथमा पच
 पचशत्या द्वौ अध्युष्ट चत्वारिंशत्या छात्रे (मह) द्वितीय-
 समवसरणे वीरेण दीक्षिता गात्ररगामे ॥ २८४ ॥ चरमसम

माइगणहरति—एगारसवि वीरसस गणधरा इन्द्रभूइप्रसुहाइ ।
 वंभणकुलोववद्वा चउदसविज्जाहिवा सवे ॥ ८३ ॥ पढमा
 पण पंचसया दो अध्युष्ट चउ तिसय छत्ताण । वीओसरणे वीरेण
 द्वित्रिसया गुब्बरगामे ॥ ८४ ॥ नव गणधरा वीरे विद्यमानेऽपि मो-
 क्ष गताः ॥ चरिमसमवसरणति—इथावसरम्मि जिणो चत्तारि

छत्र खलणा वीरस्य—अचियत्तुगह निवसन १ निर्ध्वं वोसट्टकाय
 २ मोगेण ३ । पाणीपत्त ४ गिहिंणटणय च ५ दिन्नं च वत्थद्धं ६ ॥७८॥
 वीरोवसग्गजहत्ताइंति—उत्तिट्टमिस्समजहत्ताण उवसग्गयाण
 अउगरुया । सल्लुद्धारो कालचक्र कटपूयणासीय ॥७९॥ दस पर
 मसद्धत्ति—आणद १ कामदेवे २ चुलणिपिया ३ तह चउत्थ सुर-
 देवे ४ । चुल्लसय ५ कुडकोलिय ६ सहालपुत्ते ७ महासयगे ८ ॥८०॥
 नदणपिया ९ [चुल्लणिपिया] सालइपिया १० इकारस पडिमका-
 रिणो रिद्धा वीससम उवासगाण नामा खल्लु हुति नायवा ॥८१॥
 आनदमहासयगयोरवधिज्ञान । शेपाणा च न ॥ चेट्ठकपरमसद्धस्स
 सत्त धूयत्ति—रुमसो तस्स पभावइ तह पउमावइ मिगावईदेवी ।
 सिव जिह्व सुजिह्व चिल्लणत्ति तस्सेव धूयाओ ॥ ८२ ॥ गोय-

स्वलना वीरस्येति—अप्रीतिमत्यधग्रहे निवसन नित्य व्युत्सृ
 ट्टकाय मौनेन (स्थान) पाणिपात्र गृह्णन्धनक च दत्त च
 वस्त्राद्ध ॥ ४७८ ॥ वीरोपसर्गा जघन्यादय इति—उत्कृष्टमध्यम
 जघन्यकानामुपसर्गाणा अतिगुरुका । शल्योद्धार कालचक्र
 कटपूतनाशीत ॥ ४७९ ॥ दश परमध्याद्धा इति—आनन्द का
 मदेव चुलणिपिता तथा चतुर्थ सुरदेव । चुल्लशतक कुडको
 लिक सहालपुत्रो महाशतक ॥ ४८० ॥ नन्दनपिता सालकि
 पिता एकादशप्रतिमाकारिण ऋद्धा । विंशति समा उपास
 काना नामानि भवन्ति ज्ञातव्यानि ॥ ४८१ ॥ आनन्दमहाशत
 कयोरवधिज्ञान शेपाणा च न । चेट्ठकस्य परमध्याद्धस्य सत्त पुत्र्य
 इति—धमश तस्य प्रभावती तथा पद्मावती मृगावती देवी । शिवा
 ज्येष्ठा सुज्येष्ठा चिल्लणेति तस्यैव पुत्र्य ॥ ४८२ ॥ गौतमादयो

त्रीन् पुरुषान् यावन्निर्वाणमभूत्तद्यथा-भगवति निर्दृते गौतमो निर्दृतः
 ततः सुधर्मस्वामी ततो जसूस्वामीति जुगांतरभूमिः । पर्यतकरभू-
 मिस्तु भगवतः केवलज्ञानोत्पत्तेरनतरं चत्वारि वर्षाणि यावन्न कश्चि-
 न्निर्दृतः, केवलज्ञानोत्पत्तावपि पचवर्षादारभ्य निर्वाणं गंतुमारब्धा भ-
 गवच्छिष्याः । पर्युपणकल्पे ॥ कक्किकालत्ति-मम सिद्धिं गयस्स
 पुणो पालयराया अवतिनयरीए । होही तं रयणीए सट्टीवासाण
 पुह्दवई । ९२ ॥ तस्स य पुट्टीएँ नंदो पणपन्नसय च होहि वासाण ।
 मरुयाण अट्टसय तीसच्चिय पूसमित्तस्स ॥ ९३ ॥ वलमित्तभाणु-
 मित्ता सट्टी होहिंति वास रायाणो । नरवाहणो य राया होही चत्ता
 उ वासाण ॥ ९४ ॥ तह गद्दभिद्धरज्ज वावन्नसय च पचमासहिर्यं ।
 एयाणं अवसाणे होही य पुणो मगो राया ॥ ९५ ॥ छ्वाससएहिं
 सम्पं पंचहिं जासेहिं पंचमासेहि । सिद्धिगयस्स उ राया सगुत्तिना-
 मेण विस्खाओ ॥ ९६ ॥ तेरसवरिससएहिं तेवीसइवासघुट्टिमेहिं च ।
 पाडलिपुत्ते नयरे कक्की होहित्ति सगरन्ना ॥ ९७ ॥ एगूणवीस वासाण

युगान्तकरभूमि पर्यायान्तकरभूमिश्च-यावत् तृतीय पुरुषयुग यु-
 गान्तकरभूमि चतुर्वर्षपर्याये अन्तमकार्यात् । कटिककाल इति-मम
 सिद्धिं गतस्य पुन पालकराजा अवतिनगर्यां भविष्यति तस्या र-
 जन्या पट्टिजपाणि पृथिवीपति ॥ ४९२ ॥ तस्य च पदे नन्द पच
 पचाशत शतं च भवति वर्षाणा मरुकाणा अष्टशत त्रिंशच्च पुष्प
 मित्रस्य ॥ ४९३ ॥ उलमित्रभानुमित्रौ पट्टि भविष्यत घपाणि
 राजानौ । नरवाहनश्च राजा भविष्यति शत वर्षाणि ॥ ४९४ ॥ तथा
 गदभिद्धराज्य द्वापचाशत शत च पचमासाधिक । पतेपामघ
 साने भविष्यति च पुन शको राजा ॥ ४९५ ॥ पट्ट्यर्षशत्या स
 म्यक् पचभिर्धर्व पचमाम्या । सिद्धिं गतस्य तु राजा शक इति
 नाम्ना विख्यात ॥ ४९६ ॥ त्रयोदशवर्षशत्या त्रयोविंशतिवर्ष
 वृद्धिमत्या च । पाटलीपुत्रे नगरे कल्की भविष्यतीति शकराजस्य
 ॥ ४९७ ॥ एकोनविंशतौ घपाणा शतेषु गतेषु अष्टाविंशतौ वर्षेषु ।

फडे परुणए ए३। सुंयफडे विदलफडे चम्मकडे कवम्कडे य ॥८५॥
 चिरससट्टोऽपि चिरसद्युभो य निरपरिचिओ चिर शुमिओ। चिर-
 मणुगओऽसि गोयम! चिराणुपिती य मे होसि ॥८६॥ केवलिकालो
 वारस वामा जाओ य गोयमपहुम्म। पन्ठा अज्जमुहम्मस्स निम्बि-
 वित्ता [गण] गओ सिद्धि ॥ ८७ ॥ जाय वलनाण अज्जमुहम्मस्स
 अट्टासाणि। सोऽपिय गण ठवित्ता जनुनामे गओ सिद्धि ॥ ८८ ॥
 जवूसामी य तओ चउवालिस वन्ठराणि पालित्ता। वलनाण
 पभवे गणं ठवित्ता गओ सिद्धि ॥ ८९ ॥ सिद्धमि जनुनामे केव-
 लनाणस्स होइ वुच्छेओ। केवलनागेण सम छिज्जइ मणपज्जव
 नाण ॥ ९० ॥ जओ-मणपरमोहि पुलाए आहारग खवग उवसमे
 कपे। सजमतिय केवलिसिज्जणाओ जनुम्मि वुच्छिन्ना ॥९१॥ दु-
 विहा अतगडभूमिउत्ति-जुगतकरभूमी य परियाअतकरभूमी य,
 तीर्थकरस्य केवलिकालत जाव तच्चाओ पुरिसजुगाओ जुगतकरभू-
 मी। चउवासपरियाए अतमकासी। तत्रेद तात्पर्य-श्रीमहावीरतीर्थ

वसरणमिति—अथावसरे जिन चतुर कटान् प्ररूपयति एव ।
 सुवकटो विदलकट चर्मकट कवलकटश्च ॥ ४८५ ॥ चिरससृ-
 ट्टोऽसि चिरसस्तुतश्च चिरपरिचित चिर जोपित चिरमनुगतोऽसि
 गौतम! चिरानुवृत्तिश्च मे भवसि ॥ ४८६ ॥ केवलिकालो द्वादश
 वर्षाणि जातश्च गौतमप्रभो । पश्चाद् आर्यसुधर्मणि (गण) नि-
 क्षिप्य गत सिद्धि ॥ ४८७ ॥ जात केवलज्ञान आर्यसुधर्मण अष्ट
 वर्षाणि । सोऽपि च गण स्थापयित्वा जवूनाग्नि गत सिद्धि ॥ ४८८ ॥
 जवूसामी च तत चतुश्चत्वारिंशत सबत्सराणि पालयित्वा । के-
 वलज्ञान प्रभवे गण स्थापयित्वा गत सिद्धि ॥ ४८९ ॥ सिद्धे ज-
 म्बूनाग्नि केवलज्ञानस्य भवति व्युच्छेद । केवलज्ञानेन सम छि-
 घते स्म मन परमावधि पुलाक क्ष-
 पकोपशमे (श्रेष्ठो) (जिन) कटप सयमत्रिककवलसेधना
 जम्बूस्वामिनि व्युच्छिन्ना ॥ ४९१ ॥ द्विविधा अंतकहमिमिति—

कस्स भावं वा ? ॥ ६ ॥ अइसरहिओ कालो दाहिणजम्मो छि-
 वट्टसत्रयण । भासमहग्गह होडवसप्पिणी य विसमपंचमय ॥ ७ ॥
 भरहाईखित्तेसु केई दीमति सपय जीवा । गतूण महाविदेहे दसम्मि
 वरिसे सिव जति ॥ ८ ॥ अंते सो साहूण गोवाडनिरोहण करेऊण ।
 मग्गिही भिक्खुभाग तो पाडिवओ य आयरिओ ॥ ९ ॥ सघो
 काउस्सग्गं अच्छोही जाव ताव सक्कस्स । होही आसणरूपो आगतु
 तो वहेसीय ॥ १० ॥ छासीई वासाइ राया सो होइऊण अह
 एव । गच्छिहि पुणो नरय कक्कीराओत्ति मे कहिओ ॥ ११ ॥ सक्केण
 कक्किपुत्तो दत्तो ठविओ य सासिओ धम्मे । अवही जाईसरणं उप्प-
 जिही चित्तसुपसत्था ॥ १२ ॥ वट्टमाणसगकालजाणणत्ति-विक्क-
 मचरियहु राणहु जित्तउ वट्टइ कालु । हरि पचूणउ चालुसउ सेसउ
 १३५ सग्गु कालु ॥ १३ ॥ (सग) विक्कमकालुत्ति-तेसिओ
 धम्मेण उयय नवसयाइ । (छस्सयपणय समेय हरि) सगकाल जि-

॥ ५०६ ॥ अतिशयरहित काल दक्षिणजन्म उदपृष्ठसहनन ।
 भस्ममहाग्रहो हुडावसप्पिणीति त्रिपमपचमक ॥ ५०७ ॥ भरनादि
 क्षेत्रेषु केचिद् दृश्यन्ते साप्रत जीवा । गत्वा महाविदेहे दशमे
 वर्षे शिव यास्यन्ति ॥ ५०८ ॥ अन्ते स साधूना गोपाटकनिरो
 धन कृत्वा । मार्गेष्विष्यते भिक्षाभाग तदा प्रातिपदिक आचार्य
 ॥ ५०९ ॥ सघ कायोत्सर्गे स्थास्यति तावद् यावत् शकस्य । भवि
 ष्यति आसनकम्प आगत्य ततो हनिष्यति च ॥ ५१० ॥ स पड
 शीर्ति वर्षाणि राजा भूत्वा स अथैव गमिष्यति पुनर्नरः कल्की
 राजेति मया कथित ॥ ५११ ॥ शक्रेण कल्किपुत्रो दत्त स्थापि
 तश्च शासितो धर्मे । अधधिजातिस्मरण उत्पत्स्यते सुप्रशस्त-
 चित्ताना ॥ ५१२ ॥ वर्तमानशककालज्ञानमिति-विष्ममचरितस्य
 राज्ञो-यावान् यर्त्तते काल । हर पचोनचत्वारिंश शत शेष
 शककाल ॥ ५१३ ॥ विष्ममकाल इति—पद् शतानि पचममेतानि

सयगया अट्टीम रामाड । रोणीणा परामा म मिद्विगयस्म गण-
नाह । ॥०८॥ दोहो चडालकुले क्वी र्दति तित्तपाममि । अट्टिभि-
पिटीजाभो चउम्भुगो योयनाम से ॥०९॥ तमि ट्टिणे महुराप महुमह-
भवण पटिम्मप तुग । उरस्म तस्म उदण देयमाह निवारिदिही
॥ ५०० ॥ मुरज्जे (सौरट्ट) दुभिरस चम्म नाण पत्तिदिही लोए ।
करभरपीडिय पुहमी यम्मस्वरनामय होही ॥५०१॥ कलहकरा
डमरकरा असमाधिकरा अनिबुडकरा य । होहिंति भरहवासे बहुमुडे
अप्पसमणे य ॥ ५०२ ॥ दूसमहुडवमप्पिणि भासग्गहपीडिय इम
खित्त । परिवडुति कमाया मुडे मुडे मई भिन्ना ॥३॥ उवगरणवत्य-
पत्ताइयाण वसहीण पुत्तयाण च । जुज्झिस्सति कएण जइ नरपइणो
कुडुमीण ॥ ४ ॥ एगे तवगारविया अन्ने सिद्धिला सकज्जकिरियासु ।
मच्छरवसेण दुन्निवि होहिंति अपुट्टधम्माणो ॥ ५ ॥ केवलमणोहि-
चउदसदसनवपुवीहि विरहिए इण्हि । सुद्धमसुद्ध चरण को जाणइ

व्यतिघ्नातेषु पचसु मासेषु मम सिद्धिं गतस्य गणनाथ । ॥४९८॥
भविष्यति चाडालकुले कल्की रद्र इति (नाम्ना) चैत्रमासे ।
अष्टमीवृष्टिजात चतुर्मुखो द्वितीयनामाम्य ॥ ४९९ ॥ तिस्मन्
दिने मथुराया मधुमथभवन पतिष्यति तुग । धूरस्य तस्योदये
देवतासाधून् निवारयिष्यति ॥ ५०० ॥ सुराज्ये (सौराष्ट्रे) दुर्भिक्ष
चर्मनाणक प्रवर्तयिष्यते लोके । करभरपीडिता पृथिवी धर्मा
क्षर नामतो भविष्यति ॥ ५०१ ॥ कलहकरा डमरकरा असमाधि
करा अनिर्वृत्तिकराश्च । भविष्यन्ति भरतवप बहुमुडा अल्पश्रम
णाश्च (लोका) ॥ ५०२ ॥ दुष्पमहुडावसर्पिण्या भस्मग्रहपी
डितेऽस्मिन् क्षेत्रे । परिवर्द्धन्ते कपाया मुडे मुडे मतिभिन्ना ॥५०३॥
उपकरणवस्त्रपात्रादिकाना वसतीना शिष्याणा च । योत्स्यन्ते कृते
यथा नरपतय कुटुम्बिना ॥५०४॥ एके तपोगौरविता अन्ये शि
थिला स्वकायक्रियासु । मत्सरवशेन द्वयेऽपि भविष्यति अस्पृष्ट-
धर्माण ॥ ५०५ ॥ केवलमनोऽध्विचतुर्दशदशतवपूर्वाभिर्वि-
रहिते इदानीं । शुद्धमशुद्ध चरण को जाणइ

कस्स भावं वा ? ॥ ६ ॥ अइसररहिओ कालो दाहिणजम्मो छि-
 वट्टसत्रयणं । भासमहग्गह होडवसप्पिणी य विसमपंचमय ॥ ७ ॥
 भरहाईखित्तिसु केई टीमति सपय जीवा । गंतूण महाविदेहे दसम्मि
 वरिसे सिव जति ॥ ८ ॥ अंते सो साहूण गोवाडनिरोहण करेऊणं ।
 मग्गिही भिक्खभागं तो पाडिवओ य आयरिओ ॥ ९ ॥ सघो
 काउस्सग्ग अच्छीही जाव ताव सक्कस्स । होही आसणरूपो आगतु
 तो वहेसीय ॥ १० ॥ छासीई वासाइ राया सो होइऊण अह
 एव । गच्छिहि पुणो नरयं कक्कीराओत्ति मे कहिओ ॥ ११ ॥ सक्केग
 कक्किपुत्तो दत्तो ठविओ य सासिओ वम्मे । अवही जाईसरणं उप्प-
 जिही चित्तसुपसत्था ॥ १२ ॥ वट्टमाणसगकालजाणणत्ति-विक-
 मचरियहु राणहु जित्तउ वण्ड कालु । हरि पंचूणउ चालुसउ सेसउ
 १३५ सग्गु कालु ॥ १३ ॥ (सग) विक्रमकालुत्ति-तेसिओ
 धम्मेण उयय नवसयाइ । (छस्सयपणय समेय हरि) सगकाल जि-

॥ ५०६ ॥ अतिशयरहित काल दक्षिणजन्म छेदवृष्टमहनन ।
 भस्ममहाग्रहो हुडावसप्पिणीति विषमपचमक ॥ ५०७ ॥ भरनादि
 क्षेत्रेषु केचिद् दृश्यन्ते साप्रत जीवा । गत्वा महाविदेहे दशमे
 वर्षे शिव यास्यन्ति ॥ ५०८ ॥ अन्ते स साधूना गोपाटकनिरो
 धन कृत्वा । मार्गयिष्यते भिक्षाभाग तदा प्रातिपदिक आचार्य
 ॥ ५०९ ॥ सघ कायोत्सर्गे स्थास्यति तावद् यावत् शक्रस्य । भवि
 ष्यति आसनकम्प आगत्य ततो हनिष्यति च ॥ ५१० ॥ स पड-
 शीर्ति वर्षाणि राजा भूत्वा स अथैव गमिष्यति पुनर्नरः कल्की
 राजेति मया कथित ॥ ५११ ॥ शक्रेण कल्किपुत्रो दत्त स्थापि
 तश्च शासितो धर्म । अद्यधिजातिस्मरण उत्पत्स्यते सुप्रशान्त
 चित्ताना ॥ ५१२ ॥ वर्तमानशककालज्ञानमिति-विक्रमचरितस्य
 राज्ञो यावान् वर्त्तते का । हर पचोनचत्वारिंश शत शेष
 शककाल ॥ ५१३ ॥ विक्रमकाल इति—पद् शतानि पचकसमेतानि

सयगया अट्टीम रामाड । रोत्रीणा पामामा म मिद्विगयस्म गण-
नाह ! ॥०८॥ होहो चडालकुले कणी रुद्धि नित्तमासमि । अट्टमि-
पिट्टीजा भो चउम्भुरो योयनाम से ॥०९॥ तमि ट्टिणे मट्टुराए मट्टुमह-
भयण पडिम्मप तुग । ऋस्म तस्म उट्टए देययमाह निवारिहिरी
॥ ५०० ॥ सुरज्जे (सोरट्ट) दुभिसस चम्म नाण पयित्तिही लोए ।
करभरपीडिय पुहरी उम्मसरनामय होही ॥५०१॥ कलहकरा
डमरकरा असमाहिकरा अनिबुडकरा य । होहिति भरहनासे बहुमुडे
अप्पसमणे य ॥ ५०२ ॥ दूसमहुडवमप्पिणि भासगाहपीडिय इम
खित्त । परिवद्धति कमाया मुडे मुडे मई भित्ता ॥३॥ उवगरणवत्य-
पत्ताइयाण उसहीण पुत्तयाणं च । जुज्झिस्सति कएण जह नरवइणो
कुट्टुमीण ॥ ४ ॥ एगे तपगारविया अन्ने सिट्ठिला सकज्जकिरियासु ।
मच्छरवसेण दुन्निवि होहिति अपुट्टधम्माणो ॥ ५ ॥ केवलमणोहि-
चउदसदसनवपुवीहि विरहिए इण्हि । सुद्धमसुद्ध चरण को जाणइ

व्यतिक्रान्तेषु पचसु मासेषु मम सिद्धिं गतस्य गणनाथ ! ॥४९८॥
भविष्यति चाडालकुले कलगी रुद्र इति (नाम्ना) चैत्रमासे ।
अष्टमीवृष्टिजात चतुर्मुखो द्वितीयनामाम्य ॥ ४९९ ॥ तिस्मन्
दिने मथुराया मधुमथभवन पतिष्यति तुग । धूरस्य तस्योदये
देवतासाधून् निवारयिष्यति ॥ ५०० ॥ सुराज्ये (सोराट्टे) दुर्भिक्ष
चमनाणक प्रवर्तयिष्यते लोके । करभरपीडिता पृथिवी धर्मा
क्षर नामतो भविष्यति ॥ ५०१ ॥ कलहकरा डमरकरा अममाधि
करा अनिवृत्तिकराश्च । भविष्यन्ति भरतवर्षे बहुमुडा अल्पश्रम
णाश्च (लोका) ॥ ५०२ ॥ दुष्पमहुडावसर्पिण्या भस्मग्रहपी-
डितेऽस्मिन् क्षेत्रे । परिवद्धन्ते कपाया मुडे मुडे मतिभिन्ना ॥ ५०३ ॥
उपकरणवस्त्रपात्रादिकाना वसतीना शिष्याणा च । योत्स्यन्ते कृते
यथा नरपतय कुट्टुम्बिना ॥ ५०४ ॥ एक तपोगीरविता अन्ये शि
थिला स्वकार्यक्रियासु । मत्सरवशेन द्वयेऽपि भविष्यति अस्पृष्ट-
धर्माण ॥ ५०५ ॥ केवलमनोऽत्रधिचतुर्दशदशनयपूर्वाभिवि
रहिते इक्षानी । शुद्धमशुद्ध चरण को जानाति कस्य भाव वा

कस्स भावं वा ? ॥ ६ ॥ अइसरहो कालो दाहिणजम्मो छि-
 वट्टसंयण । भासमहग्गह होडवसप्पिणी य विसमपंचमय ॥ ७ ॥
 भरहाईखित्तेसु केई दीमनि सपय जीवा । गंतूण महाविदेहे दसम्मि
 वरिसे सिव जति ॥ ८ ॥ अते सो साहूण गोवाडनिरोहण करेऊण ।
 मग्गिही भिखुवभाग तो पाडिवओ य आयरिओ ॥ ९ ॥ सपो
 काउस्सग्ग अन्डोही जाव ताव सक्कस्स । होही आसगकपो आगतु
 तो वहेसीय ॥ १० ॥ डासीई वासाइ राया सो होइऊण अह
 एव । गच्छिहि पुणो नरय कक्कीराओत्ति मे कहिओ ॥ ११ ॥ सक्केण
 कक्किपुत्तो दत्तो ठविओ य सासित्तो धम्मे । अवही जाईसरण उप्प-
 जिही चित्तसुपसत्था ॥ १२ ॥ वट्टमाणसगकालजाणणात्ति-विक-
 मवरियहु राणहु जित्तउ वट्टइ कालु । हरि पचूणउ चालुसउ सेसउ
 १३५ सग्गु कालु ॥ १३ ॥ (सग) विक्रमकालुत्ति-तेसिओ
 धम्मेण उयय नवसयाइ । (छस्सयपणय समेय हरि) सगकाल जि-

॥ ५०६ ॥ अतिशयरहित काल दक्षिणजन्म उदपृष्ठसहनन ।
 भस्ममहाग्रहो हुडावसप्पिणीति त्रिषमपचमक ॥ ५०७ ॥ भरनादि-
 क्षेत्रेषु केचिद् दृश्यन्ते साप्रत जीवा । गत्वा महाविदेहे दशमे
 वर्षे शिव यास्यन्ति ॥ ५०८ ॥ अन्ते स साधूना गोपाटकनिरो
 धन कृत्वा । मार्गयिष्यते भिक्षाभाग तदा प्रातिपदिक आचार्य
 ॥ ५०९ ॥ सद्य कायोत्सर्गे स्थास्यति तावद् यावत् शत्रुम्य । भयि
 ष्यति आसनकम्प आगत्य ततो हनिष्यति च ॥ ५१० ॥ न पट
 शीर्ति वर्षाणि राजा भूत्वा स अथैव गमिष्यति पुनर्नर्य शशी
 राजेति मया कथित ॥ ५११ ॥ शक्रेण कच्छिपृथा स व्यापि-
 तश्च शासितो धर्मे । अयधिर्जातिस्मरण सपत्नयने सुप्रशस्-
 चित्ताना ॥ ५१२ ॥ वर्तमानशक्याशासकिति-पितृभक्तितरु
 राहो ययान् वर्तते काल । इदं द्रव्योन्वयत्वारिशी शतं ई
 शककाल ॥ ५१३ ॥ त्रिषमया इति—पट्टाति पंचकमोता

णा गुणसु त च (१) । सुन्नमुणियेयजुत्तं विक्रमकालाओ निणकाल
 ॥ १४ ॥ मत्त निणत्तत्ति-बहुरय १ पणस २ अत्त ३ सामुत्ता
 ४ दुग ५ निग ६ अचट्टिगा ७ चेय । सत्तेण निणत्ता खलु नित्यमि
 उ उद्धमाणस्स ॥ १५ ॥ बहुरय जमालिप्रभवा जीयपणसा य तीस-
 गुत्ताओ । अत्ताऽऽमादाओ मामुत्तेयाऽऽसमित्ताओ ॥ १६ ॥ गगाओ
 दोकिरिया छट्टा तेरासिआण उप्पत्ती । येरा य गुट्टमाहिल पुट्ट-
 मरुद्ध पस्सति ॥ १७ ॥ सात्थी उसभपुर सेयविया मिहिल उ-
 ल्लगातीर । पुरमतरजि टमपुर रथवीरपुर च नगराड ॥ १८ ॥
 चउदसयासाणि तथा जिणेण उप्पाडियस्स नाणस्स । ता बहुरया-
 ण दिट्ठी सावत्थीए समुप्पन्ना ॥ १९ ॥ दिगवरउप्पत्ती—उवास-
 सएहिं नउत्तरेहिं तइया सिद्धिं गयस्स वीरस्स । तो वोडियाण
 दिट्ठी रथवीरपुरे समुप्पन्ना ॥ २० ॥ थूलभद्रभगिणी सत्तत्ति-

दत्त्वा जिनकालात् य शेषेण शककाल जानीहि । शून्यमुनिवेद
 युक्त विक्रमकालात् जिनकाल जानीहि ॥ ५१४ ॥ सप्त निन्दवा इति—
 बहुरत प्रदेशो अव्यक्तक सामुच्छेद द्विक त्रिकोऽव्यञ्जश्चैव स
 तैते निन्दवा खलु तीर्थे तु वर्द्धमानस्य ॥ ५१५ ॥ बहुरता जमालि
 प्रभवा जीयप्रदेशाश्च तिष्यगुप्तात् । अव्यक्ता आपादात् सामुच्छेदा
 अश्वमित्रात् ॥ ५१६ ॥ गगातो द्विक्रिया पडुल्लुकात् त्रिराशिका
 नामुत्पत्ति । स्थविराश्च गोष्ठामाहिला पृष्टमवद्ध प्ररूपयति ॥ ५१७ ॥
 श्रावस्ती ऋषभपुर श्वेताबिका मिथिला उल्लुकातीर पुर अतरजि
 दशपुर रथवीरपुर च नामानि ॥ ५१८ ॥ चतुर्दश वर्षाणि तदा
 जिनेन उत्पादिते ज्ञाने । ततो बहुरताना दृष्टि श्रावस्व्या समु
 त्पन्ना ॥ ५१९ ॥ दिगम्बरोत्पत्ति --पदसु वर्षशतेषु नवोत्तरेषु तदा
 सिद्धिं गतस्य वीरस्य । ततो वोडिकाना दृष्टि रथवीरपुरे समु
 त्पन्ना ॥ ५२० ॥ थूलभद्रभगिन्य सत्तेति--यक्षा च य दत्ता भूता

जक्खा य ? जक्खदिन्ना २ भूया ३ तह भूयदिन्न ४ नामा य । सेणा
 ५ वेणा ६ रेणा ७ ता एयाओ अणुक्कमसो ॥ २१ ॥ सो जयउ
 यूलभद्दो तिन्नि पमत्ताइ जस्स जायाइं । सीहविउव्वण गमणं कहणं
 अत्थस्स मित्ताण ॥ २२ ॥ चउदसपुव्वुन्डेओ सत्रयणं पढमय च
 मठाण । सुहुममहापाणाणि य छिन्नाट यूलभद्दमि ॥ २३ ॥ चरमजिणे
 मुखगए चालोसेहिं (चउरासीइहिं) चउहिं वरिससए । वडरो दस-
 पुव्वधरो वडरमुणी तस्स साहाए ॥ २४ ॥ दसपुव्वस्स य ठेओ सत्र
 यणचउत्थयस्स तह चैव । साहूमि वडरनामे खीरासवल्लद्धिसपन्ने
 ॥ २५ ॥ किंचोणनवपुव्वधर आर्यरक्षितो जातः । आरेण अज्जरक्खिय
 कालाणुन्ना उ नत्थि अजाण । सामाइयवयमारोवण च पन्ठित्त-
 दाणं च ॥ २६ ॥ पद्दाविओ सुहत्थी अज्जाए जक्खदिन्नना-
 माए । पद्दावणे निसेहो इत्थि सपक्खेवि अज्जाण ॥ २७ ॥ पंच य
 वरिससए सिद्धसेण दिवायरो य जयपयडो । छच्च सए वीसहिए
 सक्कयुओ अज्जरक्खि पद्द ॥ २८ ॥ सिरिवीरजिणवरमि मुक्खे

तथा भूतदत्तनाम्नी च । सेना वेणा रेणा ता पता अनुक्रमश
 ॥ २१ ॥ स जयतु यूलभद्र त्रीणि प्रमत्तानि यस्य ज्ञानानि । सिंह
 त्रिभुव्वण ममत्व कथनमर्थस्य मित्राणा ॥ २२ ॥ चतुर्दशमपूर्वा
 च्छेद सहनन प्रथमक च सस्थान । सूक्ष्ममहाप्राण च व्युच्छि
 त्तानि यूलभद्रे ॥ २३ ॥ चरमजिने मोक्ष गते चत्वारिंशदधिकेषु
 चतुर्षु शतेषु । वज्रो दशपूर्वधरो वज्रसेनमुनि तस्य शाखाया
 ॥ २४ ॥ दशमपूर्वस्य व्युच्छेद सहननस्य चतुर्थस्य तथा चैव ।
 सार्धो वज्रनामि क्षीराश्रवल्लद्धिसपन्ने ॥ २५ ॥ अराग् आर्यर-
 क्षितात् कागानुज्ञा तु नास्ति आर्याणा । सामायिकप्रतारोपण च
 प्रायश्चित्तदान च ॥ २६ ॥ प्रराजित सुहन्ती आर्यया यक्षदत्त
 नाम्ना । प्रराजने निषेध स्त्रीणा स्वपक्षेऽपि आयाणा ॥ २७ ॥
 पंचस्येय च चर्पशतेषु मिद्धसेनदियाकग्ध जगन्प्रकट । पटसु च
 शतेषु त्रिंशत्यधिकेषु शक्रस्तुत आर्यरक्षितप्रभु ॥ २८ ॥ श्रीवीर

पत्तमि गुरुदुग्धियदलगे । नक्षत्रय नक्षत्रिं अहिण कात्रियमूरी समु-
 पन्ना ॥२०॥ (मणिमभृणिभो) । तेण य पञ्जुस्मरण चउत्थि तह
 चउद्दमोर्षे पटिकमण । त्रिहिय मयममरस्य दसामुयमस्त्रनिहिद्व
 ॥३०॥ (भद्रप) चउर्धीण पञ्जुस्मरण च कालयमूरीहिं । सिरि-
 सात्रयादणरूप कयमणुमयभेद मयभस ॥ ३१ ॥ पचमए पणसीए
 त्रियमभृराउ द्रुत्ति अ यमिभो । हरिभद्रमूरिमूरो धम्मरओ देउ सु-
 रस्यपइ ॥ ५३० ॥ अदरा पणपन्नदससएहि हरिमूरि आसि तत्य-
 ऽपुव्वकरी । तेरसत्ररिससएहि अहिणहियि उप्पहट्टिपहू ॥ ३३ ॥ इ-
 चाड ॥ दुप्पसहो समणाण फग्गुसिरो साहुणीण पच्छिमया । नाइ-
 ल्लु साययाण सच्चसिरी सात्रियाण च ॥ ३४ ॥ वारसवरिसे जम्मो
 अट्ट य यासाणि होड परियाओ । काल काही तइया अट्टमभत्तेण
 दुप्पसहो ॥ ३५ ॥ एकायतारः ॥ अथ प्रसंगतः—नयर पियरो माया
 नामाइ उन्नमाणमाऊय । गुत्त रयण निहीओ वलठाण चक्किमाईण
 ॥२६॥ नयरत्ति—जम्म विणीय १ अउज्झा २ सावत्थी ३ पच ह-

जिनघरात् मोक्षे प्राप्तात् गुरुदुरितदन्नात् । नचसु शतेषु नवत्याऽ
 धिवेषु कालिकवरि समुत्पन्न ॥ २२९ ॥ शकसस्तुत । तेन च
 पर्युषणा चतुर्थ्या तथा चतुर्दश्या (चातुर्मासिक) प्रतिक्रमण वि-
 हित सबसमक्ष दशाश्रुतस्वधनिहिद्व ॥ ५३० ॥ भाद्रपदचतुर्थ्या
 पर्युषणा कालकूरिभि श्रीशालवाहनकृते कृता अनुमतैः सधस्य
 ॥ ५३१ ॥ पचसु शतेषु पचाशीत्या च विक्रमभूपाद् इगिति अस्त
 मित । हरिभद्रसरोश्वरो धर्मरतो ददातु मोक्षसुग ॥ ५३२ ॥
 अथवा पंचपचाशदधिक्रिया दशशत्या हरिमूरिरासीत् तत्रा
 पूर्वकवि । त्रयोदशवर्षशतेष्वधिकेषु वप्पमद्विप्रभु ॥ ५३३ ॥
 इत्यादि । दुप्रसह श्रमणाना फत्तुश्री साध्वीना पश्चिमिका । ना
 गिन श्रावकाणा मत्यश्री श्राविकाणा च ॥ २३३ ॥ द्वादशसु ध
 वेषु जन्म (ना दीया) अष्ट च वयाणि भवति पयाय । काल करि-
 ष्यति तदाऽष्टमभक्तेन दुप्रसह ॥ २३४ ॥ नगर पितरो माता
 मामानि वर्णमात्मायु गोत्र रत्नानि नियय दलस्थान चक्रया
 दीना ॥ ५३६ ॥ नगरमिति—जन्म त्रिनीताया अयाध्याया श्राव

स्थिणपुंगमि ८ । वाणारसि ९ कपिल्ले १० रायगिहे ११ चेव कपिल्ले
 १२ ॥३७॥ पियरुत्ति-उसमे १ सुमित्त २ विजए य ३ अस्ससेणे
 य ४ विस्समेणे य ५ । सोरिय ६ सुदसणे ७ (विय आसी तह)
 कत्तिविरिए य ८ ॥ ३८ ॥ पउमुत्तरे ९ महाहरि १० विजए ११
 राया तहेव वंभे य १२ । ओसप्पिणी इमीसे पियनामा चक्कवट्ठीणं
 ॥ ३९ ॥ मायरुत्ति-सुमंगला १ जसवई २ भद्दा ३ सहदेवि ४ अइर
 ५ सिरिदेवी ७ । तारा ८ जाला ९ मेरा य १० वप्पग ११ तह चुल्ल-
 णीमाया १२ ॥ ४० ॥ नामाङ्गति-भरहो १ सगरो २ मघव ३
 सणकुमारो य ४ रायसहूलो । सती ५ कुंथू य ६ अरो ७ हवइ सुभूमो
 य ८ कोरवो ॥४१॥ नवमो य महापउमो ९ हरिसेणो चेव १० रा-
 यसहूलो । जयनामो य नरवई ११ वारसमो वभदत्तो य १२ ॥५४२॥
 वन्नत्ति-सव्वेवि एगवन्ना निम्मलकणगप्पभा मुणेयव्वा । छवरवंड-
 भरहसामी तेसि पमाण अओ वुच्छं ॥ ४३ ॥ पमाणत्ति-पचसय १
 अद्धपचम २ वायालीसा य अद्धधणुय च ३ । इयाल णुह सद्धं च चउ-

स्त्या पचाना हस्तिनापुरे वाणारस्या कापिल्ये राजगृहे चैव का
 पिल्ये ॥ ५३७ ॥ पितर इति—रूपभ सुमित्रो विजयश्चाश्वसेनश्च
 विश्वसेनश्च शौर्य सुदर्शनोऽपि च तथा कार्तवीर्यश्च ॥ ५३८ ॥
 पश्चोत्तरो महाहरिर्त्रिजयो राजा तथैव ब्रह्मश्च अघसर्पिण्यामस्या
 पितृनामानि चक्रवर्तिना ॥ ५३९ ॥ मातर इति—सुमंगला यशो
 मती भद्रा सहदेवी अचिरा श्रीर्दधी तारा ज्वाला मर्यादा च वप्रा
 तथा चुल्लणी मातर ॥ ५४० ॥ नामानीति—भरत सगरो मघवान्
 सनत्कुमार राजशार्दूल शान्ति कुथुश्च अरो भद्रति सुभूमश्च कौ
 रव्य ॥ ५४१ ॥ नवमश्च महापद्मो हरिपेणश्चैव राजशार्दूल । जय-
 नामा च नरपतिर्द्वादशमो वभदत्तश्च ॥ ५४२ ॥ वर्ण इति—सर्वेऽप्ये-
 फवर्णा निर्मलकनकप्रभा शातव्या । पदवण्डभरतस्थामिन तेषा
 प्रमाणमतो वक्ष्ये ॥ ५४३ ॥ प्रमाणमिति—पच शतानि अर्द्धपंचमानि
 प्राचत्यारिंशद्यार्धधनुष्क च सार्धकचत्यारिंशच्चतुर्ये पंचमे चत्या-

त्ये ४ पंचमे चत्ता ५ ॥४४॥ पणनीसा ६ तीसा पुण ७ अट्टवीसा य
 ८ वीस य घणूणि ९ । पन्नरम १० वारसेय य ११ अपच्छिमे सत्त य
 घणूणि १२ ॥ ४५ ॥ आउयंति—चउरामीइ १ वारत्तरी य २ पुव्वाण
 सयमहस्साई । पच य ३ तिल्लि य ४ एग च ५ सयसहस्सा उ वासाणं
 ॥ ४६ ॥ पचाणवइ सहस्सा ६ चउरासीई य ७ अट्टमे सट्टी ८ ।
 तीसा य ९ टम य १० तिल्लि य ११ अपच्छिमे सत्त वाससया
 १२ ॥ ४७ ॥ गोत्तंति—कासवगुत्ता सव्वे चउदसरयणाहिवा सम-
 क्खाया । पंचिदि सत्त रयणा सेसा एगिदिया सत्त ॥ ४८ ॥ रय-
 णत्ति—सेणावइ १ गाहावइ २ पुरोहि ३ गय ४ तुरय ५ वड्डई ६
 इत्थी ७ । चकं ८ छत्त ९ चम्म १० मणि ११ कागिणि १२ खग
 १३ दढो य १४ ॥ ४९ ॥ चक्र १ असि २ छत्त ३ दंड ४ आउ-
 हसालाइ हौंति चत्तारि । चम्म ५ मणि ६ कागिणि ७ निहि ८
 सिरिगेहे चक्किणो हुत्ति ॥ ५० ॥ सेणावइ गाहावइ पुरोहिओ वड्ड
 य नियनयरे । यीरयणं रायउले वेयइतले उ करितुरया ॥ ५१ ॥

शित् ॥ ५४४ ॥ पंचत्रिंशत् त्रिंशत् पुन अष्टाविंशतिश्च विंशति
 धनूषि । पचदश द्वादशैव च अपश्चिमे सम च धनूषि ॥ ५४५ ॥
 आयुरिति—चतुरशीतिर्द्वांसप्ततिश्च पूर्वाणा शतसहस्राणि । पच
 च त्रीणि चैक च शतसहस्राणि वर्षाणा ॥ ५४६ ॥ पंचनवति सह
 स्राणि चतुरशीतिश्चाष्टमे परि । त्रिंशच्च दश च त्रीणि च अपश्चिमे
 सप्त वर्षशतानि ॥ ५४७ ॥ गोत्रमिति—काश्यपगोत्रा सर्वे चतु
 र्दशरत्नाधिपा समाख्याता रत्नानीति—पंचेन्द्रियाणि सप्त रत्ना
 नि शेवाण्येकन्द्रियाणि सप्त ॥ ५४८ ॥ सनापतिर्गाथापति पुरोहितो
 गज तुरगा वर्द्धकि स्त्री । चक्र छत्र चर्ममणि काकिणि खड्गो
 दण्डश्च ॥ ५४९ ॥ चक्रमसि छत्र दण्ड आयुधशालाया भवन्ति च-
 त्वारि । चर्ममणि काकिणिनिधि श्रीगृहे चक्किणो भवन्ति ॥ ५५० ॥
 सेनापति गाथापति पुरोहितो वर्द्धकिश्च निजनगरे । स्त्रीरत्न राज
 कुले वेतादयतले तु करितुरगो ॥ ५५१ ॥ निधय इति—ने ४ पंडक

निहीओत्ति-नेसप्ये १ पंडुयए २ पिंगलए ३ सवरयण ४ महप्प-
उमे ५ । काले य ६ महाकाले ७ माणवग ८ महानिही सखे ९
॥ ५५२ ॥ नवजोयणवित्थिन्ना निहीउ तह अट्टजोअणुस्सेहा । वा-
रसजोयणदीहा मजूसा पारगगतडे ॥ ५३ ॥ जक्खसहस्सा सोलस
तद्दुगुणा मउडवद्ध नरवइणो ३२ । तद्दुगुणा ६४ (जुवईओ) आ-
णाणुगया तुह अहेसि ॥५४॥ छन्नवई कोडोओ पाइकाणं तहप्पवर-
गामाणं ९६ । ह्यगयरहाण लक्खा पत्तेयं हवइ जुलसीई ॥ ५५ ॥
कमसो चउदस १ सोलस २ वीसा ३ वावत्तरी य ४ नवनवई ५ ।
सवाह १ खेड २ गामागर ३ पुरवर ४ दाणमुह ५ सहसा
॥ ५६ ॥ आसी तह पत्तेयं मडव १ कव्वड २ सहस्स चउवीसा ।
दुगुणाणि पट्टणाणि य इय रिद्धी चक्खट्ठीणं ॥ ५७ ॥ उत्पत्ति-
कालुत्ति-उसभअजियाण काले भरहो सगरो य चक्किणो जाया ।
मघवं सणकुमारो मज्झे जिणधम्मसंतीणं ॥ ५८ ॥ संती कुंयू य
अरो तित्थयरा चक्किणो इमे चेव । अरपुरओ य सुभूमो सुवयकाले

पिंगलक सर्वरत्न महापद्म कालश्च महाकालो माणवको महानिधि
शंख ॥ ५५२ ॥ नवयोजनविस्तीर्णा निधयस्तथाऽष्टयोजनोत्सेधा
। द्वादशयोजनदीर्घा मजूपा पारेगगातटे ॥ ५५३ ॥ यक्षसहस्रा
षोडश तद्विगुणा यद्धमुकुटनरपतय । तद्विगुणा युवतय आ
ज्ञानुगता तथ आसीरन् ॥ ५५४ ॥ पन्नवति कोटय पदातीना तथा
प्रथरप्रामाणा । ह्यगजरथाना लक्षा प्रत्येक भयंति चतुरशीति
॥ ५५५ ॥ अमश चतुर्दश षोडश विंशतिर्द्वांसततिश्च नघनयति
। सपाधखेटप्रामाकरपुरथरद्रोणमुखसहस्राणि ते ॥ ५५६ ॥ आसीत्
तथा प्रत्येक मडम्बकर्णदयो सहस्रचतुर्विंशति । द्विगुणानि पत्तनानि
चेति ऋद्धि घमघर्तीना ॥ ५५७ ॥ उत्पत्तिकाल इति—ऋषभाजि
तयो काले भरत सगरश्च चक्किणो जातौ । मघयान् सनत्कुमारो
मध्ये जिनधर्मशान्त्यो ॥ ५५८ ॥ शान्ति कुपुष अर तीर्थकरा

पञ्चमनामो ॥ ५० ॥ हरिमेणो नमिकाले उभयो पासेण नेमिनाह-
 स्स । जयचक्रियभद्रता उत्पन्ना चक्रिणो भरत ॥ ६० ॥ गति-
 अष्टय गया सुखं सुभूमो यमो य मत्तमि पुदमि । मयत्रं सणकुमारो
 सणकुमार गया कल्प ॥ ६१ ॥ वासुदेवनगराडति—पोयण १
 धारवइतियं ४ अम्सपुर ५ तहय होइ चक्रपुर ६ । वाणारसि ७
 रायगिह ८ अपच्छिमो जाय मधुराए ९ ॥ ६० ॥ पियरुति—
 हवइ पयावइ १ वभो २ रुद्रो ३ सोमो ४ सित्रो ५ महसिरो य ६ ।
 अगिसिहे ७ दमरहे ८ नयमे भणिण य वसुदेवे ९ ॥ ६३ ॥ माया
 मिगावई १ उमा चैव २, पुहवी ३ सीया य ४ अम्मया ५ । लच्छि
 षई ६ सेसवई ७, केरई ८ देवईविय ९ ॥ ६४ ॥ बलदेवमाया-
 भद्र १ सुभद्रा २ सुप्रभा ३ सुदर्शना ४ विजया ५ वैजयती य ६ ।
 तहय जयती ७ अपराजिया य ८ तह रोहिणी चैव ९ ॥ ६५ ॥
 वासुदेवनामाइति—तिविदू य १ दुविदू य २ सयभु ३ पुरिसुत्तमे

इमे पव चक्रिण । अरपुरतश्च सुभूम सुव्रतकाले पञ्चनामा ॥५५९॥
 हरियेणो नमिकाले उभयपार्श्वयोर्नेमिनाथस्य । जयचक्रिब्रह्मदत्ता
 युत्पन्नौ चक्रिणौ भरते ॥ ५६० ॥ गतिरिति—अष्टय गता मोक्ष
 सुभूमो ब्रह्मश्च सप्तमी पृथिवी । मघवान् सनत्कुमार सनत्कुमार
 गतौ कल्प ॥५६१॥ वासुदेवनगराणोति—पोतनं द्वारवतीत्रिक अ
 भ्वपुर तथा च भवति चक्रपुर । वाणारसी राजगृह अपश्चिमा या
 षट् मधुराया ॥ ५६२ ॥ पितर इति—भवति प्रजापति ब्रह्मा रुद्र
 साम शिवो महाशिराश्च । अग्निशिखा दशरथो नवमो भणितश्च
 वासुदेव ॥५६३॥ मातर इति—मृगावती उमा चैव पृथिवी सीता
 च अम्बिका लक्ष्मीवती शेषवती कैकेयी देवकी अपि च ॥५६४॥
 बलदेवमातर --भद्रा सुभद्रा सुप्रभा सुदर्शना विजया वैजयती
 च तथा च जयती अपराजिता च तथा रोहिणी चैव ॥५६५ ॥
 वासुदेवनामानोति—त्रिपृष्ठश्च द्विपृष्ठश्च स्वयंभू पुरुषोत्तम पुरुष

४ पुरिससीहे ५ । तह पुरिसपुंडरीए ६ दत्ते ७ नारायणे ८ कण्हे ९
 ॥ ६६ ॥ बलदेवनामाइति—अयले १ विजए २ भदे ३, सुप्पमे
 य ४ सुदसणे ५ । आणंदे ६ नंदणे ७ पउमे ८, रामे आवि अप-
 च्छिमे ९ ॥ ६७ ॥ पडिवासुदेवनामाइति—आसग्गीवे १ तारय
 ५ मेरय ३ महुकैठवे ४ निशुमे य ५ । बलि ६ पहराए ७ तह रावणे
 य ८ नवमे जरासिंधू ९ ॥ ६८ ॥ एए खलु पडिसत्तू किच्चीपुरिसाण
 वासुदेवाण । सव्वेवि चक्कजोही सव्वेवि हया सचक्केणं ॥ ६९ ॥
 वन्नत्ति—वन्नेण वासुदेवा नीला सव्वे बला य मुक्किलया । एएसिं
 देहमाण बुच्छामि अहाणुपुवीए ॥ ७० ॥ देहमाणंति—पढमो धणूणि
 असीई सत्तरि सट्ठी य पन्न पणयाला । अउणत्तीस च धणू छवीसा
 सोलस दसेव ॥ ७१ ॥ गुत्तति—बलदेव वासुदेवा अट्टेव य हुति
 गोयमसगुत्ता । नारायण पउमो पुण कासवगुत्ता मुण्येववा ॥ ७२ ॥
 आउयति—चउरासीड विसत्तरि सट्ठी तीसा य दस य लक्खाइ ।

सिंहस्तथा पुरुषपुण्डरीको दत्तो नारायण कृष्ण ॥ ५६६ ॥ बल
 देवनामानीति—अचलो विजयो भद्र सुप्रभश्च सुदर्शन । आनन्दो
 नन्दन पद्मो रामश्चापि अपश्चिम ॥ ५६७ ॥ प्रतिवासुदेवनामा
 नीति—अश्वघोष तारक मेरक मधुकैटभ निशुभश्च । बली प्र
 ह्लादन तथा राजणश्च ॥ ५६८ ॥ नवम जरासंध पते खलु प्रति-
 शत्रय कीर्तिपुरुषाणा वासुदेवाना । सर्वेऽपि चक्रयोधिन सर्वेऽपि
 हता स्वचक्रेण ॥ ५६९ ॥ वर्ण इति—वर्णेन वासुदेवा नीला सर्वे
 यलाश्च शुक्ला । पतेषु देहमान वक्ष्ये यथानुपूर्व्या । ५७० ॥ देहमान
 मिति—प्रथमस्य अशीति धनूपि सतति पष्टिश्च पचाशत् पचचत्या
 रिंशत् पकोन चत्वारिंशच्च धनूपि पड्विंशति षोडश दशैव ॥ ५७१ ॥
 गोत्रमिति—बलदेवा वासुदेवाश्च अष्टैव भवन्ति गौतमगोत्रा ।
 नारायणपद्मा पुन काश्यपगोत्रो ज्ञातव्यो ॥ ५७२ ॥ आयुरिति—
 चतुरशीति द्विसतति पष्टि त्रिंशच्च दश च लक्षाणि । पचपष्टि

पञ्चद्वि सहस्राऽऽ छप्पद्मा चारुरोगं च । ७३॥ पंचामीर्षं पण्णत्तरी अ
 पण्णद्वि पंचराणा य । मत्तरम गयसहम्मा पचमए आउयं होउ ॥७४॥
 परासीइ सहम्मा पचद्वी चेर तदय पन्नरस । चारस सयाई आउं
 चलदेराण जहामख ॥७५॥ रयणाणि सत्त-चक्रं ? खमं ? (च)
 घणू ३ मणी य ४ मात्रा ५ तथा गया ६ सत्ते ७ । एए मत्त (उ
 रयणा) सधेमिं वासुदेराण ॥७६॥ उत्पत्तिकालुत्ति-सिञ्जसाइजि-
 णाण पचण्ह पवयणे जहाकमसो । केमवपणग तेविदुपमूहनामेण सजाय
 ॥७७॥ अरमद्धिअंतरे दुन्नि पुरिसपुंडरीयदत्तनामानो । सुवपनभि-
 नारायण कण्हो नेमिस्स तित्थमि ॥ ७८ ॥ गइत्ति-एगो य सत्त-
 मीए पच य छट्ठीय पचमी एगो । एगो य चउत्थीए कण्हो पुण
 तच्चपुढवीए ॥ ७९ ॥ अयलाईया अट्ठवि सिद्धिगया बभलोय नवमो
 य । दससागराउ भरहे सिज्झिस्सइ कण्हतित्थमि ॥ ८० ॥ अनि-

सहस्राणि पद्पचाशद् द्वादश एक च ॥ ५७३ ॥ पञ्चाशोति
 पञ्चसप्ततिश्च पञ्चपष्टि पञ्चपञ्चाशच्च । सप्तदश शतसहस्राणि
 पञ्चमस्यायुर्भयति ॥५७४॥ पचाशोति सहस्राणि पंचसप्ततिं सह
 स्राणि पंचपष्टिश्चैव तथा च पचदश । द्वादश शतानि आयुर्बल
 देवाना यथासख्य ॥ ५७५ ॥ रत्नानि सत्त-चक्र खड्गश्च धनु
 मणिश्च माला तथा गज शख । पतानि तु सत्त रत्नानि
 सर्वेषा वासुदेवाना ॥ ५७६ ॥ उत्पत्तिकाल इति-श्रेयासादि
 जिनाना पंचाना प्रवचने यथाक्रमश । केशवपंचकं त्रिपृष्ठप्रमुख
 नाम्ना सजात ॥ ५७७ ॥ अरमल्लयोरन्तरे द्वौ पुरुषपुंडरीकदत्त-
 नामानौ । सुव्रतनम्यो नारायण कृष्ण नेमितीर्थे ॥ ५७८ ॥ गति
 रिति-एकश्च सप्तम्या पच च पष्ठथा पंचम्यामेक । एकश्च चतु
 र्थ्या कृष्ण पुन तृतीयपृथिव्या ॥ ५७९ ॥ अचलादिका अष्टापि
 मिद्धि गता ब्रह्मलोके नवमश्च । दशसागरायु भरते सेत्स्यति कृ
 ष्णतीर्थे ॥ ५८० ॥ अकृतनिदाना रामा सर्वेऽपि च केशवा कृत

याणकडा रामा सव्वेऽविय केसवा नियाणकडा । उडुंगामी रामा के-
 सव सव्वे अहोगामी ॥ ८१ ॥ बलंति-सोलस रायसहस्सा सव-
 बलेण तु सकलनिवद्धं । अंछंति वासुदेवं अगडतडमी ठिय सत
 ॥ ८२ ॥ वित्तूण सकलं सो वामगहत्थेण अछमाणानं । भुजिज्ज व
 लिपिज्ज व महुमहणं ते न चारंति ॥ ८३ ॥ जं केसवस्स य वलं
 त दुगुणं होइ चक्कवट्टिस्सा । तत्तो वला वलवगा अपरिमियवळा जि-
 णवरिंदा ॥ ८४ ॥ कोडिसिलोप्पाडणत्ति-वामभुवगा पढमेण
 धारिया सा सिरंमि वीएण । तइएण कंठदेसे नेइ चउत्थो उ वच्छ-
 यले ॥ ८५ ॥ पंचमओ पुण हियए छट्ठो पावेइ कडियलपएसं ।
 सत्तमओ जा ऊरू जाणू जा नेइ अट्टमओ ॥ ८६ ॥ एएण नवम-
 हरिणा एसा चउरंगुल समुक्खित्ता । उच्चत्तवित्थरेहिं पत्तेयं जो-
 यणपमाणा ॥ ८७ ॥ लेसेणं इह विहिय नामजिणानं च वन्नण
 परम । सपइ ठवणजिणान किंचि सरूव च पयडेमि ॥ ८८ ॥ ठव-

निदाना । ऊधुंगामिनो रामा केशवा सर्वेऽधोगामिन ॥ ८८१ ॥
 धलमिति—पोडश राजसहस्राणि सर्वबलेन तु शृखलानिवद्ध ।
 आकर्षन्ति वासुदेवं अगडतटे स्थित मन्तं ॥ ८८२ ॥ गृहीत्वा शृखला
 स वामकहस्तेन आकर्षता भुजीत वापि लिम्पेह्वा मधुमयन ते न
 शक्नुवन्त ॥ ८८३ ॥ यत् केशवस्य बलं तद् द्विगुणं भवति चक्र
 धतिन । तत्ता वला वलवन्त अपरिमितबला जिनघरेन्द्रा ॥ ८८४ ॥
 कोटिशिलोत्पादनमिति—वामभुजगा प्रथमेन धृता सा शिरसि द्वि-
 तीयेन । तृतीयेन कंठदेशे नयति चतुर्यस्तु चक्षस्तले ॥ ८८५ ॥
 पंचमक पुन हृदये पृष्ठ प्रापयति कटिनलप्रदेशे । सप्तमक
 यावदूरु जानुनी यावत् नयति अष्टमक ॥ ८८६ ॥ एतेन नवमह
 रिणा एसा चतुरंगुल समुत्थिता । उच्चत्तवित्थराभ्या प्रत्येक
 योजनप्रमाणा ॥ ८८७ ॥ लेशेन इह विहित नामजिनाना च
 धर्षणं परमं । सप्रति स्थापनाजिनाना किंचित् स्वरूपं च
 प्रकटयाभि ॥ ८८८ ॥ स्थापनाहंतप्रतिमा पंचभि स्थाने भ

णारित्तपटिमा पचहिं ठाणेहिं णंति पचविहत्ति-भत्ती ?
 मगल २ नेइय निम्मफट ३ अनिग्सवेइए ४ रावि । सामयवेइय ५
 पचममुइइह जिणपरिदेहिं ॥ ८० ॥ गिहिं जिणपटिमा भत्तिनेइय ?
 चत्तरंगप्रदियंतु । जिणचिं मंगलचेइयति समपन्नुणो विति २ ॥ ९० ॥
 लेयो ? वल २ टंतय ३ फट्ट ४ लोह ५ वत्थूण पच पटिमाउ ।
 नो कुज्जा गिहिं पटिमा कुलपणनासावहा जम्हा ॥ ९१ ॥ परिवार-
 रमाणरदिय घंमि नो पूयए पटिम [निरयावलिया मुत्ति] पित्त-
 ल ? सुवन्न २ रुपय ३ रयणाण चदकतमाईण । कुज्जा य लक्खण-
 जुय सत्तगुल जात्र नो अहिया ॥ ९२ ॥ गिहपटिमाणं पुरओ बलि
 वत्थारो न चैव कायधो । निच्च ण्हवण तियसंझमच्चण भावओ
 कुज्जा ॥ ९३ ॥ गधोदएण ण्हवणं पूया अट्टविहमगलाइ च । आ-
 रत्तिगाइमाइ कायध मच्चमणुदियह ॥ ९४ ॥ जीवाभिगमे-दप्पण
 ? भद्दासण २ वद्धमाण ३ सिरिवच्छ ४ मच्छ ५ वरकलसा ६ ।
 सत्थिय ७ नदावत्ता ८ मगलाईणि एयाणि ॥ ९५ ॥ अट्टेव य मग-

वन्ति पंचविधा इति-भक्तिमगलचैत्ये निश्चाकृतानिश्चाकृतचैत्ये
 घापि । शाश्वतचैत्य पंचममुपदिष्टं जिनवरेन्द्रै ॥ ५८९ ॥ गृह
 जिनप्रतिमा भक्तिचैत्य उत्तरागघटित तु जिनबिम्ब मगलचैत्य
 इति समयज्ञा द्रुवति ॥ ५९० ॥ लेपोपलदनककाण्ठलोहवस्तूना
 पचाना प्रतिमास्तु । नो कुर्याद् गृहे प्रतिमा कुलधननाशावहा
 यस्मात् ॥ ५९१ ॥ परिवारमानरहिता गृहे न पूजयेत् प्रतिमा ।
 पित्तलसुषणरूप्यकरत्नाना चन्द्रकान्तादीना कुर्याच्च लक्षणयुता
 सप्तागुला यावत् नो अधिका ॥ ५९२ ॥ गृहप्रतिमाना पुरत
 बलिघिस्तारो नैव कतव्य । नित्य स्नपन त्रिसध्यमर्चन भावत
 कुर्यात् ॥ ५९३ ॥ गन्धोदकेन स्नपन पूजा अष्टविधा भग
 लानि च । आरात्रिकादि कतव्य सर्वमनुदिषसम् ॥ ५९४ ॥
 दर्पणोभद्रासन वर्धमानक श्रीघत्सो मत्स्यो धरकलश । स्व
 स्तिको नन्द्यावर्ता मङ्गल्यानि प्तानि ॥ ५९५ ॥

लाई पुरओ काऊण अट्टविह पूआ । आरत्तिगाइ(गए)माई कायव्व
सव्व अणुदियह ॥ ९६ ॥ आरत्तिय च भणिय देविंदत्थयपइन्न-
समयमि । कुसुमजलीवि तह सिद्धचेइए वन्निया सुत्ते ॥ ९७ ॥ नि-
स्सकड जं गच्छसत्तिय ३ तदियरं अनिस्सकड ४ । सिद्धाययणं च ५
इमं चेइयपणग विणिद्धिट्ठं ॥ ९८ ॥ अहवा-निययाइं सुरलोए भत्ति-
कयाइ च भरहमाईहिं । नि (स्सानि) स्सकयाइं मंगलकयमुत्तरंगमि
॥ ९९ ॥ वारत्तयस्स पुत्तो पडिमं कासीय चेइए रम्मे । तत्थ य
थली अहेसी साहम्मियचेइय तं तु ॥ ६०० ॥ निस्सकडमनिस्सकडे
वावि चेइए सव्वहिं थुई तिन्नि । वेळं व चेइयाणि य नाउ इक्किक्कया
वाऽवि ॥ ६०१ ॥ तिन्नि वा कड्डू जाव, थुईओ तिसिलोइया । ताव
तत्थ अणुन्नायं, कारणेण परेण य ॥ २ ॥ व्यवहारे-अट्टमीचउद्दसीसुं
चेइय सव्वाणि साहुणो सव्वे । वदेयव्वा नियमा अवसेसतिहीसु
जहसत्ति ॥ ३ ॥ व्यवहारचूर्णिणः । सासयजिणपडिमानामा-

अएव च मगलानि पुरत कृत्वा अष्टविधा पूजाम् । आरात्रिकादि
कर्त्तव्य सर्वमनुदिवसम् ॥ ९६ ॥ आरात्रिक च भणित देवेन्द्रस्तव-
प्रकीर्णं समये । कुसुमाञ्जलिरपि तथा सिद्धचैत्ये घण्टिता सूत्रे ॥ ९७ ॥
निश्चाकृत यद् गच्छसत्क ३ तदितरत् अनिश्चाकृतम् ४ । सिद्धाय-
तन च ५, एतच्चैत्यपञ्चक विनिर्दिष्टम् ॥ ९८ ॥ अथवा-नियतानि
सुरलोके भक्तिकृतानि च भरतादिभि । निश्चानिश्चाकृतानि मङ्ग-
लकृतमुत्तराङ्गे ॥ ९९ ॥ वारप्रकस्य पुत्र प्रतिमामकार्पीच चैत्ये रम्ये ।
तत्र च स्थली आसीत् साधर्मिकचैत्यं तत्तु ॥ ६०० ॥ निश्चाकृते
अनिश्चाकृते चापि सर्वत्र चैत्ये स्तुतयस्तिस्र । वेला या चैत्यानि
च ज्ञात्वा एकैकिका याऽपि ॥ ६०१ ॥ तिस्रो वा कथ्यन्ते यायत्
स्तुतयस्त्रिभोक्तिका । तापत्तत्रानुज्ञात कारणेन परतोऽपि च
॥ २ ॥ व्यवहारे-अष्टमीचतुर्दशयो चैत्यानि सर्वाणि साधय सर्वे ।
वन्दितव्या, नियमाद् अग्रशेपतियिषु ययाशक्ति ॥ ३ ॥ शा-

इति—मिरि चसाहमेण १ पट्टु वारिसेण २ सिरिवद्धयाण ३ जि-
 णनाह । चंदाणण जिण ४ सव्वेऽपि भवहरा होह मह तुम्भे ॥४॥
 नंदीसरसासयजिणभवण वावण्णाइति—अंजणगिरिसु च-
 ऊसु सोलससु ददिमुहेसु सेलेसु । बत्तीस रइकरेसु नदीसरदीवव-
 ष्णमि ॥ ५ ॥ जोयणसपदीहाऽ पन्नास विन्थटाइ काइंपि । वावच-
 रसियाइ तीसु कुलपवयसिरेसु ॥ ६ ॥ नदीसरि वावन्न दस य
 दसकुरुतरु चवरिहिं, पेयडिहिं सउसपरु अट्ट कुडल उमुयारि-
 हिं । पचासी मदरिहि चारि रुपगगिरि मणक्षयरिहिं, तह माणुस
 घायन्न होंति जिणभवणा (पवरिहि) ॥ ७ ॥ सपइ सग्ग-
 याइ सासयजिणभवणाइति—तेवीस सत्तनउई सहस्स चुलसी
 य लख उट्टे य । वावत्तरि लक्खाहिय कीढीओ सत्त पायाले
 ॥ ८ ॥ चउ वक्खारगिरी सेलिहिं चउ, वर सासय जिणमंदिर
 नमहु । तेसट्ठी अहिय सय चारि वतरिया, णमहि सिद्धि जेम

श्वतजिनप्रतिमानामानीति—श्रीऋषभसेन । १ प्रभो ! वारिषेण ।
 २ श्रीवर्द्धमान । ३ जिननाथ । । चन्द्रानन ! जिन ! ४ सर्वेऽपि
 भवहरा भयत मम यूयम् ॥ ४ ॥ नन्दीश्वरे शाश्वतजिनभवनाति
 द्विपञ्चाशत्—भञ्जनगिरिषु चतुर्षु षोडशसु दधिमुखेषु शैलेषु ।
 द्वात्रिंशति रतिकरेषु, द्वापञ्चाशत् नन्दीश्वरद्वीपमध्ये ॥५॥ योजन-
 शतदोर्घाणि पञ्चाशद्विस्तृतानि कान्यपि । द्विसप्तत्युच्छ्रितानि
 त्रिंशति कुलपर्वतशीर्षेषु ॥ ६ ॥ नन्दीश्वरे द्विपञ्चाशत् दश च
 दशकुरतरूणामुपरि चैतादृशे सप्ततिशत अष्ट कुण्डलेऽपुकारेषु ।
 पञ्चाशीति मन्दरे चत्वारि रुचकगिरौ मनोरुचके तथा मानुषे द्वि-
 पञ्चाशद् भवन्ति जिनभवनानि नन्दीश्वरे (प्रधराणि) ॥७॥ सम्प्रति
 स्वर्गगतानि शाश्वतजिनभवनानीति—प्रयोर्विंशति सप्तनवति
 सहस्राणि चतुरशीतिश्च लक्ष्णाणि ऊर्ध्वे च । द्विसप्ततिलक्षाधिका
 कोटय सप्त पाताले ॥ ८ ॥ चतुषु वक्षस्कारगिरिशैलेषु चत्वारि
 धराणि शाश्वतजिनमन्दिराणि नमत । त्रिवष्टथधिकानि शतानि

लघु वसि करहु ॥ ९ ॥ एव च तिरियलोए तैवट्टिहिया सयाई
 चत्तारि । जोइसवतरियाणं संत्वाइयाइमेयाई ॥१०॥ सत्ताणवइ
 सहस्सा लक्खा छप्पन्न अट्ट कोडीओ । चउसय छयासियाई
 तियलोए चेइए वंदे ॥११॥ एएसु सवदेवा सवच्छर चाउमास जि-
 णचवणे । दिक्खासु अ निवाणे करिंति अट्टाहियामहिमा ॥१२॥ वि-
 चासोएसु सियअट्टमीउ तह पुत्तिमाइपज्जते । अट्टाहिया य एया प-
 न्नात्ता सासया सुत्ते ॥१३॥ चदग्गविज्झपइन्नाउ जीवाभिगमे च पुण ।
 जिणठवणा उ तद्विरहेत्ति-गुरुविरहमि य ठवणा गुरुव सेवो-
 वदसणत्थ च । जिणविरहमिव जिणविंव सेवणामतणं सहल ॥१४॥
 एत्तो व परुक्खस्सवि जह सेवा मतदेवयाए वा । तह चेव परुक्ख-
 स्सवि गुरुणो सेवा विणयहेऊ ॥ १५ ॥ विशेषावउयके । करेमि
 भंते । सामाइय गोयमसामी भट्टारय आमतेइ सेसा पुण अप्पणो
 गुरुणो, आवश्यकचूर्णो । जर्किंचि अणुट्टाण आवस्सयमाइयं

चत्वारि (व्यन्तरसत्कानि), नमत सिद्धि यथा लघु वशी कुरुत ॥९॥
 एव च तिर्यग्लोके त्रिषष्ट्यधिकानि शतानि चत्वारि । ज्यो-
 त्तिर्व्यन्तराणा सङ्ख्यस्तीतानीमानि ॥ १० ॥ सप्तनवति सहस्राणि
 लक्षाणि पदपञ्चाशत् अष्ट कोटय । चतुशतानि पदशीतानि तिर्य-
 ग्लोके चैत्यानि घन्दध्वम् ॥११॥ पतेपु सर्वे देवा सवत्सरे चातु
 भासे जिनच्यवने । दीक्षासु च निवाणे कुर्वन्ति अष्टाहिका महि-
 मा ॥ १२ ॥ चैत्राश्वयुजो सिताष्टम्या तथा पूर्णिमापर्यन्त ।
 अष्टाहिके च पते प्रज्ञप्ते शाश्वत्यौ सूत्रे ॥१३॥ चन्द्रायेध्यक्प्रकीर्ण
 जीवाभिगमे च पुन । जिनस्थापना तु तद्विरहे इति-गुरुविरहे
 च स्थापना गुरुरिव सेवोपदर्शनार्थं च जिनधिरहे जिनत्रिम्बमिय
 संघनाऽऽमन्त्रणं सफलम् ॥१४॥ राज्ञो वा परोक्षस्यापि यथा सेवा
 मन्त्रदेवताया वा । तथैव परोक्षस्यापि गुरो सेवा विनयहेतु ॥१५॥
 करोमि भदन्त । सामायिक गौतमस्वामी भट्टारक आमन्त्रयति
 शेषा पुनरात्मनो गुरुम् । यत्किञ्चिदनुष्ठान आवश्यकानि चरण

चरणद्वय । तद्वरणं गुरुमूले गुरुविरहे ढावणापुरतो ॥ १६ ॥ अ-
 वरो वराटप वा फट्टे पुत्ये व चित्तकर्मणि वा । सम्भावमसम्भावे ठवणा-
 र्त्वे प्रियाणादि ॥ १७ ॥ अट्टावयमि भरहाहियेण सिरिआइनाइवि-
 रहमि । ठाप्रिय जिणपदिमाओ विहित्ति पूयापअं ठवणा ॥ १८ ॥
 घोहऊण मपइरघ्ना पद्यतिदेसरायाणो । ममत्तं गाहउ विसज्जिया
 जिणहरे कासा ॥ १९ ॥ एय निसाहगये भणिय नाऊण भुवण-
 नाहाण । कारिज्ज मदिराइ विहिणा अहिगारिणो तत्तो ॥ २० ॥
 जिणमदिरकारणविहित्ति--अहिगारिणा इम खलु कारयेव
 विज्जिए दोसे । आणाभंगाउ चिय धम्मो आणाइ पडिवद्धो ॥ २१ ॥
 अहिगारिणो गिहत्यो सुहसयणो वित्तसजुओ कुलजो । अक्खुद्धो
 धिइप्रलिओ मइम तह धम्मरागो य ॥ २२ ॥ जिणभवनं ? जिण-
 विवट्टावणरपूया ३ य सुत्तओ विहिणा । दव्वत्यओत्ति नेय भावत्यय-
 कारणत्तेणं ॥ २३ ॥ सुत्तूण भावयय जो दव्वथए पयट्टए मूढो । सो
 साहू वत्तवो गोयम । अजओ अविरओ य ॥ २४ ॥ उकोस दव्वयय आ-

हेतु । तद्वरणं गुरुमूले गुरुविरहे स्थापनापुरत ॥ १६ ॥ अक्षे वरा-
 टके वा फाट्टे पुस्तके च चित्रकर्मणि वा । सद्भावासद्भावयो स्था-
 पनारूप विजानीहि ॥ १७ ॥ अष्टापदे भरताधिपेन श्रीआदिनाथ-
 विरहे । स्थापिता जिनप्रतिमा विधिरिति पूजापद स्थापना ॥ १८ ॥
 बोधयित्था सम्प्रतिराजेन प्रत्यन्तदेशराजान । सम्यक्त्वं प्रा-
 हयित्था विसर्जिता जिनगृहाणि अकारुं ॥ १९ ॥ पतन्निशीथ
 ग्रन्थे भणित ज्ञात्वा भुवननाथानाम् । कारयेयुर्मन्दिराणि विधिना
 अधिकारिणस्तत ॥ २० ॥ जिनमन्दिरकारणविधिरिति--अधि-
 कारिणा इदं खलु कारयितव्यं विवर्जितं दोषैः । आज्ञाभगादेव
 धर्मं आज्ञया प्रतिबद्धं ॥ २१ ॥ अधिकारी गृहस्थ शुभस्वजनो
 वित्तसयुत कुलज । अक्षुद्धो धृतिवल्किो मतिमान् तथा धर्म-
 रागी च ॥ २२ ॥ जिनभवनं १ जिनविम्ब स्थापना २ पूजा ३ च सूत्रतो
 विधिना । द्रव्यस्तव इति श्लेषं भाषस्तवकारणत्वेन ॥ २३ ॥ मुक्त्वा
 भाषस्तव यो द्रव्यस्तवे प्रवृत्तते मूढ । स साधुवक्तव्यं गौतम ।
 अयत्त अविरतश्च ॥ २४ ॥ उत्कृष्टं द्रव्यस्तवमाराध्यं याति अच्युत

राहिय जाइ अच्युय जाव । भावत्यएण पावइ अंतमुहुत्तेण निवारणं
 ॥ २५ ॥ अपएसंमि निवुद्धी कारवणे जिणपरस्स नो पूआ । सा-
 हूणपणणुवाओ क्रिरियानासो य अववाए ॥ २६ ॥ न य किंचि
 जत्य सल्ल नरतिरियाण च अट्टिमाईणि । जलथलगया य जा सा
 सुद्धा भूमी भवे एसा ॥ २७ ॥ कट्टाईवि दल इह सुद्धं जं देवयाउव-
 वणाओ । नो अविहिणोवणीयं सय च काराविय ज नो ॥ २८ ॥
 रायाईणं इह सम्मएण नाओवणीयदवेण । भावेण कायवं अपत्ति-
 रहिय च जयणाए ॥ २९ ॥ पडिवुज्झिस्सति इह दट्टूण जिणिंद-
 विवमकलक । अत्तेऽवि भवसत्ता काहंति तओ पवर भवणं ॥ ३० ॥
 पिच्छिस्सं इत्थमह वदणमनिमित्तमागए साहू । कयपुन्ने भगवते
 गुणरयणनिधो महासत्ते ॥ ३१ ॥ निष्पाइऊण एव जिणभवणं
 सुदरं तहिं विव । जणमणनयणाणद लक्खणसंपन्नयं कुज्जा ॥ ३२ ॥
 पडिमत्ति—अगाहीणवयवाऽकराल अहउद्धवज्जिया दिट्ठी । सम-
 चउरंसं सुखा सुनिम्मला लक्खणजुया य ॥ ३३ ॥ पइट्ठत्ति—

यावत् । भावस्तवेन प्राप्नोति अन्तर्मुहूर्त्तं निर्वाणम् ॥ २५ ॥ अप-
 देशे निवृद्धि कारणे जिनगृहस्य नो पूजा । साधूनामननु-
 पात क्रियानाशश्चाद्यपाते ॥ २६ ॥ न च किञ्चिद् यत्र शल्य नर-
 तिरश्चा चास्थ्यादीनि । जलस्यलगता या सा शुद्धा भूमिर्भवेदेवा
 ॥ २७ ॥ काष्ठाद्यपि दलमिह शुद्ध यद्देवतोपवनात् । नो अविधिनी-
 पनीत स्वयं च कारित यत् नो ॥ २८ ॥ राजादीनामिह समते-
 न न्यायोपनीतव्रव्येण । भावेन कर्त्तव्य अप्रीतिरहितं च यतनया
 ॥ २९ ॥ प्रतिभोत्स्यन्ति इह दृष्ट्वा जिनेन्द्रमिम्बमकलङ्कम् । अन्येऽपि
 भव्यसत्या कारयिष्यन्ति ततः प्रवरभवनम् ॥ ३० ॥ प्रेक्षिष्ये
 अत्राह घन्दनकनिमित्तमागतान् साधून् । शृतपुण्यान् भगवत
 गुणरत्ननिधीन् महासत्यान् ॥ ३१ ॥ निष्पाद्य पर्यं जिनभवनं
 सुन्दरं तत्र विम्बम् । जनमनोनयनानन्द लक्षणमपत्तं कुर्यात्
 ॥ ३२ ॥ प्रतिमेति—अद्गहीनाययवाऽकराला अधऊध्यवर्जितदृष्टि ।
 समचतुरस्रसुरूपं सुनिर्मला लक्षणयुता च ॥ ३३ ॥ प्रतिष्ठेति—

चरणद्वय । तद्वरणं गुरुमूले गुरुविरहे ठावणापुराओ ॥ १६ ॥ अ-
 वरो वराटए वा फट्टे पुत्ये व चित्तकम्मं वा । सम्भावममम्भावे ठवणा-
 र्त्तं वियाणादि ॥ १७ ॥ अट्टावयमि भरहाहियेण मिरिआइनाहवि-
 रहमि । ठारिय जिणपटिमाओ विहित्ति पूयापअं ठवणा ॥ १८ ॥
 घोइऊण भपइरन्ना पद्यतिदेसरायाणो । ममत्तं गाहंउ विसज्जिया
 जिणदरे फासा ॥ १९ ॥ एय निमाहगये भणियं नाऊण भुवण-
 नाहाण । फारिज्ज मदिराइ विहिणा अहिगारिणो तत्तो ॥ २० ॥
 जिणमदिरकारणविहित्ति--अहिगारिणा इम खलु कारेयव
 विज्जिए दोसे । आगाभंगाउ चिय धम्मो आणाइ पडिवद्धो ॥ २१ ॥
 अहिगारिणो गिहत्यो सुहसयणो वित्तसजुओ कुलजो । अक्खुद्धो
 धिइयलिओ मइम तह धम्मरागी य ॥ २२ ॥ जिणभवनं १ जिण-
 विवट्टावणरपूयाइ य सुत्तओ विहिणा । दव्वत्यओत्तिनेय भावत्थय-
 कारणत्तेण ॥ २३ ॥ सुत्तूण भावत्थय जो दव्वत्थए पयट्टए मूढो । सो
 साहू वत्तवो गोयम । अजओ अविरओ य ॥ २४ ॥ उक्कोसं दव्वत्थय आ-

हेतु । तद्वरणं गुरुमूले गुरुविरहे स्थापनापुरत ॥ १६ ॥ अक्षे वरा-
 टके वा फाट्टे पुस्तके च चित्रकर्मणि वा । सद्भावासद्भावयो स्था-
 पनारूप विजानीहि ॥ १७ ॥ अष्टापदे भरताधिपेन श्रीआदिनाथ-
 विरहे । स्थापिता जिनप्रतिमा विधिरिति पूजापद स्थापना ॥ १८ ॥
 बोधयित्वा सम्प्रतिराजेन प्रत्यन्तदेशराजान् । सम्यक्त्वं वा
 हयित्वा विसज्जिता जिनगृहाणि अकार्यु ॥ १९ ॥ एतन्निशीथ
 ग्रन्थे भणित ज्ञात्वा भुवननायानाम् । कारयेयुर्मन्दिराणि विधिना
 अधिकारिणस्तत ॥ २० ॥ जिनमन्दिरकारणविधिरिति--अधि-
 कारिणा इदं खलु कारयितव्यं विवर्जितं दोषैः । आज्ञाभगादेव
 धर्मं आज्ञया प्रतिबद्धं ॥ २१ ॥ अधिकारी गृहस्थ शुभस्वजनो
 वित्तसयुत कुलज । अक्षुद्धो धृतिबलिको मतिमान् तथा धर्म
 रागी च ॥ २२ ॥ जिनभवनं १ जिनविम्ब स्थापना २ पूजा ३ च सत्रतो
 विधिना । द्रव्यस्तव इति ज्ञेयं भावस्तवकारणत्वेन ॥ २३ ॥ सुक्त्वा
 भावस्तव यो द्रव्यस्तवे प्रवर्तते मूढ । स साधुर्वक्तव्यं गौतम ।
 अयत अविरतश्च ॥ २४ ॥ उत्कृष्टं द्रव्यस्तवमाराध्यं याति अच्युत

कायवा ॥ ४१ ॥ सो पुण इह विन्नेओ संज्ञाओ तिन्नि ताव ओ-
 हेणं । वित्तिकिरियाऽविरुद्धो अहवा जो जस्स जावट्ठओ ॥ ४२ ॥
 पूआ अट्ठप्पयारत्ति-वरगंधधुवचुक्खऽक्खएहिं कुसुमेहिं पवरदीवे-
 हिं । नेवेज्जफलजलेहि य जिणपूया अट्ठहा भणिया ॥ ४३ ॥ जिणद्व-
 भक्खणफलंति—चेइयदव्वं ॥ ४४ ॥ अक्खयफलवलिवत्याइ-
 संतियं जं पुणो दविणजातं । त निम्मल्लु बुच्चइ जिणगिहकम्ममि
 उवओगो ॥ ४५ ॥ साहारणं च तइय सघक्खए तस्स होइ उवओगो ।
 गेलनुवद्वार्डसु उवजुज्जड सजयाईणं ॥ ४६ ॥ चेइयदव्व साहारण
 च जो दुहइ मोहियमईओ । धम्मं सो न वियाणइ अहवा वद्धाउओ
 नरए ॥ ४७ ॥ चेइयदव्वविणासे तद्वविणासणे दुविहभेए । साहू
 उविवक्खमाणो अणंतसंसारिओ होइ ॥ ४८ ॥ भक्खेइ जो उवेरूखेइ, जि-
 णदव्व तु सावओ । पन्नाहीणो भवे जो य, लिप्पई पावकम्मणा ॥ ४९ ॥
 आयाणं जो भजइ पडिवन्नघण न देइ देवरस । नस्संत समुविवक्खइ
 सोविहु परिभमइ ससारे ॥ ५० ॥ चोएइ चेइयाणं खित्तहिरन्नाइ गाम-

ष्टव्या ॥ ४१ ॥ स पुनरिह विज्ञेय सन्ध्यास्तिस्त्रस्तावदोघेन । वृत्ति
 क्रियाऽविरुद्ध , अथवा यो यस्य यावान् ॥ ४२ ॥ पूजाऽष्टप्रका-
 रेति-वरगन्धधूपचोक्षाक्षतै कुसुमै प्रवरदीपै । नैवेद्य-फल-ज-
 लैश्च जिनपूजाऽष्टधा भणिता ॥ ४३ ॥ जिनद्रव्यभक्षणफलमिति-
 चैत्यद्रव्यं ॥ ४४ ॥ अक्षतफलवलिवस्त्रादिमत्क यत्पुनर्द्रविण-
 जातम् । तन्निर्मत्यमुच्यते जिनगृहकमण्युपयोग ॥ ४५ ॥ साधा-
 रण च तृतीय सद्व्यवृत्ते तस्य भवति उपयोग । ग्लानोपद्रवादिषु
 उपयुज्यते रुयतादीनाम् ॥ ४६ ॥ चैत्यद्रव्य साधारण च यो
 द्रुह्यति मोहितमतिक । धर्मं स न विजानाति अथवा यद्वायुष्को
 नरके ॥ ४७ ॥ चैत्यद्रव्यविनाशे तद्व्यविनाशन द्विविधभेदं ।
 साधुरुपेक्षमाण अनन्तसंसारिको भवति ॥ ४८ ॥ भक्षयति य
 उपेक्षते जिनद्रव्य तु ध्रायकः । प्रहाहीनो भवेद् यश्च लिप्यते पाप-
 कर्मणा ॥ ४९ ॥ आदानं यो भनक्ति प्रतिपन्नघन न ददाति देयस्य ।
 नश्यन्तं समुपेक्षते सोऽपि खलु परिन्नाम्यति ससारे ॥ ५० ॥ नो-

निष्कम्पस्य यः सम्यं तस्मै पश्यायने विही एसो । सुदुर्ज्ञेण पयसो
 आययने ठाण्डयणा य ॥३४॥ एयं नाऊण जणा । जिणिंदविस्स
 कुणह सुपडट्टं । पायेह जेण जन्मणजरमरणविज्जिय ठाण ॥३५॥
 अपहरइ रोगमारिं दुब्भिसख हणइ कुणइ सुहभाये । भायेण कीर-
 माणा सुपडट्टा सयललोयस्स ॥ ३६ ॥ राया वलेण वड्डइ जसेण ध-
 वलेइ सयलत्तिसिभाए । पुत्र यधइ विउल सुपडट्टा जस्स देसम्मि
 ॥ ३७ ॥ जिणहरगमण जहसत्ति—निययविहराणुरुवा पूआ
 गहिऊण सयणपरियरिओ । वचइ जिणिंदभयण परिहरियासेस-
 धरक्कम्मा ॥ ३८ ॥ सवालकारवसणाड परिहिय पवराइ छत्तचिं-
 धाड । मुत्तुण सीहदुवारे पविसइ कयउत्तरासंगो ॥ ३९ ॥ पूयत्ति-
 विहिणा उ कीरमाणा सवाविय फलवई हवइ चिट्ठा । इहलोइयावि
 किंपुण जिणपूआ उभयलोगहिया ? ॥ ४० ॥ काले सुइभूएणं
 विसिट्ठपुप्फाडएहिं विहिणा उ । सारथुइयुत्तगरुई जिणपूआ होइ

निष्पत्रस्य च सम्यक् तस्य प्रतिष्ठापने विधिरेव । शुभयोगेन
 प्रवेश आयतने स्थानस्थापना च ॥ ३४ ॥ पतत् ज्ञात्वा जना !
 जिनन्द्रत्रिमस्य कुरुत सुप्रतिष्ठाम् । प्राप्नुत येन जन्मजरामरण-
 विवर्जित स्थानम् ॥३५॥ अपहरति रोगमारिं दुर्भिक्षं हन्ति करोति
 शुभभावान् । भाजनं क्रियमाणा सुप्रतिष्ठा सकललाकस्य ॥ ३६ ॥
 राजा बलनं वद्धते यशसा धनलयति सकलदिग्भागान् । पुण्यं
 वदन्ति त्रिपुरं सुप्रतिष्ठा यस्य देशे ॥ ३७ ॥ जिनगृहगमन-
 यथाशक्ति-निजकविभवानुरूपा पूजा गृहीत्वा स्वजनपरि-
 कृति । व्रजति जिनेन्द्रभवनं परिहृताशेषगृहकर्मा ॥ ३८ ॥
 सवालङ्कारवसनानि परिधाय प्रवरानि छत्रचिह्नानि । मुक्त्वा
 सिंहद्वारं प्रविशति कृतोत्तरासङ्ग ॥ ३९ ॥ पूजेति-विधिना तु क्रिय-
 माणा सर्वाऽपि च फलवती भवति चेष्टा । इहलौकिक्यपि किं
 पुनर्जिनपूजा उभयलोकहिता ? ॥ ४० ॥ काले शुचिभूतेन विशिष्ट-
 पुष्पादिकैर्विधिना तु । सारस्तुतिस्तोत्रगुर्यां जिनपूजा भवति क-

कायवा ॥ ४१ ॥ सो पुण इह विज्ञेओ संज्ञाओ तिन्नि ताव ओ-
 हेणं । वित्तिकिरियाऽविरुद्धो अहवा जो जस्स जावडओ ॥ ४२ ॥
 पूआ अट्टप्पयारत्ति-वरगंधधूवच्चुक्खऽक्खएहिं कुसुमेहिं पवरदीवे-
 हिं । नेवेज्जफलजलेहिय जिणपूया अट्टहा भणिया ॥ ४३ ॥ जिणदव-
 भक्खणफलति—चेइयदव ० ॥ ४४ ॥ अक्खयफलवलिवत्याइ-
 संतियं जं पुणो दविणजात । त निम्मल्लं वुच्चइ जिणगिहकम्ममि
 उवओगो ॥ ४५ ॥ साहारणं च तइयं संघकए तस्स होइ उवओगो ।
 गेलन्नवहवाईसु उवजुज्जइ सजयाईणं ॥ ४६ ॥ चेइयदव साहारण
 च जो दुहइ मोहियमईओ । धम्मं सो न वियाणइ अहवा वट्ठाओ
 नए ॥ ४७ ॥ चेइयदवविणासे तहवविणासणे दुविहभेए । साहू
 उविवखमाणो अणंतसंसारिओ होइ ॥ ४८ ॥ भक्खेइ जो उवेक्खेइ, जि-
 णदव तु सावओ । पन्नाहीणो भवे जो य, लिप्पई पावकम्मणा ॥ ४९ ॥
 आयाण जो भजइ पडिवन्नघण न देइ देवरस । नस्सतं समुविवखइ
 सोविहु परिभमइ ससारे ॥ ५० ॥ चोएइ चेइयाणं खित्तहिरन्नाइ गाम-

च्चंन्या ॥ ४१ ॥ स पुनरिह विज्ञेय सन्त्यास्तिस्त्रस्तावदोचेन । वृत्ति
 क्रियाऽविरुद्ध , अथवा यो यस्य यावान् ॥ ४२ ॥ पूजाऽष्टप्रका-
 रेति-वरगन्धधूपचोक्षाक्षतै कुसुमै प्रवरदीपै । नैवेद्य-फल-ज-
 लैश्च जिनपूजाऽष्टधा भणिता ॥ ४३ ॥ जिनद्रव्यभक्षणफलमिति-
 चैत्यद्रव्य ० ॥ ४४ ॥ अक्षतफलबलिवस्त्रादिसत्क यत्पुनर्द्रविण-
 जातम् । तन्निर्मात्यमुच्यते जिनगृहकर्मण्युपयोग ॥ ४५ ॥ साधा-
 रणं च तृतीय सद्व्यकृते तस्य भवति उपयोग । ग्लानोपद्रवादिषु
 उपयुज्यते स्यतादीनाम् ॥ ४६ ॥ चैत्यद्रव्य साधारण च यो
 द्रुह्यति मोहितमतिक । धर्मं स न विजानाति अथवा वट्टायुष्को
 नरके ॥ ४७ ॥ चैत्यद्रव्यविनाशे तद्द्वयविनाशन द्विविधमेव ।
 साधुरपेक्षमाण अनन्तसत्सारिको भवति ॥ ४८ ॥ भक्षयति य
 उपेक्षते जिनद्रव्य तु श्रावक । प्रज्ञाहीनो भवेद् यश्च लिप्यते पाप-
 कर्मणा ॥ ४९ ॥ आदानं यो भनक्ति प्रतिपन्नघन न ददाति देयस्य ।
 नश्यन्त समुपेक्षते सोऽपि खलु परिभ्राम्यति ससारे ॥ ५० ॥ नो-

निष्कन्तस्त य सम्यं तस्त पद्मवने विही एतो । मुहजोएण पवेसो
 आययणे ठाणठयणा य ॥३४॥ एयं नाऊण जणा ! जिणिंदबिबस्स
 कुणह सुपडट्टं । पावेह जेण जन्मणजरमरणविज्जिय ठाणं ॥३५॥
 अरहरइ रोगमारिं दुब्भिकख हणइ कुणइ मुहभावे । भावेण कीर-
 माणा सुपडट्टा सयललोयस्स ॥ ३६ ॥ राया बलेण वडइ जसेण ध-
 वलेइ सयलदिसिभाए । पुन्न यधइ विठल सुपडट्टा जस्स देसम्मि
 ॥ ३७ ॥ जिणहरगमण जहसत्ति—निययविहवाणुरुवा पूआ
 गहिऊण सयणपरियरिओ । वच्चइ जिणिंदभवण परिहरियासेस-
 घरकम्मो ॥ ३८ ॥ सवालकारवसणाइ परिहिय पवराइं छत्तचिं-
 धाइ । मुत्तुण सीहदुवारे पविसइ कयउत्तरासगो ॥ ३९ ॥ पूयत्ति-
 विहिणा उ कीरमाणा सवाविय फलवई हवइ चिट्ठा । इहलोइयावि
 किंपुण जिणपूआ उभयलोगहिया ? ॥ ४० ॥ काले सुइभूएणं
 विसिद्धपुप्फाइएहिं विहिणा उ । सारथुइधुतगरुई जिणपूआ होइ

निष्पन्नस्य च सम्यक् तस्य प्रतिष्ठापने विधिरेव । शुभयोगेन
 प्रवेश आयतने स्थानस्थापना च ॥ ३४ ॥ एतत् ज्ञात्वा जना !
 जिनेन्द्रविम्बस्य कुरुत सुप्रतिष्ठाम् । प्राप्नुत येन जन्मजरामरण-
 विवर्जित स्थानम् ॥३५॥ अपहरति रोगमारिं दुर्भिक्षं हन्ति करोति
 शुभभावान् । भावेन क्रियमाणा सुप्रतिष्ठा सकललाकस्य ॥ ३६ ॥
 राजा बलेन वद्धते यशसा धवलयति सकलदिग्भागान् । पुण्य
 धध्नाति विपुल सुप्रतिष्ठा यस्य देशे ॥ ३७ ॥ जिनगृहगमन
 यथाशक्ति—निजकविभवानुरूपा पूजा गृहीत्वा स्वजनपरि-
 करित । व्रजति जिनेन्द्रभवत परिहृताशेषगृहकर्मा ॥ ३८ ॥
 सर्वालङ्कारवसनानि परिधाय प्रवराणि छत्रचिह्नानि । मुक्त्वा
 सिद्धद्वारे प्रविशति वृत्तोत्तरासङ्ग ॥ ३९ ॥ पूजेति—विधिना तु क्रिय-
 माणा सर्वाऽपि च फलवती भवति चेष्टा । इहलौकिक्यपि किं
 पुनर्जिनपूजा उभयलोकहिता ? ॥ ४० ॥ काले शुचिभूतेन विधिष्ट-
 पुष्पादिकैर्विधिना तु । सारस्तुतिस्तोत्रगुर्वां जिनपूजा भवति क-

पंच चइव रायककुहाईं चेइए५ इयरो । पंचविहाभिगमेणं५ दाहिणवा-
 मंगभूमिदुगे २ ॥ ५९ ॥ आसायणा १० य उगह ३ नाउ इरि-
 यावहीपडिकमणे । पचावीसुस्तासं काउस्सगं विहेऊण २५ ॥ ६० ॥
 पंचंग पणमेउ ५ एत्तो चिइवदण करे तिविह ३ । अट्टावन्नं भेया एए
 चिइवंदणे होति ॥ ६१ ॥ चारस पुण अहिगारा १२ दोसा एगूण-
 वीस उस्सग्गे ३१ । छच्चिय निमित्त होनि य ३७ पचेव य हेयवो भ-
 णिया ४२ ॥ ६२ ॥ आगारा पुण सोलस ५८ दडा पचेव होति
 नायवा ६३ । तिन्नेव वदणिज्जा ६६ थुइओ पुण होति चत्तारि ७०
 ॥ ६३ ॥ तिन्नि निसीही एमाइ तीस १०० तह संपयाओ
 सगणउई १९७ । चिइवदणमि नेयं सत्ताणउय सयं ठाण ॥ ६४ ॥
 अवहट्टु रायककुहाईं पंच वररायककुहूवाइ । खग छत्तो वाणह
 मउडं तह चामराओ य ॥ ६५ ॥ दवाण सचित्ताण विउसरणमच्चित्त-
 दवपरिभोगो । मणएगत्तीकरण अजलिवधो य दिट्ठोपहे ॥ ६६ ॥

॥ ५८ ॥ प्रविशति पञ्च त्यक्त्वा राजचिह्नानि चैत्ये ५ इ-
 तर । पञ्चविधाभिगमेन ५ दक्षिणवामाङ्गभूमिद्विके २ ॥ ५९ ॥
 आशातनाश्च १० अवग्रह ३ ज्ञात्वा ईर्यापथिकीप्रतिक्रमणे । पञ्च-
 विंशत्युच्छ्वास कायोत्सर्गं त्रिधाय २५ ॥ ६० ॥ पञ्चाङ्ग प्रणमय्य ५
 तत चैत्यवन्दन कुर्यात् त्रिविधम् ३ । अष्टपञ्चाशद्भेदा पते चैत्य-
 वन्दने भवन्ति ॥ ६१ ॥ द्वादश पुनरधिकारा १२ दोषा एकोन-
 विंशतिरुत्सर्गे ३१ । पट्टेव निमित्तानि भवन्ति च ३७ पञ्चैव च हे-
 तवो भणिता ४२ ॥ ६२ ॥ आकारा पुन षोडश ५८ दण्डा
 यञ्चैव भवन्ति ज्ञातव्या ६३ । त्रय एव वन्दनीया ६६ स्तुतय
 पुनर्भेषन्ति चतस्र ७० ॥ ६३ ॥ तिस्रो नैपेधिक्य षण्मादि त्रिशत्
 १०० तथा सत्तपय सत्तनयति १९७ । चैत्यवन्दने ज्ञेय सत्तनवर्त
 शत स्यानानाम् ॥ ६४ ॥ अपहृत्य राजचिह्नानि पञ्च घरराज-
 धिद्वरूपाणि । सङ्ग्य छत्रमुपानह मुकुट तथा चामराणि च ॥ ६५ ॥
 द्रव्याणा सचित्ताना व्युत्सर्जनमचित्तद्रव्यपरिभोग । मनपक-
 त्वीकरण अजलियन्धश्च दृष्टिपथे ॥ ६६ ॥ तथा एकशाटिकेन उत्त-

गोवाङ् । लगन्तस्स य जइणो तिगरणमुद्धो कहन्नु मये ? ॥ ५१ ॥
 भन्नइ इत्य विभासा जो एयाइं सयं विमग्गिज्जा । नहु तस्स होइ मुद्धी
 अह फोइ हरिज्ज एयाइ ॥ ५२ ॥ सबत्त्यामेण तहिं सयेणवि होइ
 लग्गियव्वति । सचरित्तञ्चरिचीण य एय सवेसिं कज्जंति ॥ ५३ ॥
 चुन्निज्ज चक्कवट्ठिं उप्पन्नमि हि गणाइए कज्जे । जइ तं न करेइ मुणी
 अणतससारिओ होइ ॥ ५४ ॥ जिणपवयणवुद्धिकरं पभावग नाण-
 दसणगुणाणं । भक्खतो जिणदव्व अणतससारिओ होइ ॥ ५५ ॥
 जिणपवयणवुद्धिकर पभावग नाणदसणगुणाण । रक्खतो जिणदव्वं
 परित्तससारिओ होइ ॥ ५६ ॥ जिणपवयणवुद्धिकर पभावग ना-
 णदसणगुणाण । वहुतो जिणदव्वं तित्थयरत्तं लहइ जीवो ॥ ५७ ॥
 चिइवदणविहित्ति—समणाण सावयाण य सव्वाणुट्ठाणमूलम-
 कखाय । चिइवदणमेव जभो ता तमि समुज्जमं कुणह ॥ ५८ ॥ पविसेइ

ह्यति चैत्याना क्षेत्रद्विरण्यादिग्रामगोपादिषु । लगतश्च यति-
 नस्त्रिकरणशुद्धि कथं नु भवेत् ? ॥ ५१ ॥ भण्यतेऽत्र विभाषा य
 पतानि स्वयं विमार्गयेत् । न खलु तस्य भवति शुद्धिः, अथ
 कोऽपि हरेद् पतानि ॥ ५२ ॥ सर्वस्याज्ञा तत्र सङ्घेनापि भवति
 लगितव्यमिति । सचरित्राऽचरित्रिणा चैतत् सर्वेषां कार्यमिति
 ॥ ५३ ॥ चूणयेत् चक्रवर्तिन उत्पन्ने हि गणादिके कार्ये । यदि
 तत् न करोति मुनिरनन्तससारिको भवति ॥ ५४ ॥ जिनप्रव-
 चनवृद्धिकर प्रभावक ज्ञानदर्शनगुणानाम् । भक्षयन् जिनद्रव्यं
 अनन्तससारिको भवति ॥ ५५ ॥ जिनप्रवचनवृद्धिकर प्रभा-
 वक ज्ञानदर्शनगुणानाम् । रक्षन् जिनद्रव्यं परीतससारिको
 भवति ॥ ५६ ॥ जिनप्रवचनवृद्धिकर प्रभावकं ज्ञानदर्शनगुणा-
 नाम् । धृष्टयन् जिनद्रव्यं तीर्थकरत्वं लभते जीव ॥ ५७ ॥
 चैत्यवन्दनविधिरिति—श्रमणानां श्रावकाणां च सर्वानुष्ठानमूलमा-
 रयात्तम् । चैत्यवन्दनमेव यतस्ततस्त्वरिपन् समुद्यमं कुहत्

पंच चण्ड रायककुहाई चण्डए ५ इयरो । पञ्चविहाभिगमेणं ५ दाहिणवा-
 मंगभूमिदुगे २ ॥ ५९ ॥ आसायणा १० य उगह ३ नाड इरि-
 यावहीपडिक्रमणे । पंचावीसुस्सास काउस्सगं विहेऊणं २५ ॥ ६० ॥
 पंचग पणमेउ ५ एत्तो चिइवदण करे तिविह ३ । अट्टावन्नं भेया एए
 चिइवदणे होंति ॥ ६१ ॥ वारस पुण अहिगारा १२ दोसा एगूण-
 वीस उस्सगो ३१ । छच्चिय निमित्त होति य ३७ पचेव य हेयवो भ-
 णिया ४२ ॥ ६२ ॥ आगारा पुण सोलस ५८ दडा पचेव होति
 नायवा ६३ । तिन्नेव वंदणिज्जा ६६ थुइओ पुण होति चत्तारि ७०
 ॥ ६३ ॥ तिन्नि निसीही एमाइ तीस १०० तइ संपयाओ
 सगणउई १९७ । चिइवदणमि नेय सत्ताणउय सय ठाण ॥ ६४ ॥
 अवह्हु रायककुहाइ पंच वररायककुहरूवाइ । खग छत्तो वाणह
 मउड तह चामराओ य ॥ ६५ ॥ दद्याण सचित्ताण विउसरणमच्चित्त-
 दवपरिभोगो । मणएगत्तीकरणं अजलिवधो य दिट्ठीपहे ॥ ६६ ॥

॥ ५८ ॥ प्रविशति पञ्च त्यक्त्वा राजचिह्नानि चैत्ये ५ इ-
 त्तर । पञ्चविधाभिगमेन ५ दक्षिणवामाङ्गभूमिद्विके २ ॥ ५९ ॥
 आशातनाश्च १० अवग्रह ३ ज्ञात्या ईर्यापथिकीप्रतिक्रमणे । पञ्च-
 विंशत्युच्छ्वास कायोत्सग विधाय २५ ॥ ६० ॥ पञ्चाङ्ग प्रणमय्य ५
 तत चैत्यवन्दन कुर्यात् त्रिभिधम् ३ । अटपञ्चाशद्देवा पते चैत्य-
 वन्दने भवन्ति ॥ ६१ ॥ द्वादश पुनरधिकारा १२ दोषा पकोन-
 विंशतिरुत्सर्ग ३१ । पडेव निमित्तानि भवन्ति च ३७ पञ्चैव च हे-
 तवो भङ्गिता ४२ ॥ ६२ ॥ आकारा पुन षोडश ५८ दण्डा
 यञ्चैव भवन्ति ज्ञातव्या ६३ । प्रय पत्र वन्दनीया ६६ स्तुतय
 पुनर्भयन्ति चतस्र ७० ॥ ६३ ॥ तिस्रो नैपेधिक्य एवमादि त्रिशत्
 १०० तथा सम्पद सप्तनवति १९७ । चैत्यवन्दने ज्ञेय सप्तनवत्
 शत स्यानानाम् ॥ ६४ ॥ अपहन्य राजचिह्नानि पञ्च घरराज-
 चिह्नरूपाणि । खड्ग छत्रमुपानह मुकुट तथा चामराणि च ॥ ६५ ॥
 द्रव्याणा सचित्ताना ह्युत्सर्जनमचित्तद्रव्यपरिभोग । मनपक-
 न्दीकरण अजलिवन्धश्च दृष्टिपथे ॥ ६६ ॥ तथा एकशटिकेन उत्त-

तद् एगसाढपणं उत्तरसंगेण जिणहरपवेसो । पञ्चविधाभिगमोऽयं
 सद्यइ जिणिंदगिहि गमणे ॥ ६७ ॥ दक्षिणपासंमि त्रिओ कुणइ
 नरो देववदण जुत्तो । नारी पुण वामकरंमि संत्रियावदई देवे ॥ ६८ ॥
 तबोल पाण भोअण पाणह थीभोग सुयणु निट्टवणे । मृत्तुच्चारं जूयं
 धज्जे जिणमदिरस्सतो ॥ ६९ ॥ सत्यावगह तिविहो उक्कोस जहम
 मज्झिमो नेओ । उक्कोस सट्ठी हत्यो जहम नव सेस मज्झिमओ ॥ ७० ॥
 इरियावहि उस्सगं चितइ पणवीसमेव उस्सासे । लोगस्सुज्जोयगरं
 वंदेसु निम्मलयर जाव ॥ ७१ ॥ गमणागमण विहारे सुत्तमि य सुमि-
 णदसणे राओ । नावा नइसतरणे इरियावहियापटिकमणं ॥ ७२ ॥
 भक्ते पाणे सयणासणे य अरहतसमणसेज्जासु । उच्चारे पासवणे
 पणवीस होति उस्सासा ॥ ७३ ॥ दो जाणूदुत्ति करा पचमग होइ
 उत्तमग तु । सम्म सपणिवाओ नेओ पचगपणिवाओ ॥ ७४ ॥
 नवकारण जहन्ना दढगथुइजुयल मज्झिमा नेया । सपुन्ना उक्कोसा

रासङ्गेन जिनगृहप्रवेश । पञ्चविधाभिगमोऽयं सत्याप्यते जि-
 नेन्द्रगृहगमने ॥ ६७ ॥ दक्षिणपार्श्वे स्थित करोति नरो देवव-
 दन युक्त । नारी पुनर्धामकरे सस्थिता वन्दते देवान् ॥ ६८ ॥
 ताम्बूल पान भोजनमुपानहौ स्त्रीभोग शयन निष्ठीवनम् । मृत्-
 मुच्चार द्यूत वर्जयेत् जिनमदिरस्यान्त ॥ ६९ ॥ शास्त्रवग्रहस्त्रिविध,
 उत्कृष्टो जघन्यो मध्यमो ज्ञेय । उत्कृष्ट पट्टिहस्तो जघन्यो नव
 श्लेषो मध्यमक ॥ ७० ॥ ईर्यापथिकयुत्सर्गं चिन्तयति पञ्चविंशति-
 मेवोच्छ्वासान् । लोकस्योद्योतकर चन्द्रेभ्यो निर्मलतर यावत् ॥ ७१ ॥
 गमनागमनविहारे सूत्रे च स्वप्नदशने रात्रौ । नावानदीसन्तरणे
 ईर्यापथिकाप्रतिक्रमणम् ॥ ७२ ॥ भक्ते पाने शयनासने च अर्ह-
 ण्यमणशय्यासु । उच्चारे प्रथमवणे पञ्चविंशतिभवन्त्युच्छ्वासा ॥ ७३ ॥
 द्वे जानुनी द्वौ करौ पञ्चम भवति उत्तमाङ्ग तु । सम्यक् सप्र-
 णिपातो ज्ञेय पञ्चाङ्गप्रणिपात ॥ ७४ ॥ नमस्कारेण जघन्या दण्ड-
 कस्तुतियुगलेन मध्यमा ज्ञेया । सपूर्णा उत्कृष्टा विधिना खलु वन्दन

विहिणा खलु वंदणा त्रिविहा ॥७५॥ त्रिविहावि हु नवभेआ, नवभेआ
 सा कहिस्सामि-नमुकारेणैकेन जघन्यजघन्या चैत्यवदना १ (शक्र-
 स्तवेन जघन्यमध्यमा) नमस्कारेण शक्रस्तवप्रणिधानेन जघन्यो-
 त्तमा ३ इरियावहियानमस्कारशक्रस्तवप्रणिधानैर्भध्यमजघन्या ४ सैव
 अरिहंतचेइयाणं एकया स्तुत्या मध्यममध्यमा ५ पंचभिर्दहैः प्रणिधान-
 रहितैर्भ्यमोत्तमा ६ तैरेव प्रणिधानसहितैरुत्तमजघन्या ७ तस्या
 नवम्याश्चांतराले उत्तममध्यमा ८ पचभिः शक्रस्तवैः प्रदक्षिणादा-
 नसहितैरुत्तमोत्तमा चैत्यवदना ९ ॥ दुत्तेरग १ दुत्ति २ दुगं ३ पवेव ५
 कमेण होंति अहिगारा । सकत्थयाइसु इह थोयव्विसेसविसया उ
 ॥७६॥ पढम नमुत्थु १ जेअइयसिद्ध २ अरिहत चेइयाणति ३ । लो-
 गस्स ४ सबलोए ५ पुक्खर ६ तमतिमिर ७ सिद्धाणं ८ ॥ ७७ ॥
 जो देवाणवि ९ उज्जितसेल १० चत्तारि अट्टदस दो य ११ । वेया-
 वच्चगराण य १२ अहिगारुल्लिगणपयाइ ॥ ७८ ॥ पढमे १ छट्ठे ६
 नवमे ९ दसमे १० इकारसे य ११ भावजिणे । तइयमि ३ पचममि
 य ५ ठवणजिणे सत्तमे नाण ॥ ७९ ॥ अट्टम ८ वीय २ चउत्थेसु
 ४ सिद्धदवारिहतनामजिणा । वेयावच्चगरसुरे सरेमि वारसम अ-

त्रिविधा ॥७५॥ त्रिविधाऽपि खलु नवभेदा, नवभेदा ता कययिप्या-
 मि-॥ द्वौ २ पको १ द्वौ २ द्विक ३ पञ्चैव ५ क्रमेण भवन्त्याधिकारा ।
 शक्रस्तवादिषु स्तोत्रव्यविशेषविषयाश्च ॥ ७६ ॥ प्रथम नमोऽस्तु
 १ ये अतीतसिद्ध २ अर्हचैत्यानामिति ३ लोकस्य ४ सर्वलोकै
 ५ पुष्कर ६ तमस्तिमिर ७ सिद्धेभ्य ८ ॥ ७७ ॥ यो देवानामपि
 ९ उज्जयन्तशैल १० चतुर अष्टा दश द्वौ च ११ । वेयावृत्त्यकारणा
 च १२ अधिकारोल्लिङ्गनपदानि ॥ ७८ ॥ प्रथमे १ पष्ठे ६ नवमे ९
 दशमे १० पकादशे च ११ भावजिना । तृतीये ३ पञ्चमे च ५
 स्थापनाजिना सतमे ज्ञानम् ॥ ७९ ॥ अष्टम ८ द्वितीय २ चतुर्थेषु
 ४ सिद्धप्रव्यार्हणामजिना । वेयावृत्त्यकरसुरान् स्मरामि द्वाद-

तद् एगसादपणं उत्तरसगेण जिणहरपवेमो । पञ्चविंशभिगमोऽयं
 सच्चरइ जिणिंदगिहि गमणे ॥ ६७ ॥ दाहिणपासंमि ठिओ कुणइ
 नरो देववदण जुत्तो । नारी पुण वामकरंमि संठिया वटई देवे ॥ ६८ ॥
 तवोल पाण भोजण पाणह यीभोग सुयणु निट्टवणे । मृत्तुच्चारं जयं
 वज्जे जिणमदिरस्सतो ॥ ६९ ॥ सत्यावगह विविहो उक्कोस जहन्न
 मज्झिमो नेभो । उक्कोस मट्टी हत्यो जहन्न नव सेस मज्झिमओ ॥ ७० ॥
 इरियावहि उस्सगं चितइ पणवीसमेव उस्सासे । लोगस्सुज्जोयगरं
 चंदेसु निम्मलयर जाव ॥ ७१ ॥ गमणागमण विहारे सुत्तमि य सुमि-
 णदसणे राओ । नाया नइसतरणे इरियावहियापठिक्कमणं ॥ ७२ ॥
 भक्ते पाणे सपणासणे य अरहतसमणसेज्जासु । उच्चारे पासवणे
 पणवीस हांति उस्सासा ॥ ७३ ॥ दो जाणु दुन्नि करा पचमग हीइ
 उत्तमग तु । सम्म सपणिवाओ नेओ पचगपणिवाओ ॥ ७४ ॥
 नवकारण जहन्ना दडगयुइजुयल मज्झिमा नेया । सपुन्ना उक्कोसा

रासङ्गेन जिनगृहप्रवेश । पञ्चविधाभिगमोऽयं सत्याप्यते जि-
 नेन्द्रगृहगमने ॥ ६७ ॥ दक्षिणपार्श्वे स्थितं करोति नरो देवव-
 न्दनं युक्तं । नारी पुनर्धामकरे सस्थिता वन्दते देवान् ॥ ६८ ॥
 क्षाम्बूलं पानं भोजनमुपानहौ स्त्रीभोगं शयनं निष्ठीवनम् । मृत्तु-
 मुच्चारं धूतं वर्जयेत् जिनमदिरस्यान्त ॥ ६९ ॥ शास्त्रव्यग्रहस्त्रिविधं,
 उत्कृष्टो जघन्यो मध्यमा ज्ञेयः । उत्कृष्टं पट्टिहस्तो जघन्यो नव
 श्लेषो मध्यमकः ॥ ७० ॥ ईर्यापथिकयुत्सर्गं चिन्तयति पञ्चविंशति-
 मेवोच्छ्वासान् । लोकस्योद्योतकरं चन्द्रेभ्यो निर्मलतरं यावत् ॥ ७१ ॥
 गमनागमनविहारे सूत्रे च स्वप्रदशने रात्रौ । नावानदीसन्तरणे
 ईर्यापथिकाप्रतिक्रमणम् ॥ ७२ ॥ भक्ते पात्रे शयनासने च अह-
 न्दूषणशय्यासु । उच्चारे प्रश्रवणे पञ्चविंशतिर्भवन्त्युच्छ्वासाः ॥ ७३ ॥
 द्वे जानुनी द्वौ करौ पञ्चमं भवति उत्तमाङ्गं तु । सम्यक् सप्र-
 णिपातो ज्ञेयः पञ्चाङ्गप्रणिपातः ॥ ७४ ॥ नमस्कारेण जघन्या दण्ड-
 कस्तुतियुगलेन मध्यमा ज्ञेया । सपूर्णा उत्कृष्टा विधिना खलु वन्दनं

विहिणा खलु वंदना त्रिविहा ॥७५॥ त्रिविहावि हु नवभेदा, नवभेदा
 सा कहिस्सामि-नमुकारेणैकेन जघन्यजघन्या चैत्यवदना ? (शक्र-
 स्तवेन जघन्यमध्यमा) नमस्कारेण शक्रस्तवप्रणिधानेन जघन्यो-
 त्तमा ३ इरियावहियानमस्कारशक्रस्तवप्रणिधानैर्भयमजघन्या ४ सैव
 अरिहंतचेइयाणं एकया स्तुत्या म-यमम-यमा ५ पंचभिर्दहैः प्रणिधान-
 रहितैर्म-यमोत्तमा ६ तैरेव प्रणिधानसहितैरुत्तमजघन्या ७ तस्या
 नवम्याश्चातराले उत्तमम-यमा ८ पंचभिः शक्रस्तवैः प्रदक्षिणादा-
 नसहितैरुत्तमोत्तमा चैत्यवंदना ९ ॥ दुत्तेरगं १ दुत्ति २ दुग ३ पचेव ५
 क्रमेण होंति अहिगारा । सक्त्थयाइसु इह योयवविसेसविसया उ
 ॥७६॥ पढम नमुत्थु १ जेअइयसिद्ध २ अरिहत चेइयाणति ३ । लो-
 गस्स ४ सवल्लोए ५ पुक्खर ६ तमतिमिर ७ सिद्धाणं ८ ॥ ७७ ॥
 जो देवाणवि ९ उज्जितसेल १० चत्तारि अट्टदस दो य ११ । वेया-
 वच्चगराण य १२ अहिगारुल्लिगणपयाइ ॥ ७८ ॥ पढमे १ छट्टे ६
 नवमे ९ दसमे १० इकारसे य ११ भावजिणे । तइयमि ३ पंचममि
 य ५ ठवणजिणे सत्तमे नाण ॥ ७९ ॥ अट्टम ८ वीय २ चउत्थेसु
 ४ सिद्धदवारिहतनामजिणा । वेयावच्चगरसुरे सरेमि वारसम अ-

त्रिविधा ॥७५॥ त्रिविधाऽपि खलु नवभेदा, नवभेदा ता कथयिष्या-
 मि-॥ द्वौ २ पको १ द्वौ २ द्विक ३ पञ्चैव ५ क्रमेण भवत्यधिकारा' ।
 शक्रस्तवादिषु स्तोतव्यविशेषविषयाश्च ॥ ७६ ॥ प्रथम नमोऽस्तु
 १ ये अतीतसिद्ध २ अर्द्धचैत्यानामिति ३ लोकस्य ४ सर्वलोके
 ५ पुष्कर ६ तमस्तिमिर ७ सिद्धेभ्यः ८ ॥ ७७ ॥ यो देवानामपि
 ९ उज्जयन्तशैल १० चतुर अथा दश द्वौ च ११ । वेयावृत्त्यकराणा
 च १२ अधिकारोल्लिङ्गनपदानि ॥ ७८ ॥ प्रथमे १ पष्ठे ६ नवमे ९
 दशमे १० एकादशे च ११ भावजिना । तृतीये ३ पञ्चमे च ५
 स्थापनाजिना सत्तमे ज्ञानम् ॥ ७९ ॥ अष्टम ८ द्वितीय २ चतुर्थेषु
 ४ सिद्धद्रव्यार्हणामजिना । वेयावृत्त्यकरसुरान् स्मरामि द्वाद-

दिगारे ॥ ८० ॥ अष्टैव सुए भणिया चउरो य हवति इत्यमाइन्ना ।
 वीओ दसमो इगारसो अ गारसयमाइन्ना ॥ ८१ ॥ जिणनामा नाम-
 जिणा केरलितित्येसरा उ भावजिणा । ठरणजिणा पडिमाओ द-
 वजिणा भाविभूयजिणा ॥ ८२ ॥ संप्रति—सत्त व पंच व तिभि
 य चिइउदण साहु सावयाण च । तिपयाहिण जिणभवणे भणिया
 ववहारचूलाए ॥ ८३ ॥ पडिक्कमणे १ चेइयहरे २ भोयणसमयमि ३ त-
 हय सवरणे ४ । पडिक्कमण ५ सुयण ६ पडिपोहकालियं ७ सत्तहा
 जइणो ॥ ८४ ॥ पडिक्कमओ गिहिणोऽविहु सत्तविह पचहा उ इय-
 रस्स । होइ जहन्नेण पुणो तोसुवि संज्ञासु इय तिविह ॥ ८५ ॥
 सुहझाण पसत्थमणो सुहसत्त पलंयमाणपाणिजुओ । निच्चल
 निरुद्धकाओ काउस्सग्गो हवइ एव ॥ ८६ ॥ घोडग १ लया य २
 खंभे कुट्टे ३ माले य ४ सवरिवहू ५ निलए ७ । लवुत्तर ८ थण ९ उट्ठी
 १० सजइ ११ खलिणे य १२ वायस १३ कविट्टे १४ ॥ ८७ ॥

शेऽधिकारे ॥ ८० ॥ अष्टैव सूत्रे भणिताश्चत्वारश्च भवति इहाचीर्णा ।
 द्वितीयो दशम एकादशश्च द्वादश आचीर्णा ॥ ८१ ॥ जिननामानि
 नामजिना केरलिनस्तीर्थेश्वरास्तु भावजिना । स्थापनाजिना
 प्रतिमा ब्रव्यजिना भाविभूतजिना ॥ ८२ ॥ सङ्ख्येति—सत्त च
 पञ्च च त्रीणि च चैत्यवन्दनानि साधूना ध्रावकाणा च । त्रिप्रद-
 क्षिणा जिनभवने भणिता व्यवहारचूलायाम् ॥ ८३ ॥ प्रतिक्रमणे १
 चैत्यगृहे २ भोजनसमये ३ तथा च सवरणे ४ । प्रतिक्रमणे ५
 शयने ६ प्रतिबोधकाले ७ सत्तथा यतिन ॥ ८४ ॥ प्रतिक्रमतो गृ
 हिणोऽपि खलु सत्तविधं पञ्चधा तु इतरस्य । भवति जघन्येन पुन
 स्तिसृष्वपि सन्ध्यासु इति त्रिविधम् ॥ ८५ ॥ शुभध्यान प्रशस्त-
 मना शुभसत्त्व प्रलम्बमानपाणियुगं । निच्चलो निरुद्धकाय का-
 योत्सर्गो भवत्येवम् ॥ ८६ ॥ घोडको १ लता च २ स्तम्भ कुडर्ब
 ३ मालश्च ४ शबरीवधू ५ निगड ७ । लम्बोत्तर ८ स्तन ९ उधि
 १० संयती ११ खलिनश्च १२ वायस १३ कपित्थम् १४ ॥ ८७ ॥

सीसोकपिय १५ मूर्डे १६ अंगुलिभमुहा य १७ वारुणी १८ पेहा
 १९ । एए काउस्सग्गे हवंति दोसा इगुणवीसं ॥ ८८ ॥ वंदणवि-
 त्ती छ निमित्त होइ सद्धाइ पंच पुण हेऊ । अन्नत्तयूससिएणं इच्चाइ
 असक् वारसागारा ॥ ८९ ॥ अगणीओ छिदिज्जा चउरो सका
 तहा असका य । इअ सवेविय सोलससक्त्ययपमुह पण टडा ॥९०॥
 सक्त्यओ य चेइयथओ य चउवीसईथओ चेव । सुत्तत्यओ य सि-
 द्धत्यओ य नामाइ दंडाणं ॥ ९१ ॥ अरिहंता सुय सिद्धा तिन्नेव
 य होंति वंदणिजा उ । जिण एग सव्व पवयण वेयावच्चगर युई च-
 उरो ॥९२॥ अरहंतदडगाईण काउस्सग्गाण जा उ अंतमि । दि-
 ज्जंति ता युईओ भणियं ववहारचुन्नीए ॥९३॥ तिन्निनिसीही तिन्नि
 पयाहिणा तिन्नि चेव य पणामा । तिविहा पूया य तहा अवत्यतिय-
 भावणं चेव ॥ ९४ ॥ तिदिसिनिरिक्खणविरई तिविह भूमी पम-
 ज्जण चेव । वन्नाइ तियं मुद्दाइ तियं च तिविह चपणिहाण ॥९५॥

शीपांकम्पित १५ मूकी १६ अङ्गुली भ्रूश्च १७ वारुणी १८ प्रेक्षा १९ ।
 पते कायोत्सर्गे भवन्ति दोषा पक्कोनविंशति ॥८८॥ वन्दनप्रत्ययादी-
 नि षट् निमित्तानि भवन्ति श्रद्धादीनि पञ्च पुनर्हेतव । अन्यत्रोच्छु-
 सितात् इत्यादयोऽशक्या द्वादशाकारा ॥८९॥ अग्नय छिन्देयु
 चत्वार शक्यास्तथाऽशक्याश्च । इति सर्वेऽपि च षोडश शक्ये । व-
 प्रमुखा पञ्च दण्डा ॥९०॥ शक्रस्तवश्चैत्यस्तवश्च चतुर्विंशतिस्तवश्चैवा
 श्रुतस्तवश्च सिद्धस्तवश्च नामानि दण्डानाम् ॥९१॥ अर्हेन्त श्रुतं
 सिद्धाश्च पय च भयन्ति वन्दनीया । जिण पक्क सर्वेप्रवचनवैजा-
 वृत्यकर स्तुतयश्चतस्र ॥ ९२ ॥ अर्हेहण्डकादीना कायोत्सर्गाणा
 यास्त्यन्ते दीयन्ते ता स्तुतयो भणिता व्यवहारचूण्याम् ॥ ९३ ॥
 तिस्सो नैपेधिन्यस्तिस्स प्रदक्षिणास्त्रय चैत्र प्रणामा । त्रिजिघा
 पूजा च तथा अवस्थात्रिकभावना चैव ॥ ९४ ॥ त्रिदिग्निरीक्षण
 विरतिस्त्रिविधभूमीप्रमाज्जन चैव । वणादित्रिक मुद्रादित्रिक त्रिविधं
 च प्रणिधानम् ॥ ९५ ॥ गृहजिनगृहजिनपूजाव्यापारत्यागतो नैपे-

दिगारे ॥ ८० ॥ अष्टैव सृष्ट भणिता चतुरो य इवति इत्यमाइभा ।
 यीओ दसमो इणारसो अ वारसयमाइभा ॥ ८१ ॥ जिणनामा नाम-
 जिणा केवलितित्येसरा च भावजिणा । ठरणजिणा पडिमाओ द-
 वजिणा भाविभूयजिणा ॥ ८२ ॥ संसृति—सत्त व पंच व तिभि
 य चिइयदण साहु सावयाण च । तिपयाहिण जिणभवणे भणिता
 ववहारचूलाए ॥ ८३ ॥ पडिकमणे १ चेइयहरे २ भोयणसमयमि ३ त-
 ह्य सवरणे ४ । पडिकमण ५ सुयण ६ पडिवेहकालियं ७ सत्तहा
 जइणो ॥ ८४ ॥ पडिकमओ गिहिणोऽविहु सत्तविह पचहा उ डय-
 रस्स । होइ जहन्नेण पुणो तीसुवि संज्ञासु इय तिविह ॥ ८५ ॥
 सुहज्जाण पसत्यमणो सुहसत्त पलवमाणपाणिजुओ । निच्चल
 निरुद्धकाओ काउस्सग्गो हवइ एव ॥ ८६ ॥ घोडग १ लया य २
 खंभे कुट्टे ३ माले य ४ सवरिवहू ५ निलए ७ । लउत्तर ८ यण ९ उट्टी
 १० सजइ ११ खलिणे य १२ वायस १३ कविट्टे १४ ॥ ८७ ॥

शेऽधिकारे ॥ ८० ॥ अष्टैव सूत्रे भणिताश्चत्वारश्च भवति इहाचीर्णा ।
 द्वितीयो दशम पकादशश्च द्वादश आचीर्णा ॥ ८१ ॥ जिननामानि
 नामजिना केवलिनस्तीर्थेश्वरास्तु भावजिना । स्थापनाजिना
 प्रतिमा ब्रव्यजिना भाविभूतजिना ॥ ८२ ॥ संसृयेति—सत्त च
 पञ्च च त्रीणि च चैत्यवन्दनानि साधूना आवकाणा च । त्रिपद-
 क्षिणा जिनभवने भणिता व्यवहारचूलायाम् ॥ ८३ ॥ प्रतिक्रमणे १
 चैत्यगृहे २ भोजनसमये ३ तथा च सवरणे ४ । प्रतिक्रमणे ५
 शयने ६ प्रतिबोधकाले ७ सत्तथा यतिन ॥ ८४ ॥ प्रतिक्रमतो गृ
 द्विणोऽपि खलु सत्तविधं पञ्चधा तु इतरस्य । भवति जघन्येन पुन
 स्तिसृष्ट्यपि सन्ध्यासु इति त्रिविधम् ॥ ८५ ॥ शुभध्यान प्रशस्त-
 मना शुभसत्त्व प्रलम्बमानपाणियुग । निच्चलो निरुद्धकाय का-
 योत्सर्गा भवत्येवम् ॥ ८६ ॥ घोडको १ लता च २ स्तम्भ कुड्बं
 ३ मालश्च ४ शवरीवधू ५ निगड ७ । लम्बोत्तर ८ स्तन ९ उर्धि
 १० मंयती ११ खलिनश्च १२ वायस १३ कपित्थम् १४ ॥ ८७ ॥

अक्षर परिमाणा अष्टमी भणिया ॥ ४ ॥ सत्त पण सत्त सत्त य नव
 अष्टैव सत्तरस हवति । मंगलमय पय अक्षर अष्टद्वी हवइ नायथा
 ॥ ५ ॥ अटसद्वी मज्झमाओ सोलस वीयक्खरा उ छद्दुगुणा । लहु-
 या उ अटवीस चालीसं गुरु नमुकारे ॥ ६ ॥ छद्दुगुणा यथा । द्वाज्जा
 वक्कावप्पवे ॥ सोलस वीजाक्षराणि यथा अरिहत सिद्ध आवरिय
 उवज्जाय साहू ॥ अट्टेव सपयाओ नव य पया पंच पच अहिगारा ।
 अतिमचूलाय तियं अट्टी मगले वत्ता ॥ ७ ॥ दुगर दुगर चउरो
 ४ सत्ते ७ कयं १ च पंचेव ५ दसय १० मेग १ च । इरियावहियापय-
 संख्याओ वत्तीस नेयाओ ॥ ८ ॥ इच्छ १ गमण २ पाण ३
 ओसा ४ जे मे ५ एगिदि ६ अभिहया ७ तस्त ८ । इरियाविस्सामे-
 सुं पढम पया होंति दट्टवा ॥ ९ ॥ अरिहं १ आइगर २ पुरिसु ३
 लोगु ४ ऽभय ५ धम्म ६ अप्प ७ जिण ८ सवा ९ । सकत्थयसप-

पदपठनम् । पर्यन्ता सप्तदशाक्षरपरिमाणाऽष्टमी भणिता ॥ ७०४ ॥
 सप्त पञ्च सप्त सप्त च नव अष्टैव सप्तदश भवन्ति । मङ्गलमय
 पदाक्षराणामष्टपष्टि भवति ज्ञातव्या ॥ ५ ॥ अष्टपष्टेर्मध्यात् षोडश
 वीजाक्षराणि षड् द्विगुणानि । लघुकानि त्वष्टाविंशतिश्चत्वारिंशद्
 गुरवो नमस्कारे ॥ ६ ॥ षड् द्विगुणा यथा-द्वाज्जावक्कावप्पवे । षो-
 डश वीजाक्षराणि यथा-अर्हन्त सिद्धा आचार्या उपाध्याया साधव ।
 अष्टैव सम्पदो नव च पदानि पञ्च (पद्या) पञ्चाधिकारा । अन्तिम
 चूलात्रिक अष्टापष्टि मङ्गले वर्णा ॥ ७ ॥ द्विक २ द्विक २ चत्वारः
 ४ सप्त ७ एकक १ च पञ्चैव ५ दशक १० मेक १ च । ईर्यापधि
 कापदसद्व्या द्वाविंशत् ज्ञेया ॥ ८ ॥ इच्छामि० १ गमना० २ प्रा
 णा० ३ अवश्याय० ४ ये मे० ५ एकेन्द्रिया० ६ अभिहता ० ७ तस्य०
 ८ । ईर्यापधिकीविश्रामेषु प्रथमपदानि भवन्ति द्रष्टव्यानि ॥ ९ ॥
 अर्हद्म्य १ आदिकरेम्य २ पुरुषोत्तमेम्य ३ लोकोत्तमेम्य ४ अम

धरजिणहरजिणपूआवारारुआयओ निसीइतिगं । पुष्कस्वयधूर्-
 हिं तिमिहा पूया मुणेपवा ॥ ०६ ॥ होइ छउमत्यकेवलिसिद्धतेहिं
 जिणे अवत्यतिग । सुत्तत्यालंबणओ वझाडतियं वियाजिजा ॥९७॥
 जिणमुद्द जोगमुद्दा मुत्तामुत्ती उ तिमि मुद्दाओ । कायमणोवयण-
 निरोहणं च पणिहाणतियमेय ॥ ९८ ॥ पंचंगो पणिवाओ थयपाठो
 होइ जोगमुद्दाए । वदण जिणमुद्दाए पणिहाणमुत्तमुत्तीए ॥ ९९ ॥
 अनुन्नतर अंगुलि कोसागारहिं टोहिं हत्येहिं । पिट्टोवरि कुप्परि स-
 ठिपहिं तह जोगमुद्दति ॥ ७०० ॥ चत्तारि अंगुलाइ पुरओ ऊणाई
 जत्य पच्छिमओ । पायाण उस्सगो एसा पुण होइ जिणमुद्दा ॥७०१॥
 मुत्तामुत्ती मुद्दा समा जहिं दोवि गम्भिया हत्या । ते पुण निलाढदेसे
 लगा अन्ने न लग्गति ॥ ७०२ ॥ अट्टट्ट नवट्ट य अट्टवीस सोलस
 य वीस वीसामा । मगल इरियावहिया सकत्ययपमुहपणदडे ॥७०३॥
 मगलयइऽट्ट य सपयाओ नवहा उ होइ पयपढण । पञ्चतसत्तरस-

धिकीत्रिकम् । पुष्पाक्षतस्तुतिभिस्त्रिविधा पूजा ज्ञातव्या ॥ ९६ ॥
 भवति छत्रस्य-केवलि-सिद्धत्रैर्जिनेऽवस्थात्रिकम् । सूत्रार्थालम्बनतो
 वर्णादित्रिक विजानीयात् ॥ ९७ ॥ जिनमुद्रा योगमुद्रा मुक्ताशक्ति-
 स्तु त्रिस्रो मुद्रा । कायमनोवचननिरोधन च प्रणिधानत्रिकमेतत्
 ॥ ९८ ॥ पञ्चाङ्ग प्रणिपात स्तवपाठो भवति योगमुद्रया । वन्दन
 जिनमुद्रया प्रणिधान मुक्ताशुक्तया ॥ ९९ ॥ अन्योऽन्यान्तराङ्गुलिको
 शाकाराम्ब्या द्वाभ्या हस्ताभ्याम् । उदरोपरिकूपरसस्थिताभ्या
 तथा योगमुद्रेति ॥ ७०० ॥ चत्वार्यङ्गुलानि पुरत ऊनानि यत्र पश्चि
 मत । पादयोरुत्सर्ग एषा पुनर्भवति जिनमुद्रा ॥ ७०१ ॥ मुक्ताशुक्ति
 मुद्रा समौ यत्र द्वावपि गर्भितौ हस्तौ । तौ पुनर्ललाटदेशे लग्नौ अ-
 न्ये न लग्नाविति ॥ ७०२ ॥ अष्टाष्ट नवाष्ट च अष्टाविंशति षोडश
 च विंशति विश्रामा । मङ्गले ईर्यापधिकाया शक्रस्तवप्रमुखेषु
 पञ्चसु दण्डेषु ॥ ७०३ ॥ मङ्गले अष्ट च सम्पद नवधा तु भवति

चत्वर परिमाणा अष्टमी भणिया ॥ ४ ॥ सत्त पण सत्त सत्त य नव
 अट्टेव सत्तरस हवति । मंगळमय पय बक्खर अट्टी हवइ नायवा
 ॥ ५ ॥ अट्टसट्ठी मज्झयाओ सोलस वीयक्खरा उ छद्दुगुणा । लहु-
 या उ अट्टवीसं चालीसं गुरु नमुकारे ॥ ६ ॥ छद्दुगुणा यथा । द्वाज्झा
 वक्कावप्पवे ॥ सोलस वीजाक्षराणि यथा अरिहत सिद्ध आचरिय
 उवज्झाय साहू ॥ अट्टेव सपयाओ नव थ पया पंच पच अहिगारा ।
 अतिमचूलाय तिय अट्टी मगले वन्ना ॥ ७ ॥ दुगर दुगर चउरो
 ४ सत्ते ७ क्वय १ च पंचेव ५ दसय १० मेग १ च । इरियावहियापय-
 संखयाओ वत्तीस नेयाओ ॥ ८ ॥ इच्छ १ गमण २ पाण ३
 ओसा ४ जे मे ५ एगिदि ६ अभिहया ७ तस्स ८ । इरियाविस्सामे-
 सुं पढम पया होति दट्टवा ॥ ९ ॥ अरिह १ आइगर २ पुरिसु ३
 लोगु ४ ऽभय ५ धम्म ६ अप्प ७ जिण ८ सवा ९ । सक्थयसंप-

पदपठनम् । पर्यन्ता सप्तदशाक्षरपरिमाणाऽष्टमी भणिता ॥ ७०४ ॥
 सप्त पञ्च सप्त सप्त च नव अष्टाष्टैव सप्तदश भवति । मङ्गलमय-
 पदाक्षराणामष्टपष्टि भवति ज्ञातव्या ॥ ५ ॥ अष्टपष्टैर्मध्यात् षोडश
 वीजाक्षराणि पट् द्विगुणानि । लघुकानि त्वष्टाविंशतिश्चत्वारिंशद्
 गुरवो नमस्कारे ॥ ६ ॥ पट् द्विगुणा यथा-द्वाज्झावक्कावप्पवे । षो-
 डश वीजाक्षराणि यथा-अहन्त सिद्धा आचार्या उपाध्याया साधवः ।
 अष्टैव सम्पदो नव च पदानि पञ्च (पद्या) पञ्चाधिकारा । अन्तिम-
 चूलात्रिक अष्टपष्टि मङ्गले वर्णा ॥ ७ ॥ द्विक २ द्विक २ चत्वार
 ४ सप्त ७ एकक १ च पञ्चैव ५ दशक १० मेक १ च । ईर्यापधि
 कापदसहस्र्या द्वानिंशत् ज्ञेया ॥ ८ ॥ इच्छामि० १ गमना० २ प्रा
 णा० ३ अवश्याय० ४ ये मे० ५ एकेन्द्रिया ० ६ अभिहता ० ७ तस्य०
 ८ । ईर्यापधिकीविधामेषु प्रथमपदानि भवति द्रष्टव्यानि ॥ ९ ॥
 अहर्दम्य १ आदिकरेम्य २ पुरगोत्तमेम्य ३ लोकोत्तमेम्य ४ अम

थाणं पदमाल्लगणपया नेया ॥१०॥ दो तिन्नि चउर पंच य पंच पंचेव
 दुन्नि चउ तिन्नि । सफत्थयमि नउ संपया उ आलाव तिन्नीसं ॥११॥
 अरह वदण सद्धा अन्नत्थु मुद्दुम एव जा ताव । अरहतवेइययए वि-
 स्सामाण पया पदमा ॥ १० ॥ तिगइछच्च ६ सत्त ७ नवग ९ तिय
 ३ पच य ५ चउर ४ छच्च ६ वोद्धवा । अरहतवेइयाणं आलावा
 होंति तेआल ॥ १३ ॥ पायसमा वीसामा लोयस्सुज्जोयमाइदंड-
 तिए । अटवीस २८ सोल १६ वीसा २० चउसट्टी होंति वीसामा
 ॥ १४ ॥ चिंधाइसु अटवन्न अहिगाराईसु सत्त नउयसय । मिलिया
 सवे भेआ दुन्नि सया होंति पणवन्ना ॥ १५ ॥ एव जे जिणवदण-
 माणाजुत्ता करिंति तिक्काल । पचावन्नहिय दुसयभेयकलियं विहि-
 पहाणा ॥ १६ ॥ ते भुत्तूण नरसुरसुहाइ कित्तीइ धवलिऊण मही
 लंघित्तु भवसमुद्द मुक्खसुद्द लहु लहति धुवं ॥ १७ ॥ शतद्वयपंच-
 पचाशदधिकस्थानस्थापना प्रदर्श्यते ॥

यदेभ्य ५ धर्मदेभ्य ६ अप्रति, ७ जिनेभ्य ८ मर्वज्ञेभ्य ९ । शक
 स्तवसम्पदा प्रथमोल्लिङ्गनपदानि ज्ञेयानि ॥१०॥ द्वौ त्रयश्चत्वार पञ्च
 च पञ्च पञ्चैव द्वौ चत्वारस्त्रय । शकस्तवे नवसु सम्पत्सु आलापकास्तु
 त्रयस्त्रिंशत् ॥ ११ ॥ अर्हद्वन्दनश्चद्धा अन्यत्र सूक्ष्मैव यावत् तावत् ।
 अर्हचैत्यस्तवे विधायामाणा पदानि प्रथमानि ॥१२॥ त्रिक ३ षट् च
 ६ सत्त ७ नवक ९ त्रिक ३ पञ्च च ५ चत्वार ४ षट् च ६ वोद्ध-
 व्या । अर्हचैत्यानामालापा भवन्ति त्रिचत्वारिंशत् ॥ १३ ॥ पादसमा
 विधायामा लोकस्योद्योतादिदण्डत्रिके । अष्टाविंशति २८ षोडश
 १६ विंशति २० चतुष्पष्टि ६४ भवति विधायामा ॥ १४ ॥ चिद्वा-
 दिष्वष्टपञ्चाशद् अधिकारादिषु सप्तनवतिशतम् । मिलिता सर्वे
 भेदा द्वे शते भवति पञ्चपञ्चाशत् ॥१५॥ एव ये जिन चन्दनमाज्ञा-
 युक्ता कुर्वन्ति त्रिकालम् । पञ्चपञ्चाशदधिकद्विशतभेदकलित विधि
 प्रधाना ॥१६॥ ते भुक्त्वा नरसुरसुखानि कीर्या धवलीकृत्य महीम् ।
 लडिघत्वा भवसमुद्द, मोक्षसुख लघु लभन्ते धुवम् ॥ ७१७ ॥

ककुह	५
अभिगमाः	५
भूमिः	२
आशातनाः	१०
अवग्रहः	३
कायोत्सर्गः	२५
पंचांगप्रणाम.	५
चैत्यवदनभेदाः	३
एव सर्वसंख्या	७८

अधिकाराः	१२
कायोत्सर्गदोषाः	१९
निमित्तानि	६
हेतव	५
आकाराः	१६
दण्डकाः	५
वत्रा	३
स्तुतयः	४
तिन्निनिशीहीत्यादि	३०
एव सर्व १००	

॥ जइ गुरुणो तत्स्यलमागया हवति-
तया गुरुममीवे वंदणं देइ, अह वस-
हीए (तो तत्स्य गतूण) देइ, जओ स-
द्याणुठ्ठणं गुरुणो समीवे हवइ ॥

वंदणत्ति-मुद्राजुत्तो मुहदिन्नपुत्तिओ
हत्थयरियरहरणो । निययवयअवहि-
यमणो वदण अरिहो गुरु होइ ॥१८॥

दाऊण स्वमासमणं उगगहभूमीय पडि-
कमिय डरिय । आएसं मग्गित्ता सद्धी
पडिलेहए पुत्ति ॥ १९ ॥ मुहणतयदेहा-
वस्सएसु पणवीस हुति पचेय। छट्ठणा
६ छच्च गुणा ६ छट्ठीसा। ६ छच्च गुरु-
वयणा ६ ॥ २० ॥ अहिगारिणो य पंच
य ५ डयरं पचेव ५ पंच आहरणा ५ ।
एगोवग्गह १ पचाभिहाण ५ पचेव प-
डिमेहा ५ ॥ २१ ॥ आसायण तिच्चीसं
३३ दोसा वच्चीस ३२ कारणा अट्ट

यदि गुरव तत्स्यलमागता तदा गुरसमीपे वन्दन ददाति,
अथ वमतो तर्हि तत्र गत्वा ददाति, यत सर्वानुष्ठान गुरो समीपे
भवति । वन्दनमिति-मुद्रायुत्तो मुखदत्तपोत्तिको हस्तधृतरजो
हरण । निजप्रव्रताप्रहितमना वन्दनाह गुरुर्भवति ॥ ७१८ ॥
दत्त्वा क्षमाश्रमणमवग्रहभूम्या प्रतिप्रम्य ईर्या । आदेश मार्गयि
त्या ध्राद्ध प्रतिलेसयति पोत्ति ॥ ७१९ ॥ मुखानन्तकदेहावश्य
केषु पचयिंशति भवति प्रत्येक । पद् स्थानानि षट् च गुणा
पद् दोषा पद् गुरुवचनानि ॥ ७२० ॥ अधिकारिणश्च पंच तु
इतरे पंचैव पच आहरणानि । पकोऽवग्रह पचाभिधानानि
पचैव प्रतिपेया ॥ ७२१ ॥ आशातना त्रयस्त्रिंशद् दोषा

याणं पदमालुगणपया नेया ॥१०॥ टो तिन्नि चउर पंच य पंच पनेत्र
 दुन्नि चउ तिन्नि । सपत्ययमि नउ सपया उ आलाव तिन्नीस ॥११॥
 अरह वदण सद्धा अघत्तू सुद्धुम एव जा ताव । अरहत्तवेइययए वि-
 स्सामाण पया पदमा ॥ १२ ॥ तिगउच्च ६ सत्त ७ नवग ९ तिग
 ३ पच य ५ चउर ४ छच्च ६ वोद्धवा । अरहत्तवेइयाणं आलावा
 होंति तेआल ॥ १३ ॥ पायसमा वीसामा लोयस्सुज्जोयमाइंढ-
 तिए । अटवीस २८ सोल १६ वीसा २० चउसट्टी होंति वीसामा
 ॥ १४ ॥ चिंघाइसु अटवन्नं अहिगाराईसु सत्तनउयसय । मिलिया
 सवे मेआ दुन्नि सया होंति पणवन्ना ॥ १५ ॥ एव जे जिणवदण-
 माणाजुत्ता करिंति तिकाल । पचावन्नहिय दुसयमेयकलियं विहि-
 पहाणा ॥ १६ ॥ ते भुत्तूण नरसुरसुहाइ किन्तीइ धवलिऊण मही ।
 लंघित्तु भवसमुद्द मुक्खसुह लहु लहति धुव ॥ १७ ॥ शतद्वयपच-
 पचाशदधिकस्थानस्यापना प्रदर्श्यते ॥

यदेम्य ५ धर्मदेम्य ६ अप्रति ७ जिनेम्य ८ सर्वज्ञेम्य ९ । शक्र
 स्तवसम्पदा प्रथमोल्लिङ्गनपदानि ज्ञेयानि ॥१०॥ द्वौ त्रयश्चत्वार पञ्च
 च पञ्च पञ्चैव द्वौ चत्वारस्त्रय । शक्रस्तवे नवसु सम्पत्सु आलापकास्तु
 त्रयस्त्रिंशत् ॥ ११ ॥ अर्हद्वन्द्वनश्रद्धा अन्यत्र सूक्ष्मैव यावत् तावत् ।
 अर्हच्चैत्यस्तवे विश्रामाणा पदानि प्रथमानि ॥१२॥ त्रिक ३ पद् च
 ६ सत्त ७ नवक ९ त्रिक ३ पञ्च च ५ चत्वार ४ पद् च ६ बोद्ध-
 व्या । अर्हच्चैत्यानामालापा भवन्ति त्रिचत्वारिंशत् ॥ १३ ॥ पादसमा
 विश्रामा लोकस्योद्योतादिदण्डत्रिके । अष्टाविंशति २८ षोडश
 १६ विंशति २० चतुष्पष्टि ६४ भवन्ति विश्रामा ॥ १४ ॥ चिह्ना-
 दिष्टपञ्चाशद् अधिकारादिषु सप्तनवतिशतम् । मिलिता सर्वे
 भेदा द्वे शते भवन्ति पञ्चपञ्चाशत् ॥१५॥ एव ये जिन वन्दनमाज्ञा-
 युक्ता कुर्वन्ति त्रिकालम् । पञ्चपञ्चाशदधिकद्विशतभेदकलित विधि
 प्रधाना ॥१६॥ ते भुक्त्वा नरसुरसुखानि कीर्त्या धवलीकृत्य महीम् ।
 लडिषत्वा भवसमुद्र, मोक्षसुख लघु लभन्ते धुवम् ॥ ७१७ ॥

यस्स अकरणमि माणो तह नीयकम्मवधो य । पवयणस्सिंअ-
याणउ अवोहि भववुद्धि अरहमि ॥ २९ ॥ छदेण १ ऽणुजाणामि २
तहत्ति ३ तुब्भपि वट्टए ४ एवं ५ । अहमवि खामेमि तुमे ६ वयणाइ
वेदणरिहस्स ॥ ३० ॥ आयरिय उवज्झाए पवत्ति थेरे तहेव राय-
णिए । एएस्सिं किइकम्म कायव निज्जरट्टाए ॥ ३१ ॥ पासत्थो
ओसन्नो होइ कुसीलो तहेव ससत्ती । अहउदोऽविय एए अवंदणिज्जा
जिणमयमि ॥ ३२ ॥ सीयले खुट्टए कण्हे, सेवए पालए तहा । एए
पचवि दिट्ठंता, किइरुम्मे होति नायहा ॥ ३३ ॥ आयप्पमाणमित्तो
चउद्धिसिं होइ उगगह गुरूण । अणणुन्नायस्स सया न कप्पए तत्थ
पविसेउ ॥ ३४ ॥ वटण चिइ किइकम्म पूआकम्म च विणयकम्मं च ।
अभिहाणपचकमिण नायव्व होइ किइकम्मे ॥ ३५ ॥ वक्खित्त १
पराहुत्ते २ पमत्ते ३ मा कयावि वदिजा । आहार च करिंते ४ नी-
हार वा जइ करेइ ५ ॥ ३६ ॥ पसते आसणत्थे य, उवसंते उवट्ठि-

मान तथा नीचै कर्मबन्धश्च । प्रवचननिन्दा अज्ञानताऽवोधि भव
वृद्धि अहं ॥ ७२९ ॥ छदसा अनुजानामि तथेति तवापि वर्तते
एव । अहमपि क्षमयामि त्वा वचनानि वन्दनार्हस्य ॥ ७३० ॥ आ
चार्य उपाध्याय प्रवर्तक स्यविरन्तथैव रात्निक । एतेषा कृति
कर्म कर्तव्य निर्जरार्थाय ॥ ७३१ ॥ पार्श्वस्थोऽवसन्नो भवति कुशी
लस्तथैव ससक्त । यथाछदोऽपिच एते अवन्दनीया जिणमते
॥ ७३२ ॥ शीतल क्षुल्लक कृष्ण सेवक पालकस्तथा । एते पंचापि
दृष्टान्ता कृतिकर्मणि भवन्ति ज्ञातव्या ॥ ७३३ ॥ आत्मप्रमाण
मात्र चतुर्दिशि भवत्यथग्रहो गुरूणा । अननुज्ञातस्य सदा न कल्प
ते तत्र प्रवेष्टुं ॥ ७३४ ॥ चन्दनक चित्ति कृतिकर्म पूजाकर्म च विनय-
कर्म च । अभिधानपंचकमिद ज्ञातव्य भवति कृतिकर्मणि ॥ ७३५ ॥
व्याक्षिप्तपराङ्मुखप्रमत्तान् मा कदापि वन्देया । आहार च कुर्वत
नीहार या यदि करोति ॥ ७३६ ॥ प्रशान्तान् आसनस्थान् उपस्था

नमस्कारसंपदः	८
ईर्यापयिकीसंपदः	८
घक्रन्तवसंपदः	९
अरिहतचेइयाणसंपदः	८
पुवखरवरदीरइसपदः	१६
लोगस्सुज्जोयगरसं०	२८
सिद्धाणंबुद्धाणसपदः	२०
एव सर्वसंख्या	९७

स्थानत्रयमिलने
सत्रसंख्या २५५
एव चैत्यवन्दनाविधिः॥

लगपट्टो १ तहेव रयहरण २ । उन्निय ३ खोमिय ४ निसिज्जजु-
वलर्य तहय मुहपत्ती ५ ॥ २६ ॥ इच्छा य १ अणुन्नवणा २ अवा-
वाह च ३ जत्त ४ जवणा य ५ । अवराहखामणाविय ६ छट्टाणा हुति
वन्दण ॥ २७ ॥ विणओवयार माणस्स भजणा पूयणा गुरुजण-
स्स । तित्थयराण आणा सुयधम्माऽऽराहणाऽकिरिया ॥ २८ ॥ ए-

द्वात्रिंशद् कारणानि अष्ट । अष्टनवत शत स्थानाना वन्दने
भवति ज्ञातव्य ॥ ७२२ ॥ दृष्टिप्रतिलेखना एका नव अक्षोटका
नवैध प्रस्फोटा । पुरिमा पद् च भवेयु मुखपातिकाया भवति
पचविंशति ॥ ७२३ ॥ बाहुशिरोमुखहृदयपादेषु च तिस्रो भ-
वन्ति प्रत्येक । पृष्ठ्या भवन्ति चतस्र एषा पुनर्वेद्वपंचविंशति
॥ ७२४ ॥ द्वयवनत यथाजात कृतिर्भेद्वाद्दशावर्तम् । चतुश्चर
त्रिगुप्त च द्विप्रवेश एकनिष्क्रमण ॥ ७२५ ॥ पच यथाजाते चोल्प
दृस्तथैव रजोहरण । और्णिकक्षौमिकनिषद्यायुगलक तथा च मु-
खपट्टी ॥ ७२६ ॥ इच्छा च अनुज्ञापना अव्याघ्र च यात्रा या-
पना च । अपराधक्षामणाऽपि च पद् स्थानानि भवन्ति वन्दन-
के ॥ ७२७ ॥ वित्तय उपचारो मानस्य भजन पूजना गुरुजनस्य ।
तीर्थकराणामाशा धृतधर्माराधनाऽक्रिया ॥ ७२८ ॥ पत्स्याकरणे

८ । अष्टनवयमयं १९८ ठाणाण वंदने
होइ नायवं ॥ २२ ॥ दिट्ठी पडिलेहणेगा
१ नव अखोटा ९ नये पखोटा ९ ।
पुरिमट्टा छच भवे मुहपत्ती होइ पण-
वीसा ॥ २३ ॥ गह सिर मुह हियए
पाएसु य तिद्धि होंति पत्तेय । पिट्ठीय
होंति चउरो एसा पुण देह पणवीसा
॥ २४ ॥ टोणय २ अहाजाय १, किइ-
फम्म वारसावय १२ । चउसिर ४
तिगुत्त च ३, दुपवेस २ एगनिकख-
मण १ ॥ २५ ॥ पच अहाजायमि चो-

यस्स अकरणंमि माणो तह नीयकम्मउधो य । पवयणखिंस अ-
याणउ अवोहि भववुड्ढि अरहमि ॥ २९ ॥ छदेण ? ऽणुजाणामि २
तहत्ति ३ तुब्भपि वट्टए ४ एव ५ । अहमवि खामेमि तुमे ६ वयणाइं
वंदणरिहस्स ॥ ३० ॥ आयरिय उवज्झाए पवत्ति थेरे तहेव राय-
णिए । एएसिं किइकम्म कायव निज्जरट्टाए ॥ ३१ ॥ पासत्थो
ओसन्नो होइ कुसीलो तहेव ससत्ती । अहउदोऽविय एए अवंदणिज्जा
जिणमयमि ॥ ३२ ॥ सीयले खुड्डए कण्हे, सेवए पालए तहा । एए
पचवि दिट्ठता, किइकम्मे होति नायहा ॥ ३३ ॥ आयप्पमाणमित्तो
चउद्दिसिं होइ उग्गह गुरुणं । अणणुन्नायस्स सया न कप्पए तत्थ
पविसेउ ॥ ३४ ॥ वदण चिइ किइकम्म पूआकम्म च विणयकम्म च ।
अभिहाणपंचकमिणं नायव होइ किइकम्मे ॥ ३५ ॥ वक्खित्त ?
पराहुत्ते २ पमत्ते ३ मा कयावि वंदिज्जा । आहारं च करिंते ४ नी-
हार वा जइ करेइ ५ ॥ ३६ ॥ पसते आसणत्थे य, उवसते उवट्ठि-

मान तथा नीचै कर्मबन्धश्च । प्रवचननिन्दा अज्ञानताऽरोधि भव
वृद्धि अर्हं ॥ ७२९ ॥ छदसा अनुजानामि तथेति तवापि वर्तते
एव । अहमपि क्षमयामि त्वा वचनानि वन्दनार्हस्य ॥ ७३० ॥ आ
चार्य उपाध्याय प्रवर्तक स्थविरस्तथैव रात्निक । पतेपा कृति
कर्म कर्तव्य निर्जरार्थाय ॥ ७३१ ॥ पार्श्वस्थोऽवसन्नो भवति कुशी
लस्तथैव ससक्त । ययाछंदोऽपिच पते अवन्दनीया जिनमते
॥ ७३२ ॥ शीतल क्षुल्लक कृष्ण सेवक पालकस्तया । पते पंचापि
हृष्टान्ता कृतिकमणि भवन्ति ज्ञातव्या ॥ ७३३ ॥ आत्मग्रमाण
मात्र चतुर्दिशि भवत्ययग्रहो गुरुणा । अननुज्ञातस्य सदा न कल्प
ते तत्र प्रवेष्टु ॥ ७३४ ॥ वन्दनक चिति कृतिकर्म पूजाकर्म च विनय-
कर्म च । अभिधानपंचकमिद ज्ञातव्य भवति कृतिकर्मणि ॥ ७३५ ॥
व्याक्षितपराङ्मुखप्रमत्तान् मा कदापि वन्देया । आहार च कुर्वत
नीहार वा यदि करोति ॥ ७३६ ॥ प्रशान्तान् आसनस्थान् उपशा

नमस्कारसंपत्तः	८
ईर्यापयित्रीसंपत्तः	८
शक्रमन्ववमपद	९
अरिहतनेडयाणसंपत्तः	८
पुत्रवररानीरद्वैसपद	१६
लोगम्मुज्जोयगरमं०	२८
सिद्धाणंयुद्धाणसंपद	२०
एव सर्वसंग्या	९७

स्थानत्रयमिलने
सत्रमंग्या २५५
एव चैत्यवत्तनाविधिः॥

८ । अटनउयमयं १०८ ठाणाण षट्ठणे
होइ नायवं ॥ २० ॥ द्विद्वी पडिलेहणेगा
१ नत्र अकखोढा ९ नत्रय पक्खोढा ९ ।
पुरिमद्दा छच्च भंयं मुहपत्ती होइ पण-
वीसा ॥ २३ ॥ ग्राहू सिर मुह दियए
पाएसु य तिननि होंति पत्तेय । पिद्वीय
होंति चत्तरो एसा पुण देह पणवीसा
॥ २४ ॥ दोणय २ अहाजाय १, किइ-
कम्म वारसावय १२ । चउसिर ४
तिगुत्त च ३, दुपवेस २ एगनिक्ख-
मणं १ ॥ २५ ॥ पच अहाजायमि चो-

लगपट्टा १ तहव रयहरण २ । उन्निय ३ खोमिय ४ निसिज्जु-
वलर्यं तहय मुहपत्ती ५ ॥ २६ ॥ इच्छा य १ अणुन्नवणा २ अवा-
वाह च ३ जत्त ४ जणणा य ५ । अवराहखामणाविय ६ छट्ठाणा हुति
वदणए ॥ २७ ॥ विणओवयार माणस्स भजणा पूयणा गुरुजण-
स्स । तित्थयराण आणा सुयधम्माऽऽराहणाऽकिरिया ॥ २८ ॥ ए-

द्वात्रिंशद् कारणानि अष्ट । अष्टनवत्त शक्तं स्थानाना वन्दने
भवति ज्ञातव्य ॥ ७२२ ॥ दृष्टिप्रतिलेखना एका नव अक्षोटका
नवैव प्रस्फोटा । पुरिमा पद च भवेयु मुखपातिकाया भवति
पचत्रिंशति ॥ ७२३ ॥ ग्राहूशिरोमुखद्वयपादेषु च तिस्रो भ-
वन्ति प्रत्येक । पृष्ठया भवन्ति चत्वार पपा पुनर्देहपंचविंशति
॥ ७२४ ॥ द्वयनत यथाजात वृत्तिकर्म द्वादशावर्तम् । चतुश्चिंशर
त्रिगुम च द्विप्रवेश एकनिष्क्रमण ॥ ७२५ ॥ पच यथाजाते चोल्प
दृम्तथय रजाहरण । और्णिकक्षौमिकनिषद्यायुगलक तथा च मु-
खपट्टी ॥ ७२६ ॥ इच्छा च अनुज्ञापना अव्यावाय च यात्रा या-
पना च । अपराधक्षामणाऽपि च पद स्थानानि भवन्ति वन्दन-
क ॥ ७२७ ॥ विनय उपचारो मानस्य भजन पूजना गुरुजनस्य ।
तीर्थकरणामाक्षा धृतधर्मारोधनाऽक्रिया ॥ ७२८ ॥ एतस्याकरणे

आलिङ्गमणालिङ्ग २७ ऊण २८ उत्तरचूलिये २९ ॥ ४४ ॥ मूयं
 च ३० ढडूर चैव ३१, चुडुलिं च ३२ अपच्छिम । वत्तीसदोस परि-
 मुद्धं, किङ्कम्म पउजए ॥ ४५ ॥ पडिक्कमणे १ सज्झाए २ काउ-
 स्सग्गा ३ वराह ४ पाहुणए ५ । आलीयण ६ सवरणे ७ उत्तमट्टे य
 वदणयं ॥ ४६ ॥ चत्तारि य पडिक्कमणे किङ्कम्मा तिच्चि होति
 सज्झाए । पुवण्हे अवरण्हे किङ्कम्मा चउदस हवंति ॥४७॥ उग्घाड-
 पोरिसीए जा राआवस्सयस्स चुन्नीए । ववहाराभिप्पाया भणंति
 पुण जाव पुरिमड्ड ॥ ४८ ॥ तओ पच्चक्खाण करेइ, परमुदयतिही-
 मुत्ति । पज्जुस्सवणे चउमासि पक्खिय पवट्टमीसु नायवा । ताओ
 तिहिओ जासिं उदओ सूरो न अन्नाओ ॥ ४९ ॥ पच्चक्खाण पूया
 जिणिंदचदाण तासु कायव । इहरा आणाभंगो आणाभगुत्ति ससारो
 ॥ ५० ॥ दशाश्रुतस्सकधभाष्ये, पच्चक्खाणत्ति—सूरे अणुट्टिए
 च्चिय गुरुणो चरणुज्जुयस्स णिसीयस्म । काऊण मुत्तविहिणा

आश्लिष्टानाश्लिष्ट ऊन उत्तरचूलिकं ॥७४४॥ मूक च ढडूर चैव चडु-
 लिक च अपश्चिम । ह्यात्रिशद्दोषपरिशुद्ध कृतिकर्म प्रयुक्ते ॥७४५॥
 प्रतिष्कमणे स्वाध्याये कायोत्सर्गेऽपराधे प्राघूर्णके । आलोचने स
 धरणे उत्तमाये च धन्दनक ॥७४६॥ चत्वारि च कृतिकमाणि प्रतिष्क-
 मणे त्रीणि भवन्ति स्वाध्याये । पूर्वाह्णेऽपराह्णे कृतिकमाणि चतु-
 र्दश भवन्ति ॥७४७॥ उद्घाटपौरुषी यावद् रात्रिक आश्रयकस्य
 चूर्णो । व्यवहाराभिप्रायात् भणन्ति पुनयावत् पुरिमाद्धं ॥ ७४८ ॥
 तत' प्रत्याख्यान करोति पर उदयतिथिपु पर्युपणाया च
 तुमासिके पाक्षिके अष्टमेषु ज्ञातया । ता तियय यासु उ-
 दय' सूस्स्य नान्या ॥ ७४९ ॥ प्रत्याख्यानं पूजा जिनेन्द्रचन्द्राणा
 तासु कर्तव्या । इतरथाऽऽज्ञाभग आज्ञाभग इति मसार ॥ ७५० ॥
 प्रत्याख्यानमिति—सूरेऽनुत्थिते षड गुरोर्धरणोद्यतस्य गीतार्थस्य

ए । अणुन्नत्रिचु मेधावी, किङ्कम्म पउजण ॥ ३७ ॥ पुरओ पक्खा-
 ऽऽसत्ते गता ३ चिट्ठण ६ निमियणा ० ऽऽयमणे १० । आलोचण
 ११ पडिमुणणे १३ पुवालयणे य १३ आलोप १४ ॥ ३८ ॥ तह
 चवदस १५ निमतण १६ खद्दा १७ ऽऽइयणे १८ तहा अपडि-
 मुणणे १९ । खद्धत्तिय २० तत्यगए २१ किं २२ तुम २३ तज्जाय
 २४ नोसुमणे २५ ॥ ३९ ॥ नो सरसि २६ कहं छित्ता २७ परि-
 स भित्ता २८ अणुठियाय ऋहे २९ । सधारपायघट्टण ३० चिट्ठ-
 ३१ च ३२ समासणे यावि ३३ ॥ ४० ॥ अणादिय च १ थद्धं च
 २, पविद्ध ३ परिपिडिय ४ । टोलगइ ५ अकुस चेर ६, नहा कच्छ-
 भरिगिय ७ ॥ ४१ ॥ मच्छुवत्त ८ मणसाउट्ट ९ तहय वेइयावद्धं
 १० । भयसा चैव ११ भयत १२ मिनि १३ गारव १४ कारणा १५
 ॥ ४२ ॥ चुडिलिय १६ पडिणिय चैव १७, रुट्ट १८ तज्जिय-
 मेवय १९ । सट्ट च २० हीलिय चैव २१, तहा विपलियचिय
 ॥ ४३ ॥ दिट्टमदिट्ट च तहा २३, सिंग च २४ कर २५ मोयणं २६ ।

न्तान् उपस्थितान् । अनुज्ञाय मेधावी वृत्तिकर्म प्रयुक्ते ॥ ७३७ ॥
 पुरत पक्षयोरासन्न गमन स्थान निपदन आचमन आलोचन प्र
 तिश्रवण पूर्वालापन चालोचन च ॥ ७३८ ॥ तथोपदर्शनं निमत्रण
 प्रचुर मनोज्ञादान तथाऽप्रतिश्रवण । उच्चैरिति तन्नगत किं त्वत्
 ज्ञातं नःसुमना ॥ ७३९ ॥ न स्मरसि कथाछेत्ता पर्यङ्गेत्ता अनुत्थिताया
 च कथयति । सस्तारकपादघट्टन स्थानमुच्चै सम आसन चापि
 ॥ ७४० ॥ अनाहत च स्तब्ध च प्रविद्ध परिपिण्डित । टोलगति अंकुशं
 चैव तथा कच्छपरिङ्गितम् ॥ ७४१ ॥ मत्स्योद्धत्त मनसा प्रद्विष्ट तथा
 च वेदिकापद्ध भयेनैव भजमान मैत्री गौरवं कारणात् ॥ ७४२ ॥
 स्तेनिकं प्रत्यनीकं चैव रुष्ट तर्जितमेध च । शठ च हीलितं चैव तथा
 विपरिकुचितं ॥ ७४३ ॥ दृष्टादृष्ट च तथा शृग च करो मोशन ।

आलिङ्गमणालिङ्गं २७ ऊण २८ उत्तरचूलियं २९ ॥ ४४ ॥ मूर्यं
 च ३० ढङ्गुर चैव ३१, चुडुलि च ३२ अपच्छिम । वत्तीसदोस परि-
 सुद्ध, किङ्कम्मं पञ्जए ॥ ४५ ॥ पडिक्कमणे १ सज्जाए २ काउ-
 स्सग्गा ३ वराह ४ पाहुणए ५ । आलोयण ६ सवरणे ७ उत्तमद्वे य
 वदणयं ॥ ४६ ॥ चत्तारि य पडिक्कमणे किङ्कम्मा तिन्नि होति
 सज्जाए । पुवण्हे अवरण्ह किङ्कम्मा चउदस हवंति ॥ ४७ ॥ उग्घाड-
 पोरिसीए जा राआवस्सयस्स चुन्नीए । ववहाराभिप्पाया भणति
 पुण जाव पुरिमडू ॥ ४८ ॥ ताओ पच्चक्खाण करेइ, परमुदयतिही-
 सुत्ति । पज्जुस्सवणे चउमासि पक्खिय पवढ्ढमीसु नायवा । ताओ
 तिहिओ जासि उदओ सूरु न अन्नाओ ॥ ४९ ॥ पच्चक्खाणं पूया
 जिणिदचदाण तासु कायव्वं । इहरा आणाभंगो आणाभगुत्ति संसारो
 ॥ ५० ॥ दशाश्रुतस्सकथभाप्ये, पच्चक्खाणत्ति—सूरे अणुट्टिए
 च्चिय गुरुणो चरणुज्जुयस्स णिसीयस्स । काऊण सुत्तविहिणा

आश्लिष्टानाश्लिष्ट ऊन उत्तरचूलिक ॥७४४॥ मूक च ढङ्गुर चैव च्चुडु-
 लिक च अपश्चिम । द्वात्रिंशद्दोषपरिशुद्ध कृतिकर्म प्रयुक्ते ॥७४५॥
 प्रतिक्कमणे स्वाध्याये कायोत्सर्गेऽपराधे प्राचूर्णके । आलोचने स
 धरणे उत्तमाथे च वन्दनक ॥७४६॥ चत्वारि च कृतिकर्माणि प्रतिक्क-
 मणे त्रीणि भवन्ति स्वाध्याये । पूर्वाह्णेऽपराह्णे कृतिकर्माणि चतु-
 र्दश भवन्ति ॥७४७॥ उद्घाटपोरपी यावद् रात्रिक आवश्यकस्य
 चूर्णौ । व्यवहाराभिप्रायात् भणन्ति पुनर्यावत् पुरिमाद्धं ॥ ७४८ ॥
 तत' प्रत्याख्यान करोति पर उदयतिथिषु पर्युपणाया च
 तुमाक्षिके पाक्षिके अटमीषु ज्ञातव्या । ता तिथय यासु उ-
 दय' सूरस्य नान्या ॥ ७४९ ॥ प्रत्याख्यान पूजा जिनेन्द्रचन्द्राणा
 तासु कर्तव्या । इतरयाऽऽज्ञाभग आज्ञाभग इति मसार ॥ ७५० ॥
 प्रत्याख्यानमिति—सूरेऽनुत्थिते षष्ठ गुरोश्चरणीघतस्य गीतार्थस्य

विणयं किङ्कममार्डय ॥ ५१ ॥ गिण्ड उ पञ्चस्वाण उवउत्तो साव-
 गो य साहू या । अणुभासतो यणं गुण्णो लहुत्तर (सुत्त) सरणेण
 ॥५२॥ अद्धा काला तस्स य पमाणमद्ध तु ज भवे तमिह । अद्धा
 पञ्चस्वाण दसम पुण त इम नेय ॥ ५३ ॥ नयकार १ पोरिसीए
 २ पुरिमड्ढि ३ मासणे ४ गठाणे य ५ । आयपिल ६ ऽभत्तट्टे ७ च-
 रिमे य ८ अभिग्गह ९ विगई १० ॥५४॥ पढम उग्गइ सूरे उच्चरयतो
 नमो पयस्सेइ । गीए पढम पोरिसि पञ्चस्वइ उग्गए सूरे
 ॥५५॥ पुरिमड्ढमत्तट्टे पढम सूरुग्गमाउ भणियति । इय विहिभणिय
 समए पञ्चस्वइ पञ्चखामि तथा ॥ ५६ ॥ दो चेव नमुक्कारे आगारा
 छच्च पोरिसीए उ । सत्तेव य पुरिमड्ढे इक्कासणगमि अट्टेव ॥ ५७ ॥
 सत्तेगठाणेसु अट्टेय य अपिलमि आगारा । पचेव अभत्तट्टे छप्पाणे
 चरिम चत्तारि ॥ ५८ ॥ पच चउरो अभिग्गहे निवीए अट्ट नव य
 आगारा । अप्पाउरणे पच उ हवति सेसेसु चत्तारि ॥ ५९ ॥ नव-

कृत्वा सूत्रविधिना कृतिकर्मादिक विनय ॥ ७२१ ॥ गृह्णातिप्रत्या-
 रयान उपयुक्त श्रायको वा साधुर्धा । अनुभापमाणो वचन गुरो
 लघुतरस्वरेण ॥ ७२२ ॥ अद्धा काल तस्य च प्रमाणमाद्ध तु यद्
 भवेत् तदिह । अद्धाप्रत्यारयान दशम पुनस्तदिद ज्ञेय ॥ ७२३ ॥
 नमस्कारसहित पोरुपो पूर्वाधिकासनैकस्थानानि च । आचाम्ला
 भक्तार्थ चरम च अभिग्रहो विकृति ॥७२४॥ प्रथम उद्गते सूरे उ
 च्चारित ततो नमस्कार प्रत्यारयाति । द्वितीये प्रथमं पोरुषीं प्रत्या
 रयाति उद्गते सूरे ॥ ७२५ ॥ पूर्वाधिकासनैकस्थानानि च । आचाम्ले आ-
 कारा । पचेव अभक्तार्थे पद् पाने चरमे चत्वार ॥ ७२६ ॥ पंच
 चत्वारश्च अभिग्रहे निर्विकृतौ अष्ट नव च आकारा । अपावरणे
 पच तु भवन्ति शेषेषु चत्वार ॥ ७२७ ॥ नवनीतावगाहिमयो

णीओगाहिमगे अद्रवदहिपिसियघयगुडे चैव । नव आगारा एसि
 सेस दवाणं च अट्टेव ॥६०॥ अगुट्ट १ मुट्टि २ गठी ३ घर ४ सेउ ५-
 स्सास ७ थिवुग ८ जोइक्खे ९ । पच्चक्खाणविचाले किच्चमणभि-
 गुणेसुय (मिण निग्गुणेसु च) ॥ ६१ ॥ असण ओयण सत्तुग
 मुग्गजगाराइ खज्जगविही य । खीराइ सूरणाई मडगप्पभिई य विन्नेय
 ॥ ६२ ॥ पाणं सोवीरजवोदगाइ चित्त सुराडय चैव । आउक्काओ
 सवो कक्कडगजलाइय च तथा ॥ ६३ ॥ भत्तोसं दताई खज्जुरे ना-
 लिकेरदक्खाई । कक्कडिअंक्कफणसाइ बहुविह खाइम नेय ॥ ६४ ॥
 दतवणं तवोल चित्त तुलसीकुहेडगाईय । महुपिप्पलिसुठाई गेगहा
 साइम नेय ॥ ६५ ॥ पाणंमि सरय विगई खाइमि पक्कन्नअंसओ
 भणिओ । साइमि गुलमहुविगई सेसाओ सत्त असणमि ॥ ६६ ॥
 दुद्धं १ दहि २ घय ३ तिल्लं ४ गुल ५ पक्कन्नं ६ छ भक्खविगईओ ।
 मस १ महु २ मज्ज ३ मक्खण ४ चत्तारि अभक्खविगईओ ॥६७॥
 गोमहिसुट्टिपसूणं एल्लग खीराणि पंच चत्तारि । दहिमाईयाइ

अद्रवदधिपिशितघृतगुडेपु चैव । नव आकारा एषा शेषद्रवा
 णा च अट्टेव ॥ ७६० ॥ अगुट्टमुट्टिग्रन्थिगृहस्वेदोच्छ्वासस्तिबुक्-
 ज्योतिष्काणि । प्रत्यारयानान्तराले कृत्यमिदं निर्गुणैरपि च ॥७६१॥
 अशन ओदनसक्तुकमुद्गजगार्यादि खाद्यकविधिश्च । क्षीरादि
 सूरणादिमंडकप्रभृतिश्च विज्ञेय ॥ ७६२ ॥ पानं सोवीरयवोदकादि
 चित्र सुरादिक चैव । अप्काय सर्वं कर्कटीजलाद्रिक च तथा
 ॥ ७६३ ॥ भक्तोप दन्त्यादि खज्जूर नालिकेरद्राक्षादि । कर्कटीआ
 प्रकपनसादि बहुविध खाद्य ज्ञेय ॥७६४॥ दतपावन ताम्बूल चित्र
 तुलसीकुहेडकादिक । मधुपिप्पलीशुण्ठ्यादि नैकधा स्वाद्य ज्ञेय
 ॥ ७६५ ॥ पाने सरकचिहृति खाद्ये पक्वानमशतो भणित । स्या
 दिमे गुडमधुनी विहृति शेषा सप्त अशने ॥७६६॥ दुग्ध दधि घृत
 तैल गुड पक्वान पट् भक्ष्यविहृतय । मास मधु मध प्रक्षण चत-
 स्रोऽभक्ष्यविहृतय ॥ ७६७ ॥ गोमहिष्युष्टीपशूनामेडकस्य (च)
 क्षीराणि पच, चत्वारि दध्यादीनि यस्माद् उष्टीना तानि न भ

रिणय किङ्कम्भमाड्य ॥ ५१ ॥ गिण्डइ पञ्चखार्ण उवउत्तो साव-
 गो व माहू रा । अणुभासतो यण गुरुणो लहुत्तर (सुत्त) सरणेण
 ॥५२॥ अद्धा कालो तस्स य पमाणमद्ध तु ज भवे तमिह । अद्धा
 पञ्चखार्ण दसम पुण त इम नेय ॥ ५३ ॥ नयकार १ पोरिसीए
 २ पुरिमडि ३ मासणे ४ गठाणे य ५ । आयपिल ६ ऽभत्तट्टे ७ च-
 रिमे य ८ अभिगह ९ रिगई १० ॥५४॥ पढमं उग्गइ सूरे उच्चरयतो
 नमो पयस्सेइ । नीए पढम पोरिसि पञ्चखइ उग्गए सूरे
 ॥५५॥ पुरिमडमभत्तट्टे पढम सूत्तगमाउ भणियति । इय विधिभणिय
 समए पञ्चखइ पञ्चखामि तथा ॥ ५६ ॥ दो चेव नग्गुकारे आगारा
 छच्च पोरिसीए उ । सत्तेव य पुरिमड्ढे इक्कासणगमि अट्टेव ॥ ५७ ॥
 सत्तेगठाणेसु अट्टेय य अपिलमि आगारा । पचेव अभत्तट्टे छप्पाणे
 चरिम चत्तारि ॥ ५८ ॥ पच चउरो अभिगहे निवीए अट्ट नव य
 आगारा । अप्पाउरणे पच उ हवति सेसेसु चत्तारि ॥ ५९ ॥ नव-

कृत्वा सप्रविधिना कृतिकर्मादिक विनय ॥ ७२१ ॥ गृह्णाति प्रत्या-
 रयान उपयुक्त श्रावको वा साधुर्वा । अनुभाषमाणो वचनं गुरो
 र्हेषुतरस्वरेण ॥ ७२२ ॥ अद्धा काल तस्य च प्रमाणमाद्ध तु यद्
 भवेत् तदिह । अद्धाप्रत्यारयान दशम पुनस्तदिद ज्ञेय ॥ ७२३ ॥
 नमस्कारसहित पौरुषी पूर्वार्धकासनैकस्थानानि च । आचाम्ला
 भक्तार्थे चरम च अभिग्रहो विकृति ॥७२४॥ प्रथम उद्गते सूरे उ
 च्चारित ततो नमस्कार प्रत्याख्याति । द्वितीये प्रथम पौरुषी प्रत्या
 रयाति उद्गते सूरे ॥ ७२५ ॥ पूर्वार्धभक्तार्थे प्रथम सूरोद्गमाद्
 इति विधिर्भणित समये प्रत्यारयाति प्रत्यारयामि तथा ॥ ७२६ ॥
 द्वावेव नमस्कारे आकारो पद् च पौरुष्या तु । सप्तैव च पूर्वार्धे
 पकासनके अष्टैव ॥ ७२७ ॥ सत्तैकस्थाने अष्टैव च आचाम्ले आ
 कारा । पचैव अभक्तार्थं पद् पाने चरमे चत्वार ॥ ७२८ ॥ पंच
 चत्वारश्च अभिग्रहे निर्विकृतौ अष्ट नव च आकारा । अप्रावरणे
 पच तु भवन्ति शेषेषु चत्वार ॥ ७२९ ॥ नवनीतावगात्रिमणो

तीरियं होइ ॥ ७६ ॥ भोअणकाले अमुगं पच्चक्खायं तु भुंज कित्ति-
यय । आराहियं पयारेहिं सम्ममेएहि निट्ठवियं ॥ ७७ ॥ वयभंगे गुरु-
दोसो येवस्सवि पालणा गुणकरी य । गुरुलाघवं च नेयं धम्ममि
अओ उ आगारा ॥ ७८ ॥ तओ पच्चक्खाण काऊण जीवाइ पयत्ये
सुणेइ-जीवा १४ ऽजीवा १४ पुद्गं ४२ पावा ८२ ऽऽसव ४२
सवरो य ५७ निज्जरणा १२ । बंधो ४ मुखो ९ य तहा नव
तत्ता एय जिणमयंमि ॥ ७९ ॥ चउदस २ वायालीसा वासी य होंति
वायाला । सत्तावन्ना वारस चउ नवभेया क्रमेणेसिं ॥ ८० ॥ इह
सुहुमवायरेगिदि वित्तिचउअसन्निसन्निसचिदी । अपज्जत्ता पज्जत्ता
क्रमेण चउदस जियट्ठाणा ॥ ८१ ॥ पत्तेयतरुं मुत्तु पचवि पुढवाइणो
सयललोए । सुहुमाइ सति नियमा अंतमुहुत्ताउ अदिस्सा ॥ ८२ ॥
साहारणपत्तेया वणस्सइजीवा दुहा सुए भणिया । जेसिमणंताण तणू
एगा साहारणा ते उ ॥ ८३ ॥ अणंतत्ति-सवा उ कदजाई सूरणकदो
य १ वज्जकंदो य २ । अल्लहलिहा य तहा ३ अल्ल तह ४ अल्लक-
च्चूरो ५ ॥ ८४ ॥ सत्तावरी ६ विराली ७ कुमारी ८ तह धोहरी

कीर्तितक । आराधित प्रकारै सम्यग् एतैर्निष्ठापित ॥ ७७७ ॥ व्रत
भगे गुरुदोष स्तोक्तस्यापि पालना गुणकरी च । गुरुलाघव च
ज्ञेय धर्म अतस्तु आकारा ॥ ७७८ ॥ तत प्रत्याख्यान कृत्वा जी
घादिपदार्थान् शृणोति । जीवाजीवौ पुण्य पापास्रवौ सवरश्च
निर्जरणा । बन्धो मोक्षश्च तथा नव तत्त्वानि पतानि जिणमते ॥ ७७९ ॥
चतुर्दश चतुर्दश द्वाचत्वारिंशद् द्व्यशीतिर्भजन्ति द्वाचत्वा
रिंशत् । सप्तपचाशद् द्वादश चत्वारो नव च भेदा क्रमेणैषा
॥ ७८० ॥ सूक्ष्मवादैरेकेन्द्रियद्वित्रिचतुरस्रसिद्धिपत्तेन्द्रिया ।
अपर्याप्ता पर्याप्ता क्रमेण चतुर्दश जीवस्थानानि ॥ ७८१ ॥ प्रत्येकतरु
मुक्त्वा पंचापि पृथिव्याद्य सकललोके । सूक्ष्मा सति नियमाद्
अन्तर्मुहूर्तायुपोऽदृश्या ॥ ७८२ ॥ साधारणप्रत्येकौ धनरूपतिजीवौ
द्विधा श्रुते भणितौ । येषामनन्ताना तनुरेका साधारणास्ते तु ॥ ७८३ ॥
अनन्तकाय-सर्वा कन्दजाति सूरणकन्दश्च घञ्जकन्दश्च । आर्द्रा ह
रिद्रा च तथा आर्द्रक तथाऽऽर्द्रकचूरो ॥ ७८४ ॥ शतावरी विरालिका

जम्हा उद्दीण ताणि नो ह्येति ॥ ६८ ॥ चत्वारि ह्येति तिष्ठा तिल
 लभयसिक्कमुभसरिसवाण च । त्रिगईओ सेसाण डोलार्डण निविग-
 ईओ ॥ ६९ ॥ दयगुट पिटगुडा दो मज्जं पुण कट्टपिट्टनिष्फन्नं ।
 मन्डियदुतियभामरमेय च मधु तिष्ठा होड ॥ ७० ॥ साहूणं
 रयणीए नमस्कारसहित च उच्चिहाहारं । भवचरिमं उववासो अंबिल
 तियचउच्चिहाहार ॥ ७१ ॥ सेसा पच्चकराणा दुह तिह चउहावि होति
 आहारे । अइ (इइ) पच्चरखाणेसु आहारविगप्पणा नेया ॥ ७२ ॥
 अणहारो पस्सरण छारोलिं चप्पभीणमूलाइ । पच्चरखाणेवि कए
 रयणीए ताइ कप्पति ॥ ७३ ॥ फासिय १ पालिय २ चैव, सोहिय
 ३ तीरिय ४ तथा ॥ किट्टिय ५ माराहिय चैव ६, जइज्जा एरिसमिं
 उ ॥ ७४ ॥ उच्चिए काले विहिणा पत्त ज फासिय तय भणिय ।
 तह पालिय च असई समं उवओंगपडिधरिय ॥ ७५ ॥ गुरुदत्तसे-
 सभोयणसेवयाए य सोहिय जाण । पुञ्जेवि थेवकालावत्याणा

यन्ति ॥ ७६८ ॥ चत्वारि भवन्ति तैलानि तिलातसीकुसुमसप
 पाणा च । विकृतय शेषाणा डोलियादीना तैलानि न विकृतय
 ॥ ७६९ ॥ द्रवगुडपिण्डगुडौ द्वौ मद्य पुन काष्ठपिट्टनिष्पन्न । मा
 क्षिककौन्तिकभ्रामरभेद च मधु त्रिधा भवति ॥ ७७० ॥ साधूना
 रजन्या नमस्कारसहित च चतुर्विधाहार प्रत्याख्यात । भवचरम
 मुपवास आचाम्ल त्रिचतुर्विधाहार ॥ ७७१ ॥ शेषाणि प्रत्याख्या
 नानि द्विविधत्रिविधचतुर्विधान्यपि भवति आहारे । इति प्र
 त्याख्यानेषु आहारविकल्पना ज्ञेया ॥ ७७२ ॥ अनाहार प्रथमण
 क्षारादिचपचीनमूलानि । प्रत्याख्यानेऽपि कृते रजन्या तानि
 कल्पन्ते ॥ ७७३ ॥ स्पृष्ट पालित चैव शोधित तीरित तथा । की
 र्तितमाराधित चैव यत्तेत अपीदशे तु ॥ ७७४ ॥ उचिते काले
 विधिना प्राप्त यत् स्पृष्ट तदकद् भणित । तथा पालित चासकृत स
 म्यग् उपयोगेन प्रतिचरित ॥ ७७५ ॥ गुरुदत्तशेषभोजनसेवनया
 च शोधित जानीहि । पूर्णऽपि स्तोत्रकालावस्थानात्तीरित भवति
 ॥ ७७६ ॥ भोजनकाले अमुक प्रत्याख्यात तु (स्मृत्वा) भुजतः

तीरियं होइ ॥ ७६ ॥ भोजनकाले अमुगं पञ्चस्वायं तु भुंज किति-
यय । आराहियं पयारेहिं सम्ममेएहिं निट्टवियं ॥ ७७ ॥ वयभंगे गुरु-
दोसो थेवस्सवि पालणा गुणकरी य । गुरुलाघवं च नेयं धम्ममि
अओ उ आगारा ॥ ७८ ॥ तओ पञ्चस्वाण काज्जण जीवाइ पयत्ये
सुणेइ-जीवा १४ ऽजीवा १४ पुत्तं ४२ पावा ८२ ऽसव ४२
सवरो य ५७ निज्जरणा १२ । वंधो ४ मुक्खो ९ य तथा नव
तत्ता एय जिणमयमि ॥ ७९ ॥ चउदस २ वायालीसा वासी य होंति
वायाला । सत्तावन्ना वारस चउ नवमेया कमेणेसिं ॥ ८० ॥ इह
सुहुमवायरेगिदि वितिचउअसन्निसन्निपचिंदी । अपज्जत्ता पज्जत्ता
कमेण चउदस जियट्टाणा ॥ ८१ ॥ पत्तेयतरुं मुत्तु पचवि पुढवाइणो
सयललोए । सुहुमाइ सति नियमा अंतमुहुत्ताउ अहिस्सा ॥ ८२ ॥
साहारणपत्तेया वणस्सइजीवा दुहा सुए भणिया । जेसिमणंताण तणू
एगा साहारणा ते उ ॥ ८३ ॥ अणंतत्ति-सत्ता उ कंदजाई सुरणकदो
य १ वज्जकंदो य २ । अल्लहलिद्धा य तथा ३ अल्ल तह ४ अल्लक-
च्चूरो ५ ॥ ८४ ॥ सत्तावरी ६ विराली ७ कुमारी ८ तह थोहरी

कीर्तितक । आराधित प्रकारै सम्यग् पतैर्निष्ठापित ॥ ७७७ ॥ व्रत
भगे गुरुदोष स्तोत्रस्यापि पालना गुणकरी च । गुरुलाघव च
ज्ञेय धर्म अतस्तु आकारा ॥ ७७८ ॥ तत प्रत्यारयान कृत्वा जी
घादिपदार्थान् शृणोति । जीवाजीवो पुण्य पापाद्यौ सपरश्च
निर्जरणा । ग्रन्थो मोक्षश्च तथा नव तत्त्वानि पतानि जिमते ॥ ७७९ ॥
चतुर्दश चतुर्दश द्वाचत्वारिंशद् द्व्यशीतिर्भजन्ति द्वाचत्वा
रिंशत् । सतपचाशद् द्वादश चत्वारो नव च भेदा क्रमेणैषा
॥ ७८० ॥ सूक्ष्मवादरैकेन्द्रियद्विध्रिचतुरसक्षिसक्षिपचेन्द्रिया ।
अपर्याप्ता पर्याप्ता क्रमेण चतुर्दश जीवस्थानानि ॥ ७८१ ॥ प्रत्येकतरु
मुक्त्वा पंचापि पृथिव्याद्य सकललोके । सूक्ष्मा सति नियमाद्
अन्तर्मुहतायुपोऽदृश्या ॥ ७८२ ॥ साधारणप्रत्येकौ घनस्पतिजीवो
द्विधा श्रुते भणितौ । येषामनन्ताना तनुरेका साधारणास्ते तु ॥ ७८३ ॥
अनन्तकाय -सर्वा कन्दजाति सुरणकन्दश्च यज्ञकन्दश्च । आर्द्रा ह-
रिद्रा च तथा आर्द्रक तथाऽऽर्द्रकचूरो ॥ ७८४ ॥ शतावरी ।

९ गिलोई य १० । लहसण ११ वंसकरिष्ठा १२ गज्जर १३ तह
 लोणओ १४ लोढो १५ ॥ ८५ ॥ गिरिकर्णि १६ किसलपत्ता १७
 खरिसुया १८ धेग १९ अल्लमुत्या य २० । तह लोणरुख छल्ली
 २१ खल्लुडा २२ अमियरुष्ठा य २३ ॥ ८६ ॥ मूला तह २४ भूमि-
 रुहा २५ विरुह २६ तह टकवस्तुलो पदमो २७ । सूयरवल्ली य तहा
 २८ पल्लुको २९ कोमलबिलिया ३० ॥ ८७ ॥ आलू ३१ तह
 पिण्डालू ३२ इच्छाड अणेगणतकायाओ । एसि परिजाणणत्थ
 लक्षणमेय सुए भणिय ॥ ८८ ॥ गूढसरसधिपव्व समभगमहीरग च
 छिन्नरुहं । साहारण सरीर तद्विवरीय च पत्तेय ॥ ८९ ॥ विचि-
 सखरुवड्डयगडोलजलायचदणगअलसिकिमिया य । मयहरकिमि-
 पूयरगा वेंदियमाइवाहाइ ॥९०॥ तित्ति-गोमीमकुणजूया पिप्पिलि-
 उद्देहिया य मळोढा । इल्लियधिइमिल्लाओ,सावय पिमुआ य लिक्खा
 य ॥ ९१ ॥ गद्दहयचोरकीडा गोमयकीडा य धन्नकीडा य । कुथुगु-

कुमारा तथा थोहरी गडूची च । लहसन वशकरेल्ली गर्जरस्तथा लवण
 स्तथा लोढ ॥७८५॥ गिरिकर्णिका किशलयपत्राणि खराशुका धेग
 आर्द्रमुस्ता च । तथा लवणवृक्षत्वक् खल्लूड अमृतवल्ली च ॥७८६॥
 मूलकस्तथा भूमिरुहो विरुहस्तथा टकवस्तुल प्रथम । शूकरव
 ल्लश्च तथा पल्यङ्ग कोमला चिञ्चिणिका ॥ ७८७ ॥ आलुक तथा
 पिण्डालुक च इत्याद्या अनेका अनन्तकाया । एषा परिज्ञानार्थं
 लक्षणमेतत् श्रुते भणित ॥ ७८८ ॥ गूढशिर सधिपर्व समभग अ
 हीरक च छिन्नरुह । साधारण शरीर तद्विपरीत च प्रत्येक ॥७८९॥
 शखकपर्दकगडोलजलोका चन्दनकालसककृमिकाश्च । मेहरककृमि
 पूतरका द्रोन्द्रिया मातृवाहादिकाश्च ॥७९०॥ गोमि (शतपदी) मत्कु
 णयूकापिपीलिकोद्देहिकाश्च मत्कोटका । इल्लिका घृतेलिका शावा
 गोकीटजातयश्च लिक्खा च ॥७९१॥ गर्दभिकाश्चोरकीटा गोमयकीटाश्च

वालियइलिया तेइदिय इदगोवाई ॥ ९२ ॥ चउत्ति-चउरिंदिया
 य विच्छुय ढिंकुणभमरा य भमरिया तीढा । मच्छियदंसा मसगा
 कसारिय कविलडोला य ॥ ९३ ॥ पचत्ति-पचिंदिया य चउहा
 तिरिया मणुया य नारया देवा । तिरिया जलयरनहयलथलयरभेएहिं
 हुंति तिहा ॥ ९४ ॥ सवे जलथलखयरा समुच्छिमा गवभया दुहा
 हुति । नाणारूवेहिं जुआ समुच्छिमा अह मुणेयवा ॥ ९५ ॥ मणु-
 यत्ति-दुविहा मणुया जीवा समुच्छिमगभसभवा नेया । कम्माकम्म-
 गमहिया अंतरदीवा मुणेयवा ॥ ९६ ॥ कह भयव उववज्जे पर्णिदि-
 मणुया समुच्छिमा जीवा ? । गोयम । मणुस्सखित्ते नायवा इत्थ ठा-
 णेसु ॥ ९७ ॥ उच्चारे पासवणे खेले सिंघाणवंतपित्तेसु । सुक्के
 सोणिय गयजीव कलेवरे नगरनिद्धमणे ॥ ९८ ॥ महुमज्जमसमखण

धान्यकीटाश्च । कुन्थु गोपालिका इलिका श्रीन्द्रिया इन्द्रगोपादिश्च
 ॥७९२॥ चतुरिन्द्रियाश्च वृश्चिको ढिंकुणभमराश्च भ्रमरिका तीडुका ।
 मक्षिका दशमशका कसारिका कपिलडोला च ॥७९३॥ पचेन्द्रि-
 याश्च चतुर्धा तिर्यञ्चो मनुजाश्च नारका देवा । तिर्यञ्चो जलचरन
 भश्चरस्थलचरभेदैर्भयन्ति त्रिधा ॥ ७९४ ॥ सर्वे जलस्थलखचरा
 समूर्च्छिमा गर्भजा द्विधा भयन्ति । नानारूपैर्युता समूर्च्छिमा
 अय ज्ञातव्या ॥ ७९५ ॥ मनुजा इति-द्विधिधा मनुजा जीवा
 समूर्च्छिमगर्भसभवा ज्ञेया । कर्माकर्ममहोका अतर्हीपकाश्च
 ज्ञातव्या ॥ ७९६ ॥ क भगवन् ! उत्पद्यन् पचेन्द्रियमनुजा
 समूर्च्छिमा जीवा ? । गौतम ! मनुष्यक्षेत्रे ज्ञातव्या अत्र स्थानेषु
 ॥ ७९७ ॥ उच्चारे प्रस्रवणे श्लेष्मणि सिंघानके यान्तपित्तेषु । शुक्र
 शोणिते मतजीवकलेवरे नगरनिर्धमने ॥ ७९८ ॥ मधुमद्यमास-
 त्रक्षणेपु स्त्रीमगे सर्वाशुचिस्थानेषु । उत्पद्यन्ते प्ययन्ते च समू-
 छिमा मनुजपचेन्द्रिया ॥ ७९९ ॥ जीवाभिगमे । चतुरशीतियोनि
 लक्षा इति-पृथिवीदकाभिमारुता पक्कस्मिन् सप्त योनिलक्षा-
 स्तु ।

यीमगे (सप्त) असुडानेमु । उप्पञ्चंति चयति य ममुञ्जिमा मणुय-
 पचिद्री ॥०९॥ जीयाभिगमे । चउरासीजोणिलखत्ति-पुढवि-
 द्गअगणिमारुय इयिक्के सत्त जोणिलफूत्ता उ । वणपचीय अणते दस
 चउदस जोणिलफूत्ताओ ॥ १०० ॥ विगलिंदिपसु दो दो चउरो
 चउरो य नारयसुरेसु । तिरिपसु हुति चउरो चउदस लस्वा य
 मणुपसु ॥ ८०१ ॥ अजीवचउदसगत्ति-धम्मा १ ऽयम्मा २-
 ऽऽगासा ३ तियतियमेया तहेव अद्दा य १० । खंधा ११ देस १२ पपसा
 १३ परमाणू १४ अजीव चउदसहा ॥२॥ ॥ पुन्नत्ति-साय उच्चा-
 गोय सत्तवीस तु नामपयईओ । विद्धि य आऊणि तहा वायालं
 पुन्नपयडीओ ॥ ३ ॥ साय उच्चागोय नरतिरि देवाउ नाम एयाउ ।
 मणुयदुगं देवदुग पचिदीजाइ तणुपणग ॥ ४ ॥ अगोवगतिग चिय
 मयण वज्जरिसहनाराय । पढम चिय संठाण वत्ताइचउक सुपसत्थं
 ॥ ५ ॥ अगुरुलहू परघाय उस्सास आयव च उज्जोय । सुपसत्था
 विहगगई तसाइदसगं च निम्माण ॥६॥ तसवायरपज्जत्त पत्तेयथिरं
 सुह च सुभग च । सुस्सर आइज्ज जस तसाइदसग इम होइ ॥ ७ ॥

कलेन्द्रियेषु ह्यो ह्यौ चत्वार चत्वारश्च नारकसुरेषु । तिर्यक्षु भ
 वन्ति चत्वार चतुर्दश लक्षाश्च मनुजेषु ॥ ८०१ ॥ अजीवचतुर्दशक
 मिति—धर्माधर्माकाशा त्रिकत्रिकभेदास्तथैव अद्दा च । स्कन्धा
 देशा प्रदेशा परमाणवाऽजीव चतुर्दशधा ॥ ८०२ ॥ पुण्यमिति
 -सार्त्त उच्चैर्गात्रं समत्रिशत् तु नाम प्रकृतय । त्रीणि चार्युषि तथा
 द्विषन्वारिन् पुण्यप्रकृतय ॥ ८०३ ॥ सात उच्चैर्गात्रं नरतिर्यग्दे
 वायुषि नाम पता । मनुजद्विक पंचेन्द्रियजाति तनुपंचका ॥ ८०४ ॥
 अगोपागत्रिकं खलु सहननं वज्रपभनाराच । प्रथममेव सस्थानं ध
 णादिचतुर्कं सुप्रशस्त ॥ ८०५ ॥ अगुरुलघु पराघात उरुत्तास
 आतपं चाद्योत । सुप्रशस्तविहायोगति प्रसादिदशक च निर्माण
 ॥ ८०६ ॥ व्रम वादर पयास प्रत्येक स्थिर शुभश्च सुभगश्च ।
 सुस्वर आदेय यश्च प्रसादिदशकमिदं भवति ॥ ८०७ ॥ तीर्थ

तित्ययरेणं सहिया सतत्तीसं च होंति नामस्स । सेसेहिं सहियाओ
वायालं पुन्नपयडीओ ॥ ८ ॥ ॥ पावत्ति-नाणंतरायदसग दंसण
नव १९ मोहपयडीछवीसं ४५ । अस्साय ४६ निरयाऊ ४७ नी-
यागोएण अडयाला ४८ ॥ ९ ॥ नरयदुगं तिरियदुग जाइचउकं तु
पंच सघयणा । संठाणाविय पच उ वन्नाइचउकमपसत्थं ॥ १० ॥
उवघाय कुविहायगई थावर सुहुम तथा अपज्जत्तं । साहारणाऽधि-
राऽसुहमसुहदूसरमणाइज्ज ॥ ११ ॥ अज्जसकित्तीओ तह तिण्हं
इक्किक्कयाउ पावत्ति । सवाओ मिलियाओ वासीओ पावपयडीओ
॥१२॥ आसवत्ति-इदिय ५ कसाय ४ अवय ५ किरिया २५ पण
चउर पच पणवीसा । जोगा तिन्नेव भवे वायाल आसवा होइ ॥१३॥
॥ संवरत्ति-समिई ५ गुत्ती ३ धम्मो १० अणुपेहा १२ परीसहा
१२ चरित्त ५ च । सत्तावन्नं भेया पणतियभेयाइ सवरणे ॥ १४ ॥
॥ निज्जरत्ति-अन्नभवसच्चियाण जोऽवचओ गुरुतवेहिं कम्माणं ।
सा निज्जरा जिणेहिं भणिया तिद्धुक्कदंसीहिं ॥ १५ ॥ जइ इच्छसि

करेण सहिता सप्तत्रिंशच्च भवन्ति नाम्न । शेषै सहिता द्विचत्था
रिंशत् पुण्यप्रकृतय ॥८०८॥ पापमिति-ज्ञानातरायदशक दर्शन-
नयक मोहप्रकृतय षड्विंशति । असात निरयायु नीचैर्गोत्रेण
अष्टचत्वारिंशद् ॥ ८०९ ॥ नरकद्विक तिर्यग्द्विक जातिचतुष्क
तु पच सहननानि । सस्थानान्यपि च पच घर्णादिचतुष्कमप्रशस्त
॥ ८१० ॥ उपघात कुविहायोगति स्यावर सूस्मश्च तथाऽपर्याप्त ।
साधारण अस्थिर अशुभ दुस्वर अनादेय ॥ ८११ ॥ अयश-
कीर्तिस्तथा तिसृणा एकैका तु पापमिति । सर्वा मीलिता ह्यशोति
पापप्रकृतय ॥ ८१२ ॥ आस्रव इति-इन्द्रियकपायाव्रतक्रिया
पचचतु पचपचविंशतिभेदा । योगा त्रय पय भवेयु ह्यच
त्वारिंशद् आश्रवा भवन्ति ॥ ८१३ ॥ सघर इति-समितिर्गुप्ति
धर्मोऽनुप्रेक्षा परीपहाश्चारित्र च । सप्तपंचाशद्भेदा पचत्रिकादि-
भेदा संघरणे ॥ ८१४ ॥ निजरेति-अन्यभयसचिताना योऽप-
घयो गुरुतपोभि कमणा । सा निर्जरा जिनैर्भणिता त्रैलोक्यद

यीमंगे (सप्त) असुठानेपु । उष्णञ्चति चर्यति य मधुच्छिमा मणुप-
 पचिदी ॥०९॥ मीमाभिगमे । चउरासीजोगिलमत्तति-पुढवि-
 दगभगणिगारुय इपिरे सत्त जोगिलफूरता उ । वणपरोय अणते दस
 चउदस जोगिलफूरताओ ॥ १०० ॥ विगलिदिपसु दो दो चउरो
 चउरो य नारयसुरेसु । निरिपसु हुति चउरो चउदस लमत्ता य
 मणुपसु ॥ ८०१ ॥ अजीवचउदसगति-धम्मा १ ऽधम्मा २-
 ऽऽगासा ३ तियतियमेया तहेव अद्धा य १० । खंधा ११ देस १२ पपसा
 १३ परमाणू १४ अजीव चउदसहा ॥२॥ ॥ पुन्नत्ति-साय उच्चा-
 गोय सत्ततीस तु नामपयईओ । तिन्नि य आऊणि तहा वायालं
 पुन्नपयडीओ ॥ ३ ॥ साय उच्चागोय नरतिरि देवाउ नाम एयाउ ।
 मणुयदुग देवदुग पचिदीजाइ तणुपणग ॥ ४ ॥ अंगोवगतिग चिय
 मणयण वज्जरिसहनाराय । पढम चिय सठाण वन्नाइचउक्क सुपसत्थं
 ॥ ५ ॥ अगुरुलहू परघाय उस्सासं आयव च उज्जोय । सुपसत्था
 विहगगई तसाइदसगं च निम्माण ॥६॥ तसवायरपज्जत्तं पत्तेयथिर
 सुह च सुभग च । सुस्सर आइज्ज जस तसाइदसग इम होइ ॥ ७ ॥

कलेन्द्रियेषु द्वौ द्वौ चत्वार चत्वारश्च नारकसुरेषु । तिर्यक्षु भ
 यन्ति चत्वार चतुर्दश लक्षाश्च मनुजेषु ॥ ८०१ ॥ अजीवचतुर्दशक
 मिति—धर्माधर्माकाशा त्रिकत्रिकभेदास्तथैव अद्धा च । स्कन्धा
 देशा प्रदेशा परमाणवोऽजीव चतुर्दशधा ॥ ८०२ ॥ पुण्यमिति
 -स्तान् उच्चैर्गोत्रं सप्तत्रिंशत् तु नाम प्रकृतय । त्रीणि चार्युवि तथा
 द्विचत्वारित् पुण्यप्रकृतय ॥ ८०३ ॥ स्तान् उच्चैर्गोत्रं नरतिर्यग्दे
 वायूपि नाम्न पता । मनुजत्रिकपचेन्द्रियजाति तनुपंचका ॥ ८०४ ॥
 अगोपागत्रिकं खलु सहनन वज्जर्षभनाराच । प्रथममेव सस्थानं ष
 णादिचतुर्षु सुप्रशस्त ॥ ८०५ ॥ अगुरुलघु पराघात उच्छ्वास
 आतर्षं चोद्योत । सुप्रशस्तविहायोगति प्रसादिदशकं च निर्माण
 ॥ ८०६ ॥ प्रम वादर पर्याप्त प्रत्येक स्थिर शुभश्च सुभगश्च ।
 सुस्वर आदेय यश्च प्रसादिदशकमिदं भवति ॥ ८०७ ॥ तीर्थं

तित्ययरेण सहिया सतत्तीसं च होंति नामस्स । सेसेहिं सहियाओ
वायालं पुन्नपयडीओ ॥ ८ ॥ ॥ पावत्ति-नाणंतरायदसगं दसण
नव १९ मोहपयडीउधीसं ४५ । अस्साय ४६ निरयाऊ ४७ नी-
यागोएण अडयाला ४८ ॥ ९ ॥ नरयदुगं तिरियदुग जाइचउकं तु
पंच सययणा । संटाणाविय पच उ वत्ताइचउकमपसत्थ ॥ १० ॥
उवघाय कुविहायगई थावर सुहुम तथा अपज्जत्तं । साहारणाऽथि-
राऽसुहमसुहदूसरमणाइज्ज ॥ ११ ॥ अज्जसकित्तीओ तद्द तिण्हं
इक्किक्काउ पावत्ति । सद्दाओ मिलियाओ वासीओ पावपयडीओ
॥१२॥ आसवत्ति-इदिय ५ कसाय ४ अवय ५ किरिया २५ पण
चउर पंच पणवीसा । जोगा तिन्नेव भवे वायालं आसवा होइ ॥१३॥
॥ संवरत्ति-समिई ५ गुत्ती ३ धम्मो १० अणुपेहा १२ परीसहा
१२ चरित्त ५ च । सत्तावन्नं भेया पणतियभेयाइ संवरणे ॥ १४ ॥
॥ निज्जरत्ति-अन्नभवसचियाण जोऽवचओ गुरुतवेहिं कम्माणं ।
सा निज्जरा जिणेहिं भणिया तिष्ठुक्कंदसीहिं ॥ १५ ॥ जइ इच्छसि

करेण सहिता सप्तत्रिंशच्च भवन्ति नाम्न । शेषे सहिता द्विचत्वारिंशत् पुण्यप्रकृतय ॥८०८॥ पापमिति—ज्ञानातरायदृक्क दर्शन
नयक मोहप्रकृतय पड्विंशति । असात निरयायु नीचैगोत्रेण
अष्टचत्वारिंशद् ॥ ८०९ ॥ नरकद्विक तिर्यग्द्विक जातिचतुष्क
तु पच सहननानि । सस्यानान्यपि च पच यणादिचतुष्कमप्रशस्त
॥ ८१० ॥ उपघात कुविहायोगति स्थावर सूस्मञ्च तथाऽपर्याप्त ।
साधारण अस्थिर अशुभ दुस्तर अनादेय ॥ ८११ ॥ अयश-
कीर्तिस्तथा तिसृणा पकैका तु पापमिति । सवा मीलिता द्वयशीति
पापप्रकृतय ॥ ८१२ ॥ आस्रय इति—इन्द्रियकपायाव्रतक्रिया
पचचतु पचपचविंशतिभेदा । योगा प्रय पद्य भवेयु द्वाच
त्वारिंशद् आश्रया भवन्ति ॥ ८१३ ॥ सघर इति—समित्तिगुप्ति
धर्मोऽनुप्रेक्षा परीपहाश्चारित्र च । सप्तपचाशद्भेदा पचत्रिकादि
भेदा संवरणे ॥ ८१४ ॥ निर्जरेति—अन्यभयसचिताना योऽप
घयो गुरुतपोभि कर्मणा । सा निर्जरा तिनैर्भणिता त्रैलोक्यद

चिरमचियकम्मात्रचयं रिहति रे जीव ! । छट्टमममदुवालसाई
 द्वित्त तत्रारण ॥ १६ ॥ ॥ वधसि-पयडठिडअणुभागप्पएसमेया
 चउविहो यथो । मिन्त्ताई हऊ मत्तावन्न चउरमेया ॥ १७ ॥ पढम
 नाणावरण वीय पुण दमणस्स आउरण । तउयं च वेयणीय तथा च-
 उत्थ च मोहणिय ॥ १८ ॥ पचम आउ गोय उट्ट सत्तमगमतराय-
 मिह । बहुमपयडित्तेण भणामि अट्टमपए नाम ॥ १९ ॥ पंचह
 नाणावरण नयमेया दसणस्स दो वेए । अट्टावीस मोहे चत्तारि य
 आउए होति ॥ २० ॥ गोयमि दुत्ति पचतराए निगहिय नामे
 १०२ । उत्तरपयडी एउ अट्टावन्न सय होइ ॥ २१ ॥ मड १ सुय २
 ओहि ३ मण ४ कैरलाणि जीवस्स आवरिज्जति । जस्स पभावाओ
 त नाणावरण भवे कम्म ॥ २२ ॥ उदएण, जस्स न सुणइ नेय तेलुक्कस-
 गय पुरिसो । नाणावरण कम्म त जाणसु जिणवरुद्धि ॥ २३ ॥
 नयणे? यरो २ हि ३ केवल ४ दसणआवरणय भवे चउहा । निहा

शिभि ॥ ८१२ ॥ यदीच्छसि विरसधितकर्मापचय विधेहि रे जीव !
 । पष्ठाष्टमदशमद्वादशादि दीप्त तपञ्चरण ॥ ८१६ ॥ बन्ध इति—
 प्रकृतिमिथिन्यनुभागप्रदशभेदाच्चतुर्विधो बन्ध । मिथ्यात्वादयो
 हेतव सप्तपचाशत् चत्वारो भेदा (मूलत) ॥ ८१७ ॥ प्रथम
 ज्ञानावरण द्वितीयं पुन दर्शनस्यावरण । तृतीय च वेदनीय तथा
 चतुर्थं च मोहनीय ॥ ८१८ ॥ पंचममायुर्गोत्रं षष्ठं सप्तमकमन्तरा
 यमिह । बहुतमप्रकृतित्वेन भणामि अष्टमपदे नाम ॥ ८१९ ॥ पच
 विध ज्ञानावरण नव भेदा दशनस्य द्वौ वेदनीये । अष्टाविंशति
 महि चत्वारश्चायुषि भवन्ति ॥ ८२० ॥ गोत्रे द्वौ पचान्तरायिके
 इयधिक शत नाम्नि । उत्तरप्रकृतयः पथमष्टापचाशच्छत भवति
 ॥ ८२१ ॥ मतिश्रतावधिमन केवलानि जीवस्यावियन्ते । यस्य
 प्रभावात् तद् ज्ञानावरण भवेत् कम् ॥ ८२२ ॥ उदयेन यस्य न
 जानानि ज्ञेय त्रैलोक्यसगत पुरुष । ज्ञानावरण कर्म तद् जानीहि
 जिनघरोपदिष्टम् ॥ ८२३ ॥ नयनेतरावधिवैधलदक्षनावरणक भ

५ पयला ६ य तथा निद्रा ७-८ दुरुक्त थीणद्धी ९ ॥२४॥ सुह-
 पडिवोहो उ निद्रा दुहपडिवोहो उ निद्रनिद्रत्ति । पयला होइ ठिय-
 स्सवि पयला २ तु चंकमओ ॥ २५ ॥ अइसकिट्टलिरुम्माणुयेयणे
 होइ निद्र थीणद्धी । दिणचिंतियत्थवावारसाहगा अइमहाघोरा
 ॥ २६ ॥ एयमिह दरिसणावरणमेयमावरइ दरिसणं जीवो ।
 सायमसायं च दुहा वेयणीय सुहदुहनिमित्त ॥ २७ ॥ कोहो
 माणो माया लोभोऽणंताणुबंधिणो चउरो । एवमपच्चक्खाणा
 पच्चक्खाणा य सजलणा ॥ २८ ॥ सोलस इमे कसाया म्मि
 एसो नव नोकसायसंदोहो । इत्थिपुरिसनपुंसगरुव वेदत्तयं त-
 ॥ २९ ॥ १ हास २ रई ३ अरई ४ भय ५ सोग ६ दुगुल्लत्ति
 हासल्लकमिम । दरिसणत्तिग तु मिच्छत्त १ मीस २ सम्मत्तमिय
 ३ जोए ॥ ३० ॥ इइ मोह अट्टवोसा नारयनरतिरियसुराउयचउकं
 । गोयं नीयं १ उच्चं च २ अंतराईय पचविह ॥ ३१ ॥ दाउ न
 लहइ लाहो न होइ पावइ न भोगपरिभोगे । निरुओवि असत्तो

वेत्त चतुर्धा । निद्रा प्रचला च तथा निद्रादि द्विरक्त च स्त्यानद्धि
 ॥ ८२४ ॥ सुखप्रतिबोधा तु निद्रा दुखप्रतिबोधा तु निद्रानिद्रेति
 । प्रचला भयति स्थितस्यापि प्रचलाप्रचला तु चक्रमत ॥ ८२५ ॥
 अतिसक्किट्टकर्माणुवेदने भयति निद्रा स्त्यानद्धि । दिनचिन्तितार्थ-
 व्यापारसाधिकाऽतिमहाघोरा ॥ ८२६ ॥ एतदिह दर्शनावरणमे
 तद् आवृणोति जीवस्य । सातमसात च द्विधा वेदनीय सुखदुख
 निमित्तम् ॥ ८२७ ॥ क्रोधो मानो माया लोभोऽनन्तानुबन्धनश्चत्वार ।
 एवमप्रत्याख्याना प्रत्याख्यानाश्च सज्वलता ॥ ८२८ ॥ पोडश इमे
 कपाया पप नवनोकपायसंदोह । स्त्रीपुरुषनपुंसकरूपवेदप्रथ त
 स्मिन् ॥ ८२९ ॥ हास्य रति अरतिर्भयं शोको जुगुप्सेति हा
 स्यपट्कमिद । दर्शनत्रिषु तु मिथ्यात्वं मित्रं सम्यक्तमिति ॥ ८३० ॥
 इति माहे अष्टाविंशति नारकनरतिर्यक्सुरायुष्कचतुष्क । गोत्र
 नोच्चै उच्चैश्चान्तरायिक पचविध ॥ ८३१ ॥ दातु न लभते लाभो न
 भयति प्राप्नोति न भोगपरिभोगो । नीरुगपि अशक्तो भयति अन्त

होइ अंतरायप्पभायेण ॥ ३२ ॥ नामे बायालीसा मेयाणं अहव होइ
 सत्तटी । अहवाविहु तेणवइ तिग अहियसयं हवइ अहवा ॥३३॥
 पदमा बायालीसा गइजाइमरीरअंगुवंगे य । बजणसंप्रायणसंघयण-
 सठाणनाम च ॥ ३४ ॥ तह वन्नगघरसफासनामा अगुरुल्लहुय च
 चोद्धव । उवघायपराप्रायाऽणुपुविऊमासनामं च ॥ ३५ ॥ आया-
 वुज्जोयविहगगई य तसपावराभिहारणं च । बापरसुहुम पज्जत्तापज्जत्तं
 च नायव ॥ ३६ ॥ पत्तेयं तस यावर यिरमयिर सुभासुभं च नायव
 । सुभगदुभग नामं सूसर तह दूसरं चैव ॥३७॥ आइज्जं जसक्किती-
 नामऽज्जस्सक्किती य निम्माणं । तित्ययरमेयसहिया भेया नामस्स
 वायाला ॥ ३८ ॥ गइ होइ चउप्पयारा जाईविय पंचहा मुणेयवा ।
 पच य होंति सरीरा १४ अगोवगाइ तिन्नेव १७ ॥ ३९ ॥ छ-
 स्सघयणा २३ जाणसु सठाणाविह हवति छच्चेव २९ । वन्नाईण
 चउक्क ३३ अगुरुल्लहु ३४ वघाय ३५ परप्राय ३६ ॥ ४० ॥ अणु-
 पुवी चउमेया ४० उस्सासं ४१ आयवं च ४२ उज्जोयं ४३ । सुहअ-

रायप्रभावेण ॥ ८३२ ॥ नाम्नि द्वाचत्वारिंशद् भेदानामथवा भ
 वति सप्तपटि । अथवापि च त्रिनवति त्रिकाधिकशत भवत्य
 थवा ॥ ८३३ ॥ प्रथमं द्वाचत्वारिंशद् गतिर्जाति शरीरमगोपाग
 च । बन्धन सघातन सहनन सस्थान नाम च ॥ ८३४ ॥ तथा
 वर्णगन्धरसस्पर्शनामानि अगुरुल्लघुक च । धोद्धव्यमुपघातनाम
 पराघातनामानुपूर्वीनाम उच्छ्वासनाम च ॥ ८३५ ॥ आतपोद्योत
 विहायोगतयश्च प्रसस्थावराभिधान । घादरनाम सूक्ष्मनाम प
 र्याप्तनाम अपर्याप्तनाम च ज्ञातव्य ॥ ८३६ ॥ प्रत्येकं प्रस स्थावर
 स्थिरास्थिरे शुभाशुभे च ज्ञातव्ये । सुभगदुर्भगनाम्नी सुस्वर तथा
 दुस्वर चैव ॥ ८३७ ॥ आदेय यश कीर्तिनामायश कीर्तिश्च
 निर्माण । तीथकरभेदसहिता भेदा नाम्नो द्वाचत्वारिंशद् ॥ ८३८ ॥
 गतिर्भवति चतुष्प्रकारा जातिरपि च पचधा ज्ञातव्या । पच च
 भवन्ति शरीराणि अगोपागानि त्रीण्येव ॥ ८३९ ॥ पद् सहननानि
 जानीहि सस्थानान्यपि च भवति पट्टेव । धर्णादीना चतुष्कमगुरु
 लघूपघातपराघातं ॥ ८४० ॥ आनुपूर्वी घतुर्भेदा उच्छ्वास आतप

मुहा विहगर्ग २ ४५ तसाइवीसं च ६५ निम्माणं ६६ ॥ ४१ ॥
 तित्थयरेण ६७ सहिया सत्तट्ठी एव होति पयडीओ । सम्मामीसेहिं
 विणा तेवन्ना सेसकम्माण ॥ ४२ ॥ एय वीमुत्तरसय १२० वधे
 पयडीण होइ नायवं । वधण सप्रायाविय सरीरगहणेण इह गहिया
 ॥ ४३ ॥ बंधणभेया पच उ हवति सघायणाणि पंचेव । पण वन्ना
 दो गधा पच रसा अट्ट फासा य ॥ ४४ ॥ दस सोलस छवीसा
 एया मेलेह सत्तसट्ठी य । तेणउई होइ तओ वधणभेया उ पन्नरस
 ॥ ४५ ॥ वेडवाहारोरालियाण सगतेयकम्मजुत्ताण । नव वंणणाणि
 इयरहुसहिया तिन्नि तेसिं च ॥ ४६ ॥ सवेहिवि छूडेहिं तिगअ-
 हियसय तु होइ नामस्स । इय उत्तरपयडीण कम्मट्ठग अट्टवन्नसय
 ॥ ४७ ॥ मुखत्ति-मुखो रुम्माभावेसतपयाईहिं नवहिं दारेहिं ।
 खित्ताऽभेयो वा सिद्धाण परूवण कुज्जा ॥ ४८ ॥ सिद्धपनर-
 सविहत्ति-तित्थयर १ अतित्थयरा २ तित्थय ३ सर्लिंग ४ अन्न-
 लिंग ५ थो ६ पुरिसा ७ । गिहिंलिंग ८ नपुसग ९ अतित्थसिद्ध

मुचोत । शुभाशुभे विहायोगती तसादित्रिंशत्तिश्च निर्माणं ॥८२१॥
 तीर्थकरेण सहिता सप्तपट्टिरेव भवति प्रकृतय । सम्यक्त्वमिश्रा
 भ्या विना त्रिपचाशत् शेषकर्मणा ॥ ८४२ ॥ पच त्रिंशत्युत्तरशत
 वन्धे प्रकृतीना भवति ज्ञातव्य । वन्धनसघातनान्यपि च शरीरग्रह-
 णेनेह गृहीतानि ॥८४३॥ वन्धनभेदा पच तु भवन्ति सघातनानि
 पचैव । पच वर्णां ढौ गन्धो पच रसा अष्ट स्पर्शाश्च ॥ ८४४ ॥ दश
 षोडश षड्विंशतिरेता मेलयत सप्तपट्टिं च । त्रिनवतिर्भवति ततो
 वन्धनभेदास्तु पचदश ॥ ८४५ ॥ वेक्रियाहारकौदारिकाणा स्व-
 कतेज कर्मयुक्ताना । नद्य वन्धनानि इतरद्विसहिताना धीणि तेषा च
 ॥ ८४६ ॥ सर्वरपि क्षिति त्रिकाधिकशत तु भवति नाम्न । इत्यु
 त्तरप्रकृतीना कर्माष्टक (सत्त्वाना) अष्टापचाशच्छतम् ॥ ८४७ ॥
 मोक्ष इति--माक्ष कमाभावे मत्पदादिभिर्नवभिन्नारै । क्षेप्रादिभे-
 दतो वा निन्दाना प्ररूपणा कुर्यात् ॥ ८४८ ॥ सिद्ध पचदशविध
 इति--तीर्थकरातीर्थकरौ तैथिक सर्लिंगान्यलिंगद्वीपुरुषा । गृ

होइ अंतरायप्पभाषेण ॥ ३२ ॥ नामे धायालीसा भेयार्णं अहव होइ
 सत्तटी । अहवाविहु तेणउड तिग अहियसयं हउइ अहवा ॥३३॥
 पढमा धायालीसा गइजाइसरीरअंगुंणे य । वघणसत्रायणसंत्रयण-
 सठाणनाम च ॥ ३४ ॥ तह वन्नगघरसफासनामा अगुरुल्लहुय च
 योद्धव । उवघायपराघायाऽणुपुविज्जमासनाम च ॥ ३५ ॥ आया-
 चुज्जोयविहगगई य तसयावराभिहाणं च । वापरसुहुप पञ्चत्तापञ्चत्तं
 च नायव ॥ ३६ ॥ पत्तेयं तस थावर यिरमथिर सुभासुभं च नायवं
 । सुभगदुभग नामं सूसर तह दूसरं चेय ॥३७॥ आइज्जं जसकित्ती-
 नामऽज्जस्सफिक्की य निम्माण । तित्थयरभेयसहिया भेया नामस्स
 धायाला ॥ ३८ ॥ गइ होइ चउप्पयारा जाईविय पचहा मुणेयवा ।
 पच य होंति सरीरा १४ अगोवगाइ तिन्नेव १७ ॥ ३९ ॥ छ-
 स्सघयणा २३ जाणसु सठाणाविह हवति छचेव २९ । वन्नाईण
 चउक्क ३३ अगुरुल्लहु ३४ वघाय ३५ परघाय ३६ ॥ ४० ॥ अणु-
 पुवी चउभेया ४० उस्सासं ४१ आयवं च ४२ उज्जोयं ४३ । सुहअ-

रायप्रभाषेण ॥ ८३२ ॥ नाम्नि द्वाचत्वारिंशद् भेदानामथवा भ
 घति सप्तपट्टि । अथवापि च त्रिनवति त्रिकाधिकशत भवत्य
 थरा ॥ ८३३ ॥ प्रथमं द्वाचत्वारिंशद् गतिर्जाति शरीरमगोपाग
 च । वन्धन सघातन सहनन सस्थान नाम च ॥ ८३४ ॥ तथा
 वर्णगन्धरसस्पर्शनामानि अगुरुल्लघुक् च । बोद्धव्यमुपघातनाम
 पराघातनामानुपूर्वीनाम उच्छ्वासनाम च ॥ ८३५ ॥ आतपोद्योत
 विहायोगतयश्च त्रसस्थावराभिधान । वादरनाम सूक्ष्मनाम प
 र्याप्तनाम अपर्याप्तनाम च ज्ञातव्य ॥ ८३६ ॥ प्रत्येकं त्रस स्थावर
 स्थिरास्थिरे शुभाशुभे च ज्ञातव्ये । सुभगदुर्भगनाम्नी सुस्वर तथा
 दुस्वर चैव ॥ ८३७ ॥ आदेय यश कीर्तिनामायश कीर्तिश्च
 निर्माण । तीथकरभेदसहिता भेदानाम्नी द्वाचत्वारिंशद् ॥ ८३८ ॥
 गतिर्भवति चतुष्प्रकारा जातिरपि च पचधा ज्ञातव्या । पच च
 भवन्ति शरीराणि अगोपागानि त्रीण्येव ॥ ८३९ ॥ षट् सहननानि
 जानीहि सस्थानान्यपि च भवति पट्टेव । वर्णादीना चतुष्कमगुरु
 लघूपघातपराघात ॥ ८४० ॥ आनुपूर्वी चतुर्भेदा उच्छ्वास आतप

कारभावनं चत्ति मरणविही ॥ ५७ ॥ जिनप्रतिमां पूजयित्वा तस्य
 दर्शयते, देवान् वदापयित्वा आलोचना दाप्यते—जे मे जाणंति जिणा
 अवराहा जेसु जेसु ठाणेसु । तेऽहं आलोएमी उवट्ठिओ सव्वभावेणं
 ॥ ५८ ॥ छडमत्थो मूढमणो कित्थियमित्थपि संभरइ जीवो । जं च
 न संभरामि अहं मिच्छा मे दुक्कडं तस्स ॥५९॥ ज जं मणेण वद्ध
 ज ज वायाट भासिय पाव । ज ज काएण कय मिच्छा मे दुक्कड
 तस्स ॥६०॥ हा दुट्ठु कयं हा दुट्ठु कारिय अणुमयपि हा दुट्ठु । अंतो अंतो
 डङ्गट शुसिस्व दुमो वणदवेण ॥ ६१ ॥ गट्ठिऊण य मुक्काइं जम्मण-
 मरणेसु जाड देहाइं । पापेसु पसत्ताइ ति विहेण य ताइं चत्ताइं
 ॥ ६२ ॥ अहिगरणाइ जाइ हल्लुखलसत्थजतमाईणि । करणाइं हि
 कयाड वोसिरियाड मए ताईं ॥६३॥ जह वालो जपतो कज्जमकज्जं च
 उज्जुय भणइ । त तह आलोइज्जा मायामयविप्पमुक्को उ ॥६४॥
 गारवपंकनिबुड्ढा अइयार जे गुरुण न कहति । दसणनाणचरित्ते

चेत्ति मरणविधि ॥ ८५७ ॥ यान् मे जानति जिना अपराधान् येषु
 येषु स्थानेषु । तानहमालोचयाभि उपस्थित सर्वभावेन ॥ ८५८ ॥
 छद्मस्यो मूढमना कियन्मात्रमपि स्मरति जीव । यच्च न स्मराम्यहं
 मिथ्या मे दुष्कृत तस्य ॥ ८५९ ॥ यद् यद् मनसा वद्ध यद् यद्
 वाचा भाषित पाप । यद् यत् कायेन कृत मिथ्या मे दुष्कृत तस्य
 ॥८६०॥ हा दुष्ठु कृत हा दुष्ठु कारितमनुमतमपि हा दुष्ठु । अन्त
 रन्तर्दह्यते शुपिर इव द्रुमो वनदवेन ॥ ८६१ ॥ गृहीत्वा च मुक्ता
 जन्ममरणेषु ये देहा । पापेषु प्रयुक्ता त्रिभिधेन च ते त्यक्ता
 ॥ ८६२ ॥ अधिकरणानि यानि हलोदूखलशस्त्रयन्त्रादीनि । कर-
 णादिभिः कृतादीनि व्युत्सृष्टानि मया, तानि ॥ ८६३ ॥ यथा वालो
 जल्पन् कार्यमकार्यं च ऋजुर्कं भणति । तत् तथाऽऽगेचयेद् माया
 मदविप्रमुक्तस्तु ॥ ८६४ ॥ गौरवपंकनिमग्ना अतिचार ये गुरुभ्यो
 न कथयन्ति । दर्शनज्ञानचारिष्वे सशल्यमरण भवेत् तेषा ॥८६५॥

१० पत्तेयबुद्धा ११ य ॥ ४९ ॥ एन १० अणेग १३ सयंबुद्ध १४
 बुद्धबोधिय १५ पमेयओ भणिया । सिद्धन्ते सिद्धाणं मेया पनरस-
 संवत्ति ॥ ५० ॥ अवट्टिहत्ति—ईसीपभाराण उपरि ग्वत्तु जोयण-
 स्स जो कोसो । कोसस्स य छद्भाए सिद्धाणोगाहणा भणिया ॥ ५१ ॥
 अलोप पट्टिहया सिद्धा, लोयगे य पइट्टिया । इह बुद्धिं चइत्ताण,
 तत्थ गतूण मिज्झई ॥ ५२ ॥ रिउसेंठी समएण दसणनाण अण-
 तमुक्ख च । उवमाईय च सुह पडिआओ से अलोणेणं ॥ ५३ ॥
 परिमियदेसेऽणता किह माया जुत्तिविरहियत्ताओ १ । नेयमि व ना-
 णाई दिट्ठी उवओगस्सत्ति ॥ ५४ ॥ आससार सरियाजलेहिं
 हीरंतरणुनिग्रहहि । पुठवी न निट्टइ चिय उयहीवि यली न सजा-
 ओ ॥ ५५ ॥ नवि अत्थि माणुसाण त सुत्तस्स नविय सर्वदेवाण । त
 सिद्धाण सुक्खं अवावाह उवगयाण ॥ ५६ ॥ आराहणाविहित्ति-
 आलोयणा वयाणं उच्चारो खामणा अणत्तणं च । सुहभावणा नमु-

हिल्लिगनपुमकातीर्यसिद्धा प्रत्येकबुद्धाश्च ॥ ८४९ ॥ एकानेक-
 स्वयंबुद्धबोधितप्रभेदतो भणिता । सिद्धान्ते सिद्धाना मेदा पच-
 दशसख्या इति ॥ ८५० ॥ अवस्थितिरिति—ईपत्प्राग्भाराया उपरि
 खलु याजनस्य य कोश । कोशस्य च पट्टो भाग सिद्धानामव
 गाहना भणिता ॥ ८५१ ॥ अलोकेन प्रतिहता सिद्धा लोकाग्रे च
 प्रतिष्ठिता । इह बादिं (शरीर) त्यक्त्वा तत्र गत्वा सिध्यति
 ॥ ८५२ ॥ ऋजुश्रण्या समयेन दर्शनज्ञाने अनन्तसुखं च । उपमा
 तीतं च सुखं प्रतिघातं तस्यालोकेन ॥ ८५३ ॥ परिमितदेशेऽनन्ता
 कथं माता युक्तिविरहितत्वात् । ज्ञेयं इव ज्ञानादिं दृष्टिरुपयोग
 रूपं इति ॥ ८५४ ॥ आससार सरिज्जलैर्हियमाणरेणुनिवहै । पृथ्वी
 न निष्ठितेव उदधिरपि स्थली न सजात ॥ ८५५ ॥ नैयास्ति मा
 नुषाणा तत्सुखं नापिच सर्वदेवानां । तत् सिद्धानां सुखमव्या
 बाधमुपगतानां ॥ ८५६ ॥ आराधनाविधिरिति—आलोचना न
 तानामुच्चारं क्षमापनाऽनशनं च । शुभभाषणा नमस्कारभाषनं

कारभावनं चत्ति मरणविही ॥ ५७ ॥ जिनप्रतिमां पूजयित्वा तस्य
 दर्शयते, देवान् वदापयित्वा आलोचना दाप्यते—जे मे जाणति जिणा
 अवराहा जेषु जेषु ठाणेसु । तेऽह आलोएमी उवट्ठिओ सवभावेण
 ॥ ५८ ॥ छउमत्थो मूढमणो कित्थियमित्थपि संभरइ जीवो । जं च
 न संभरामि अह मिच्छा मे दुक्कडं तस्स ॥५९॥ ज ज मणेण वद्ध
 जं ज वायाद् भासिय पाव । जं ज काएण कय मिच्छा मे दुक्कड
 तस्स ॥६०॥ हा दुट्ठु कय हा दुट्ठु कारियं अणुमयपि हा दुट्ठु । अंतो अतो
 डज्झड झुसिख्व दुमो वणदवेण ॥ ६१ ॥ गहिऊण य मुक्काइं जम्मण-
 मरणेसु जाइ देहाइं । पावेसु पसत्ताइ तिविहेण य ताइ चत्ताइं
 ॥ ६२ ॥ अहिगरणाइ जाइ हलऊखलसत्थजंतमाइणि । करणाइंहि
 कयाइ वोसिरियाड मए तां ॥६३॥ जह वालो जपतो कज्जमकज्जं च
 उज्जुय भणइ । त तह आलोइज्जा मायामयविप्पमुक्को उ ॥६४॥
 गारवर्पकनिवुट्ठा अइयार जे गुरुण न कहति । दसणनाणचरित्ते

चेति मरणविधि ॥ ८५७ ॥ यान् मे जानति जिना अपराधान् येषु
 येषु स्थानेषु । तानहमालोचयाभि उपस्थित सर्वभावेन ॥ ८५८ ॥
 छद्मस्थो मूढमना कियन्मात्रमपि स्मरति जीव । यच्च न स्मराम्यहं
 मिथ्या मे दुष्कृत तस्य ॥ ८५९ ॥ यद् यद् मनसा वद्ध यद् यद्
 वाचा भाषित पाप । यद् यत् कायेन कृत मिथ्या मे दुष्कृत तस्य
 ॥८६०॥ हा दुट्ठु कृत हा दुट्ठु कारितमनुमतमपि हा दुट्ठु । अन्त
 रन्तर्दृश्यते शुषिर इव द्रुमो वनदवेन ॥ ८६१ ॥ गृहीत्वा च मुक्ता
 जन्ममरणेषु ये देहा । पापेषु प्रयुक्ता त्रिभिधेन च ते त्यक्ता
 ॥ ८६२ ॥ अधिकरणानि यानि हलोदूखलशस्त्रयत्रादीनि । कर-
 णादिभि कृतादीनि व्युत्सृष्टानि मया तानि ॥ ८६३ ॥ यथा वालो
 जल्पन् कार्यमकाथ च ऋजुं भणति । तत् तथाऽऽनेचयेद् माया
 मदविप्रमुक्तस्तु ॥ ८६४ ॥ गौरवर्पकनिमग्ना अतिचार ये गुरुभ्यो
 न कथयति । दर्शनज्ञानचारित्रे सशल्यमरण भवेत् तेषा ॥८६५॥

१० पचेययुद्धाः ११ य ॥ ४९ ॥ षग १० अणेग १३ मयंबुद्ध १४
 युद्धरोदिय १५ पमेयभो भणिया । सिद्धंते मिद्राणं मेया पनरस-
 संवति ॥ ५० ॥ अवद्विद्वि—उमीपभाराए उरिं खलु जोयण-
 स्स जो कोसो । कोसस्स य एभाए सिद्धाणोगाहणा भणिया ॥५१॥
 अलोप पदिहया सिद्धा, लोयगे य पइट्टिया । इह युद्धि चइत्ताण,
 तत्थ गतूण मिज्झई ॥ ५२ ॥ रिउसेदी समएण दसणनाण अणं-
 तमुक्ख च । उवमाईय च सुह पडिआओ से अलोगेण ॥ ५३ ॥
 परिमियदेसेऽणता किह माया जुत्तिविरहियत्ताओ १ । नेयमि व ना-
 णाई । दिट्ठी उअओगएत्ति ॥ ५४ ॥ आससार सरियाजलेहिं
 हीरंतरणुनिवहहि । पुढवी न निट्टइ चिय उयहीवि थली न संजा-
 ओ ॥५५॥ नवि अत्थि माणुसाण त सुक्ख नविय सवदेवाण । त
 सिद्धाण सुक्खं अवावाह उवगयाण ॥५६॥ आराहणाविहित्ति-
 आलोयणा वयाणं उचारो खामणा अणसण च । सुहभावणा नमु-

द्विलिङ्गनपुंसकातीर्थसिद्धा प्रत्येकयुद्धाश्च ॥ ८४९ ॥ एकानेक-
 स्वययुद्धप्रोधितप्रभेदतो भणिता । सिद्धान्ते सिद्धाना मेदा पच
 दशसरया इति ॥ ८५० ॥ अवस्थितिरिति—ईषत्प्राग्भाराया उपरि
 खलु योजनस्य य प्रोश । प्रोशस्य च पष्ठो भाग सिद्धानामव
 गाहना भणिता ॥ ८५१ ॥ अलोकेन प्रतिहता सिद्धा लोकाग्रे च
 प्रतिष्ठिता । इह बौद्धि (शरीर) त्यक्त्वा तत्र गत्वा सिध्यति
 ॥ ८५२ ॥ ऋजुश्रेण्या समयेन दशनज्ञाने अनन्तसुख च । उपमा
 तीत च सुख प्रतिघात तस्यालोकेन ॥ ८५३ ॥ परिमितदेशेऽनन्ता
 कथं भाता युक्तिविरहितत्वात् । हेय इव ज्ञानादि दृष्टिरुपयोग
 रूप इति ॥ ८५४ ॥ आससारं सरिज्जलैर्हियमाणरेणुनिवहै । पृथ्वी
 न निष्ठितैव उदधिरपि स्थली न सजात ॥ ८५५ ॥ नैवास्ति मा
 नुपाणा तत्सुख नापिच सर्वदेवाना । तत् सिद्धाना सुखमव्या
 बाधमुपगताना ॥ ८५६ ॥ आराधनाविधिरिति—आलोचना व
 तानामुच्चार क्षमापनाऽनशन च । शुभभात्रना नमस्कारभावनं

णं जावज्जीवाए, भावओ णं जाव गहेणं न गहिज्जामि जाव छलेणं न
 छलिज्जामि जाव सन्निवाएण नाभिहुज्जामि जाव अन्नेण वा केणई
 रोगायकाइणा एस परिणामो न परिवडई ताव मम एयं सम्मद्दसण ।
 नन्नत्थ रायाभिओगेण गणाभिओगेण बलाभिओगेणं देवयाभि-
 ओगेण गुरुनिग्गहेणं वित्तिकतारेण वोसिरामि । इय मिच्छाओ
 विरमिय सम्मं उवउग (ज्ज) भणद् गुरुपुरओ । अरहतो निस्संगो
 मम देवो दक्खिणा साहू ॥ ६९ ॥ एव वारस वयाणि उच्चारिऊण
 पच्छा खामण कारिज्जए।-साहू य साहुणीओ सद्धा सद्धी य चउवि-
 हो सगो । आसाडओ मए ज तमह तिविहेण खामेमि ॥ ७० ॥
 सयणा व परजणा वा उवयारपरा व निरुवयारा वा । मित्ता व
 अमिक्का वा दिट्ठा वा जे य नो दिट्ठा ॥७१॥ एग्गिदिया य वेइदिया
 य तेइदिया य चउरिदिणा(दी) । पचिदिया व जल थलयरा व तह
 खयहरा ववि ॥ ७२ ॥ मणसा वा वयसा वा काएणं व इहभवे

ग्रहीष्यामि यावत् छलेन न छलिष्यामि यावत् सानिपातेन
 नाभिभविष्यामि यावदन्येन केनचिद् रोगातकादिना पप परी
 णामो न परिपतति तावद् ममैतत् सम्यग्दर्शनं, नान्यत्र राजा
 भियोगाद् गणाभियोगात् बलाभियोगाद् देवताभियोगात् गुरुनि-
 ग्रहाद् वृत्तिकान्ताराद् व्युत्सृजामि । इति मिथ्यात्वाद् त्रिरम्य
 सम्यग् उपयुज्य भणति गुरुपुरत । अर्हन् नि सगो मम देवो दक्षिणा
 साधवो गुरव ॥८६९॥ पथ द्वादश व्रतानि उच्चारयित्वा पश्चात् क्षमा
 पना कार्यते, साधनश्च साध्यश्च श्राद्धा श्राद्धश्च चतुर्विध मय ।
 आशातितौ मया य तमह त्रिविधेन क्षमयामि ॥८७०॥ मज्जना
 वा परजना वा उपकारपरा वा निरुपकारा वा । मित्राणि वाऽ
 मित्राणि वा द्विष्टा वा ये च नो द्विष्टा ॥८७१॥ एकेन्द्रियाश्च
 द्वीन्द्रियाश्च त्रीन्द्रियाश्च चतुरिन्द्रिया । पचेन्द्रिया वा जलस्यल
 चरा वा तथा खेचरा वाऽपि ॥८७२॥ मनसा वा वचसा वा कायेन वा

ससङ्गमरणं भये तेमि ॥ ६५ ॥ एय मसङ्गमरणं मरिऊण महपप
 तह दुरते । सुउर भमनि नीया तीह मगारकतारं ॥ ६६ ॥ इकं प-
 दियमरण छिडड जाईसयाई उदुयाई । उगपि वालमरणं कुणड
 अणताड दुफ्ताई ॥ ६७ ॥ धीरणपि मरियव काउरिसेणवि अवस्स
 मरियव । तम्हा अस्ममरणे वरं सु धीरत्तणे मरिउ ॥६८॥ चतुर्वि-
 धश्रीश्रमणसपजिनविजिनचैत्यपुस्तकरूपाया सप्तसेज्या धनव्यय
 फार्यते, तदनंतरं सम्यग्गतददकमुच्चार्यते नमस्कारत्रयपूर्वकअहङ्ग भते ।
 तुम्हाण समीपे मिच्छत्ताओ पडिधमामि सम्मत्तं उवसपज्जामि, तं-
 जहा-दवओ खित्तओ फालओ भावओ, दवओ ण मिच्छत्तकारणाइ
 परि० सम्मत्त० उवमपज्जामि, नो मे कप्पड अज्जप्पभिइं अन्नउ
 त्थिए वा अन्नउत्थियदेवयाणि वा अन्नउत्थियपरिग्गहियाणि वा
 अरिहतचेइयाणि वा वदित्तए वा नमसित्तए वा पुविं अणालित्तेणं
 आलवित्तए वा सलवित्तए वा तेसिं असणवा पाण वा खाइम वा साइम
 वा दाउ वा अणुप्पयाउ वा, खित्तओ ण इत्थ वा अन्नत्थ वा, कालओ

पतत् सशल्यमरणं मृत्वा महाभय तथा दुरन्तम् । सुचिरं भ्राम्यन्ति
 जीवा दीर्घं ससारकान्तारम् ॥ ८६६ ॥ एकं पण्डितमरणं छिनत्ति
 जातिशतानि बहुकानि । एकमपि वालमरणं करोत्यनन्तानि
 दुःखानि ॥ ८६७ ॥ धीरेणापि मतव्यं कापुरुषेणापि अवश्यं मर्तं
 व्यम् । तस्माद् अवश्यमरणे धरं हि धीरत्वेन मर्तुं ॥८६८॥ अहं
 भदन्त ! युष्मार्कं समीपे मिथ्यात्वात् प्रतिक्राम्यामि सम्यक्त्वमुप-
 सपद्ये, तद्यथा-द्रव्यत क्षेत्रत कालतो भावत, द्रव्यतो मिथ्या-
 त्वकारणानि प्रत्याख्यामि सम्यक्त्वकारणानि उपसपद्ये, नो मे
 कलतते अधप्रभृति अन्ययूथिका वा अन्ययूथिकदेवता वा अन्ययू-
 थिकपरिगृहीतानि अहंज्ञेत्यानि वा वन्दितु वा नमस्तितु वा
 पूर्वमनालसस्य आलप्तु वा सलप्तु वा, तेषामशनं वा पान
 वा खाद्य वा स्वाद्य वा दातु वा अनुप्रदातु वा, क्षेत्रतोऽन्न
 वा अन्यन्न वा, कालतो यावज्जीव, भावतो यावद् ग्रहेण न

णं जावज्जीवाए, भावओ णं जाव गहेणं न गहिज्जामि जाव छलेणं न
 उलिज्जामि जाव सन्निवाएणं नाभिहुज्जामि जाव अन्नेण वा केणई
 रोगायकाइणा एस परिणामो न परिवडई ताव मम एयं सम्मद्दसण ।
 नच्चत्थ रायाभिओगेण गणाभिओगेण बलाभिओगेणं देवयाभि-
 ओगेणं गुरुनिग्गहेण वित्तिकतारेण वोसिरामि । इय मिच्छाओ
 विरमिय सम्मं उवउग (ज्ज) भणइ गुरुपुरओ । अरहंतो निस्संगो
 मम देवो दक्खिणा साहू ॥ ६९ ॥ एवं वारस वयाणि उच्चारिऊण
 पच्छा खामण कारिज्जए।-साहू य साहुणीओ सद्धा सद्धी य चउवि-
 हो सवो । आसाइओ मए ज तमह तिविहेण खामेमि ॥ ७० ॥
 सयणा व परजणा वा उवयारपरा व निस्वयारा वा । मित्ता व
 अमित्ता वा दिट्ठा वा जे य नो दिट्ठा ॥७१॥ एगिंदिया य वेइदिया
 य तेइंदिया य चउरिंदिया(दी) । पचिंदिया व जल थलयरा व तह
 खयहरा ववि ॥ ७२ ॥ मणसा वा वयसा वा काएण व इहभवे

ग्रहीष्यामि यावत् छलेन न छलिष्यामि यावत् सानिपातेन
 नाभिभविष्यामि यावदन्येन केनचिद् रोगातकादिना पप परी
 णामो न परिपतति तावद् ममैतत् सम्यग्दर्शनं, नान्यत्र राजा-
 भियोगाद् गणाभियोगात् बलाभियोगाद् देवताभियोगात् गुरुनि-
 ग्रहाद् वृत्तिकान्ताराद् व्युत्सृजामि । इति मिथ्यात्वाद् विरम्य
 सम्यग् उपयुज्य भणति गुरुपुरत । अहं न नि सगो मम देवो दक्षिणा
 साधवो गुरुव ॥८६९॥ पथ द्वादश व्रतानि उच्चारयित्वा पश्चात् क्षमा-
 पना कार्यते, साधवश्च साध्यश्च श्राद्धा श्राद्धश्च चतुर्विध सध ।
 आशातितो मया य तमह त्रिविधेन क्षमयामि ॥८७०॥ स्वजना
 वा परजना वा उपकारपरा वा निरुपकारा वा । मित्राणि वाऽ
 मित्राणि वा द्विष्टा वा ये च नो द्विष्टा ॥८७१॥ एकेन्द्रियाश्च
 द्वीन्द्रियाश्च त्रीन्द्रियाश्च चतुरिन्द्रिया । पचेन्द्रिया वा जलस्थल
 चरा वा तथा खेचरा वाऽपि ॥८७२॥ मनसा वा वचसा वा कायेन वा

ससङ्गमरणं भये तेति ॥ ६५ ॥ एय मगङ्गमरणं मरिउण महम्म
 तह दुरते । सुउर भवति जीया डीह मगारङ्गारं ॥ ६६ ॥ इकं प-
 टियमरण छिद्रइ जाईसयाई बहुयाई । उपि बालमरण कुण्ड
 अणताइ दुक्खाई ॥ ६७ ॥ धीरणपि मरियच्च काउरिसेणवि अवस्स
 मरियच्च । तम्हा अयस्ममरणे उरं सु धीरत्तणे मरिउ ॥६८॥ चतुर्वि-
 धश्रीश्रमणसत्रजिनविंशजिनचैत्यपुस्तकरूपाया मत्तसेज्या धनव्यय
 फार्यते, तदनंतरं सम्यक्त्तद्वकमुच्चार्यते नमस्कारत्रयपूर्वकं अहन्न भते ।
 तुम्हाण समीपे मिच्छत्ताओ पडियमामि सम्मत्तं उवसपज्जामि, तं-
 जहा-द्वओ खित्तओ कालओ भावओ, दवओ ण मिच्छत्तकारणाइ
 परि० सम्मत्त० उवमपज्जामि, नो मे कप्पइ अज्जप्पभिइ अन्नउ-
 त्थिए वा अन्नउत्थियदेवयाणि वा अन्नउत्थियपरिग्गहियाणि वा
 अरिहतचेइयाणि वा वदित्तए वा नमसित्तए वा पुविं अणालित्तेणं
 आलवित्तए वा सलवित्तए वा तेसिं असणवा पाणवा खाइम वा साइम
 वा दाउ वा अणुप्पयाउ वा, खित्तओ ण इत्थ वा अन्नत्थ वा, कालओ

एतत् सशल्यमरणं मृत्वा महाभयं तथा दुरन्तम् । सुचिरं भ्राम्यन्ति
 जीवा दीर्घं ससारकान्तारम् ॥ ८६६ ॥ एकं पण्डितमरणं छिनत्ति
 जातिशतानि बहुकानि । एकमपि बालमरणं करोत्यनन्तानि
 दुःखानि ॥ ८६७ ॥ धीरेणापि मर्त्येण कापुरुषेणापि अवश्यं मर्त-
 व्यम् । तस्माद् अवश्यमरणे वरं हि धीरत्वेन मर्तुं ॥ ८६८ ॥ अह-
 भदन्त ! युष्माकं समीपे मिथ्यात्वात् प्रतिक्राम्यामि सम्यक्त्वमुप-
 सपद्ये, तद्यथा-द्रव्यत क्षेत्रत कालतो भावत, द्रव्यतो मिथ्या-
 त्वकारणानि प्रत्याख्यामि सम्यक्त्वकारणानि उपसपद्ये, नो मे
 कलतते अद्यप्रभृति अन्ययूथिका वा अन्ययूथिकदेवता वा अन्ययू-
 थिकपरिगृहीतानि अर्हञ्चेत्यानि वा वन्दितु वा नमस्वितु वा
 पूर्वमनालस्य आलप्तु वा सलप्तु वा तेषामशनं वा पान
 वा खाद्य वा स्वाद्य वा दातु वा अनुप्रदातु वा, क्षेत्रतोऽन्न
 वा अन्यन्न वा कालतो यावज्जीव, भावतो यावद् ग्रहेण न

षं जावज्जीवाए, भावओ षं जाव गहेणं न गहिज्जामि जाव छलेणं न
 छलिज्जामि जाव सन्निवाएण नाभिहुज्जामि जाव अन्नेण वा केणई
 रोगायकाइणा एस परिणामो न परिवडई ताव मम एयं सम्मद्दसण ।
 नन्नत्थ रायाभिओगेण गणाभिओगेणं वलाभिओगेणं देवयाभि-
 ओगेण गुरुनिग्गहेण वित्तिकतारेण वोसिरामि । इय मिच्छाओ
 विरमिय सम्मं उवउग (ज्ज) भणइ गुरुपुरओ । अरहंतो निस्सगो
 मम देवो दक्खिणा साहू ॥ ६९ ॥ एव वारस वयाणि उच्चारिऊण
 पच्छा खामण कारिज्जए।-साहू य साहुणीओ सद्धा सद्धी य चउवि-
 हो सवो । आसादओ मए ज तमह तिविहेण खामेमि ॥ ७० ॥
 सयणा व परजणा वा उवयारपरा व निरुवयारा वा । मित्ता व
 अमित्ता वा दिट्ठा वा जे य नो दिट्ठा ॥७१॥ एगिंदिया य वेईदिया
 य तेईदिया य चउरिंदिया(दी) । पचिंदिया व जल थलयरा व तह
 खयहरा ववि ॥ ७२ ॥ मणसा वा वयसा वा काएणं व इहभवे

ग्रहीष्यामि यावत् छलेन न छलिष्यामि यावत् सानिपातेन
 नाभिभविष्यामि यावदन्येन केनचिद् रोगातकादिना एष परी-
 णामो न परिपतति तावद् ममैतत् सम्यग्दर्शनं, नान्यत्र राजा
 भियोगाद् गणाभियोगात् वलाभियोगाद् देवताभियोगात् गुरुनि-
 ग्रहाद् वृत्तिकान्ताराद् व्युत्सृजामि । इति मिथ्यात्वाद् विरम्य
 सम्यग् उपयुज्य भणति गुरुपुरत । अहं न नि सगो मम देवो दक्षिणा
 साधवो गुरव ॥८६९॥ एव द्वादश व्रतानि उच्चारयित्वा पश्चात् क्षमा-
 पना कार्यते, साधवश्च साध्य श्राद्धा श्राद्धचश्च चतुर्विध सव ।
 आशातितो मया य तमह त्रिविधेन क्षमयामि ॥८७०॥ स्वजना
 वा परजना वा उपकारपरा वा निरुपकारा वा । मित्राणि वाऽ
 मित्राणि वा द्विष्टा वा ये च नो द्विष्टा ॥८७१॥ एकेन्द्रियाश्च
 द्वीन्द्रियाश्च त्रीन्द्रियाश्च चतुरिन्द्रिया । पचेन्द्रिया वा जलस्यल
 चरा वा तथा खेचरा वाऽपि ॥८७२॥ मनसा वा वचसा वा कायेन वा

य इयं वा । जे दूमि(गवि)या य वगणे क्रोधाटकसायमेरणं
 ॥ ७३ ॥ ताद् जड अणमणजोगो दृष्ट तत्रो अणसर्णं द्विज्जड,
 त च सागारमणागार च, तत्त्य सागारं-भवचरिम पञ्चक्खामि
 त्तिविहपि आहार-अमण ग्गाडमं साडम अन्नत्यऽणाभोगेणं सह-
 सागारण महत्तरागारण सर्वसमाधिप्रतियागारण वोसिरामि ॥ भ-
 वचरिम पञ्चक्खामि चउविहंपि आहारं असण पाण खाडम साडम
 अन्नत्यऽणाभोगेण सहमागारेण वोसिरामि ॥ अट्टारस पावठाणाणि
 वोसिरइ-सव पाणइत्राय १ अलिय २ मडत्त च ३ मेहुणं सव ४ ।
 सव परिग्गह तह ५ रईभत्त च ६ वोसिरामि ॥ ७४ ॥ कोह ७
 माण ८ माय ९ लोह च तहा(य) राग ११ दोसो य १२ । कलह
 १३ अश्वक्खाण १४ पेसुन्न १५ परपरीवाय १६ ॥ ७५ ॥ माया-
 मोस १७ मिच्छादसणसल्ल च १८ तहेव वोसिरिमो । अतेऊ(हु)-
 सासेहि देहपि जिणाण पच्चक्ख ॥ ७६ ॥ ज अन्नाणी कम्मं खवेइ

इह भवे च इत रस्मिन् वा । ये स्यापिताश्च व्यसने क्रोधादिकषाय
 भेदेन ॥८७३॥ तदा यदि आशनयोग्यो भवति तदाऽनशनं दीयते,
 तच्च साकारमनाकार च, तत्र साकार भवचरिम प्रत्याख्यामि
 त्रिविधमपि आहार अशनं खाद्य स्वाद्य अन्यत्रानाभोगात् सह
 साकाराद् महत्तराकारात् सर्वसमाधिप्रत्ययाकाराद् व्युत्सृजामि,
 भवचरमं प्रत्याख्यामि चतुर्विधमपि आहार अशनं पान स्वाद्य
 स्वाद्य अन्यत्रानाभोगात् सहसाकाराद् महत्तराकारात् सर्वसमाधि
 प्रत्ययाकारात् व्युत्सृजामि । अष्टादश पापस्थानानि व्युत्सृजति मव
 प्राणातिपातमलिकमदत्त च मैथुन सव । सर्वं परिग्रह तथा रात्रि
 भक्त च व्युत्सृजामि ॥८७४॥ क्रोध मानं माया लोभ तथा च राग
 द्वेषौ च । कलहमभ्यारयान पैशुन्यं परपरिवाद ॥ ८७५ ॥ माया
 मृषा मिथ्यादर्शनशल्यं तथैव व्युत्सृजाम । अन्तैरुच्छ्वासेर्देह
 मपि जिताना प्रत्यक्षम् ॥८७६॥ यद् अज्ञानी कर्म क्षपयति बहु-

बहुयाहिं वासकोडीहिं । तं नाणी तिहि गुत्तो खवेइ ऊसासमित्तेणं
 ॥७७॥ वित्तिपयाणेण जणा सहाय मग्गंति सस्सलवणत्थं । तुज्झ मुहा
 रोगाई जाओ कम्मक्खयसहाओ ॥७८॥ तथा वोस्तिरत्तु संगं-
 न पिया न चैव माया न सुया न य भायरो न सुही वंधू । न य
 धननिचया शरण संसारे दुक्खपउरंमि ॥ ७९ ॥ इत्तुच्चिय इह
 शरणं जम्मजरामरणदुक्खतवियाण । सत्ताण सुहनिहाण पंचपरमिट्ठि
 नवकार ॥८०॥ पचनमुक्कारसमा अंते वच्चति जस्स दस पाणा । सो
 जइ न जाइ मुक्खं अवस्स वेमाणिओ होइ ॥८१॥ आणाए वट्टणत्ति-
 जम्हा छउमत्थाण आण मुत्तुं न मुक्खमग्गमि । विज्जइ किंचि पमाण
 तम्हा उ जइज्ज मैराए ॥ ८२ ॥ ओहे सुओवउत्तो सुयनाणी जइवि
 गिण्हइ अमुद्ध । त केवली उ भुजइ अपमाण सुय भवे इहरा ॥८३॥
 जइ जिणमयं पवज्जह ता मा ववहारनिच्छय मुअह । ववहारनउच्छेए
 तित्थुच्छेओ जओऽवस्सं ॥८४॥ ववहारोऽपि हु वलव ज छउमत्थपि

काभिवर्षकोडीभि । तज्ज्ञानी त्रिभिर्गुण क्षपयति उच्छ्वासमात्रेण
 ॥ ८७७ ॥ वृत्तिप्रदानेन जना साहायक मार्गयन्ति शस्यलवणार्थं ।
 तत्र मुधा रोगादयो जाता कर्मक्षयसहाया ॥८७८॥ तथा व्युत्सृज
 सग-न पिता न चैव माता न सुता न च भ्रातरो न सुहृदो ग्रान्धया ।
 न च धननिचया शरण संसारे दु खप्रचुरे ॥८७९॥ परं एव इह
 शरण जन्मजरामरणदु खतप्ताना । सत्त्वाना सुखनिधान पचपरमे-
 ष्ठिनमस्कार ॥८८०॥ पंचनमस्कारसमा अन्ते प्रजन्ति यस्य दश
 प्राणा । स यदि न याति मोक्ष अवश्य पैमानिको भवति ॥८८१॥
 आज्ञया वर्तनमिति-यस्मात् छद्मस्थानामाज्ञा मुक्त्या न मोक्षमार्गे ।
 विद्यते किंचित्प्रमाण तस्माद् यत्तेत मर्यादाया ॥८८२॥ ओघेन श्रु
 तोपयुक्त श्रुतज्ञानी यद्यपि गृह्णात्यशुद्ध । तत् केवली तु भुक्ते
 ऽप्रमाण श्रुत भवेत् इतरया ॥८८३॥ यदि जिनमत प्रपद्यथ ततो
 मा व्यवहारनिश्चयो मुचत । व्यवहारनयोच्छेदे तीयाच्छेदो यतोऽ-
 वश्यम् ॥८८४॥ व्यवहारोऽपि बलयान् यत् छद्मस्थमपि उन्दतेऽर्हन् ।

य इयर घा । जे दूमि(डावि)या य वपणे कोहाटकसायमेर्ण
 ॥ ७३ ॥ ताः जड अणसणजोगो द्यड तओ अणसण दिजड,
 त च सागारमणागारं च, तत्थ सागारं-भवचरिम पच्चक्खामि
 त्तिविहपि आहार-अमण पाडम साडम अन्नत्थऽणाभोगेणं सह-
 सागारण महत्तरागारण सवसमाधिप्रतियागारण वोसिरामि ॥ भ-
 वचरिम पच्चक्खामि चउविहंपि आहारं अमण पाण खाइम साइम
 अन्नत्थऽणाभोगेणं महसागारेण वोसिरामि ॥ अट्टारस पावठाणाणि
 वोसिरइ-सव पाणइत्राय १ अलिय २ मट्त च ३ मेहुणं सब ४ ।
 सव परिग्रह तह ५ रईभत्त च ६ वोसिरामि ॥ ७४ ॥ कोह ७
 माण ८ माय ९ लोह च तहा(य) राग ११ दोसो य १२ । कलह
 १३ अउभक्खाण १४ पमुन्न १५ परपरीवाय १६ ॥ ७५ ॥ माया-
 मोस १७ मिच्छादसणसड्ढ च १८ तहेव वोसिरिमो । अतेज्ज(हु)-
 सासेहि देहपि जिणाण पच्चक्ख ॥ ७६ ॥ ज अन्नाणी कम्मं खवेइ

इह भये च इत रस्मिन् घा । ये स्यापिताश्च व्यसने क्रोधादिकषाय
 भेदेन ॥८७३॥ तदा यदि अनशनयोग्यो भवति तदाऽनशनं दीयते,
 तच्च साकारमनाकार च, तत्र साकार भवचरिमं प्रत्याख्यामि
 त्रिविधमपि आहार अशन खाद्य स्वाद्य अन्यत्रानाभोगात् सह
 साकाराद् महत्तराकारात् सवसमाधिप्रत्ययाकाराद् व्युत्सृजामि,
 भवचरिमं प्रत्याख्यामि चतुर्विधमपि आहार अशनं पान खाद्य
 स्वाद्य अन्यत्रानाभोगात् सहनाकाराद् महत्तराकारात् सर्वसमाधि
 प्रत्ययाकारात् व्युत्सृजामि । अष्टादश पापस्थानानि व्युत्सृजति सव
 प्राणातिपातमलिकमदत्त च मैथुन सर्व । सर्व परिग्रह तथा रात्रि
 भक्त च व्युत्सृजामि ॥८७४॥ क्रोध मान माया लोभ तथा च राग
 द्वेषो च । कलहमभ्याख्यान वैशुन्यं परपरिवाद ॥ ८७५ ॥ माया
 मृषा मिथ्यादशनशल्यं तथैव व्युत्सृजाम । अन्त्यैरुच्छ्वासैर्देह
 मपि जिनाना प्रत्यक्षम् ॥८७६॥ यद् अज्ञानी कर्म क्षपयति बहु-

धम्ममि अहिगारी ॥ ९३ ॥ आयरणावि हु आणा अविरुद्धा चैव
 होइ आणत्ति । इहरा तित्थयरासायणत्ति तल्लक्खणं चैयं ॥ ९४ ॥
 असद्वेहिं समाइन्न ज कत्थइ केणई असावज्जं । न निवारियमझेहिं
 बहुजणमयमेवमायरिय ॥ ९५ ॥ अविहिकया वरमकय असुइवयणं
 भणति समयन्नू । अविहिकयंमिवि थोव अरुयमि य गुरुअय होइ
 ॥ ९६ ॥ अवलविऊण कज्जं जं किंचिवि आयरति गीयत्या ।
 थोवावराहवहुगुण सवेसिं तं पमाण तु ॥ ९७ ॥ एय वियारसारं
 पइदिण उवओगि अत्य परिकहण । सखेवओ महत्थ उद्धारुव ए
 (द्धरिय) ससमयाओ ॥ ९८ ॥ जो पढइ गुणड पाढइ वक्खाणइ
 चितए य अणुदियह । सो बहुवियारकुसलो जायइ अचिरेण
 जणपुज्जो ॥ ९९ ॥ गाहग नवसयाइ सिलोयमाणेण चउदसस-
 याइ । नंदउ जा ससिसूर पज्जुन्नसूरिवयणेण ॥ १०० ॥ छ ॥

॥ इति श्रीविचारसारप्रकरण समाप्तम् ॥

न भवति धर्मेऽधिकारी ॥८९३॥ आचरणापि हि आज्ञाऽविरुद्धा
 भवति आक्षेपेति । इतरथा तीर्थकराशाननेति तल्लक्षण चेदम् ॥८९४॥
 अशठै समाचीर्णं यत् कुत्रचित् केनचिदसावयम् । न निवारित
 मन्यैर्वहुजनमतमेवाचरितम् ॥८९५॥ अविधिकृताद् वरमकृतमि
 त्यसूयावचन (पत्र) भणन्ति समयज्ञा । अविधिकृतेऽपि स्तोक
 मकृते च गुरुक भवति ॥८९६॥ अवलम्ब्य कार्यं यत् किंचिदपि
 आचरन्ति गीतार्या । स्तोकापराध बहुगुणं सर्वेषा तत्प्रमाणं तु
 ॥८९७॥ एन विचारसार प्रतिदिनोपयोग्यर्थपरिकथन । सक्षेपतो
 महाथ उद्धृत स्वसमयात् ॥८९८॥ य पठति गुणयति पाठयति
 व्याख्यानयति चिन्तयति चानुदिवस । स बहुविचारकुशलो
 जायतेऽचिरेण जनपूज्य ॥८९९॥ गाथाग्र नव शतानि श्लोकमानेन
 चतुर्दश शतानि । नन्दतु यावच्छशिसूरो प्रद्युम्नसूरिवचनेन ॥९००॥
 इति श्रीविचारसारप्रकरणच्छाया समाप्ता । वृत्तिरियं माणिक्य
 सागराणाम् ॥

वदन् अरिहा । आद्याप्यम् भुजइ सुयववहार प्रमाणतो ॥८५॥ जो
 आणं अयमद्युत्त सो तित्थयर गुरु च धम्म च । आण च अडक्खनोदीहं
 परिभमइ ससार ॥ ८६ ॥ जो जेण सुद्धधम्ममि बोद्धिओ सजएण
 गिहिणा वा । सो चेव तस्स भन्नउ धम्मगुरु धम्मद्राणाओ ॥८७॥
 पडिवोहिऊण जेण सम्मत्त गाहिओ य सो तस्स । आभवइ सब-
 काउ जा सम्मत्त न उ वमेइ ॥ ८८ ॥ जो निण्हवेउ मूढो धम्माय-
 रिओ जिणिंदवरवयणं । सो पापमई हिंडड अणतकाल च ससारे
 ॥ ८९ ॥ ॥ निशीये—जा जस्स ठिई जा जस्स सतई पुवपुरिसकय-
 मेरा । सो त अइधम-तो अणतसंसारिओ होइ ॥९०॥ नहु किंपि
 अणुन्नाय पडिसिद्ध वापि जिणवरिंदेहिं । नित्ययराण आणा कज्जे
 सच्चेण होयव्व ॥ ९१ ॥ नहु किंपि अणुन्नाय पडिसिद्ध वापि जिण-
 वरिंदेहिं । मुत्तु मेहुणभाय न त विणा रागदोसेण ॥ ९२ ॥ मुत्तेण
 चोडओ जो अन्न उद्दिसिय त न पडिवज्जे । सो ततवायवज्जो न होइ

आधाकम भुक्ते श्रुतव्यवहार प्रमाणयन् ॥८८५॥ य आज्ञामवमन्यते
 स तीर्थकर गुरु च धम च । आज्ञा चातिक्रमयन् दीर्घ परिभ्रा
 म्यति ससारे ॥८८६॥ यो येन शुद्धधर्मे बोधित सयतेन गृहि
 णा वा । न एव तस्य भण्यते धर्मगुरुधर्मदानात् ॥८८७॥ प्रतिबोध्य
 येन सम्यक्तत्र ग्राहितश्च स तस्य । आभवति सर्वकाल यावत्
 सम्यक्तत्वं न तु वमति ॥८८८॥ यो निन्दते मूढो धर्माचार्यो जि
 नेन्द्रवरचर्न । स पापमतिहिंडति अनन्तकाल च ससारे ॥८८९॥
 या यस्य स्थितिया यस्य सतति पूर्वपुरुषकृता मर्यादा । स
 तामतिक्राम्यन् अनन्तसासारिको भजति ॥८९०॥ नैव किमप्यनु
 ज्ञात प्रतिपिद्ध वाऽपि जिनवरेन्द्रै । तीर्थकराणामाज्ञा कार्ये
 स-येन भवितव्यम् ॥ ८९१॥ नैव किमप्यनुज्ञात प्रतिपिद्ध वापि
 जिनवरेन्द्रै । मुक्त्वा मैथुनभाय न स विना रागद्वेषाभ्याम् ॥८९२॥
 सूत्रेण चोदितो योऽन्यमुद्दिश्य तत् न प्रतिपद्येत् । स तत्रवादवाधो

धम्ममि अहिगारी ॥ ९३ ॥ आयरणावि हु आणा अवरुद्धा वैव
 होइ आणत्ति । इहरा तित्थयरासायणत्ति तल्लक्खणं वैयं ॥ ९४ ॥
 असढेहिं समाइल्लं ज कत्थइ केणई असावज्जं । न निवारियमन्नेहिं
 बहुजणमयमेवमायरिय ॥ ९५ ॥ अविहिकया वरमकय अस्सुइवयण
 भणति समयन्नू । अविहिकयंमिवि थोव अकयमि य गुरुअय होइ
 ॥ ९६ ॥ अवलविऊण कज्जं जं किंचिवि आयरति गीयत्था ।
 योवावराहवहुगुण सवेसिं तं पमाण तु ॥ ९७ ॥ एय विचारसारं
 पइदिण उवओगि अत्थ परिकहण । सखेवओ महत्थं उद्धाख्व ए
 (द्धरिय) ससमयाओ ॥ ९८ ॥ जो पढइ गुणइ पाढइ वक्खाणइ
 चितए य अणुदियह । सो बहुविचारकुसलो जायइ अचिरेण
 जणपुज्जो ॥ ९९ ॥ गाहग्ग नवसयाइ सिलोयमाणेण चउदसस-
 याइ । नदउ जा ससिसूर पज्जुन्नसूरिवयणेण ॥ १०० ॥ छ ॥

॥ इति श्रीविचारसारप्रकरण समाप्तम् ॥

न भवति धर्मेऽधिकारी ॥८९३॥ आचरणापि हि आज्ञाऽविरुद्धा
 भवति आक्षेपेति । इतरथा तीर्थकराशाननेति तल्लक्षण चेदम् ॥८९४॥
 अशठे समाचीर्णं यत् कुत्रचित् केनचिदसावधम् । न निवारित-
 मन्यैर्बहुजनमतमेवाचरितम् ॥८९५॥ अविधिकृताद् वरमकृतमि-
 त्यसूयावचन (पद्य) भणन्ति समयज्ञा । अविधिकृतेऽपि स्तोक
 मकृते च गुरुक भवति ॥८९६॥ अवलम्ब्य कार्यं यत् किंचिदपि
 आचरन्ति गीताया । स्तोत्रापराध बहुगुण सर्वेषा तत्प्रमाणं तु
 ॥८९७॥ एन विचारसार प्रतिदिनोपयोग्यर्थपरिकथन । सक्षेपतो
 महाथ उद्धृत स्वसमयात् ॥८९८॥ य पठति गुणयति पाठयति
 व्याख्यानयति चिन्तयति चानुदिवस । स बहुविचारकुशलो
 जायतेऽचिरेण जनपूज्य ॥८९९॥ गाथाप्र नव शतानि श्लोकमानेन
 चतुर्दश शतानि । नन्दतु यावच्छशिसूरी प्रद्युम्नसूरिवचनेन ॥९००॥
 इति श्रीविचारसारप्रकरणच्छाया समाप्ता । कृतिरियं माणिक्य
 सागराणाम् ॥

वंत्प अरिहा । आहापग्म भुजइ सुयवहार पमाणतो ॥८५॥ जो
 आणं अयमघड सो तिरपयर गुरु च धम्म च । आणं च अडक्को दीहं
 परिभमइ समार ॥ ८६ ॥ जो जेण सुद्धधम्मंमि बोहिओ सजएण
 गिद्धिणा वा । सो चेत्त तस्स भन्नइ धम्मगुरू धम्मट्टाणाओ ॥८७॥
 पढिवोहिऊण जेण सम्मत्त गाहिओ य सो तस्स । आभउइ सब-
 काल जा मम्मत्त न उ वमेइ ॥ ८८ ॥ जो निण्हवेड मूढो धम्माय-
 रिओ जिणिद्वरअयणं । सो पापमई हिंडड अणतकाल च संसारे
 ॥ ८९ ॥ ॥ निशीये-जा जस्स ठिई जा जस्स सतई पुबपुरिसकय-
 मेरा । सो त अइधम-तो अणतससारिओ होइ ॥९०॥ नहु किंपि
 अणुन्नाय पढिमिद्ध वापि जिणवरिदेहि । नित्ययराण आणा कज्जे
 सञ्चेण होयव्व ॥ ९१ ॥ नहु किंपि अणुन्नाय पढिसिद्ध वापि जिण-
 वरिदेहि । मुत्तु मेहुणभाअ न त विणा रागदोसेण ॥ ९२ ॥ मुत्तेण
 चोडओ जो अन्न उद्दिसिय त न पढिवज्जे । सो ततवायवज्जो न होइ

आधाक्म भुक्ते श्रुतव्यवहार प्रमाणयन् ॥८८५॥ य आज्ञामवमन्यते
 न तोथकर गुरु च धम च । आज्ञा चातिक्रमयन् दीर्घ परिभ्रा
 म्यति समारे ॥८८६॥ यो येन शुद्धधर्मं बोधित सयतेन गृहि
 णा वा । न एव तस्य भण्यते धर्मगुरुधर्मदानात् ॥८८७॥ प्रतिबोध्य
 येन सम्यक्तत्र प्राहितश्च स तस्य । आभवति सर्वकाल यावत्
 सम्यक्तर्ष न तु उमति ॥८८८॥ यो निन्दुते मूढो धर्माचार्यो जि
 नेन्द्रवरअवन । स पापमतिहिंडति अनन्तकाल च संसारे ॥८८९॥
 या यस्य स्थितिया यस्य सतति पर्वपुरुषकृता मर्यादा । स
 तामतिव्राम्यन् अनन्तसासारिको भवति ॥८९०॥ नैव किमप्यनु
 ज्ञात प्रतिपिद्ध वाऽपि जिणवरेन्द्रे । तीर्थकराणामाज्ञा काय
 स-येन भवितव्यम् ॥ ८९१॥ नैव किमप्यनुज्ञात प्रतिपिद्ध वापि
 जिणवरेन्द्रे । मुक्त्वा मैथुनभाव न स विना रागद्वेषान्याम् ॥८९२॥
 सूत्रेण चोदितो योऽन्यमुद्दिश्य तत् न प्रतिपद्येत । स तत्रषादवाद्यो

अप्पक दुप्पक	४१९	अविहिकया वरमकय	८९६
अप्पडिलेहिअपमज्जिय	४२३	अष्टादशशीलाङ्गरथः	(५६)
अप्पत्ते चिय वासे	२६५	असढेहिं समाडल्लं	८९५
अप्पुवनाणगहणे	५३	असणं ओयण सत्तुग	७६२
अग्निभतरमज्झवहिं	१६०	असणाईयं कप्पइ	२५३
अयलाईया अट्टवि	५८०	अह अट्ट उद्ध अट्ट य	९६
अयले विजए भदे	५६७	अहवा पण पन्न दस	५३३
अरण्णुवि एण्णुं	१८	अह विमलवाहननिव	६६
अरमल्लिअंतरे दुन्नि	५७८	अहिगरणाइ जाई	८६३
अरहतचक्रवट्ठी	८३	अहिगारिणा डमं खल्ल	६२१
अरहंतदडगाईण	६९३	अहिगारिणो गिहत्यो	६२२
अरह वदण सद्धा	७१२	अहिगारिणो य पच य	७२१
अरिह आइगर पुरिसु	७१०	अगाहीणअवयवा	६३३
अरिहंतसिद्धपवयण	५१	अगुट्टमुट्टिगठी	७६१
अरिहता सुयसिद्धा	६९२	अंगुले सत्तरत्तेण	२७४
अरिह देवो गुरुणो	३९१	अंगोवंगतिगं	८०५
अलाभरोगतणफासा	२६०	अजणखंजणकद्द०	३२६
अलोए पडिहया सिद्धा	८५२	अजणगिरिसु चऊसु	६०५
अवराइयविस्ससेणे	१४०	अंतगढाणं च दसा	३४५
अवलविऊण कज्ज	८९७	अंतो सो साहूणं	५०९
अवसप्पिणिअरल्लके	४०	अतोवहिं च दडु	३३१
अवसप्पिणिअवसप्पिणि	१०	अंतो वीरो सिद्धो	३६
अवसेसा तित्थयरा	४४०	आकारः	
अवहट्टु रायककुहाइ	६६५	आडज्ज जसकित्ती	८३८
अवहरइ रोगमारिं	६३६	आऊवेहपमाण	३५
अवि मदरपि चुन्निज्ज	८	आगारा पुण सोलस	६६३

अकार.

अडमयरहिओ फालो	५०७	अट्टेय सुए भणिया	६८१
अडमंफिलिदृक्म्माणु०	८७६	अट्टयाला छतीमा	३८६
अखपफलमलि०	६४५	अट्टसट्टीमज्जयाओ	७०६
अक्खे वराहए वा	६१७	अट्टाइजा हत्या	२०३
अगणीओ छिट्टिजा	६९०	अट्टाइज्जेहि राडंदिएहि	२७७
अग्गिभूई तियकण्णे	७८	अणमिच्छमीससम्म	३६५
अगुरुलहु पराघाय	८०६	अणसणमूणोयरिया	२८७
अचियत्तुग्गहनिवसण	४७८	अणसणमूणोयरिया	१(८९)
अजसक्कितीओ तह	८१२	अणसायणा य भत्तो	३४३
अज्जा सिवा सुई	१८४	अणहारो पस्सवणं	७७३
अट्टट्ट नवट्ट य अट्टवीस	७०३	अणादियं च यद्ध च	७४१
अट्टण्ह जणणीओ	९३	अणुजाणह परमगुरु	३७४
अट्टपत्ता असपत्ती	३३५	अणुजाणह सयार	३७५
अट्टपवीयचउत्थेसु	६८०	अणदसनपुसित्थी	३६३
अट्टमभत्तवसाणे	१४५	अणुपुवी चउमेया	८४७
अट्टमीचउहसीमु	६०३	अट्टत्तेरसकोडी	१३७
अट्टारसहस्साइ	३४६	अट्टमसणस्स सब०	३२२
अट्टाययमि उसभो	४३०	अट्टा कालो तस्स य	७५३
अट्टावयमि भरहा०	६१८	अनियाणकडा रामा	५८१
अट्टावीस लक्खा	१८०	अन्नभवसच्चियाण	८१५
अट्टेव गया सुक्ख	५६१	अन्नह भणियपि सुए	२१९
अट्टेव छच्च चउरी	३८०	अन्नाणमोहमयमाण०	४६२
अट्टेव य मगलाई	५९६	अन्नुत्तरअगुलि	७००
अट्टेव सपयाओ	७०७	अपइट्टाणे सीहे	७९
अट्टेव सागराइ	१२३	अपएममि निबुट्ठी	६२६
		अपराण कोडिलक्खा	४५३

अप्यक्क दुप्यक्क	४१९	अविहिकया वरमकय	८९६
अप्यडिलेहिअपमज्जिय	४२३	अष्टादशशीलाङ्गरथः	(५६)
अप्यत्ते चिय वासे	२६५	असढेहिं समाइन्नं	८९५
अप्पुवनाणगहणे	५३	असणं ओयण सत्तुग	७६२
अग्ग्भतरमज्जवहिं	१६०	असणाईयं कप्पइ	२५३
अयलाईया अट्टवि	५८०	अह अट्ट उट्ट अट्ट य	९६
अयले विजए भद्दे	५६७	अहवा पण पन्न दस	५३३
अएमुवि एएमुं	१८	अह विमलवाहननिव	६६
अरमल्लिअतरे दुत्ति	५७८	अहिगरणाईं जाई	८६३
अरहंतचक्कवट्ठी	८३	अहिगारिणा इमं खल्लु	६२१
अरहतदडगाईण	६९३	अहिगारिणो गिहत्यो	६२२
अरह वदण सद्धा	७१२	अहिगारिणो य पच य	७२१
अरिहं आइगर पुरिसु	७१०	अगाहीणअवयवा	६३३
अरिहतसिद्धपवयण	५१	अगुट्टमुट्टिगठी	७६१
अरिहता सुयसिद्धा	६९२	अंगुलं सत्तरत्तेणं	२७४
अरिह देवो गुरुणो	३९१	अंगीवंगतिग	८०५
अलाभरोगतणफासा	२६०	अजणखंजणकहं	३२६
अलोए पडिहया सिद्धा	८५२	अजणगिरिसु चऊसु	६०५
अवराइयविस्ससेणे	१४०	अंतगढाण च दसा	३४५
अवलविऊण कज्जं	८९७	अंतो सो साहूण	५०९
अवसप्पिणिअरल्लक्के	४०	अतोवहिं च दइ	३३१
अवसप्पिणिअवसप्पिणि	१०	अंतो वीरो सिद्धो	३६
अवसेसा तित्थयरा	४४०	आकारः	
अवहइ रायककुहाइ	६६५	आइज्ज जसकित्ती	८३८
अवहरइ रोगमारिं	६३६	आऊदेहपमाण	३५
अवि मदरपि चुत्तिज्ज	८	आगारा पुण सोलस	६६३

आणवर्णं पेसवण	४०२	इकारः	
आणंद कामदेये	४८०	इफ पडियवरण	८६७
आमे घडे निहत्त	३५४	इकुञ्चिय इह सरण	८८०
आयप्पमाणमित्तो	७३४	इक्त्वागभूमि उञ्जा	८४
आयरणाग्निहु आणा	८९४	इगुयाला चालीमा	१८८
आयरियउवज्झाए	२८४	इच्छगमणपाणओसा	७०९
आयरियउउज्झाए	७३१	इच्छा मिच्छा तहकारो	२४९
आयरियगिलाणाणं	२६६	इच्छा य अणुन्नवणा	७०७
आयाण जो भजइ	६५०	इत्यावसरम्मि जिणो	४८५
आयाणे निक्खेवे	२१४	इत्थीतित्थ मल्ली	४६८
आयारो सूयगडे	३४४	इय पणयाली सुत्ता	३५२
आयावुज्जोयविहगगई	८३६	इय महवाइजोगा	३६०
आरत्तिय च भणिय	५९३	इय मिच्छाओ विरमिय	८६९
आरुहणे ओरुहणे	३४१	इरिया भासा एसण	३०१
आल्ल तह पिंडाल्ल	७८८	इरियावहिउस्सग्गे	६७१
आलोयण पडिकमणे	२६२	इहपरलोयाससप्प०	४०४
आलोयणा वयाण	८५७	इह पुव्वकोडिआउ	३४
आसग्गीवे तारय	५६८	इह मोह अट्ठवीसा	८३१
आससार सरिया	८५५	इह सुहुमवायरेगिदि०	७८१
आसाढे मासे दुपया	२७३	इत महिङ्गिय पणि०	१६८
आसायण तिच्चीस	७२२	इदियकसायअव्वय०	८१३
आसायणा य उग्गह	६६०	ईसीपभाराए उवरिं	८५१
आसी तह पत्तेय	५५७	उकार.	
आहाकम्मुद्देसिय	२९४	उक्कच्छिय वेकच्छिय	२२३
आहारा नीहारा अहिस्सा ११३		उक्किट्ट जहन्नेण	४४७
		उक्किट्टमज्झिमजहन्नाण	४७९

उक्कोस दवथयं	६२५	उसभस्स उ पारणए	१३५
उग्गहणतगपट्टो	२२२	उसभस्स निव्वुयस्स	२९
उग्गाणं भोगाण	१२७	उसभस्स पुरिमताले	१४७
उग्गाडपोरिसीए	७४८	उसभे सुमित्तविजए	५३८
उच्चारे पासवणे	७९८	उसभो अरिट्टनेमी	४४६
उच्चिए काले विहिणा	७७५	उसभोऽजिओऽभिनदण०	४४१
उज्जे (आई) भने दढरहे	७१	उसभो पच धणुसए०	११४
उत्तरभद्दवरेवइ	१०५	उसभो य विणीयाए	१३१
उत्तरसाढा रोहिणि	१०४	उसइ अजियं सभव	(३९)
उदएण जस्स न सुणइ	८२३	उसिणोदग तिदंडुक्कलियं	२५७
उदयजिणो पेढालो	६२	एकारः	
उद्धट्ठाणट्टियाओ	४४५	एए खलु पडिसत्तु	५६९
उप्पन्ने कारणमी	३९६	एए चेव दुवालस	१९९
उपवासो आंणिल्लिय	४५१	एएण नवमहरिणा	५८७
उपशमश्रेणियन्त्रकम्	(८१)	एए देवनिक्काया	१२५
उवगरणवत्थपत्ताड	५०४	एएसु सवदेवा	६१२
उवगरणाइ चउदस	२२१	एक्कासी छावत्तरी	१७८
उवघायकुविहायगई	८११	एगअणेगसयवुद्ध०	८५०
उवरिं चउरो लक्खा	३८४	एगपवं पसंसति	३३३
उवसग्ग गब्भहरण	४६४	एगारसवि वीरस्स	४८३
उवसमसेणीचउक्क	३६४	एगासी आवत्तरो	३७९
उवसपया य काले	२५०	एगा हिरन्नकोढो	१२०
उवहिं पडिलेहिऊण	६२	एग्गिदिया य वेऽदिया	८७२
उसभअजियाण काले	५५८	एग्गुणवीसवासाण	४९८
उसभजिणाओ वीरो	४५८	एगे तवगारविया	५०५
उसभस्स उचरासाढा	(९४)	एगो भयव ! वीरो	१२६

एगो भयय वीरो	४३५	कप्पाणं पाउरणं	२२०
एगो य सत्तमीए	५७२	कमसो चउटस मोलस	५५६
एयमिह दरिसणावरण	८०७	कमसो तस्स पभावड	६८०
एयस्स अकरणमि	७२९	कम्मूहेमियचरमनिय	३००
एय गच्छयत्थ	२६०	कयलीटलगम्भसमा	२०४
एय चैय पमाण	१७२	करचरणनयणदसणाड	२४४
एय नाऊण जणा	६३५	करणाइं तिल्लि जोगा	३५७
एय निसीहगये	६२०	करणे जोए मन्ना	३५६
एय प्रियारसार	८९८	करेमि भत्ते! सामाइय	(१२३)
एय वीसुत्तरसय	८४३	कलहकरा डमरकरा	५०२
एय ससल्लमरण	८६६	कह भयय उववज्जे	७९७
एव च तिरियलोए	६१०	कठय हिट्ठाहुत्ता	१५५
एव जे जिणवदण	७१६	काऊण य अभिसेय	१०३
एव वारस वयाणि	(१५७)	कायमणोवयणाण	४२१
एव मणेण वयमाइसु	३६२	काले विणए बहुमाणु०	४०७
ओकार.		काले सुइभूएणं	६४१
ओवइ रायपसेणी य	३४७	कालो गोयरचरिया	३६७
ओसन्नोऽवि विहारे	३२१	कालोचियजयणाए	२४१
ओसप्पिणीइमीसे	२३	कासवगुत्ता सवे	५४८
ओसप्पिणुवसप्पिणी	३९	किंकिल्ली कुसुमवुट्ठी	४६१
ओहे सुओवउत्तो	८८३	किं कीरइ बहुएहिवि	२३९
ककारः		किंचोणनवपुव्वधर	५२६
कट्ठाईवि दल इह	५२८	कुक्कुइय मोहरिय	४२०
कप्पनिसीहदसासु य	३४९	कुक्कुडिअडगमाणा	२५५
कप्पा आयपमाण *	२०७	कुक्कुडिअडयमित्ता	३१६
		केवलनाणी निव्वाणी	५७

केवलमणोहिचउदस	५०६	गाहगनवसयाई	९००
केवलिकालो वारस	४८७	गिण्हइ पच्चक्खाण	७५२
केसिपि सजयाणं	४०२	गिरिकन्नि किसलपत्ता	७८६
कोडिसहस्सूणा सा	४५६	गिहपडिमाण पुरओ	५९३
कोह माणं मायं	८७५	गिहिजिणपडिमा०	५९०
कोहो माणो माया	२८९	गीयत्थो य विहारो	२४६
कोहो माणो माया	८२८	गुरुदत्तसेसभोयण	७७६
खकारः		गुरुपरिवारो गच्छो	२३५
खनी य मद्दवऽज्व	२८२	गुरुविरहमि य ठवणा	६१४
खित्ताइयाण जाणह	३३९	गूढसरसधिपव	७८९
खित्ते जायणमित्ते	१५१	गोमहिसुट्टिपसूणं	७६८
खुहा पिवासा सीउण्ह	२५९	गोभीमकुणजूआ	७९१
गकारः		गोयमि दुन्नि पंचत०	८२१
गइ होइ चउप्पयारा	८३९	गोसमुहअंतकाले	१९५
गणहरवल्लय देविंद०	३५१	घकारः	
गद्धहय चोरकीडा	७९२	घणव्रद्धुमाणपत्ता	३३७
गमणागमणविहारे	६७२	घरजिणहरजिणपूआ०	६९६
गयवसहसीह	९५	घित्चूण सकल सो	५८३
गहिऊण य मुक्काइ	८६२	घोडग लया य खभे	६८७
गहियजिणिंदो एको	१००	चकारः	
गगाओ दोकिरिया	५१७	चउत्थीए पज्जुस्सवण	५३१
गघोदएण ण्हवण	५९४	चउदस चउदस वाया०	७८०
गघोदयं च वास	१५६	चउदसपुव्वुच्छेओ	५२३
गामविकखगसोहम्म	७७	चउदस वासाणि तथा	५१९
गारवपकनिवुट्ठा	८६५	चउपणवारस वारस	२९१
		चउपन्न सागराइ	४५५

एगो भयः वीरो	४३५	कष्पाणं पाउरणं	२२०
एगो य सत्तमीए	५७२	कमसो चउदस मोलस	५५६
एयमिह दरिसणाउरण	८२७	कमसो तस्स पभाउइ	४८२
एयस्स अकरणमि	७२९	कम्भुहेमियचरमनिय	३००
एय गच्छउयत्थ	२८०	कयलीदलगम्भसमा	२०४
एय चैः पमाण	१७२	करचरणनयणदसणाड	२४४
एय नाऊण जणा	६३५	करणाइं तिमि जोगा	३५७
एय निसीहगये	६२०	करणे जोए मन्ना	३५६
एय वियारसार	८९८	करेमि भते। सामाइय	(१२३)
एय वीसुत्तरसय	८४३	कलहकरा डमरकरा	५०२
एय ससल्लमरण	८६६	कह भयः उववज्जे	७९७
एव च तिरियलोए	६१०	कंठय हिठाहुत्ता	१५५
एव जे जिणउटण	७१६	काऊण य अभिसेय	१०३
एवं वारस वयाणि	(१५७)	कायमणोवयणाण	४२१
एव मणेण वयमाइसु	३६२	काले विणए बहुमाणु०	४०७
ओकार		काले सुइभूएण	६४१
ओवइ रायपसेणी य	३४७	कालो गोयरचरिया	३६७
ओसन्नोऽवि विहारे	३२१	कालोचियजयणाए	२४१
ओसप्पिणीइमीसे	२३	कासवगुत्ता सवे	५४८
ओसप्पिणुवसप्पिणी	३९	किंकिळी कुसुमवुट्टी	४६१
ओहे सुओवउत्तो	८८३	किं कीरइ बहुएहिवि	२३९
ककारः		किंचोणनवपुवधर	५२६
कट्टाईवि दल इह	५२८	कुक्कुइय मोहरिय	४२०
कप्पनिसीहदसासु य	३४९	कुक्कुडिअडगमाणा	२५५
कप्पा आयपमाणा	२०७	कुक्कुडिअंडयमित्ता	३१६
		केवलनाणी निवाणी	५७

केवलमणोहिचउदस	५०६	गाहगनवसयाई	९००
केवलिकालो वारस	४८७	गिण्हइ पच्चक्खाणं	७५२
केसिंपि सजयाणं	४०२	गिरिकन्नि किसलपत्ता	७८६
कोडिसहस्सूणा सा	४५६	गिहपडिमाण पुरओ	५९३
कोह माण मायं	८७५	गिहिजिणपडिमा०	५९०
कोहो माणो माया	२८९	गीयत्थो य विहारो	२४६
कोहो माणो माया	८२८	गुरुदत्तसेसभोयण	७७६
खकारः		गुरुपरिवारो गच्छो	२३५
खनी य महवऽज्जव	२८२	गुरुविरहमि य ठवणा	६१४
खित्ताइयाण जाणह	३३९	गूढसरसंधिपव	७८९
खित्ते जायणमित्ते	१५१	गोमहिसुट्टिपसूणं	७६८
खुहा पिवासा सीउण्ह	२५९	गोमीमकुणजूआ	७९१
गकारः		गोयमि दुन्नि पचत्त०	८२१
गइ होइ चउप्पयारा	८३९	गोसमुहअंतकाले	१९५
गणहरवलय देविंद०	३५१	घकारः	
गइहय चोरकीडा	७९२	घणवड्डमाणपवा	३३७
गमणागमणविहारे	६७२	घरजिणहरजिणपूआ०	६९६
गयवसहसीह	९५	घित्तूण सकल सो	५८३
गहिऊण य मुक्काइ	८६२	घोडग लया य खभे	६८७
गहियजिणिंदो एक्को	१००	चकारः	
गगाओ दोकिरिया	५१७	चउत्थीए पज्जुस्सवण	५३१
गघोदएण ण्हवण	५९४	चउदस चउदस वाया०	७८०
गघोदयं च वास	१५६	चउदसपुच्चुच्छेओ	५२३
गामविवखगसोहम्म	७७	चउदस वासाणि तथा	५१९
गारवपंकनियुट्टा	८६५	चउपणवारस वारस	२९१
		चउपन्न सागराइ	४५५

एगो भयय वीरो	४३५	कृष्णार्णं पाउरणं	२२०
एगो य सत्तमीए	५७९	कमसो चउटस मोलस	५५६
एयमिह दरिसणावरण	८२७	कमसो तम्स पभावइ	४८२
एयस्स अकरणमि	७२९	कम्म्युहेसियचरमतिय	३००
एय गच्छयत्थ	२४०	कयलीदलगम्भसमा	२०४
एय चेय पमाण	१७२	करचरणनयणदसणाइ	२४४
एय नाऊण जणा	६३५	करणाइ तिन्नि जोगा	३५७
एय निसीहगये	६२०	करणे जोए मन्ना	३५६
एय विचारसार	८९८	करेमि भंते! सामाइय	(१२३)
एय वीमृत्तरसय	८४३	कलहकरा डमरकरा	५०२
एय ससल्लमरण	८६६	कह भयय उव्वजे	७९७
एव च तिरियलोए	६१०	कंठय हिठाहुत्ता	१५५
एव जे जिणउटण	७१६	काऊण य अभिसेय	१०३
एय पारस प्रयाणि	(१५७)	कायमणोवयणाण	४२१
एव मणेण वयमाइसु	३६२	काले विणए बहुमाणु०	४०७
ओकार.		काले सुइभूएण	६४१
ओवइ रायपसेणी य	३४७	कालो गोयरचरिया	३६७
ओसन्नोऽवि विहारे	३२१	कालोचियजयणाए	२४१
ओसप्पिणीइमीसे	२३	कामवगुत्ता सवे	५४८
ओसप्पिणुवसप्पिणी	३९	किं किल्ली कुसुमवुट्टी	४६१
ओहे सुओवउत्तो	८८३	किं कीरइ बहुएहिवि	२३९
ककार.		किंचोणनवपुवधर	५२६
कट्टाईवि दल इह	५२८	कुम्कुइय मोहरिय	४२०
कप्पनिसीहदसासु य	३४९	कुवकुडिअडगमाणा	२५५
कप्पा आयपमाणा	२०७	कुवकुडिअडयमित्ता	३१६
		केवलनाणी निवाणी	५७

केवलमणोहिचउदस	५०६	गाहग्नवसयाइं	९००
केवलिफालो वारस	४८७	गिण्हइ पच्चवखाणं	७५२
केसिपि सजयाणं	४०२	गिरिकन्नि किसलपत्ता	७८६
कोडिसहस्सूणा सा	४५६	गिहपडिमाण पुरओ	५९३
कोह माणं मायं	८७५	गिहिजिणपडिमा०	५९०
कोहो माणो माया	२८९	गीयत्यो य विहारो	२४६
कोहो माणो माया	८२८	गुरुदत्तसेसभोयण	७७६
खकारः		गुरुपरिवारो गच्छो	२३५
खनी य मद्दवऽज्जव	२८२	गुरुविरहमि य ठवणा	६१४
खित्ताइयाण जाणह	३३९	गूढसरसधिपव	७८९
खित्ते जायणमित्ते	१५१	गोमहिसुट्टिपमूण	७६८
खुहा पिवासा सीउण्ह	२५९	गोमीमकुणजूआ	७९१
गकारः		गोयमि दुन्नि पचत्त०	८२१
गइ होइ चउप्पयारा	८३९	गोसमुहअंतकाले	१९५
गणहरवलय देविंद०	३५१	घकारः	
गद्दहय चोरकीडा	७९२	घणवट्टुमाणपवा	३३७
गमणागमणविहारे	६७२	घरजिणहरजिणपूआ०	६९६
गयवसहसीह	९५	घित्तूण सकल सो	५८३
गहिऊण य मुक्काइ	८६२	घोडग लया य खमे	६८७
गहियजिणिंदो एक्को	१००	चकारः	
गगाओ दोक्किरिया	५१७	चउत्थिए पज्जुस्सवण	५३१
गघोदण ण्हवण	५९४	चउदस चउदस वाया०	७८०
गघोदयं च वास	१५६	चउदसपुव्वुच्छेओ	५२३
गामविक्खगसोहम्म	७७	चउदस वासाणि तया	५१९
गारवपकनिवुट्ठा	८६५	चउपणवारस वारस	२९१
		चउपन्न सागराइ	४५५

एगो भयत्र वीरो	४३५	फप्पाण पाउरणं	२२०
एगो य सत्तमीए	५७९	कमसो चउदस मौलस	५५६
एयमिह दरिसणावरण	८२७	कमसो तस्स पभाउइ	४८०
एयस्स अकरणमि	७२९	कम्म्युद्देसियचरमनिय	३००
एय गच्छउवत्थ	२४०	कयलीदलगम्भसमा	२०४
एय चेउ पमाण	१७२	करचरणनयणदसणाइ	२४४
एय नाऊण जणा	६३५	करणाइ तिन्नि जोगा	३५७
एय निसीहगये	६२०	करणे जोए मन्ना	३५६
एय वियारसार	८९८	करेमि भंते! सामाइय	(१२३)
एय वीसुत्तरसय	८४३	कलहकरा डमरकरा	५००
एय ससल्लमरण	८६६	कह भयव उववज्जे	७९७
एव च तिरियलोए	६१०	कंठय हिठाहुत्ता	१५५
एव जे जिणउदण	७१६	काऊण य अभिसेय	१०३
एव वारस वयाणि	(१५७)	कायमणोवयणाण	४२१
एव मणेण वयमाइसु	३६२	काले विणए बहुमाणु०	४०७
ओकारः		काले सुइभूएणं	६४१
ओवइ रायपसेणी य	३४७	कालो गोयरचरिया	३६७
ओसन्नोऽवि विहारे	३२१	कालोचियजयणाए	२४१
ओसप्पिणीइमीसे	२३	कासवयुत्ता सवे	५४८
ओसप्पिणुवसप्पिणी	३९	किंकिळी कुसुमवुट्ठी	४६१
ओहे सुओवउत्तो	८८३	कि कीरइ बहुएहिवि	२३९
ककारः		किंचोणनवपुव्वधर	५२६
कट्ठाईवि ढल इह	५२८	कुक्कुइय मोहरिय	४२०
कप्पनिसीहदसासु य	३४९	कुक्कुडिअडगमाणा	२५५
कथ्या आयपमाणा	२०७	कुक्कुडिअंडयमिता	३१६
		केवलनाणी	

केवलमणोहिचउदस	५०६	गाहगनवसयाई	९००
केवलिकालो वारस	४८७	गिण्हड पच्चक्खाण	७५२
केसिपि सजयाण	४०२	गिरिकन्नि किसलपत्ता	७८६
कोडिसहस्सुणा सा	४५६	गिहपडिमाण पुरओ	५९३
कोह माणं मायं	८७५	गिहिजिणपडिमा०	५९०
कोहो माणो माया	२८९	गीयत्यो य विहारो	२४६
कोहो माणो माया	८२८	शुरुदत्तसेसभोयण	७७६
खकारः		शुरुपरिवारो गच्छो	२३५
खनी य महवज्जव	२८२	शुरुविरहमि य ठवणा	६१४
खित्ताइयाण जाणह	३३९	शूढसरसंधिपव	७८९
खित्ते जायणमित्ते	१५१	गोमहिसुट्टिपसूणं	७६८
खुहा पिवासा सीउण्ह	२५९	गोभीमकुणजूआ	७९१
गकारः		गोयंमि दुन्नि पंचत०	८२१
गइ होइ चउप्पयारा	८३९	गोसमुहअंतकाले	१९५
गणहरवल्लयदेविंद०	३५१	घकारः	
गद्धहय चोरकीडा	७९२	घणवड्डमाणपत्ता	३३७
गमणागमणविहारे	६७२	घरजिणहरजिणपूआ०	६९६
गयवसहसीह	९५	घित्चूण सकल सो	५८३
गहिज्जण य मुक्काइ	८६२	घोढग लया य खमे	६८७
गहियजिणिंदो एक्को	१००	चकारः	
गगाओ दोकिरिया	५१७	चउत्थीए पज्जुस्सवण	५३१
गधोदण ण्हवण	५९४	चउदस चउदस त्रया०	७८०
गधोदय च वास	१५६	चउदसपुच्चुत्तेओ	५२३
गामविक्खगसोहम्म	७७	चउदस वासाणि तया	५१९
गारवपकनियुट्टा	८६५	चउपणवारस वारस	२९१
		चउपन्न सागराइ	४५५

घडभागो चडभागो	४६०	चत्तारि य पढियमणे	७४७
चडयालीसं लख्वा	१९०	चत्तारि होंति तिज्जा	७६९
चडरगुलं विहत्थी	२०९	चरमजिणे मुक्खगण	५२४
चडरासीइ वायत्तरी	५४६	चदजस चद्रकता	२७
चडरासीइ विसत्तरि	११६	चंपगरुखे वडले	१५०
चडरासीइ विसत्तरि	५७३	चारित्तचक्खट्ठी	४
चडरासीइ सहस्सा	१८१	चिक्खिखड्डपाण थडिछ	२४७
चडरासी पुवेहिं	३०	चित्तासोएसु सिय	६१३
चडरासी वावत्तरो य	११७	चियवंदणउस्सगो	३६८
चडरिंदिया य विच्छुय	७९३	चिरससट्ठोऽसि चिर०	४८६
चडरो जम्मपभई	१५८	चिंघाइसु अडवन्न	७१५
चड वक्खारगिरिसेल्लहिं	६०९	चुडिलिय पडिणिय चैव	७४३
चडवीस जिणकल्याणक	(९५)	चुन्निज्ज चक्खट्ठी	६५४
चडवीस जिणकल्याणरु	(९६)	चुलसीइ सहस्साइ	१८०
चडवीस जिणकल्याणक	(९७)	चुलसीइ पचणवई	१७७
चडवीसा चडदस	३८५	चेइयदव्वविणासे	६४८
चडसट्ठी तित्थयरा	४४९	चेइयदव्वं	६४४
चडसट्ठी पिठ्ठिकरडयाण	१७	चेइयदव्व साहारणं	६४७
चक्क असि छत्त दड	५५०	चेइयदुमपीठछदय	१६२
चक्क खग धणू मणी य	५७६	चोएइ चेइयाण	६५१
चक्क छत्त रयणज्झओ य	१५४	चोराणीय चोरप्पओग०	४१४
चक्खुम जसम च	२६	छकार	
चतुर्विध श्रीश्रमण०	(१५६)	छउमत्थो मूढमणो	८५९
चत्तारि अगुलाइ	७०१	छकायरक्खणट्ठा	२१६
चत्तारि देवयाभागा	३२८	छट्ठमदसमदुवालसेहिं	२३३
चत्तारि दो दुवालस	३७३	छट्ठस य आहारो	१५

छहुगुणा यथा	(१३५)	जं जं मणेण वद्ध	८६०
छन्नवई कोडोओ	५५५	जं न तयद्वा कीय	३२५
छम्मासिय चिंतणपरत्ति	(५८)	जवूसामी य तओ	४८९
छम्मुह पयाल किन्नर	४३१	ज भोयणममणुण्ण	४१७
छवाससएहिं नउत्तरेहिं	५२०	जं सकइ त कीरइ	३९८
छवाससएहिं सम्म	४९६	जा जस्स ठिई जा जस्स	८९०
छस्संघयणा जाणसु	८४०	जायइ सचित्तया से	२५८
छदेणऽणुजाणामि	७३०	जाय केवलनाण	४८८
छासीई वासाइ राया	५११	जावज्जीवं गुरुणो	२४२
जकारः		जिह्मामूले आसाढ०	२७५
जइ इच्छसि चिरसंचिय०	८१६	जिणकप्पिया य साहू	२२४
जइ गुरुणो तत्थलमागया (१३७)		जिणनामा नामजिणा	६८२
जइ जिणमय पव्वज्जह	८८४	जिणपढमभिकखदाया	१४१
जओ साहू जहन्नेण	(८०)	जिणपवयणवुडिकरं	६५५
जकखसहस्सा सोलस	५५४	जिणपवयणवुडिकर	६५६
जकखा गोमुहमहजकख	४३०	जिणपवयणवुडिकर	६५७
जकखा य जकखदिन्ना	५२१	जिणभवनं जिणविं	६२३
जमणुगए रविंमि	२५२	जिणमुद्दा जोगमुद्दा	६९८
जम्मविणीय अउज्झा	५३७	जिणसमयकाणणाओ	७
जम्हा छउमत्थाण	८८२	जिणा वारसरुवाइ	१९६
जलाइय सब परिठविय	(८३)	जीवाइ नव पयत्ये	३९२
जह जह सज्जाययुणी	२७२	जीवाजीवा पुण्ण	७७९
जह वालो जपतो	८६४	जीहाएवि लिहतो	२३६
ज अन्नाणी कम्म	८७७	जुगतकरभूमिय	(१०६)
ज किंचि अणुट्टाण	६१६	जुगतकरभूमिय	(१०७)
ज केसवस्स य वल	५८४	जे ते देवेहिं कया	१६५

घडभागो चडभागो	४६०	घत्तारि य पडिग्गणे	७४७
चडयालीस लम्बा	१९०	चत्तारि होंति निड्डा	७६९
चडरगुल विद्वत्थी	२०९	चरमजिणे म्भ्रखगए	५२४
चडरासीइ चाउत्तरी	५४६	चदजस चटकता	२७
चडरासीइ विसत्तरि	११६	चंपगल्हखे वडले	१५०
चडरासीई विसत्तरि	५७३	चारित्तचक्खट्ठी	४
चडरासीई सहस्सा	१८१	चिक्खिल्लुपाण थडिड्ड	२४७
चडरासी पुवेहिं	३०	चित्तासोएसु सिय	६१३
चडरासी वावत्तरो य	११७	चियवदणउस्सगो	३६८
चडरिंदिया य विच्छुय	७९३	चिरससट्ठोऽसि चिर०	४८६
चडरो जम्मप्पभिई	१५८	चिंधाइसु अडवन्न	७१५
चड वक्खारगिरिसेळ्ळहिं	६०९	चुडिलिय पडिणिय चेव	७४३
चडवीस जिणकल्याणक	(९५)	चुभिज्ज चक्खट्ठी	६५४
चडवीस जिणकल्याणक	(९६)	चुलसीइ सहस्साई	१८०
चडवीस जिणकल्याणक	(९७)	चुलसीई पचणवई	१७७
चडवीसा चडदस	३८५	चेइयदच्चिणासे	६४८
चडमट्ठी तित्थयरा	४४९	चेइयदच्च	६४४
चडसट्ठी पिठ्ठिकरडयाण	१७	चेइयदच्च साहारण	६४७
चक्क असि छत्त दड	५५०	चेइयदुमपीठ्ठदय	१६२
चक्क खग्ग धणू मणो य	५७६	चोएइ चेइयाण	६५१
चक्क छत्त रयणज्झओ य	१५४	चोराणीय चोरप्पओग०	४१४
चक्खुम जसम च	२६	छकारः	
चतुर्विध थ्रीश्रमण०	(१५६)	छउमत्थो मूढमणो	८५९
चत्तारि अगुलाइ	७०१	छक्कायरक्खणट्ठा	२१६
चत्तारि देवयाभागा	३२८	छट्ठमदसमदुवाल्सेहिं	२३३
चत्तारि दो दुवाळस	३७३	छट्ठस य आहारो	१५

छद्गुणा यथा	(१३५)	जं ज मणेण वद्ध	८६०
छन्नवई कोडीओ	५५५	जं न तयहा कीय	३२५
छम्मासिय चित्तणपरत्ति	(५८)	जबूसामी य तओ	४८९
छम्मुह पयाल किन्नर	४३१	जं भोयणममणुणं	४१७
छवाससएहिं नउत्तरेहि	५२०	ज सकइ त कीरइ	३९८
छवाससएहिं सम्म	४९६	जा जस्स ठिई जा जस्स	८९०
छस्सघयणा जाणसु	८४०	जायइ सचित्तया से	२५८
छंदेणऽणुजाणामि	७३०	जायं केवलनाणं	४८८
छासोई वासाई राया	५११	जावज्जीवं गुरुणो	२४२
जकारः		जिद्धामूले आसाढ०	२७५
जइ इन्डसि चिरसंचिय०	८१६	जिणकप्पिया य साहू	२२४
जइ गुरुणो तत्थलमागया	(१३७)	जिणनामा नामजिणा	६८२
जइ जिणमय पवज्जइ	८८४	जिणपढमभिक्षदाया	१४१
जओ साहू जहन्नेण	(८०)	जिणपवयणवुड्ढिकरं	६५५
जकत्तसहस्सा सोलस	५५४	जिणपवयणवुड्ढिकर	६५६
जक्खा गोमुहमहजक्ख	४३०	जिणपवयणवुड्ढिकर	६५७
जक्खा य जक्खदिन्ना	५०१	जिणभवण जिणविं	६२३
जमणुग्गए रविंमि	२५२	जिणमुद्दा जोगमुद्दा	६९८
जम्मविणीय अबज्झा	५३७	जिणसमयकाणणाओ	७
जम्हा छउमत्थाण	८८२	जिणा वारसरुवाइ	१९६
जलाइय सव्व परिठविय	(८३)	जीवाइ नव पयत्ये	३९२
जह जह सज्झाययुणी	२७२	जीवाजीवा पुण्ण	७७९
जह वालो जपतो	८६४	जीहाएवि लिहतो	२३६
ज अन्नाणी कम्म	८७७	जुगतकरभूमिय	(१०६)
ज किंचि अणुट्ठाण	६१६	जुगतकरभूमिय	(१०७)
ज केसवस्स य वल	५८४	जे ते देयेहिं कया	१६५

घउभागो चउभागो	४६०	चत्तारि य पडिअमणे	७४७
चउपालीसं लउखा	१९०	चत्तारि होति तिझा	७६९
चउरगुल विहत्थी	२०९	चरमजिणे मूअखण	५२४
चउरासीइ चाउत्तरी	५४६	चउजस चंदकंता	२७
चउरासीइ विसत्तरी	११६	चंपगरुक्खे वउले	१५०
चउरासीइ विसत्तरी	५७३	चारित्तचअवटी	४
चउरासीइ सहस्सा	१८१	चिखिल्लुपाण थडिछु	२४७
चउरासी पुवेहिं	३०	चित्तसोएसु सिय	६१३
चउरासी वावत्तरो य	११७	चियवंदणउस्सगो	३६८
चउरिंदिया य विच्छुय	७९३	चिरससट्ठोऽसि चिर०	४८६
चउरो जम्मअभिई	१५८	चिंधाइसु अडवन्न	७१५
चउ वक्खारगिरिसेलहिं	६०९	चुडिलिय पडिणिय चैव	७४३
चउवीस जिणकल्याणक	(९५)	चुनिज्ज चक्खट्ठिं	६५४
चउवीस जिणकल्याणक	(९६)	चुलसीइ सहस्साइ	१८०
चउवीस जिणकल्याणक	(९७)	चुलसीइ पचणवई	१७७
चउवीसा चउदस	३८५	चेइयदवविणासे	६४८
चउसट्ठी तित्थपरा	४४९	चेइयदव	६४४
चउसट्ठी पिठिकरडयाण	१७	चेइयदव साहारण	६४७
चक असि छत्त दड	५५०	चेइयदुमपीठछदय	१६२
चक खग धणू मणी य	५७६	चोएइ चेइयाण	६५१
चक छत्त रयणज्जओ य	१५४	चोराणोय चोरअओग०	४१४
चक्खुम जसम च	२६	छकारः	
चतुर्विध श्रीश्रमण०	(१५६)	छउमत्थो मूअमणो	८५९
चत्तारि अगुलाइ	७०१	छकायरक्खणट्ठा	२१६
चत्तारि देवयाभागा	३२८	छट्ठमइसमदुवालसेहिं	२३३
चत्तारि दो दुवालस	३७३	छट्ठस य आहारो	१५

छद्गुणा यथा	(१३५)	जं जं मणेण वद्ध	८६०
छन्नवई कोडोओ	५५५	जं न तयहा कीय	३२५
छम्मासिय चिंतणपरत्ति	(५८)	जवूसामी य तओ	४८९
छम्मुह पयाळ किन्नर	४३१	ज भोयणममणुण्ण	४१७
छवाससएहिं नउत्तरेहिं	५२०	ज सकइ त कीरइ	३९८
छवाससएहिं सम्म	४९६	जा जस्त ठिई जा जस्त	८९०
छस्संघयणा जाणसु	८४०	जायइ सचित्तया से	२५८
छंदेणऽणुजाणामि	७३०	जायं केवलनाण	४८८
छासोई वासाई राया	५११	जावजीवं गुरुणो	२४२
जकारः		जिहामूले आसाढ०	२७५
जइ इच्छसि चिरसंचिय०	८१६	जिणकप्पिया य साहू	२२४
जइ गुरुणो तत्थलमागया	(१३७)	जिणनामा नामजिणा	६८२
जइ जिणमय पवज्जह	८८४	जिणपढमभिकखटाया	१४१
जओ साहू जहन्नेण	(८०)	जिणपवयणबुडिकरं	६५५
जक्खसहस्सा सोलस	५५४	जिणपवयणबुडिकर	६५६
जक्खा गोमुहमहजक्ख	४३०	जिणपवयणबुडिकर	६५७
जक्खा य जक्खदिन्ना	५०१	जिणभवण जिणविंय	६२३
जमणुग्गए श्विमि	२५२	जिणमुद्धा जोगमुद्धा	६९८
जम्मविणीय अउज्झा	५३७	जिणसमयकाणणाओ	७
जम्हा छउप्रत्थाण	८८०	जिणा वारसरुवाइ	१९६
जलाइय सव्व परिठविय	(८३)	जीवाइ नव पयत्ये	३९२
जह जह सज्झाययुणी	२७२	जीवाजीवा पुण्ण	७७९
जह वालो जपतो	८६४	जीहाएवि लिहतो	२३६
ज अन्नाणी कम्म	८७७	जुगतकरभूमिय	(१०६)
ज किंचि अणुट्टाण	६१६	जुगतकरभूमिय	(१०७)
ज केसवस्स य घल	५८४	जे ते देवेहिं कया	१६५

चउभागो चउभागो	४६०	घत्तारि य पढिग्रमणे	७४७
चउयालीसं लख्वा	१९०	घत्तारि होति निडा	७६९
चउरगुल विहृत्यी	२०९	चरमजिणे मुक्खगण	५०४
चउरासीइ वायत्तरी	५४६	चदजस चदकंता	२७
चउरासीइ विसत्तारि	११६	चंपगरुखे बउले	१५०
चउरासीइ विसत्तारि	५७३	चारित्तचक्खट्ठी	४
चउरासीई सहस्सा	१८१	चिक्खित्तुपाण थडिष्ठ	२४७
चउरासी पुवेहिं	३०	चित्तासोएसु सिय	६१३
चउरासी वावत्तरो य	११७	चियवंदणउस्सगो	३६८
चउरिंदिया य विच्छुय	७५३	चिरससट्ठोऽसि चिर०	४८६
चउरो जम्मपभई	१५८	चिंधाइसु अहवन्नं	७१५
चउ वक्खारगिरिसेल्लहिं	६०९	चुडिलिय पढिणियं चैव	७४३
चउवीस जिणकल्याणक	(९५)	चुभिज्ज चक्खट्ठिं	६५४
चउवीस जिणकल्याणक	(९६)	चुलसीइ सहस्साई	१८०
चउवीस जिणकल्याणक	(९७)	चुलसीई पचणवई	१७७
चउवीसा चउदस	३८५	चेइयदव्वविणासे	६४८
चउसट्ठी तित्थयरा	४४९	चेइयदव्वं	६४४
चउसट्ठी पिठ्ठिकरडयाण	१७	चेइयदव्व साहारण	६४७
चक्क असि छत्त दड	५५०	चेइयदुमपीढल्लदय	१६२
चक्क खग धणू मणो य	५७६	चोएइ चेइयाण	६५१
चक्क छत्त रयणज्झओ य	१५४	चोराणोय चोरप्पओग०	४१४
चक्खुम जसम च	२६	छंकार	
चतुर्विध श्रीश्रमण०	(१५६)	छउमत्थो मूढमणो	८५९
चत्तारि अगुलाइ	७०१	छक्कायरक्खणट्ठा	२१६
चत्तारि देवयाभागा	३२८	छट्ठमदसमदुवालसेहिं	२३३
चत्तारि दो दुवालस	३७३	छट्ठस्स य आहारो	१५

छहुगुणा यथा	(१३५)	जं जं मणेण वद्धं	८६०
छन्नवई कोडीओ	५५५	जं न तयहा कीय	३२५
छम्मासिय चित्तणपरत्ति	(५८)	जवूसामी य तओ	४८९
छम्मूह पयाल किन्नर	४३१	ज भोयणममणुण्ण	४१७
छवाससएहिं नउत्तरेहिं	५२०	ज सक्कइ तं कीरइ	३९८
छवाससएहिं सम्म	४९६	जा जस्स ठिई जा जस्स	८९०
छस्सघयणा जाणसु	८४०	जायइ सच्चिया से	२५८
छदेणऽणुजाणामि	७३०	जायं केवलनाणं	४८८
छासीई वासाइ राया	५११	जावज्जीवं गुरुणो	२४२
जकारः		जिद्धामूले आसाढ०	२७५
जइ इच्छसि चिरसचिय०	८१६	जिणकप्पिया य साहू	२२४
जइ गुरुणो तत्थलमागया	(१३७)	जिणनामा नामजिणा	६८२
जइ जिणमय पव्वज्जह	८८४	जिणपढमभिव्वदाया	१४१
जओ साहू जहव्वेण	(८०)	जिणपव्वयणवुड्ढिकर	६५५
जक्खसहस्सा सोलस	५५४	जिणपव्वयणवुड्ढिकर	६५६
जक्खा गोमुहमहेजक्ख	४३०	जिणपव्वयणवुड्ढिकर	६५७
जक्खा य जक्खदिन्ना	५२१	जिणभव्वणं जिणविंवि	६२३
जमणुग्गए रविंमि	२५२	जिणमुद्धा जोगमुद्धा	६९८
जम्मविणीय अउज्झा	५३७	जिणसमयकाणणाओ	७
जम्हा छउमत्थाण	८८२	जिणा वारसरुवाइ	१९६
जलाइय सब परिठविय	(८३)	जीवाइ नव पयत्ये	३९२
जहजह सज्झायञ्जुणी	२७२	जीवाजीवा पुण्ण	७७९
जह वालो जपतो	८६४	जीहाएवि लिहतो	२३६
ज अन्नाणी कम्म	८७७	जुगतकरभूमिय	(१०६)
ज किंचि अणुट्टाण	६१६	जुगतकरभूमिय	(१०७)
ज केसवस्स य वल	५८४	जे ते देवेहिं कया	१६५

जे नो करिंति मणसा	३५९	तह वझगधरसफास०	८३६
जे मे जाणंति जिणा	८५८	ते अत्थ त च सामत्थ	४०७
जो आणं अचमन्नइ	८८६	तंदुत्प्रेयालियया	३६०
जोएइ खत्तवत्थुणि	४१६	तपोल पाणमोयण	६६९
जो जेण सुद्धधम्ममि	८८७	तंमि दिणे महुराए	५००
जो देवाणवि उज्जित	६७८	ता कुठ्वहुनाएण	२३२
जो निण्हवेइ मूढो	८८९	ताह जइ अणसणजोगो (१५८)	
जो पढइ गुणइ पाढइ	८९९	तिग छच्चसत्तनवग	७१३
जो मागइओ पत्थो	२१०	तित्तोसअट्टवीसा	१७९
जोयणसयदीहाइ	६०६	तित्थयर अतित्थयरा	७४२
जोयणसय तु गत्तु	३३८	तित्थयरसिद्धकुलगण०	३४२
		तित्थयरेणं सहिया	८०८
तकारः		तित्थयरेणं सहिया	८४२
तओ अद्धविंवे निमज्ज	(८३)	तित्थ चाउवन्नो	१७०
तओ पच्चक्खाण	(१४५)	तिदिंसिनिरिक्खण	६०५
तओ पच्चक्खारणं	(१४१)	तिदुएक्कगसोलसग	१४३
तओ भोयणवेलाए	(७०)	तिन्नि चउ पच गिम्हे	२०५
तओ सज्झाय विहिय	(८४)	तिन्निनिसीहीएमाइ	६६४
तणगहणानलसेवा	२१७	तिन्नि निसीही तिन्नि	६९४
तवेण सुत्तेण सत्तेण	३०७	तिन्नि य लक्ख असीया	१८६
तसबायरपज्जत्त	८०७	तिन्नि वा कड्डुई जाव	६०२
तस्स य पुट्ठीए नदो	४९३	तिन्नि विहत्थी चउर०	२००
तस्स य सीसो गुणरयण	३	तिन्नेव तिन्नि तीसा	१८५
तह उवदसनिमंतण	७३९	तिन्नेव य कोडिसया	१२२
तह एगसाडएण	६६७	तिन्नेव य पच्छागा	१९८
तह गहभिच्छुरज्ज	४९५	तिरिय अहो य उइ	४१८
वह वारस वासा	१४४		

तिविद्धू य दुविद्धू य	५६६	दसणवयसामाइय	४२५
तिविहावि हु नवभेया	(१३१)	दंसणविणए आवस्सए	५२
तिसु तित्थ चउत्थीए	८१	दाउं न लहइ लाहो	८३२
तिहिं नाणेहिं समग्गा	१३२	दाऊण खमासमणं	७१९
तिंदुग पाडल जजू	१४९	दाहिणपासमि ठिओ	६६८
तीयाणागयकाले	२२८	दिठमदिठ च तथा	७४४
तीसा बीसा अद्वारसेव	१८२	दिठ्ठीपडिलेहणेगा	७२३
तेण य पज्जुस्सवण	५३०	दिवसूष्पाऽधुठसया	४७२
ते भुत्तूणं नरसुरमुहाइ	७१७	दीवसिहा जोइसनामगा	२१
तेयालो वावत्तरि	३८१	दुकर खलु भा निच्च	३२४
तेयासी य सहस्सा	४५७	दुगदुग चउरो सत्त	७०८
तेरसवरिससएहिं	४९७	दुगुणो चउग्गुणो वा	२१२
तेवीस सत्तनउई	६०८	दुचउदसदिणा पडिमा	४७०
तेवीसाए नाणं	१४६	दुद्ध दहि घय तिल्लं	७६७
तेसिओधम्मणेण उयय	५१४	दुन्नि उ पमज्जणाओ	३१२
दकार.		दुन्नेग दुन्नि दुग	६७६
दप्पण भद्दासण वद्धमाण	५९५	दुपयाइ गग्भि गार्हेइ	४१७
दवगुडपिंडगुडा दो	७७०	दुप्पसहत चरण	२२६
दवदाण जतवाहण	४०६	दुप्पसहा जा सूरी	२२५
दवाण सच्चिचाण	६६६	दुप्पसहो समणाण	५३४
दव्वे गिव्ते काले	३१४	दुविहा मणुया जीवा	७९६
दसपुव्वस्स य उओ	५२५	दामय धूमिय वासिय	२६९
दस य सहस्सेहिं उसभो	४३८	दूममसुसम चउत्थो	३३
दस सोलस छवीसा	८४५	दूममहुडवसप्पिणि	५०३
दत्तवण तवोल	७६५	देविंद राय गिहवइ	२४८
दसणनाणुस्सगा	३६९	देवीओ चक्केसरि	४३२

जे नो करिति मणसा	३५९	तट वन्नगंधरसफास०	८३५
जे मे जाणंति जिणा	८५८	तं अत्थ त च सामत्य	४०७
जो आणं अवमन्नइ	८८६	तदुल्लंयालियया	३५०
जोएइ खत्तवत्थूणि	४१६	तत्रोल पाणमोयण	६६९
जो जेण सुद्धधम्ममि	८८७	तंमि दिणे महुराए	५००
जो देवाणचि उज्जित	६७८	ता कुठवहुनाएण	२३२
जो निण्हवेइ मूढो	८८९	ताइ जइ अणसणजोगो (१५८)	
जो पढइ गुणइ पाढइ	८९९	तिग छच्चसत्तनवगं	७१३
जो मागहओ पत्थो	२१०	तित्थोसअट्ठवीसा	१७९
जोयणसयदीहाइ	६०६	तित्थयर अतित्थयरा	७४३
जोयणमय तु गतु	३३८	तित्थयरसिद्धकुलगण०	३४२
तकार.		तित्त्वयरेण सहिया	८०८
तओ अद्धविंवे निमज्ज	(८३)	तित्थयरेणं सहिया	८४२
तओ पच्चक्खाण	(१४५)	तित्थं चाउवन्नो	१७०
तओ पच्चक्खाणं	(१४१)	तिदिसिनिरिक्खण	६०५
तओ भोयणपेलाए	(७०)	तिदुएक्कगसोलसग	१४३
तओ सज्जाय विहिय	(८४)	तिन्नि चउ पच गिम्हे	२०५
तणगहणानलसेवा	२१७	तिन्निनिसीहीएमाइ	६६४
तवेण सुत्तेण सत्तेण	३०७	तिन्नि निसीही तिन्नि	६९४
तसबायरपज्जत्त	८०७	तिन्नि य लक्ख असीया	१८६
तस्स य पुट्ठीएँ नदो	४९३	तिन्नि वा कड्डुई जाव	६०२
तस्स य सीसो गुणरयण	३	तिन्नि विहत्थी चउर०	२००
तह उवदसनिमतण	७३९	तिन्नेव तिन्नि तीसा	१८५
तह एगसाडएण	६६७	तिन्नेव य कोडिसया	१२२
तह गद्दभिद्धरज्ज	४९५	तिन्नेव य पच्छागा	१९८
तह वारस वासा	१४४	तिरिय अहो य उड्डं	४१८

तिविद्दु य दुविद्दु य	५६६	दसणत्रयसामाइय	४२५
तिविहावि हु नवभेया	(१३१)	दंसणविणए आवस्सए	५२
तिसु तित्थ चउत्थीए	८१	दाउं न लहइ लाहो	८३२
तिहिं नाणेहिं समग्गा	१३२	दाऊण खमासमणं	७१९
तिंदुग पाडल जनु	१४९	दाहिणपासमि ठिओ	६६८
तीयाणागयकाले	२२८	दिद्वमदिद्व च तथा	७४४
तीसा बीसा अद्वारसेव	१८२	दिद्वीपडिलेहणेगा	७२३
तेण य पज्जुस्सवण	५३०	दिवसूष्पाऽधुद्वसया	४७२
ते भुत्तूण नरसुरसुहाइ	७१७	दीवसिहा जोइसनामगा	२१
तेयाली वावत्तरि	३८१	दुकर खलु भा निच्च	३२४
तेयासी य सहस्सा	४५७	दुगदुग चउरी सत्त	७०८
तेरसवरिससएहिं	४९७	दुगुणो चउग्गुणो णा	२१२
तेवीस सत्तनउई	६०८	दुचउदसदिणा पडिमा	४७०
तेवीसाए नाणं	१४६	दुद्ध दहि घय तिल्लं	७६७
तेसिओधम्मणेण उयय	५१४	दुन्नि उ पमज्जणाओ	३१२
दकारः		दुन्नेग दुन्नि दुग	६७६
दप्पण भद्दासण वद्धमाण	५९५	दुपयाइ गग्धि गाहेइ	४१७
दवगुडपिंडगुडा दो	७७०	दुप्पसहत चरण	२२६
दवदाण जतवाहण	४०६	दुप्पसहा जा सूरी	२२५
दवाण सचित्ताण	६६६	दुप्पसहो समणाण	५३४
दव्णे खित्ते काले	३१४	दुविहा मणुया जीवा	७९६
दसपुव्वस्स य उओ	५२५	दूमय धूमिय वासिय	२६९
दस य सहस्सेहिं उतभो	४३८	दूसमसुसम चउत्थो	३३
दस सोलस छवीसा	८४५	दूसमहुडवसप्पिणि	५०३
दतवण तवोल	७६५	देविंद राय गिहवइ	२४८
दसणनाणुस्सगा	३६९	देवीआ चक्केसरि	४३२

जे नो करिंति मणसा	३५९	तह यन्नगधरसफास०	८३५
जे मे जाणंति जिणा	८५८	ते अत्यं त च सामत्य	४७७
जो आणं अचमन्नइ	८८६	तदुन्वेयालियया	३५०
जोएइ खचवत्थुणि	४१६	तमोल पाणभोयण	६६९
जो जेण सुद्धधम्ममि	८८७	तंमि दिणे महुराए	५००
जो देवाणचि रजित	६७८	ता कुन्वहुनाएण	२३७
जो निण्हवेइ मूढो	८८९	ताह जइ अणसणजोगो (१५८)	
जो पढइ गुणइ पाढइ	८९९	तिग छच्चसत्तनवग	७१३
जो मागहओ पत्थो	२१०	तित्तीसअट्टवीसा	१७९
जोयणसयदीहाइ	६०६	तित्थयर अतित्थयरा	७४२
जोयणमय तु गतु	३३८	तित्थयरसिद्धकुलगण०	३४२
तकार*		तित्थयरेण सहिया	८०८
तओ अद्धविंवे निमज्ज	(८३)	तित्थयरेणं सहिया	८४२
तओ पच्चक्खाण	(१४५)	तित्थ चाउवन्नो	१७०
तओ पच्चक्खारणं	(१४१)	तिदिसिनिरिक्खण	६९५
तओ भोयणपेलाए	(७०)	तिदुएक्कगसोलसग	१४३
तओ सज्झाय विहिय	(८४)	तिन्नि चउ पच गिम्हे	२०५
तणगहणानलसेवा	२१७	तिन्निनिसीहीएमाइ	६६४
तवेण सुत्तेण सत्तेण	३०७	तिन्नि निसीही तिन्नि	६९४
तसवायरपज्जत्त	८०७	तिन्नि य लक्ख असीया	१८६
तस्स य पुट्ठीएँ नदो	४९३	तिन्नि वा कड्डुई जाव	६०२
तस्स य सीसो गुणरयण	३	तिन्नि विहत्थी चउर०	२००
तह उवदसनिमतण	७३९	तिन्नेव तिन्नि तीसा	१८५
तह एगसाडएण	६६७	तिन्नेव य कोडिसया	१२२
तह गद्भिच्छरज्ज	४९५	तिन्नेव य पच्छागा	१९८
वह वारस वासा२	१४४	तिरिय अहो य उड्ड	४१८

तिविद्धू य दुविद्धू य	५६६	दसणवयसामाइय	४२५
तिविहावि हु नवभैया	(१३१)	दंसणविणए आवस्सए	५२
तिसु तित्थ चउत्थीए	८१	दाउं न लहइ लाहो	८३२
तिहि नाणेहिं समग्गा	१३२	दाऊण खमासमणं	७१९
तिंदुग पाडल जवू	१४९	दाहिणपासमि ठिओ	६६८
तीयाणागयकाले	२२८	दिठमदिठ च तथा	७४४
तीसा बीसा अट्टारसेव	१८२	दिट्ठीपडिलेहणेगा	७२३
तेण य पज्जुस्सवण	५३०	दिवसूष्पाऽधुठसया	४७२
ते भुत्तूण नरसुरसुहाइ	७१७	दीवसिहा जोइसनामगा	२१
तेयालो वावत्तरि	३८१	दुकर खलु भां निच्च	३२४
तेयासी य सहस्सा	४५७	दुगदुग चउरो सत्त	७०८
तेरसवरिससएहिं	४९७	दुगुणो चउग्गुणो वा	२१२
तेवीस सत्तनउई	६०८	दुचउदसदिणा पडिमा	४७०
तेवीसाए नाणं	१४६	दुद्ध दहि घय तिल्लं	७६७
तेसिओधम्मणेण उयय	५१४	दुन्नि उ पमज्जणाओ	३१२
दकार.		दुन्नेग दुन्नि दुग	६७६
दप्पण भद्दासण वद्धमाण	५९५	दुपयाइ गग्भि गगहेइ	४१७
दवगुडपिंढगुडा दो	७७०	दुप्पसहत चरण	२२६
दवदाण जतवाहण	४०६	दुप्पसहो जा सूरी	२२५
दवाण सच्चिाण	६६६	दुप्पसहो समणाण	५३४
दव्वे खित्ते काले	३१४	दुविहा मणुया जीवा	७९६
दसपुवस्स य छेओ	५२५	दूमय धूमिय वासिय	२६९
दस य सहस्सेहिं उसभो	४३८	दूसमसुसम चउत्थो	३३
दस सोलस छवीसा	८४५	दूसमहुडवसप्पिणि	५०३
दतवण तवोल	७६५	देविंद राय गिहवइ	२४८
दसणनाणुस्सगा	३६९	देवीओ चक्केसरि	४३२

जै नो करिंति मणसा	३५९	तह वल्लगंधरसफास०	८३६
जे मे जाणंति जिणा	८५८	तं अत्यं त च सामत्य	४२७
जो आण अवमन्नइ	८६६	तदुल्लेयालियया	३५०
जोएइ खत्तवत्थुणि	४१६	तबोल पाणमोयण	६६९
जो जेण सुद्धयम्ममि	८८७	तमि दिणे महुराए	५००
जो देवाणवि उज्जित	६७८	ता कुलवहुनाएण	२३२
जो निण्हयेइ भूढो	८८९	ताहे जइ अणसणजोगो (१५८)	
जो पढइ गुणइ पाढइ	८९९	तिग छच्चसत्तनवगं	७१३
जो मागहओ पत्थो	२१०	तित्तीसअट्टवीसा	१७९
जोयणसयदीहाइ	६०६	तित्थयर अतित्थयरा	७४२
जोयणसय तु गतु	३३८	तित्थयरसिद्धकुलगण०	३४२

तकार.

तओ अद्धविंघे निमज्ज	(८३)	तित्थयरेण सहिया	८०८
तओ पच्चक्खाण	(१४५)	तित्थयरेणं सहिया	८४२
तओ पच्चक्खार्ण	(१४१)	तित्थ चाउच्चओ	१७०
तओ भोयणवेलाए	(७०)	तिदिसिनिरिक्खण	६०५
तओ सज्झाय विहिय	(८४)	तिदुएक्कगसोलसग	१४३
तणगहणानलसेवा	२१७	तिन्नि चउ पच गिम्हे	२०५
तवेण सुत्तेण सत्तेण	३०७	तिन्निनिसीहीएमाइ	६६४
तसवायरपज्जत्त	८०७	तिन्नि निसीही तिन्नि	६९४
तस्स य पुट्ठीएँ नदो	४९३	तिन्नि य लक्ख असीया	१८६
तस्स य सीसो गुणरयण	३	तिन्नि वा कड्डुई जाव	६०२
तह उवदसनिर्मंतण	७३९	तिन्नि विहत्थी चउर०	२००
तह एगसाडण	६६७	तिन्नेव तिन्नि तीसा	१८५
तह गइभिल्लुरज्ज	४९५	तिन्नेव य कोडिसया	१२२
वह वारस वासा	१४४	तिन्नेव य पच्छागा	१९८
		तिरिय अहो य उइ	४१८

तिविद्धू य दुविद्धू य	५६६	दसणत्रयसामाइय	४२५
तिविहावि हु नवभैया	(१३१)	दंसणविणए आवस्सए	५२
तिसु तित्य चउत्थीए	८१	दाउं न लहइ लाहो	८३२
तिहिं नाणेहिं समग्गा	१३२	दाऊण खमासमण	७१९
तिंदुग पाडल जवू	१४९	दाहिणपासमि ठिओ	६६८
तीयाणागयकाले	२२८	दिद्धमदिद्ध च तथा	७४४
तीसा बीसा अट्टारसेव	१८२	दिट्ठीपडिलेहणेगा	७२३
तेण य पज्जुस्सवण	५३०	दिवसूप्पाऽधुद्धसया	४७२
ते भुत्तूण नरसुरसुहाइ	७१७	दीवसिहा जोइसनामगा	२१
तेयालो वावत्तरि	३८१	दुक्कर खलु भा निच्च	३२४
तेयासी य सहस्सा	४५७	दुगदुग चउरो सत्त	७०८
तेरसवरिससएहिं	४९७	दुगुणो चउग्गुणो वा	२१२
तेवीस सत्तनउई	६०८	दुचउदसदिणा पडिमा	४७०
तेवीसाए नाण	१४६	दुद्ध दहि घय तिळुं	७६७
तेसिओधम्मणेण उयय	५१४	दुन्नि उ पमज्जणाओ	३१२
दकारः		दुन्नेग दुन्नि दुग	६७६
दप्पण भद्दासण वद्धमाण	५९५	दुपयाइ गग्भि माहेइ	४१७
दवगुडपिंडगुडा दो	७७०	दुप्पसहत चरण	२२६
दवदाण जतवाहण	४०६	दुप्पसहो जा सूरी	२२५
दवाण सचित्ताण	६६६	दुप्पसहो समणाण	५३४
दव्वे खित्ते काले	३१४	दुविहा मणुया जीवा	७९६
दसपुवस्स य उओ	५२५	दूमय धूमिय वासिय	२६९
दस य सहस्सेहिं उसभो	४३८	दूसमसुसम चउत्थो	३३
दस सोलस छवीसा	८४५	दूसमहुडवसपिणि	५०३
दतवण तवोल	७६५	देविंद राय गिहवइ	२४८
दसणनाणुस्सगा	३६९	देवीओ चक्केसरि	४३२

देवेषु उत्तमो लाभो	३०९	नयणेयरोहि केवल	८२४
देवेहि सपरिवुढो	१०२	नयर पियरो माया	५३६
देसिय चाउम्मासिय	३७७	नरयदुग तिरियदुगं	८१०
देह विमल सुगर्भ	११२	नवई पुण कोढीओ	४५४
देहाणुमगलग्ग	१५३	नवकारपोरसीए	७५४
दो चैव नगुक्कारे	७५७	नवकारेण जहन्ना	६७५
दो जाणू दुद्धि करा	६७४	नवकारेण विवोहो	१९१
दोणय जहाजाय	७२५	नवजोयणवित्थिन्ना	५५३
दो तिन्नि चउर पच य	७११	नवणीओगाहिमए	७६०
धकारः		नव धणुसयाइ पढमो	२५
धणमो मिहुणो सीहो	१०६	नवभागकए वत्ये	३२७
धण नरवइ सोहम्मे	७५	नवमो य महापउमो	५४२
धणमिहुण सुर महब्बल	६५	नवर इत्थी खवगो	३६६
धन्नाण विहिजोगो	३९५	नवि अत्थिमाणुसाण	८५६
धम्मरयणस्स जुग्गो	३८७	नवि लेइ जिणा पिंछी	१२८
धम्माधम्मागासा	८०२	नहु किंपि अणुन्नायें	८९१
धम्मीसर सुद्धगई	५९	नहु किंपि अणुन्नाय	८९२
धम्मो अरजिणपउम्मे	४४४	नदणपिया सालइपिया	४८१
धाई दूई निमित्ते	२९६	नदीसरि बावन्न	६०७
धीरेणवि मरियव्वं	८६८	नागेसु उसभपिया	९०
नकार		नाणतरायदसग	८०९
न कय दीणुद्धरणं	४२९	नाभी य जियंसत्तू य	८७
नग्गोह सत्तिवन्ने	१४८	नामे बायालीसा	८३३
नत्थि सारणा वारणा य	२३७	निप्फन्नस्स य सम्म	६३४
न पिया न चैव माया	८७९	निप्फाइऊण एव	६३२
न य किंचि जत्थ	६२७	निम्ममजिणो य होही	६३

निययविहवाणु०	६३८	पडिरूवाई चउदस	२३१
निययाइ सुरलोए	५९९	पडिलेहणा पमजण	२५१
निरयावलिया कंप्पिय	३४८	पडिलेहणाणि गोसा	३०९
निरवज्जाहाराणं	३००	पडिलेहिऊण उवहिं	३११
निवनदिसेणं छट्ठय	६८	पढमप्पहराणीय	२५४
निवाणमतकिरिया	४३४	पढममणिच्चमसरणय	३०२
निस्सकडमनिस्सकडे	६०१	पढमवए अइयारा	४१२
निस्सकड ज गच्छसतिय	५९८	पढमसघयणजुत्तो	३०५
निस्सकिय निक्खिय	४०८	पढमस्स तिच्चि लक्खा	३७८
नेसप्पे पडुयए	५५२	पढमस्स पच लक्खा	३८२
नो सरसि कह छित्ता	७४०	पढम उगइ सूरे	७५५
पकारः		पढम नमुत्थु जे	६७७
पउणपहरादियत्रकम्	(६९)	पढम नाणावरण	८१८
पउणप्पहरे पत्ताइय	(७०)	पढमाउ चक्खट्ठी	८२
पउमाभवासुपुज्जा	११०	पढमा पण पचसया	४८४
पउमाभे सुरदेवो	६१	पढमा वायालीसा	८३४
पउमुत्तर पाणय	७०	पढमे छट्ठे नवमे	६७९
पउमुत्तरे महाहरि	५३९	पढमेण पच्छिमेण य	५४
पच्चक्खाण पूया	७५०	पढमो धणूणि असीई	५७१
पज्जुन्नसूरिलिहिय	५	पढमो त्रिमलवाहण	०४
पज्जुस्सवणे चउमासि	७४९	पणतीसा तीसा पुण	५४५
पडिकमओ गिहिणोऽविहु	६८५	पण दस सत्तर दसग	२८०
पडिक्कमणे चेइयहरे	६८४	पणयजणपूरियासो	१
पडिक्कमणे सज्जाए	७४६	पण सलेहण पन्नरस	४०३
पडिवुज्झिस्संति इह	६३०	पणिहाणजोगजुत्तो	४०९
पडिवोहिऊण जेण	८८८	पत्तगठवण तह गुच्छगो	२०२

पत्तं पत्तापथो	१९७	पंचहिं समणमएहिं	४३६
पत्तावथपमाण	२०१	पचग पणमेउ	६६१
पत्तेयतरु मुत्तु	७८२	पचंगो पणिवाओ	६९९
पत्तेयं तसघावर	८३७	पचाणवइ सहस्सा	११८
पम्हुट्टे सारणा बुत्ता	२३८	पंचाणवइ सहस्सा	५४७
पयइठिइअणुभाग०	८१७	पचावन्न कोठी	२२७
परिमियदेसेऽणता	८५४	पचासववेरमण	२८३
परियट्टिए अभिहडे	२९५	पचासीइ सहस्सा	५७५
परिवारमाणरहिय	(१२०)	पचासीई पणत्तरी	५७४
पवरा विजयकृसा	४३३	पचिदिया य चउहा	७९४
पविसेइ पच चइउ	६५९	पाणंमि सरयविगई	७६६
पवाविओ सुहत्थी	५२७	पाणं सोवीर जवो०	७६३
पसते आसणत्थे य	७३७	पाणिवह पेमकीला	४६३
पचनदकुत्थुहाविय	१७५	पाणिवह मुसावाए	२८१
पच अहाजायमि	७२६	पाणिवह मुसावाए	३९९
पच चउरो अभिग्गहे	७५९	पाणिवह मुसावाए	(८९)
पचदिणूण छमासिय	४७१	पायच्छित्त विणओ	२८८
पचनमुक्कारसमा	८८१	पायच्छित्तं विणओ	(८९)
पचपवा उ जा लट्ठी	३३४	पायसमा वीसामा	७१४
पचमआ पुण हियए	५८६	पावा य चउकम्मा	४४
पचममाउ गोय	८१९	पासत्थो ओसन्नो	७३२
पचमहव्वयमेयो	३५३	पासो अरिद्धनेमी	१६०
पच य वरिससए	५२८	पिच्छिस्त इत्थमह	६३१
पचसए पणसीए	५३२	पिट्टिकरडसयाइ	१२
पचमय अद्धपचम	५४४	पिट्टिवसो दो धारणीओ	२६७
पंचह नाणावरण	८२०	पित्तलमुवन्नरुण्य०	५९२

पिंडविसोही समिई	२९०	बहुरय पएस अवत्त	५१५
पिंड असोहयतो	३१९	वधणभेया पच उ	८४४
पिंड सिज्ज च वत्थं च	२९२	वभी फग्गू सामा	१८३
पिंडेसणा य सव्वा	२९०	वारवई य सुरट्ठा	४७
पुढवि दग अगणि मारुय	८००	वारस अगाईय	२८६
पुरओ पक्खासन्ने	७३८	वारस पुण अहिगारा	६६२
पुरिमहूमभत्तट्ठे	७५६	वारस वारस वहिं अ०	२७८
पुरिमतिमअट्ठट्ठं	४५९	वारसवरिसे जम्मो	५३५
पुवस्स य परिमाण	३२	वासट्ठीसहस्सा	१८७
पुविं पच्छा सथव	२९७	वाहू सिरमुहहियए	७२४
पुव्वुप्पन्ना रोगा	१५२	विइयमि हुति तिरिया	१६९
पुस्से पुण्णव्वसू पुण	१३९	वोहेऊणं संपइ	६१९
पेढालुच्चिय दसमो	४७४		
पोयण वारवइ तियं	५६२	भकार	
पोसे नवहिं पएहिं	२७६	भक्खेइ जो उयेक्खेइ	६४९
फकारः		अट्ठायारो सूरी	२३४
फासणरसणाघाण	३०८	भत्तिविहवाणुख्व	१७३
फासिय पालिय चेव	७७४	भत्तीमगलवेइय०	५८९
वकारः		भत्तीभरनिब्भरमण०	९९
वत्तीसगुलदीह	२०८	भद्द सुभद्दा सुम्भभ	५६५
वत्तीस धणुयाइ	१६३	भद्विलपुरसीहपुर	८५
वलदेवचक्कवट्ठी	८०	भत्ते पाणे धुद्धण	२४३
वलदेववामुदेवा	५७२	भत्ते पाणे सयणासणे	६७३
वलमित्त भाणुमित्ता	४९४	भत्तोस दताई	७६४
वहुरय जपालिपभवा	५१६	भन्नइ इत्य विभासा	६५२
		भरह सगर मित्तासण	(८५)

पत्तं पत्ताबंधो	१९७	पचहिं समणमएहिं	४३६
पत्तात्रयपमाण	२०१	पचंग पणमेउ	६६१
पत्तेयतरु सुत्तु	७८२	पचगो पणिवाओ	६९९
पत्तेयं तसयावर	८३७	पचाणवइ सहस्सा	११८
पम्हुट्टे सारणा बुत्ता	२३८	पंचाणवइ सहस्सा	५४७
पयइठिइअणुभाग०	८१७	पचावन्न कोढी	२२७
परिमियदेसेऽणता	८५४	पचासववेरमणं	२८३
परियट्टिए अभिहडे	२९५	पचासीइ सहस्सा	५७५
परिवारमाणरहिय	(१२०)	पचासीई पणत्तरो	५७४
पवरा विजयकूसा	४३३	पचिदिया य चउहा	७९४
पविसेइ पच चउउ	६५९	पाणंमि सरयविगई	७६६
पवाविओ सुहत्थी	५२७	पाण सोवीर जवो०	७६३
पसते आसणत्थे य	७३७	पाणिवह पेमकीला	४६३
पचनदकुत्थुहात्रिय	१७५	पाणिवह मुसावाए	२८१
पच अहाजायमि	७२६	पाणिवह मुसावाए	३९९
पच चउरो अभिगहे	७५९	पाणिवह मुसावाए	(८९)
पचदिणूण छमासिय	४७१	पायच्छित्त विणओ	२८८
पचनमुक्कारसमा	८८१	पायच्छित्त विणओ	(८९)
पचपवा उ जा लट्ठी	३३४	पायसमा वीसामा	७१४
पचमआ पुण हियए	५८६	पावा य चडकम्मा	४४
पचममाउ गोय	८१९	पासत्थो ओसन्नो	७३२
पंचमहवयभेयो	३५३	पासो अरिट्ठेनेमी	१३०
पच य वरिससए	५२८	पिच्छिस्त इत्थमह	६३१
पचसए पणसीए	५३२	पिट्ठिकरडसयाइ	१२
पचमय अद्धपचम	५४४	पिट्ठिवसो दो धारणीओ	२६७
पचह नाणावरण	८२०	पित्तलमुवन्नरुप्पय०	५९२

सुल्लजुयं पुण तिविहं	३३०	वन्नेण वामुदेवा	५७०
सुहणंतयदेहावस्स०	७२०	वयभंगे, गुरुदोसो,	७७८
सुहपत्ति चोलपट्टो	३१०	वय समणधम्म संजम	२७९
सुहपत्तिय वदणयं	३७०	वरकणयनवियगोरा	१११
सूय च ढडुं चैव	७४५	वरगंधधूवचुक्ख०	६४३
मूला तह भूमिरुहा	७८७	वरदत्त अज्जदिन्न	१७६
रकारः		वरवरिया घोसिज्जइ	१२१
रत्तो व परुक्खस्सवि	६१५	ववहारोवि हु वलव	८८५
रायगिहमगह चंपा	४५	वसहगयतुरयवानर	१०८
रायाईण इह सम्मएण	६२९	वसहि कह निसिज्जइदिय	२८५
राया चक्कवई गिहवई	(६५)	वसुपुज्जमल्लीनेमी	११५
राया वलेण वडइ	६३७	वका कीडक्खइया	३३६
रिउसेठीसमएणं	८५३	वंदण चिइ किइकम्म	७३५
रिसहसमआउमाण	३१	वदणय गाहातियपाढो	१९३
रिसहे अट्टहियसय	४६७	वदणविच्ची छनिमित्त	६८९
तं कीर.		वसगकडगुकंचण	२६८
लज्जालुओ द्यालू	३८८	वामभुवगा पढमेण	५८५
लट्ठी आयपमाणा	३३२	वायाइ नमोकारो	३९७
लद्धट्टा गहियट्टा	४००	वारत्तयस्स पुत्तो	६००
लेवोवलदतय०	५९१	वाससहस्सं वारस	१४२
लेसेण इह विहिय	५८८	विकमचरिय हु राणहु	५१३
लोगसहावो वोही य	३०३	विगलिंदिएसु दो दो	८०१
लोगुत्तरिय लोगुत्तमाण	३९४	विणओवयार माणस्स	७२८
वइराढवच्छवरुणा	४८	विच्ची उ सुवण्णस्स	१७१
वक्खित्तपराहुत्ते	७३६	विमलो य अणतजिणो	४४३
वज्ज हरिणो छगळो	१०९	विस मीस मेस मयरे	१०७

भरहाइ जिदेहाइ	४०	मत्तगैसु य मज्ज	२०
भरहाईखित्तैसु	५०८	मम सिद्धि गयम्स	४९२
भरह अईय अरिहे	५६	मरदेया विजयसेणा	९१
भरहो सगरी मयव	५४१	मरभूर्ई गयनाहो	७६
भयणवइ वाणमवर	१०१	महपउमयेजयते	६९
भयणवड वाणमवर	१५७	महवल नरउड विजया	६७
भयणवइ वाणमतर	१५९	महवलविजयाणुत्तर	७४
भयणवईण वीसा	९८	महाणुभावेण गुणायरेण	४२८
भाडी फोडी साडी	४०५	महुमज्जमसमखण	७०९
भावजिणा तह केवलि	५५	महुरा य सूरसेणा	४९
भामासु विचित्तासु	१६७	मगलयहट्टसपयाओ	७०४
भिक्षुमतिमाद्वादशस्थापना(७४७)		माण तु रयत्ताणे	२०६
भीमावलि जियसत्तु	४७३	मायामौस मिच्छा	८७६
भीमावला उ उसभे	४७५	मासाई सत्तता	३०४
भुजड इयरपरिगह	४१५	मिगावई उमा वेव	५६४
भोमाई नव जीवा	३५८	मिच्छत्त पुण दुविह	३९३
भोयणकाले अमुग	७७७	मिच्छा उक्कडपणिवु	१९२
मकार.		मिहिला सोरियनयु	८६
मइसुयओहिमण०	८२२	मुक्खो कम्माभावे	८४८
मच्छुवत्त मणसाउट्ट	७४०	मुणि तेरस दस चउदस	४५२
मणगुत्तिमाइयाओ	३१३	मुणिरायतिलयभूओ	२
मणपरमोहिपुलाए	४९१	मुणिवेमाणियसमणी	१६६
मणसा वा वयसा वा	८७३	मुणिसुवओ य अरहा	९४
मणियगेसु य भूसण०	२२	मुत्तासुत्तीमुहा	७०२
मणिरयणहेमयावि	१६१	मुत्तण भावथय	६०४
मत्तगया य भिंगा	१९	मुहाजुत्तो मुहदिन्न०	७१८

सुल्लजुयं पुण तिविहं	३३०	वन्नेण वासुदेवा	५७०
सुहणंतयदेहावस्स०	७२०	वयभंगे गुरुदोसो,	७७८
सुहपत्ति चोलपट्टो	३१०	वय समणधम्म संजम	२७९
सुहपत्तिय वदणयं	३७०	वरकणयनवियगोरा	१११
मूय च ढडुं चेत्र	७४५	वरगंधधूवचुवख०	६४३
मूला तह भूमिरुहा	७८७	वरदत्त अज्जदिन्न	१७६
रकारः		वरपरिया घोसिज्जइ	१२१
रत्तो व परुक्खस्सवि	६१५	ववहारोवि हु वलव	८८५
रायगिहमगह चपा	४५	वसहगयत्तुरयवानर	१०८
रायार्हेण इह सम्मएण	६२९	वसहि कह निसिज्जइदिय	२८५
राया चक्कई गिहवई	(६५)	वसुपुज्जमल्लीनेमी	११५
राया वलेण वड्ड	६३७	वका कीडक्खइया	३३६
रिउसेठीसमएणं	८५३	वदण चिइ किइकम्म	७३५
रिसहसमआउमाणं	३१	वदणय गाहातियपाढो	१९३
रिसहे अट्टहियसय	४६७	वदणविच्ची छनिमित्त	६८९
त्तं ईर		वसगकडगुक्कंचण	२६८
लज्जालुओ देयालु	३८८	वामधुवगा पढमेण	५८५
लट्ठी आयपमाणा	३३२	वायाइ नमोकारो	३९७
लद्धट्ठा गहियट्ठा	४००	वारत्तयस्स पुत्तो	६००
लेवोवलदत्तय०	५९१	वाससहस्सं वारस	१४२
लेसेण इह विहिय	५८८	विक्रमचरिय हु राणहु	५१३
लोगसहावो बोही य	३०३	विगलिंदिण्णु दो दो	८०१
लोगुत्तरिय लोगुत्तमाण	३९४	विणओवयार माणस्स	७२८
वइराढवच्छवरुणा	४८	वित्ती उ सुवण्णस्स	१७१
वक्खित्तपराहुत्ते	७३६	विमलो य अणंतजिणो	४४३
वज्ज हरिणो छगळो	१०९	विस मीस मेस मयरे	१०७

विहिणा उ फीरमाणा	६४०	सत्यावगाह तिन्निहो	६७०
वीरकृततपःस्थापना	(१०२)	सत्तेगट्टाणेसु अट्टे	७५८
वीरवरस्स भयवओ	६०	समणाण सात्रयाण य	६८८
वीरस्यगणधरादिसख्यायंत्र(१०५)		समिई गुत्तो धम्मो	८१४
वीरो अरओ नेमी	१२९	सम्मत्तमूलिओ उ पचा०	३९०
वीसवरिसाउ मणुया	३८	सम्ममकरणे वारस	४१०
बुच्चिउन्नमि चरित्ते	३७	सयणा व परजणा वा	८७१
बुट्टाणुगो विणीओ	३८९	सयणासणन्नपाणे	१९४
बूढो गणहरसद्धो	२२९	सर्वगणधरसख्यादि	(५७)
पेउवाहारोरोलियाणं	८४६	सल्लुद्धरणनिमित्त	२६३
पेउव्विअवावडे	२१८	सवत्थ सजम सजमाउ	२४५
पेयणवेयावचे	३१८	सवत्थामेण तहिं	६५३
वोसट्टचत्तदेहो	३०६	सवनईण जा हुज्ज	९
सकार		सव च तवोकम्मं	४६९
सकत्थओ य चेइय०	६९१	सव पाणइवाय	८७४
सक्केण कक्किपुत्तो	५१२	सवा उ कदजाई	७८४
सगजवण सबरवन्नर	४३	सवालकारवसणाइ	६३९
सच्चइसुओ य सड्ढो	४७६	सवे जलयरखयरा'	७९५
सच्चित्ते निक्खिवण	४२४	सवेवि एगवन्ना'	५४३
सत्त पण सत्त सत्त य	७०५	सवेवि पढमजामे	३७७
सत्तरिसयमुक्कोस	४४८	सवेहिवि छूढेहिं	८४७
सत्त व पच व तिव्वि	६८३	सवेहिंपि जिणेहिं	१३६
सत्तसहस्साणतइ	४३७	ससमयपरसमयविज	२३०
सत्ताणवइसहस्सा	६११	सहसारुलंकदाण	४१३
सत्तावरोविराली	७८५	संका कखा य तथा	४११
सत्तावीससहस्सा०	३८३	सकियमक्खियनिक्खि०	३

संकोइय संडासा	३७६	साहू य साहुणीओ	८७०
संख कवड्डय गंडोल	७९०	सिज्जंस वभदत्तो	१३८
संजोयणा पमाणे	३१५	सिज्जंसाइजिणाणं	५७७
सवयणं संठाणं	२८	सिज्जाए सठियाण	२७१
सघो काउस्सग्ग	५१०	सिज्जादाणप्यभावेण	२७०
सती कुयू य अरो	५५९	सिद्धमि जंजूनामे	४९०
संपाइमरयरेणू	२१५	सिरिउसहसेण पहु	६०४
सथारुत्तरपट्टो	२१३	सिरिउसहसेनपहु	१७४
सभवजिण पउमाभो	४४२	सिरिरिसहसोयले	४६६
सवच्छरमुक्कोसो	२६४	सिरिवीरजिणवरमि	५२९
सवच्छरेण भिक्खा	१३४	सिरिसेण मिहुणसुर०	७७
संवच्छरेण होही	११९	सिहवह निव सबट्टे	७३
सवट्टमेहकयली	९७	सीयले खुड्डए कण्हे	७३३
ससट्टमससट्टा	३२३	सोलगाणं सहस्ता	३५५
साकेयकोसलागय०	४६	सीसोकपिय मूर्ई	६८८
सामिजिणो य सिवामी	५८	सुग्गीवे दढरहे	८८
साय उच्चागोय	८०३	सुजसा सुवया अइरा	९२
साय उच्चागोय	८०४	सुत्तं अब्भुट्टाण	३७१
सारस्मयमाड्ढा	१७४	सुत्ते अत्ये कुसला	४०१
सावत्यी उसभपुर	५१८	सुत्ते अत्ये भोयण	७६१
साहम्मियाण वच्छल्ल	४२६	सुत्तेण चौइओ	८९३
साहारणओसरणे	१६४	सुदसणा सुप्पभा	(४८)
साहारण पत्तेया	७८३	सुमइत्य निच्चभत्तेण	१३३
साहारण च तइय	६४६	सुमगला जसवई	५४०
साहुसाहुणीभणनपसगा	(५७)	सुयमायरो अपारो	६
साहुण रयणीए	७७१	सुरट्टे दुग्भिक्ख	५०१

सुदक्षानपमत्यमणो	३८६	सो पुण इह विभ्रोओ	६४२
सुदपडिपोहो निहा	८०५	सोलम इमे कग्गाया	८२९
सूओयणस्त भरिय	२११	सोलस उगमदोसा	२९३
सूरे अणुद्विएच्चिय	७५१	सोलस पुवविदेहे	४५०
सूर सुदसणे कुमे	८९	सोलस रायसहस्ता	५८२
सूसमअरओ वीओ	१४	हकारः	
सूसमदूसम तइओ	१६	हरियाल मणोसिल०	३४०
सूसमसूसमअरओ	११	हरिवसकुलुप्पत्ति०	४६५
सूसमसूसमभाव	१३	हरिसेणो नमिकाले	५६०
सेणावइ गाहावइ	५४९	इउइ पयावद्वधो	५६३
सेणावइ गाहावइ	५५१	हा दुट्टु कय हा दुट्टु	८६१
सेणिओ पसिद्धो	(१०३)	हास रई अरई भय	८३०
सणिय सुपासपुट्टिल	४७७	हेमवय हरिसवसि	४१
सेयवियावि य नयरी	५०	होइ छउमत्थकेवलि	६९७
सेसा पच्चखाणा	७७२	होइ पमाणाइय	२५६
सोइदिण एव	३६१	होही चंडालकुले	४९९
सो जयउ थूलभहो	५२२	होही मल्लीदेवो	६४

इति श्रीविचारसारगाथानामकारादिक्रम

सुहृक्षणपसत्यमणो	३८६	मो पुण इह विक्रमो	६४२
सुहृपटिमोहो निहा	८२८	मोलम इमे कमाया	८२९
सूओयणस्त भरियं	२११	सोलस उगमत्रोसा	२९३
सूरे अणुद्विएचिय	७५१	सोलस पुवविदेहे	४५०
सूर सुदसणे कुमे	८९	सोलस रायसहस्मा	५८२
सूसमअरओ यीओ	१४	हकारः	
सूसमदूसम तडओ	१६	हरियाल मणोसिल०	३४०
सूसमसूसमअरओ	११	हरिवसकुलुप्पत्ति०	४६५
सूसमसूसमभाव	१३	हरिसेणो नमिकाले	५६०
सेणावइ गाहावइ	५४९	इवइ पयावइवधो	५६३
सेणावइ गाहावइ	५५१	हा दुट्टु कय हा दुट्टु	८६१
सेणिओ पसिद्धो	(१०३)	हास रई अरई भय	८३०
सेणिय सुपासपुट्टिल	४७७	हेमवय हरिसवसि	४१
सेयवियावि य नयरी	५०	होइ छउमत्यकेवलि	६९७
सेसा पच्चखाणा	७७२	होइ पमाणाइय	२५६
सोइदिएण एव	३६१	होही चडालकुले	४९९
सो जयउ थूलभहो	५२२	होही मल्लीदेवो	६४

